

शान्तिनाथ पुराण

मंगलाचरण—नमः श्रीशान्तिनाथाय, जगच्छान्ति विधायिने । कृत्स्नकर्म्म धराताय शान्ति देवे सर्वकर्मणाम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो शान्तिनाथ भगवान् समस्त संसारको शान्ति देने वाले हैं और समस्त कर्मोंके समूहको शान्त वा नष्ट करने वाले हैं ऐसे शान्तिनाथ भगवान्को मैं (ग्रन्थकर्ता श्री भट्टारक सकलकीर्ति) समस्त कर्मोंको शान्त वा नष्ट करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो शान्तिनाथ भगवान् इस संसारमें सोलहवें तीर्थंकरके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं, समस्त देव जिनकी पूजा करते हैं, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, संसाररूपी समुद्रसे पार हो चुके हैं, जो इस संसारमें महाराज पाँचवें चक्रवर्तीके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें समस्त राजा सब देव और सब विद्याधर नमस्कार करते हैं, जो कर्मोंको नाश करनेवाले जिनके भी स्वामी हैं, जो कामदेवके नामसे बहुत प्रसिद्ध हैं तथापि कामदेवको ही जीतनेवाले हैं जो अतिशय रूपवान् हैं, जो जिनेंद्र हैं और जिन्होंने तीनों लोकोंमें अनेक गण स्थापित किये हैं, ऐसे श्रीशान्तिनाथके दोनों चरणकमलोंको मैं उन शान्तिनाथके समस्त गुण समूहकी सिद्धि वा प्राप्ति होनेके लिये नमस्कार करता हूँ । शान्तिनाथके उन दोनों ही चरणकमलोंमें अनेक शुभ लक्षण विराजमान हैं और उन्हें श्रीगणधर देव भी सदा बंदना करते रहते हैं ॥ २-५ ॥ मैं उन वृषभदेवको भी धर्मकी प्राप्ति होनेके लिये नमस्कार करता हूँ जिन्होंने इस संसारमें धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिकी है, जो धर्मके स्वामी हैं धर्मके दाता हैं और जिनराजके भी स्वामी हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने युगके प्रारम्भमें मोक्ष मार्गको प्रगट करनेके लिये अपनी वचनरूपी किरणोंसे संसारका अज्ञानांधकार दूरकर

धर्मको प्रकाशित किया है, जो अत्यंत निर्मल है, जिनका आत्मा सुखस्वरूप है जो धर्मकी ही प्रवृत्ति करने वाले हैं और इस युगके प्रारम्भमें तीर्थकरोंमें सबसे पहिले सिद्ध होनेवाले हैं ऐसे जिनद्रूपी सूत्र भगवान् वृषभदेवके लिये में नमस्कार करता हूँ ॥ ७-८ ॥ जो भव्यलोगोंके हृदयरूपी कुमुदिनीको प्रफुल्लित करने वाले ह अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करने वाले हैं चन्द्रमाके समान कांतिको धारण करनेवाले हैं और चन्द्रमाका ही जिनके चिह्न है ऐसे चंद्रप्रभ स्वामीको भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीसे विभूषित हैं इच्छानुसार पदार्थोंको देनेवाले हैं, कायको नाश करने वाले हैं मुक्तिरूपी स्त्रीमें आसक्त हैं और अपनी स्त्रीके करपरशके (पाणिग्रहण वा विवाहका) परित्याग करनेवाले हैं ऐसे सर्वोच्छ्रेष्ठ श्रीनेमिनाथके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ तीनों लोक जिनकी सेवा करता है और जिनमें अनंत सहिमा विराजमान है ऐसे पार्वनाथ जिनेंद्रदेवको मैं उनके निकटवर्ती होनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ जिनका निरूपण किया हुआ धर्म आज पाँचवें दुखम कालमें भी वतमान है तथा जिस धर्मको अनेक श्रेष्ठ मुनिराज और श्रावक सदा धारण करते रहते हैं ऐसे श्रीवर्द्धमान महावीर स्वामीको मैं तीनों लोकोंका हित करनेके लिये प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे वर्द्धमान स्वामी ही कर्मरूप शत्रुओंको शांत करने वाले हैं ॥ १२-१३ ॥ समस्त देव और मनुष्य जिनकी स्तुति करते हैं, जो तीनों लोकोंका हित करनेवाले हैं और जो धर्मसाम्राज्यके स्वामी हैं ऐसे वाकीके समस्त तीर्थकरोंको भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ जो श्रेष्ठ गुणोंके द्वारा सब समान हैं, इस संसारमें महा अतिशयोक्तिसे सुशोभित हैं, प्रतिहार्योंसे विभूषित हैं अनन्त गुणोंसे विराजमान हैं भव्यजीवोंको आत्मज्ञान करानेवाले हैं और मुक्तिरामके स्वामी हैं ऐसे चौबीस तीर्थकरोंको मैं प्रारम्भ किए हुए कामको पूरा करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ जो पूर्व विदेहजत्रमें अब भी धर्मकी प्रवृत्ति कर रहे हैं और चारों प्रकारके संघके मध्यमें विराजमान हैं, समस्त देव मनुष्य जिनकी पूजा करते हैं जो भव्यजीवोंके लिये अद्वितीय वा सर्वश्रेष्ठ बंधु हैं धर्मकी खानि हैं समस्त संसारको आनन्द देनेवाले हैं और जिनाधीश हैं ऐसे श्रीसीमंघर देवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७-१८ ॥

ढाई द्वीपमें और जो देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे अनेक तीर्थकर हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ जो श्रेष्ठ धर्मके प्रगट करनेवाले हैं जिनमें हैं गणोंके स्वामी हैं, तीनों लोकोंके जीव जिनकी सेवा करते हैं जो केवलज्ञानरूपी दीपकसे सुशोभित हैं अनंत दर्शनसे विभूषित हैं अनेक सुखसे विराजमान हैं और श्रेष्ठ मुक्तिको देनेवाले हैं ऐसे तीनों कालमें उत्पन्न होनेवाले अतिशय शूचीर तीर्थकरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २०—२१ ॥ जो कर्मरूपी शत्रुओंसे रहित हैं, आठ गुणोंसे सुशोभित हैं, लोकके शिखर पर विराजमान हैं, जिननाथ तीर्थकर भी जिन्हें नमस्कार करते हैं और सब तरहके बलेशोंसे रहित हैं ऐसे श्रीसिद्ध परमेष्ठीको मैं उनके गुण समूह प्राप्त होनेके लिए अपने मनमें सदा स्मरण करता हूँ ॥ २२—२३ ॥

जो इस संसारमें दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य और तप इन पंचाचार गुणोंको स्वयं पालन करते हैं और मोक्ष प्राप्त करानेके लिये अपने शिष्य मुनियोंसे पालन कराते ह ऐसे देवोंके द्वारा पूज्य आचार्यवयोंके चरण कमलोंको मैं पंचाचारोंको विशुद्ध करनेके लिये अपने उत्तम शरीर मस्तकसे नमस्कार करता हूँ ॥ २४--२५ ॥ जो ग्यारह अंग चौदह पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रोंको उनकी सिद्धिके लिए स्वयं पढते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करानेके लिए अपने शिष्य मुनियोंको पढाते हैं जो द्वादशांग रूपी महासागरके पारंगत हैं और समस्त प्राणियोंका हित करानेके लिये तत्पर हैं ऐसे उपाध्याय मुनियोंको मैं ग्यारह अंग चौदह पूर्वकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ २६--२७ ॥ जो रत्नत्रय सहित घोर और दुष्कर तपश्चरणसे अत्यंत निर्मल मोक्ष मार्गको इस संसारमें सिद्ध करते हैं जो साम सबरे दोपहर तीनों समय योग धारण करते हैं जो गुणोंकी खानि हैं और तपश्चरणके साथ साथ बड़े ही धीर वीर हैं ऐसे महायती साधुओंको मैं उनके गुणोंकी प्राप्ति होनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ २८--२९ ॥ इस प्रकार इस ग्रन्थके प्रारंभमें जो पंच परमेष्ठी अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक नमस्कार किए गए हैं तथा जिनकी बंदना और स्तुतिकी गई है वे पञ्च परमेष्ठी इस प्रकार कहिए गए शास्त्रके पूर्ण होनेके लिए मेरी बुद्धिको ग्रन्थ और अर्थकी अत्यंत पारगमिनी बनावें और मोक्ष प्राप्त होनेके लिए रत्नत्रय प्रदान करें ॥ ३०--३१ ॥ जो भव्य जीवोंका हित करनेके लिए परम पवित्र और मोक्षदेनेवाले

द्वादशगंग श्रुतज्ञानको स्वयं गंथते हैं अर्थात् उसकी रचना करते हैं ऐसे श्रीवृषभसेनको आदि लेकर गौतम पर्यन्त समस्त गणधरोंको मैं कवित्व आदि गुण प्राप्त होनेके लिये मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ जो केवल ज्ञानके स्वामी हैं और श्रेष्ठ धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करनेसे इस संसारमें मेघकी (बादलोंकी) उपमाको प्राप्त हुए हैं ऐसे सुधर्माचार्यको भी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ जिन्होंने अपने बाल्यकालमें ही वैराग्यरूपी तलवारके द्वारा काम और मोह रूपी शत्रुको नाश कर दिया ऐसे सर्वोत्कृष्ट श्री जंबूस्वामीको भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ विष्णु, नन्दिमित्र अपराजित गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पांचो ही मुनिराज श्रुतकेवली थे, श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारंगत थे और धर्मरूपी श्रेष्ठ मार्गके प्रवर्तक थे इसलिये इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३६-३७ ॥ श्री विशाखाचार्यको आदि लेकर और भी बहुतसे आचार्य हैं जो कि धर्मको प्रगट करनेके लिये दीपकके समान हैं उन प्रत्येकको भी मैं अपने मंगलके लिये वन्दना करता हूँ ॥ ३८ ॥ भव्य जीवोंको उपदेश देनेवाले, महाकवीश्वर और देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे श्रीकुन्दकुन्द आचार्यको भी मैं उनके गुण प्राप्त होनेके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ३९ ॥ जिनके वचन निष्कलंक हैं, जो कवीश्वर हैं, वादी हैं, और संसार मात्रका भला करनेवाले हैं ऐसे श्रीअकलंक स्वामीके लिये भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ४० ॥ महा कवीश्वर और शुद्ध चैतन्य स्वरूप श्रीसमंत भद्र स्वामीके लिए मैं नमस्कार करता हूँ तथा बड़े २ विद्वान लोग भी जिनकी पूजा करते हैं ऐसे श्रीपूज्यपादके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ सिद्धान्त शास्त्रके पारगामी श्रीनेमिचन्द्राचार्यको मैं नमस्कार करता हूँ तथा इस संसारमें चन्द्रमाकी उपमाको धारण करनेवाले श्रीप्रभाचन्द्रके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ ४२ ॥ इनके सिवाय जिनसेन आदि जो अनेक आचार्य हुए हैं जो कि सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे सुशोभित हैं, चतुर हैं ज्ञान-विज्ञानके पारगामी हैं सदा धर्मकी प्रभावना करनेवाले हैं और जिन्हे मुक्तिके समागमकी सदा लालसा लगी रहती है ऐसे आचार्योंके चरण कमलोंको भी मैं इस ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलके लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ४३-४४ ॥ इस ग्रन्थके प्रारम्भमें जिन कवियोंकी वन्दना की है, पूजा की है और स्तुति की है वे सब कवि मेरी बुद्धिको सब

शास्त्रोंमें पारगामिनी और सर्वोत्तम कर देंवें ॥ ४५ ॥ जो श्रीवर्द्धमान स्वामीके मुखारविन्दसे प्रकट हुई है जिसे गणधर देव नमस्कार करते हैं सौधमें आदि सब इंद्र और चक्रवर्ती पूजते हैं जो श्रेष्ठ मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाली है सर्वोत्तम है अज्ञानरूपी अन्धकारको नाश करनेवाली है तीनोंलोक जिसकी सेवा करता है जो अंग और पूर्वमें बटी हुई है तथा स्वर्ग और मोक्षकी देनेवाली है ऐसी सरस्वती देवीको मैं सम्यग्ज्ञान, विवेक और मोक्ष-प्राप्त करनेके लिए वा आत्माका कल्याण करनेके लिये मस्तक भुक्ताकर सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ४७-४८ ॥ हे जिनवाणी ! तू श्रेष्ठ माता है और मुनि लोग तेरी स्तुति करते हैं इस-लिए मुझ पुत्रका हित करनेके लिए तू कृपा पूर्वक मुझे उत्तम ज्ञानामृत प्रदान कर ॥ ४९ ॥ मंगलके लिये पांचों परमेष्ठियोंको सब गणधरोंको सब कवियोंको और सरस्वती देवीको नमस्कार करनेके अनन्तर इस संसारमें अपना और दूसरोंका भला करनेके लिये मैं अनन्त सुखमय श्रीशान्तिनाथ तीर्थकरका पवित्र चरित्र-संचेपसे कहता हूँ ॥ ५०-५१ ॥ मैं बुद्धिसे अत्यन्त बालक हूँ इसलिये सिद्धान्तके अत्यन्त पारगामी आचार्योंने जो कुछ पहिले कहा है उसे कहनेके लिये मैं वास्तवमें असमर्थ हूँ, तथापि उनके चरण कमलोंको प्रणाम करनेसे जो कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है उसके प्रभावसे अपनी बुद्धिकी शक्तिके अनुसार थोड़ा किंतु सार भूत कहूंगा ॥ ५२-५४ ॥ पहलेके विद्वान लोग ग्रन्थके प्रारम्भमें वक्ता श्रोता और कथाके गुणोंका वर्णनकर पीछेसे धर्मसे विभूषित कथाको कहते हैं ॥ ५५ ॥ इसलिये इस परिपाटीके अनुसार ग्रन्थका प्रामाण्य प्रगट करनेके लिए मैं भी इस जगह वक्ताका लक्षण श्रोताका चिह्न और कथाओंके भेद कहता हूँ ॥ ५५ ॥ जो विद्वान हों सम्यक्चारित्रसे विभूषित हो, विशाल बुद्धिसे चतुर हों, तपश्चरणसे सुशोभित हों, सब जीवोंका हित करनेके लिये सदा तत्पर हों अत्यन्त कृपालु हों मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति करनेवाले हों, जिन्हें वाणीका सौ भाग्य प्राप्त हो, प्रश्नोंकी भरस्मारको सहन करनेवाले हों लौकिक विज्ञानोंके जानकार हों, अपनी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि आदिकी इच्छासे रहित हों लोभ मद और कषायोंसे रहित हों. कवित्व आदि गुणोंसे सुशोभित हों जिनके वचन स्पष्ट हों, लोग जिन्हें मानते हों, पूजा करते हों और संसारमें जिनकी सब्बी कीर्ति फैल रही हो,

इत्यादि श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्ण जो आचार्य इस संसारमें विद्यमान हैं वे ही श्रेष्ठ धर्मकी कथा करनेके योग्य समझे जाते हैं अर्थात् ऊपर लिखे गुणोंसे सुशोभित आचार्य ही वक्ता गिने जाते हैं ॥ ५६-६० ॥ बुद्धिमान लोग वक्ताकी प्रमाणात्से ही वचनकी प्रमाणात् मानते हैं इसलिये सबसे पहिले इस संसारमें वक्ताके उत्तम गुणही ढूँढने चाहिये ॥ ६१ ॥ जो चारित्र रहित और पुत्र पौत्रादि सहित होकर भी धर्मका निरूपण करते हैं उनक वचनोंको लोग ग्रहण नहीं करते क्योंकि वे स्वयं ही अपने आचरणोंसे रहित हैं (वे दूसरोंको क्या उपदेश देंगे) ॥ ६२ ॥ “जो यह श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप जानता है तो फिर स्वयं उसका आचरण क्यों नहीं करता” यही समझकर लोग उसके वचनोंको कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ६३ ॥ जो श्रुतज्ञान सहित हैं और अपनी अपनी शक्तिके अनुसार स्वयं धर्मका पालन करते हैं उन लोगोंके श्रेष्ठ वाक्योंके अनुसार तथा उनके गुणोंके अनुसार लोग धर्मको स्वीकार करते हैं ॥ ६४ ॥ जो ज्ञानरहित हैं परन्तु चारित्रवान हैं यदि वे प्राणियोंको धर्मका उपदेश देते हैं तो उसके उपदेशकी थोड़े ज्ञानसे उद्धत हुए लोग हंसी उड़ाया करते हैं ॥ ६५ ॥ इसलिये ज्ञान और चारित्रसे उत्पन्न होनेवाले वक्ताके दो ही मुख्य गुण हैं उन्हींसे लोग इस संसारमें श्रेष्ठ धर्मको स्वीकार किया करते हैं ॥ ६६ ॥ जिनके हृदयमें विवेक विराजमान है और उसीसे जो “यह व्याख्यान वा शास्त्र योग्य है अथवा अयोग्य है” इस प्रकार शीघ्रताके साथ विचार करते हैं उसमेंसे जो योग्य और श्रेष्ठ व्याख्यान है उसे ग्रहण करते हैं तथा जो असार है अथवा पहिलेका ग्रहण किया हुआ है उसे छोड़ देते हैं, जो गुरुकी भक्ति करनेमें तत्पर हैं, किसी त्रुटिपर कभी हंसते नहीं, ब्रह्मा शौच आदि गुणोंसे सुशोभित हैं, भगवान् अरहंत देवके कहे हुए वचनरूपी अमृतोंमें सदालीन रहते हैं व्रत और शीलसे शोभायमान हैं संसारके दुखोंसे भयभीत हैं दयालु हैं मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं जो ज्ञानी और शुद्ध सम्यग्दृष्टि हैं ग्रन्थ और अर्थ दोनोंको धारण करनेमें समर्थ हैं जो हंस शुक आदिके समान अनेक तरहके उत्तम गुणोंसे तथा आज्ञव आदि (मार्दव सत्य शौच त्याग भोग ऐश्वर्य गांभार्य स्थैर्य धैर्य सौभाग्य तप पूजा) से उत्पन्न होनेवाले अनेक गुणोंसे इस संसारमें शोभायमान हैं । इत्यादि ऊपर कहे हुए अनेक गुण जिनमें विरामान हैं

और जो चतुर हैं ऐसे पुरुष ही श्रेष्ठ धर्म कथाको सुननेके लिये निपुण गिने जाते हैं जिनमें ये गुण नहीं हैं वे शास्त्रोंके सुननेके कभी अधिकारी नहीं हो सकते ॥ ६७-७२ ॥

जो विचार करनेमें चतुर है ऐसे श्रोताके सामने ही धर्म और संवेगको प्रगट करनेवाला गुरुका कहा हुआ व्याख्यान शोभा देता है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार अन्धके सामने नृत्य करना व्यर्थ है और वहिरेके सामने अच्छे गीते गाना व्यर्थ है उसी प्रकार जो श्रोता नहीं है उसके सामने मुनिका कहा हुआ व्याख्यान व्यर्थ ही जाता है ॥ ७४ ॥ इसलिये सबसे पहिले ग्रन्थके चतुर श्रोता तलाश करने चाहिये क्योंकि अच्छे श्रोताओंसे ही इस संसारमें ग्रन्थकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है ॥ ७५ ॥ अब धर्म कथाका स्वरूप बतलाते हैं जिसमें जीव अजीव आदि सातों तत्वोंका निरूपण किया गया हो जिसमें उत्तम पुरुषोंके शरीर संसार और भोगोंसे वैराग्य प्रगट करनेवाले अनेक कारण बतलाये गए हों, जिसमें उत्तमदान, तप, शील, व्रत आदि कहे गये हों बंध मोचका लक्षण उनके कारण और फल बतलाये गये हों, जिसमें सब जीवोंको अभयदान देनेवाली प्राणियोंकी दया बतलाई गई हो जिस कथामें अठारह हजार शीलोंसे सुशोभित मुनियोंको मोक्षकी प्राप्ति बतलाई गई हो जिसमें इस संसारमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुरुषार्थ बतलाये गए हों, और चारो गतियोंमें होनेवाले जीवोंके पुण्य पापके फल बतलाये गये हो, जिसमें तीर्थंकरके पुण्यसे उत्पन्न होनेवाली तथा इन्द्रके द्वारा रचनाकी हुई और संसारको चकित करनेवाली श्रीअरहंतदेवकी महिमा इस संसारमें प्रकटकी गई हो जिसमें पुण्यसे प्रगट होनेवाले और समर्थशाली बलभद्र नारायण प्रतिनारायण कामदेव और चक्रवर्तियोंके गुण निरूपण किए गए हों जिसमें अनेक मुनीश्वर सब तरहके परियहोंका त्यागकर तथा अनेक तरहके उपसर्ग और परिषहोंको सहनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें स्वर्ग नरककी रचना हो रही है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोकसे जिसके तीन भेद हैं और जो द्रव्योंसे परिपूर्ण है ऐसे चराचर समस्त जगतका (लोकका) वर्णन जिसमें हो, जिसमें मुनियोंका श्रेष्ठ आचरण निरूपण किया गया हो तथा यहस्थोंका पुण्य वृद्धि करनेवाला श्रावकाचारका वर्णन किया गया हो तथा संसारमें

जितने शुभ वा अशुभ पदार्थ विद्वानोंके द्वारा कहे गए हैं जो कि अनेक गुणोंसे विराजमान और सत्यार्थ हैं उन सबका वर्णन जिसमें हो उसको धर्मकथा कहते हैं ॥ ७३-८५ ॥ जिससे मनुष्योंका राग नष्ट हो जाय और संवेग (संसारसे डर वा वैराग्य) बढ़ जाय ऐसी धर्मकथा ही संसारमें धर्मात्मा पुरुषोंको सुननी चाहिए ॥ ८६ ॥ जिस कथाके सुननेसे अशुभ कर्मोंका संवर और निर्जरा हो तथा पुण्य कर्मों का आस्रव हो ऐसी कथाही लोगोंको सुननी चाहिये ॥ ८७ ॥ जिससे जीवादिक तत्त्वोंका पुण्य पापका, हित अहित का, हेय (त्यागने योग्य) उपादेय (ग्रहण करने योग्य) का और मोक्षका ज्ञान हो ऐसी कथाही बुद्धिमानोंको सुननी चाहिए ॥ ८८ ॥ जो कथा श्रीजिनेंद्रदेवकी कही हुई हो तथा ईर्ष्या वा रागद्वेषरहित मुनियोंके द्वारा कही गई हो ऐसी सब तरहकी धर्म कथायें धर्मकी वृद्धिके लिए सुननी चाहिए ॥ ८९ ॥ जिनमें शृंगार आदि रसोंका वर्णन हो ऐसी अन्य कथाएं कभी नहीं सुननी चाहिए क्योंकि ऐसी कथायें खोटे मार्गमें चलनेवाले धूर्त लोगों ने संसारमें लोगोंको ठगनेके लिए बनाई हैं ॥ ९० ॥ जिससे रागकी वृद्धि हो और वैराग्य नष्ट हो जाता हो ऐसी कथा अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले लोगोंको प्राणोंका नाश होने पर भी कभी नहीं सुननी चाहिए ॥ ९१ ॥ जिस कथाके द्वारा हिंसा युद्ध आदिका वर्णन किया जाता हो ऐसी राज्यकथा भोजनकथा स्त्रीकथा चोरकथा आदि विकथा बुद्धिमानोंको कभी नहीं सुननी चाहिए क्योंकि ऐसी कथाओंके सुनने से पाप कर्मों का ही आस्रव होता है ॥ ९२ ॥ जिन कथाओं के सुनने से चित्त में विकार करनेवाला क्षोभ प्रगट हो तथा आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान उत्पन्न हो ऐसी कथायें भी बुद्धिमानों को नहीं सुननी चाहिए ॥ ९३ ॥ जो कथायें मिथ्या हों, और जिनमें शोल दान पूजा आदिका वर्णन न हो उनको सज्जन लोग मिथ्या कथाएं वा कुकथाएं कहते हैं क्यों कि ऐसी कथाएं सिद्धान्त के विरुद्ध ही होती हैं ॥ ९४ ॥ ऐसी ऐसी सब तरहकी कुकथाएं बुद्धिमानोंको छोड़ देनी चाहिए और स्वर्ग मोक्षके सुख देनेवाली धर्मकथा भक्तिपूर्वक सुननी चाहिए ॥ ९५ ॥ विद्वान् लोगोंको जन्म मरण और बुढ़ापाकी जलनको नष्ट करनेके लिए कानोंको अंजलिरूपी पात्रोंके द्वारा

सदा श्रेष्ठकथारूपी अमृत पीते रहना चाहिए ॥ ६६ ॥ इस संसारमें ऐसे अनेक वक्ता मनीश्वर विद्यमान हैं जो उत्तम गुणोंसे सुशोभित है धर्मकथा और सर्वोत्तम मोक्ष मार्गका निरूपण करनेवाले हैं पुराणवाचन है रत्नत्रयसे परिपूर्ण है जिनके संवेग आदि गुण बड़े हुए हैं अनेक विद्वान लोग जिनकी स्तुती करते हैं, और समस्त संसार जिनको नमस्कार करता है और तीनों लोक जिनकी पूजा करता है, ऐसे वक्ता मुनिराज मेरे लिए कल्याण कर्ता हों ॥ ६७ ॥ इस संसार में अनेक श्रोता भी विद्यमान हैं जो गुणी हैं सम्यग्ज्ञानी हैं मोहरहित हैं संवेग (धर्मानुराग) आदि गुणों से सुशोभित हैं, रागद्वेष आदि दोषोंके समूहसे रहित हैं सार असार आदिके विचार करने में चतुर हैं वक्ताओं की कही हुई कथाओं को सुनना चाहते हैं गुणी हैं विवेकी हैं और अत्यन्त निर्मल हैं ऐसे श्रोता इस संसार में धन्य कहलाते हैं ॥ ६८ ॥ जो श्रीशांतिनाथके जन्मको सूचित करनेवाली हे संवेग और धर्मको बढ़ानेवाली है, सारभूत है, श्रेष्ठ गुणोंसे सुशोभित है बुद्धिमान लोग भी जिसका मानते हैं जिससे हिताहितका ज्ञान होता है जो शीलसे शोभायमान है गुरुकी भक्तिके भारसे बनी हुई है जीवोंको पुरय बढ़ानेवाली है और श्री परहंतदेवके मुखसे उत्पन्न हुई है ऐसी श्रेष्ठ कथाको मैं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कहूंगा ॥ ६९ ॥ देव विद्याधर आदि सभी जिनकी सेवा करते हैं जो समस्त तत्वोंको प्राण्ट करनेके लिये दीपकके समान हैं सब दोषोंसे रहित हे धर्म तीर्थके स्वामी हैं समस्त गुणोंके सागर हैं और सब लोग जिनकी पूजा करते हैं ऐसे श्रीशांतिनाथकी मैं उनकी समस्त निर्मल कीर्ति कहकर स्तुति करता हूं ॥ १०० ॥

इसप्रकार श्रीशांतिनाथ पुराणमें इष्ट देवताको नमस्कार और कर्त्ता [वक्ता] श्रोता कथाको निरूपण करनेवाला पहिलाअधिकार समाप्त ॥ १ ॥

अथ दूसरा अधिकार ।

तीनों लोक जिन्हें नमस्कार करता है ऐसे श्रीशांतिनाथके चरण कमलोंको नमस्कार कर मैं केवल कर्मीको नाश करनेके लिये उन शांतिनाथकी कथाको कहता हूं ॥ १ ॥ इस मध्यलोकमें जंबुद्वीप नामका द्वीप

प्रसिद्ध है जोकि लाख योजन चौड़ा है गोल है और लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है ॥ २ ॥ वह जम्बूद्वीप
 पर्वतरूपी मुकुटसे ऊंचा हो रहा है नदीरूपी हारोंसे सुशोभित है, चैत्यरूपी कुंडल और जिनालयरूपी ५

पहने हुए है ॥ ३ ॥ कुलपर्वत ही उसके भुजादंड हैं, सुन्दर वेदी ही कटिमेखला वा करधनी है वन ही वस्त्र
 हैं और चूलिका ही तिलककी शोभा देरही है ॥ ४ ॥ वावडियां ही उसकी नाभि हैं भोगभूमि आदिका भोग-
 सामग्री ही उसकी भोगोपभोगकी सामग्रियां हैं सरोवर ही उसका मुँह है और अनेक द्वीपोंमें होनेवाले धन
 धान्यादिकसे वह धनी होरहा है ॥ ५ ॥ उसमें रहनेवाले देव विद्याधर ही उसकी सेना है रूपाचल वा विजया-
 चंद्र पर्वत ही उसके नूपुर हैं और उसमें रहनेवाला चारप्रकारका संघ ही उसके परिवारकी शोभा बढा रहा
 है ॥ ६ ॥ इसप्रकार महा यशस्वी और समस्त गुणोंका एकमात्र स्थान ऐसा वह जंबूद्वीप इस संसारमें समस्त
 द्वीपरूपी राजाओं के मध्यमें चक्रवर्तीके समान शोभा दे रहा है ॥ ७ ॥ उस जंबूद्वीपके मध्यभागमें एक लाख
 योजन ऊंचा सुदर्शन नामका प्रसिद्ध महा मेरु पर्वत शोभायमान है ॥ ८ ॥ वह मेरु पर्वत चूलिका रूपी मुकुट
 से ऊंचा है जिनप्रतिमा रूपी कुंडलोंसे शोभायमान है, भगवान्, तीर्थकरके जन्माभिषेकसे वह स्नान किया
 हुआ है, देवोंसे सुशोभित है, जिनालय ही उसके उत्तम हार हैं, वनरूपी वस्त्रोंसे वह मनोहर जान पडता है
 वेदिका रूपी करधनी पहने हुए है और वावड्डीरूपी नाभिसे वह सुन्दर मालूम होता है । पीठिका ही उसके
 सुन्दर बडे पैर हैं कूटरूपी हाथोंसे वह सुशोभित है उसपर आनेवाले विद्याधर ही उसकी भारी सेना है और
 चारण मुनियोंसे वह शोभायमान है । अनेक अप्सराएँ उसकी सेवा करती हैं तीर्थकरके स्नानका वह कारण
 है उसपर सदा नृत्य गात होते रहते हैं और सुर असुर सबके लिये वह दर्शनीय है । वह अत्यंत सुन्दर है
 मनोहर है, सुन्दर आकारवाला है सबसे बड़ा है सब लोग उसकी आराधना करते हैं और अनेक कौतुकोंसे
 वह भरा हुआ है । जिसप्रकार सब इन्द्रोत्थे सौधमेन्द्र इन्द्र शोभायमान होता है उसीप्रकार सब पर्वतोंमें वह
 सुदर्शन नामका श्रेष्ठ पर्वत शोभायमान है ॥ ९—१४ ॥ उसी मेरु पर्वतकी दक्षिण दिशामें भरत नामका
 क्षेत्र है जोकि धमकी खानि है और अह खंडोंसे शोभायमान है ॥ १५ ॥ वह भरत क्षेत्र शुभकार्योंका स्थान

है और पांचसौ छब्बीस योजन ६ कला (५२६-६-१६ योजन) चौड़ा है ॥१६॥ जिस भरत क्षेत्रमें अनेक मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं उस स्वर्गमोक्षके सुखके कारण भरत क्षेत्रवा वर्णन भला कौन करसक्ता है ॥१७॥ जिन्हें सब संघ नमस्कार करता है और तानों लोक जिनकी सेवा करते हैं ऐसे लोक अलोक सर्वको जाननेवाले तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ केवल मोक्ष प्राप्तकरनेकेलिये देव लोग भी उस भरतक्षेत्रके उत्तम कुलोंमें उत्पन्न होनेकी इच्छा करते हैं ॥ १९ ॥ उस भरतक्षेत्रमें सब जीवोंको सुख देनेवाला मुनि और श्रावकोंका धर्म प्रवतमान रहता है जो कि स्वर्गमें भी दुर्लभ है ॥ २० ॥ उस भरतक्षेत्रमें ऊंचे २ शिखरोंवाले दंड और ध्वजावोंसे शोभायमान धर्मकी खानिके समान ऊंचे २ जिनालय विराजमान हैं ॥ २१ ॥ उस भरतक्षेत्रमें स्थान स्थानपर निर्वाणभूमियां शोभायमान हैं जोकि पवित्र हैं मुनि लोग जिनकी सेवा करते हैं और जो धर्मकी खानिके समान जान पड़ती हैं ॥ २२ ॥ वहांपर धर्मोपदेश देनेके लिये अनेक मुनि विहार किया करते हैं जो कि सज्जनोंको अपनी २ इच्छानुसार फल देनेवाले हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानों चलते फिरते कल्पवृक्ष ही हों ॥ २३ ॥ वहांपर लोगोंको अनेक केवलज्ञानीयोंके भी दर्शन होते रहते हैं जोकि चारों प्रकारके संघसहित विराजमान हैं और जीवोंके सब तरहके संदेह दूर करनेवाले हैं ॥ २४ ॥ वहांपर नगर खानें पत्तन गांव द्रोणमुख और द्वीप आदि बहुत शोभायमान हैं जो कि सब धर्मके स्थानके समान जान पड़ते हैं ॥ २५ ॥ उस भरतक्षेत्रसे श्रावक लोग दान पूजा तप व्रत संयम आदि पालनकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं भला उस भरतक्षेत्रका वर्णन कैसे किया जा सकता है ॥ २६ ॥ उस भरतक्षेत्रसे अनेक मुनीश्वर तपश्चरणकर स्वर्ग जाते हैं और अनेक मुनिराज समस्त कर्मोंका नाशकर मोक्ष जाते हैं ॥ २७ ॥ वह भरतक्षेत्र ऊपर कहे हुए अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है अनेक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली वस्तुओंसे सुशोभित है बहुतसी प्रशंसायुक्त वस्तुओंसे भरा हुआ है और उसका आकार भी शुभ है ॥ २८ ॥ उस भरतक्षेत्रके मध्यभागमें ऊंचा और बड़ा विजयाद्ध पर्वत शोभायमान है जो कि शुक्लध्यानके पुंजके समान (सफेद) जान पड़ता है । वह विजयाद्ध पर्वत पर्वीस योजन ऊंचा है पचास योजन चौड़ा है और ऊंचाई का

चौथाई अर्थात् सवा छह योजन भूमिके भीतर है ॥३०॥ उसी विजयाछ पवतमें पचास योजन लंबी आठ यो-
 जन चौड़ी दोगुणाएं ह जिनमें किवाड़ आदि सब लगे हुए है ॥३१॥ उस विजयाछ पर्वतपर भूमिसे दश
 योजन ऊंचे चढ़कर उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओंकी ओर दो श्रेणियां हैं ॥ ३२ ॥ वे दोनों श्रेणियां दश
 २ योजन चौड़ी हैं और इस समुद्रसे उस समुद्र तक लम्बी हैं ॥ ३३ ॥ उन श्रेणियोंमेंसे दक्षिण श्रेणीमें
 पचास नगर बसे हुए हैं और उत्तर श्रेणीमें साठ नगर बसे हुए हैं ॥३४॥ उन नगरोंमेंसे प्रत्येक नगरसे
 एक एक करोड़ गांव लगे हुये हैं जोकि धन धान्य आदिसे भरपूर हैं और जो न कभी उपन्न होते हैं और
 न नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥ इन श्रेणियोंसे दश योजन और ऊंचे चलकर पहलेके समान ही उत्तर दक्षिणकी
 ओर दो श्रेणी और हैं जिनपर व्यंतरोके नगर बसे हुए हैं ॥ ३६ ॥ उनके बाद पांच योजन ऊंचे चल-
 कर सब एकसे नौ कूट हैं जो कि अधोभागके समान ऊंचे हैं ॥ ३७ ॥ उनमेंसे पूर्वा कूटके उपर भगवान
 अरहंतदेवका अकृत्रिम जिनालय है जो कि अनेक तरहके रत्नोंसे जड़ा हुआ है और अत्यन्त सुन्दर है
 ॥ ३८ ॥ वह दिव्य जिनालय सुवर्णमय है और रत्नोंके बने हुए शृंगार कलश आदि उपकरणोंसे धर्मकी
 खानिके समान शोभायमान है ॥ ३९ ॥ वहांपर सब देव पूजाकी सामग्री लेकर भगवानकी पूजा करनेके
 लिये आते हैं और सब अपने आनन्दमें डूबकर पुष्पवृष्टि करते हैं ॥ ४० ॥ वहांपर अनेक विद्याधर
 प्रतिदिन विमानोंमें बैठकर जय जय शब्द करते हुए भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके लिये
 आते हैं ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार गीत गाती हुई और नृत्य करती हुई विद्याधरी भी उस जिनालयमें भगवानकी
 पूजा करनेके लिये आती हैं और देवांगनाओंके समान शोभा देती हैं ॥ ४२ ॥ उस चैत्यालयमें कितनी ही
 नृत्य करती हैं कितनी ही भगवानकी पूजा करती हैं और अपने आनन्दके अत्यन्त रसमें मग्न हुई कितनी ही
 विद्याधरियां बाजे बजाती हैं ॥ ४३ ॥ कितनी ही विद्याधरियां वड़े उत्सवके साथ भगवान जिनेन्द्र देवका
 अभिषेक करती हैं और कितनी ही विद्याधरियां भगवानका दर्शन करती हैं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार देव देवि-
 योंसे तथा विद्याधर विद्याधरियोंसे भरा हुआ और गम्भीर शब्दोंसे भरपूर वह चैत्यालय धर्मरूपी महासागरके

समान जान पड़ता है ॥४५॥ कितनेक ही लोग तो वहां पूजा करनेके लिये आते हैं और कितने ही पूजा करके वहांसे बाहर निकलते हैं इस प्रकार वह चैत्यालय समवसरणके समान शोभा देता है फिर भला उसका वर्णन कौन कर सकता है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालयसे सुशोभित और वन वेदी सहित वह सिद्ध-कूट नामका कूट विजयार्द्ध पर्वतपर प्रसिद्ध है ॥ ४७ ॥ उस कूटके सिवाय बाकीके जो आठ कूट हैं उनपर वेदी वन और वावडियोंसे सुशोभित देवोंके नगर बने हुए हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार भरतक्षेत्रको विभाग करने-वाला वह विजयार्द्ध पर्वत भरतक्षेत्रके बीचमें शोभायमान है जो कि कुन्दके फूल, वा चंद्रमा अथवा शंखके समान सफेद वर्णका है और ऐसा जान पड़ता है मानो यशकी राशि ही हो ॥ ४९ ॥ वहांपर बादलोंसे होने-वाली वृष्टि सदा सफल ही होती है और ऐसी जान पड़ती है मानो मेरुपर्वतपर श्रेष्ठ जलसे भरपूर भगवानके अभिषेककी धारा ही हो ॥ ५० ॥ उस विजयार्द्ध पर्वत पर न तो कभी दुर्भिक्ष होता है और न कोई भय होता है वहांपर सदा धर्मसे सुशोभित चौथा काल ही बना रहता है ॥ ५१ ॥ वहांकी प्रजा तीन वर्णोंमें बटी हुई है वहांपर ब्राह्मण वर्ण नहीं है । वहांकी प्रजा बड़ी भारी विभूतिसे भरपूर रहती है और सदा जैनधर्ममें लीन रहती है ॥ ५२ ॥ वहांपर ब्रती तपस्वी चारित्रसे सुशोभित और ज्ञानो धीर और सुनि बहुतसे विहार करते रहते हैं वहांपर मिथ्यादृष्टी संवथा नहीं है ॥ ५३ ॥ वहांपर ऊंचे और अनेक तरहकी शोभासे सुशोभित ऐसे तीर्थ-करोके बहुतसे जिनालय शोभायमान हैं वहां अन्य देवोंके मठ कहीं पर दिखाई नहीं पड़ते ॥ ५४ ॥ उस विजयार्द्ध पर्वतपर श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए, सनातन अहिंसा धर्मकी ही प्रवृत्ति सदा बनी रहती है वहांपर वेद आदिमें कहे हुए धर्मकी प्रवृत्ति कहीं दिखाई नहीं देती ॥ ५५ ॥ वहांके समस्त मुनि और सब गृहस्थ श्रीजिनेन्द्रदेवकी कही हुई, जिनवाणीका ही सदा पाठ करते हैं अन्य धूर्तोंकी कही हुई वाणीको वहांपर पढ़ता सुनता नहीं ॥ ५६ ॥ वहांके वनोंमें अनेक तरहके फल फूलते हैं और पुण्यवान मनुष्योंके लिये भोगोप-भोगकी सामग्री वहां पर स्थान स्थानपर विद्यमान है ॥ ५७ ॥ वहांके मनोहर वनोंमें विद्याधरियां अपने पतियों सहित सदा काड़ा करती रहती हैं फिर भला उस पर्वतका क्या वर्णन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ वहांकी वावड़ी

कमलरूपी निर्मल मुखोंसे सदा हंसती रहती है और स्त्रियोंके समान लहरेंरूपी स्त्रियोंको उठा उठाकर बहुत अच्छा नृत्य करती रहती है ॥ ५६ ॥ जिस विजयाङ्क पर्वतपर देव लोग भी अपनी देवांगनाओंके साथ स्वर्गोंसे आ आकर क्रीड़ा करते हैं उसकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन भला क्या करना चाहिये ॥ ६० ॥ उसी विजयाङ्क पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनपुर चक्रवाल नामकी एक प्रसिद्ध नगरी है ॥ ६१ ॥ उस नगरीके चारों ओर रत्नोंका कोट है वह नगरी नित्य है कभी नष्ट नहीं होती, बड़ी मनोहर है और मणिमय वेदिकासे जम्बूद्वीपकी दूसरी पृथ्वीके समान सुन्दर जान पड़ती है ॥ ६१ ॥ उसके चारों ओर अत्यन्त शीतल और गंभीर (गहरी) खाई शोभायमान है जो कि सदा बनी रहती है और दूसरे समुद्रके समान जान पड़ती है ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार प्रमाण और नयके समूहोंसे जिनवाणी सुशोभित होती है उसी प्रकार वह नगरी भी मणियोंसे जड़े हुए ऊंचे २ बाहरी दरवाजोंसे सुशोभित है ॥ ६४ ॥ उस नगरीके मध्यमें भगवान् जिनेन्द्र देवके ऊंचे चैत्यालय विराजमान हैं जो कि कोई तो सुवर्णमय हैं और कोई रत्नोंकी किरणोंसे भरपूर हो रहे हैं ॥ ६५ ॥ वे जिनमन्दिर बहुत ही ऊंचे हैं धूपगंधसे भरपूर हैं पुष्पवृष्टिसे अत्यन्त दूर्गम हो रहे हैं और गीत नृत्य वड़े २ तुरई आदिवाजेके और जय जय शब्दोंसे शब्दायमान हो रहे हैं ॥ ६६ ॥ वह नगरी जिनालयके शिखरोंपर फहराती हुई ध्वजारूपी उत्तम हाथोंके द्वारा धर्म करनेके लिये ही क्या मानो पुण्यवान् इन्द्रोंको भी स्वर्गसे बुला रही है ऐसी शोभायमान हो रही है ॥ ६७ ॥ उस नगरीमें चतुर लोग अपने कल्याणके लिए विवाह आदि उत्सवोंमें श्रीजिनमन्दिरमें जाकर शान्ति देनेवाले भगवान् अरहंतदेवकी महापूजा करते हैं ॥ ६८ ॥ वहाँके मनुष्योंपर थोड़ा सा भी दुःख आ पड़नेपर उसको दूर करनेके लिए जिनालयमें जाकर दुःख और संतापको दूर करनेवाली और पुण्य बढ़ानेवाली भगवानकी महापूजा करते हैं ॥ ६९ ॥ कितनी ही सुन्दर स्त्रियां पूजाकी सामग्री लेकर मंदिरमें चलती हुई ऐसी शोभायमान होती हैं मानो देवियां ही चल रही हों ॥ ७० ॥ सुन्दर मुखवाली कितनी ही विद्याधरियां देवांगनाओंके समान पूजाको समाप्तकर निकलती हुई बहुत अच्छी जान पड़ती हैं ॥ ७१ ॥ रूप लावण्य और आभूषणोंसे सजी हुई कितनी ही स्त्रियां विमानोंमें बैठकर जिना-

लयमें जाती हुई देवांगनाओंके समान बहुत ही अच्छी जान पड़ती है ॥ ७२ ॥ कितनी ही विद्याधरियां अकृ-
त्रिम चैत्रालयमें पूजाकर बड़ी विभूतिके साथ लोटती हुई देवांगनाओंके समान जान पड़ती हैं ॥ ७३ ॥ उस
नगरीमें विद्याधर लोग प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन अपने आप सामायिक आदि उत्तम धर्म ध्यानका सेवन
करते हैं ॥ ७४ ॥ दोपहरके समय उदार त्यागी मनुष्य भगवानकी पूजाकर दान देनेके लिये द्वारपेक्षण करते
हैं ॥ ७५ ॥ कितने ही दानो बड़े आनन्दमें मग्न होकर उत्तम पात्रोंके लिये केवल पुण्य बढ़ानेके लिये छहों-
रसोंसे परिपूर्ण और प्रासुक उत्तम दान देते हैं ॥ ७६ ॥ कितने ही दानियोंके महादान देनेसे पंचाचर्य्य प्रगट
होते हैं जो कि दाला पात्र आदिके संयोगसे आगेके लिये भी उत्तम फलोंके सूचक होते हैं ॥ ७७ ॥ कितने
ही धर्मात्मा दानी उत्तम पात्रका संयोग न मिलनेसे खेद करते हैं और कितनेही दानो सत्पात्रोंके मिल जा-
नेसे (उन्हें दान देकर) संतुष्ट होते हैं ॥ ७८ ॥

इसीप्रकार संख्या आदि समयमें भी सज्जन लोग धर्मध्यान करते हैं कायोत्सर्ग करते हैं और भगवान अर-
हंतदेवकी स्तुति करते हैं ॥ ७९ ॥ उस नगरीमें पूर्व पुण्यके उदयसे पुण्यवान लोग दान प्रजा व्रत करते हुए
बड़े सुखसे निवास करते हैं ॥ ८० ॥ सम्यग्दृष्टी लोग पहिले भवमें स्वर्गमें अच्छे अच्छे पुण्य संपादनकर उस
नगरीमें उत्तम पूज्य कुलमें और अच्छे घरमें आकर जन्म लेते हैं ॥ ८१ ॥ उस नगरीमें जन्म लेकर कितने ही
लोग दुष्कर चारित्रिको धारणकर और उस तपश्चरणके बलसे कर्मोंका नाशकर मोक्षको जाते हैं ॥ ८२ ॥
तथा कितने ही लोग संयम धारणकर, कितने ही अरहंत देवकी पूजाकर और कितने ही लाग दान देकर
सुखकी खानि ऐसे स्वर्गमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ ८३ ॥ उस नगरीमें रहनेवाले सदृश्यहस्थ लोग जिनेन्द्रदेवके
कहे हुए हिंसा आदि पापोंसे रहित धर्मको ही सदा और सब तरहसे पालन करते हैं अन्य धर्मको वे कभी
पालन नहीं करते ॥ ८४ ॥ जिस प्रकार स्वयंवर रचानेवाली कन्या घरके पास अपने आप आ जाती है उसी
प्रकार उस धर्मके प्रतापसे लोकमें भरी हुई सुख देनेवाली लक्ष्मी भी उन धर्मात्माओंके पास अपने आप
आ जाती है ॥ ७५ ॥ उस लक्ष्मीसे वहाँपर रहनेवाले विद्याधर लोगोंका उनके पुण्यसे उत्पन्न हुई अत्यन्त

भागोपभोगों की उच्चम सामग्री प्राप्त होती है ॥ ८६ ॥ वहाँके रहनेवाले चतुर लोग अपने सफ़ेद बालों को देखकर भोगों को छोड़ देते हैं और वैराग्य तपश्चरण धारणकर सम्यक्चारित्रिके प्रभावसे वे धीर वीर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ८७ ॥ इस प्रकार उस नगरीमें पुण्यवान सज्जनों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थोंके महाफल प्राप्त होते और बढ़ते रहते हैं ॥ ८८ ॥ अत्यन्त सुभ संपदाओं से भरी नगरी प्रति दिन ऐसी जान पड़ती थी मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंकी खानिही हो ॥ ८९ ॥ जिस प्रकार महा विभूतियों से भरे हुए स्वर्गमें देवालय (देवों के विमान) शोभित होते हैं इसीप्रकार पुरुष और स्त्रियों से भरे हुए उस नगरीके ऊँचे घर शोभायमान होते हैं ॥ ९० ॥ उस नगरीके बाहर सब ऋतुओं से भरे हुए कूप बावड़ी और तलाओं से सुशोभित तथा नेत्रों को सुख देनेवाले वन उपवन शोभायमान हैं ॥ ९१ ॥ उनमेंसे कुछ निर्जन वनों में कितनेही धीर वीर योगी मुनि मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पर्यकासनसे विराजमान होकर ध्यान करते हैं ॥ ९२ ॥ कितनेही मुनिराज शरीरसे ममत्व छोड़कर और पर्वतके समान निश्चल होकर कायोत्सर्ग धारणकर आत्मध्यान करते हैं ॥ ९३ ॥ किंसीवनमें कितने ही मुनि केवल कर्मोंको नष्ट करनेके लिए एकाम्र चित्त होकर लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले सिद्धांत शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं ॥ ९४ ॥ वह शीत उष्ण आदि उपसर्गोंसे रहित है सुन्दर है और ध्यानको बढ़ानेवाली है इस लिए ध्यानकी सिद्धिके लिए मुनि लोग उसे कभी नहीं छोड़ते हैं ॥ ९५ ॥ इस प्रकार वह नगरी ऊपर कहे हुए कितने ही गुणों से भरपूर है उस नगरीका स्वामी पुण्यवान और पुण्य और गुणोंका एक स्थान ऐसा ज्वलनजटो नामका विधाधर राज्य करता था ॥ ९६ ॥ वह विधाधर बड़ी भारी विभूतिका स्वामी था अनेक विधाधर उसे नमस्कार करते थे, अनेक स्त्रियोंका समूह उसकी सेवा करता था और बड़ी भारी सेनासे सुशोभित था ॥ ९७ ॥ भगवान् विनेन्द्रदेवकी महापूजा और महाभिषेक करनेमें वह सदा तत्पर रहता था, वह बहुत ही धीर वीर उदार और सुन्दर था ॥ ९८ ॥ वह सम्यग्दर्शनसे सुशोभित था सदा पुण्य कार्योंमें लगा रहता था, जिनधर्ममें लीन था दानी था और जिनधर्ममें बहुतही प्रेम रखता था ॥ ९९ ॥ उसके मस्तकपर बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ था,

गलमें हार पड़ा हुआ था वह दिव्य वस्त्र पहिने था उसके दोनों हाथ कड़ों से शोभायमान थे। वह बहुत ही पुण्यवान और अत्यन्त सुन्दर था ॥ १०० ॥ उसका कंठ दिव्य वाणीसे शोभायमान था शरीर शोभासे अलंकृत था शरीरसे वह कामदेवको भी जीतता था और नेत्रोंको वह बहुत ही आनन्दकारी था। ॥ १०१ ॥ वह विद्याधर राजा पहिले भवमें उपार्जन किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे विद्या आदि विभूतियोंके द्वारा सदा चक्रवर्तीके समान शोभायमान होता था ॥ १०२ ॥ धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है और अर्थसे राज्य सुखसे उत्पन्न हुए कामकी प्राप्ति होती है यही समझ कर वह राजा निरंतर एक धर्मका ही सेवन करता था ॥ १०३ ॥ वह राजा इस लोक और परलोकका कल्याण करनेके लिये अपना चित्त धर्ममें लगाता था अपने वचन धर्मके गुण वर्णन करनेमें लगाता था और अपना शरीर सदा उसी धर्मकी सेवा करनेमें लगाता था ॥ १०४ ॥ वह राजा सदा सब गुणोंका खजाना ऐसा मुनियोंके लिये दान देता था जो स्वतः स्वतः कल्याण करनेवाली श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करता था ॥ १०५ ॥ धर्मके प्रभावसे उसके घरमें राज्यके सब अंगोंको वहानेवाली और सब तरहके बड़े बड़े सुख देनेवाली लक्ष्मी सदा दासीके समान निवास करती थी ॥ १०६ ॥ संसारमें जो कुछ दुर्लभ था जो कुछ सारभूत धन था वह सब बहुतसे धर्मसे सुशोभित उस राजाके यहां उसके पुण्य कर्मके उदयसे स्वयं आजाता था ॥ १०७ ॥ उस राजाके समस्त भागोपभोगोंको देनेवाली और राज्यको वहानेवाली बहुतसी विद्याएं उसके शुभ योगोंसे अपने आप सिद्ध हो जाती थीं ॥ १०८ ॥ इस प्रकार समस्त शत्रुओंको जीतनेवाला वह राजा सद्धर्ममें लीन होकर और सब तरहके वैरभाव छोड़कर शुभ कर्मोंके उदयसे न्याय मार्गसे राज्य करता था ॥ १०९ ॥ अथानन्तर दिव्य तिलक नामके नगरमें चन्द्रभ नामका राजा राज्य करता था उसके अनेक लक्षणोंसे सुशोभित सुभद्रा नामकी रानी थी ॥ ११० ॥ उन दोनोंके वायुवेगा नामकी कन्या थी जोकि अनेक लक्षणोंसे सुशोभित थी और रूप लावण्य आभूषण आदिसे कामियोंके चित्तको चोभित करनेवाली थी ॥ १११ ॥ उस वायुवेगाने अपने पुण्य कर्मके उदयसे अपनी वेगविद्यासे वेग विद्यावाले बहुतसे विद्याधरोंके राजा बड़ी शीघ्रताके साथ जीत लिये थे ॥ ११२ ॥

परन्तु उस ज्वलनजटी राजाने अपने विद्यावल से वह वायुवेगा कन्या जीत ली थी और उसके साथ बड़े उरसवरो विवाह कर लिया था ॥ ११३ ॥ धर्मकार्योंमें आशुक्त हुआ भी वह राजा केवल संतान उत्पन्न करने के लिए यथा समयपर उसके साथ काम सेवन करता था ॥ ११४ ॥ वह वायुवेगा रानी सती थी, रूपवती और लावण्यवती थी, आभूषणों से सुशोभित थी और पूजा दान व्रत आदिसे उत्पन्न हुआ धर्म अपने पतिके समान ही करती थी ॥ ११५ ॥ जब उसका पति भगवानकी पूजा करता था तब वह भी पूजा करती थी, जब दान देता था तब वह भी दान करती थी, जब वह प्रोषध और शीलव्रतों को पालन करता था तब वह भी उन्हें पालन करती थी। इस प्रकार वह सब धर्म पतिके साथ करती थी ॥ ११६ ॥ वह वायुवेगा भोजन शयन और भोग आदि सब काम पतिके साथ करती थी इसलिये लोग उसे पतिव्रता और सती कहते थे ॥ ११७ ॥ वह राजा ज्वलनजटी भी भोगोपभोग आदि सब काम उसी वायुवेगा के साथ करता था वह स्वप्न में भी कभी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करता था ॥ ११८ ॥ जिस प्रकार सम्यग्ज्ञान और सम्यचारित्र से धर्मकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उन दोनोंके अकर्मकीर्ति नामका पुत्र हुआ था जो कि अपनी कीर्ति और प्रभावसे सब दिशयोंकी प्रकाशित करता था ॥ ११९ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ कांति अथवा किरणवली होती है तथा पुण्य व पराक्रमसे लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दोनोंके अकर्मसे बढ़ती है उसी प्रकार वह अनुक्रम श्रेष्ठ यौवन अवस्था को प्राप्त हुई थी जिस प्रकार चंद्ररेखा अनुक्रमसे बढ़ती है उसी प्रकार वह अनुक्रम श्रेष्ठ यौवन अवस्था को प्राप्त हुई थी, रूप लावण्य और आभूषण आदि से वह सुशोभित थी और रागी लोगोंको क्षोभ उत्पन्न करनेवाली थी ॥ १२१ ॥

अथानन्तर किसी एक दिन वह राजा ज्वलनजटी अनेक विद्यार्थोंके साथ सभा में विराजमान था कि इतनेमें ही वनके मालीने आकर नमस्कार किया और निवेदन किया कि हे देव ! आपके पुण्योदयसे मनोहर नामके वनमें जगन्मदन और अभिनंदन नामके दो चारणमुनि पधारें हैं ॥ १२२-२३ ॥ वह राजा उस वनमालीके वचन सुनकर बड़े भारी आनंदसे हुए गया और सिंहासनसे उतरकर सात पेड़ चलकर देवोंके

द्वारा नमस्कार किए गये उन दोनों मुनियोंके चरण कमलोंको हृदयमें धारणकर केवल पुण्य संपादन करनेके लिये उसने उसी दिशाकी ओर अपने उत्तम शरीर भागसे (मस्तकसे-मस्तक भुंकाकर) नमस्कार किया ॥ १२४-१२५ ॥ तदनंतर धर्ममें बुद्धि रखनेवाले उस राजाने आनंद भेरी दिलाई और अनेक भव्य-जीवोंके साथ तथा अंतःपुर (रणवास) और पुत्रके साथ मुनिके दर्शन करनेके लिये वह चला । उसके साथमें चारों प्रकारकी सेना थी, पूजाकी सामग्री थी और सब तरहकी विभूति थी वह केवल धर्मश्रवण करनेके लिये उन दोनों मुनिराजोंके समीप बड़ी शीघ्रताके साथ पहुंचा ॥ १२६-२७ ॥ उस राजाने अपने दोनों हाथ मस्तकपर रखकर दोनों मुनियोंके चरण कमलोंको नमस्कार किया और भक्तिपूर्वक पूजाकी सामग्रीसे अनेक प्रकारसे उनकी पूजाकी ॥ १२८ ॥ फिर वड़े आनंदके साथ उनके गुणोंसे प्रकट होनेवाली स्तुति करना प्रारम्भ की । हे देव । आप दोनोंके ज्ञान ही नेत्र हैं और आप दोनों तपश्चरणरूपी लक्ष्मीसे अत्यंत ही सुशोभित हो ॥ १२९ ॥ आप आज मूंक इस संसारसागरसे पार करनेमें समर्थ हैं उस संसारसागरसे पार होनेमें आपके दोनों उत्तम चरण कमल ही मुझे हस्ताग्रलम्बनका (सहारेका) काम देंगे ॥ १३० ॥ हे नाथ । मुक्तिरूपी लक्ष्मी आपको बड़ी उत्कंठाके साथ देख रही है । आपकी कीर्ति तीनों लोकोंमें भरी हुई शोभा दे रही है इस प्रकार स्तुतिकर वह पुण्यवान राजा उन दोनोंके सामने बैठ गया और अपने परिवारके साथ धर्मश्रवण करनेमें तल्लीन हो गया ॥ १३२ ॥ उन दोनों मुनियोंने पहले तो धर्मवृद्धि हो, ऐसा आशोर्वाद दिया और फिर जिनकी बुद्धि दयासे भीग रही है ऐसे व्येष्ट (बड़े) मुनिराजके सामने सुखका समूह ऐसे धर्मका उपदेश करने लगे ॥ १३३ ॥ वे कहने लगे कि हे राजन् । जो जीवोंको संसाररूपी महासागरसे उठाकर अनन्त सुखसे भरे हुए मोक्षमें स्वयं स्थापित कर दे उसे वास्तविक सद्धर्म कहते हैं ॥ ३४ ॥ इस संसारमें मनुष्योंको राज्य भी धर्मसे मिलता है सुखका निधि स्वर्ग भी धर्मसे मिलता है इन्द्रका पद भी धर्मसे मिलता है और चक्रवर्तीका पद भी धर्मसे मिलता है ॥ ३५ ॥ धर्मसे ही तीनों लोकोंमें फैलनेवाली निर्मल कीर्ति प्राप्त होती है और धर्मसे ही तीनों लोक जिसको नमस्कार करते हैं ऐसा तीर्थकर पद प्राप्त

होता है ॥ ३६ ॥ धर्मसे ही स्त्री पुत्रवती होती है धर्मसे ही पुत्र सुलक्षण (अच्छे लक्षणों वाले) होते हैं धर्म-
 से ही माता शीलवती होती है और धर्मसे ही मनुष्यों को अच्छे भाई वन्धु मिलते हैं ॥ ३७ ॥ सब इन्द्रियों-
 को सुख देनेवाले भोग सब धर्मसे ही मिलते हैं और घर सवारी पदार्थ राज्य आभूषण आदि सब धर्मसे
 प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥ जो शरीर तपश्चरण करनेमें समर्थ होता है, सब दोषोंसे रहित होता है जिसका उ-
 त्पन्न संहनन होता है और रूप लावण्य सौभाग्य आदिसे सुशोभित होता है वह सब धर्मसे ही प्राप्त होता
 है ॥ ३९ ॥ धर्मसे ही धर्मात्मा लोगों के लक्ष्मी सदा दासीके समान स्थिर बनी रहती है और संसारमें जो जो
 दुर्लभ वस्तुएँ हैं वे सब धर्मके प्रभावसे अपने आप घरमें आ जाती हैं ॥ ४० ॥ जिस प्रकार स्वयंवरकी रचना
 करानेवाली कन्या विवाहके लिये अपने आप आ जाती है उसी प्रकार धर्मके प्रभावसे मुक्तिरूपी कन्या भी
 धर्मात्मा जीवको बार बार देखती रहती है ॥ ४१ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है संसारमें जो कुछ दुर्लभ है
 चाहे वह तीनों लोकोंमें कहीं भी हो वह सब धर्मके प्रभावसे पुरुषोंको अपने आप प्राप्त हो जाता है ॥ ४२ ॥
 मनुष्योंको ये सब बातें बिना धर्मके कभी नहीं हो सकती । ये ही सब बातें पाप कर्मके उदयसे दुख देने-
 वाली विपरीत हो जाती हैं ॥ ४३ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवने वह धर्म दो प्रकारका बतलाया है एक श्रावकों का दूसरा
 मुनियों का, श्रावकों का धर्म सुगम साध्य है और मुनियों का कठिन साध्य है ॥ ४४ ॥ पांच अणुव्रत तीन
 गुणव्रत और चार शिखाव्रत ये बारह व्रत श्रावकों का धर्म है सम्यग्दर्शनके साथ होनेसे यही धर्म शुद्ध कह-
 लाता है स्वर्गके सुख देनेवाला है अनुक्रमसे मोक्ष देनेवाला है यही धर्म श्रावककी ग्यारह प्रतिमात्रों में बंटा
 हुआ है ॥ ४६ ॥ पांच महा व्रत पांच समिति और तीन गुप्ति यह तेरह प्रकारका चारित्र मुनियों का कहलाता
 है यही धर्म सर्वथा पापरहित है और मोक्ष प्राप्त करानेमें एक अद्वितीय पंडित है ॥ ४७ ॥ हे राजन् ! इन
 दोनों धर्मोंसे जो तुम्हें अच्छा लगता हो और धारण कर सकता हो उसे स्वीकार कर क्योंकि परलोकमें स्वर्ग-
 मोक्षके सुखोंका सागर एक धर्म ही है ॥ ४८ ॥ मुनिकी यह आज्ञा सुनकर राजाने बड़े आनन्दसे सम्य-
 ग्दर्शनके साथ साथ शहस्थोंके व्रत स्वीकार किये ॥ ४९ ॥ तदनंतर वह राजा सम्यग्दर्शन और दान पूर्वक

व्रतोंको धारणकर तथा दोनों मुनियोंके चरण कमलोंको नमस्कार कर अपने राजभवनमें आया ॥ १५० ॥
 अन्य स्त्री पुरुष सब भव्योंने अपनी अपनी शक्तिके अनुसार उन मुनिके समीप व्रत ग्रहण किये ॥ १५१ ॥
 स्वयंप्रभा भी उन मुनियोंके समीप दान पूजा उपवास आदि सहित कितने ही व्रतोंको धारणकर अपने
 घर आई ॥ १५२ ॥ किसी एक दिन स्वयंप्रभाने अपने नियत पर्वके दिन उपवास किया दूसरे दिन भक्ति
 पर्वक अरहं तदेवकी पूजाकी और उपवाससे जिसका मुख कुछ मलिन हो रहा है ऐसो उस स्वयंप्रभाने विन-
 यसे नम्र होकर अपने दोनों हाथोंसे भगवान अरहं तदेवके चरण कमलोंके रर्षासे पवित्र हुई और पापों-
 को दूर करनेवाली विचित्र माला आकर समर्पण की ॥ ५३-५४ ॥ राजा ज्वलनजटोने भक्तिपर्वक वह माला
 ली और उपवासके भारी खेदसे कुछ थकी हुई और धर्ममें तत्पर ऐसी अपनी कन्याको देखा ॥ ५५ ॥ “वेटी
 तू जाकर अब पारणा कर” इसप्रकार कहकर उसे विदा किया परन्तु उसीसमय उस राजाके हृदयमें उसके
 विवाह करनेकी चिन्ता उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ उसने उसीसमय सब मंत्रियोंको बुलाया और अपनी पुत्रीके
 विवाहकी चर्चा उनसे की ॥ ५७ ॥ राजाकी बात सुनकर शास्त्रोंमें चतुर ऐसा सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा
 कर अपने आत्मासे निरुचय किये हुए उत्तम वचन कहने लगे ॥ ५८ ॥ इसी विजयाह्न पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें
 अलका नामकी नगरी है उसका राजा मयूरीव है और उसकी रानीका नाम नीलांजना है ॥ ५९ ॥ उनके
 सबसे बड़ा अश्वश्रीव नामका पुत्र है दूसरा नीलरथ तीसरा नीलकंठ चौथा सुकंठ पांचवां वज्रकंठ इसप्रकार
 पांच पुत्र हैं ॥ ६० ॥ उनमेंसे अश्वश्रीवकी रानीका नाम कनकचिन्ना है और उन दोनोंके स्वश्रीव रत्नांगद
 रत्नचूल रत्नरथ आदि पांचसौ पुत्र हैं उसके मंत्रीका नाम हरिमश्रु है और शतविट् अष्टांग निमित्तको
 जाननेवाला नैसित्तिक है ॥ ६१-६२ ॥ इसप्रकार राजा अश्वश्रीवका राज्य संपूर्ण है और वह तीन खंडका
 स्वामी है इस लिये अपना कन्यारत्न उसीको देना चाहिये ॥ ६३ ॥ यह सुनकर बहुश्रुत नामका मंत्री कहने
 लगा कि हे राजन् ! सश्रुत मंत्रीकी बात तो आपने सुनली अब मेरी बात भी सुनिये ॥ ६४ ॥ श्रेष्ठकुल,
 नीरोगता, शरीर, शील, आयु, शास्त्रका पठन पाठन, पंच, लक्ष्मी और परिवाग ये नौ गुण वस्त्रों होने चाहि-

ये ॥ ६५ ॥ अश्वयीवर्षमें ये सब गुण हैं परन्तु उसकी आयु अधिक है इस लिये जिसमें ये सब गुण हों और तरुण हो ऐसा कोई दूसरा वरढंढना चाहिये ॥ ६६ ॥

गगनवल्लभ नगरमें प्रसिद्ध राजा सिंहरथ है, मेघपुर नगरमें नीतिविशारद राजा पद्मरथ है । चित्रपुर नगरमें वलवान राजा अरिंजय है । त्रिपुर नगरमें विद्याधरोंका राजा ललितगद है, अश्वपुर नगरमें राजा कनकरथ है, महारलपुर नगरमें प्रसिद्ध विद्याधरोंका राजा धनंजय है ॥ ६७-६९ ॥ हे राजन् इनमेंसे बिचार कर किसी एकको पुराणवान कन्यारत्न शुभसुहृत्तमें दे देना चाहिये ॥ ७० ॥ बहुश्रुतके ये वचन सुनकर शास्त्रोंको जाननेवाला श्रुतसागर नामका मन्त्री विचारकर मनको अच्छे लगनेवाले वचन इस प्रकार कहने लगा ॥ ७१ ॥ कि यदि आप कुल आरोग्य आयुरूप आदि सब गुणोंसे सुशोभित वरके लिये कन्या देना चाहते हैं तो मेरी कही हुई बात सुनिये ॥ ७२ ॥ उत्तर श्रेणीके सुरेंद्रकांतार नगरमें मेघवाहन नामका विद्याधर राज्य करता है उसकी राणीका नाम मेघमालिनी है ॥ ७३ ॥ उसके विद्युत्प्रभ नामका पुत्र है और ज्योतिमाला नामकी पुत्री है । राजा मेघवाहन पुराण और लक्ष्मीके समान इन दोनोंसे बहुत आनन्दित रहता है ॥ ७४ ॥ किसी एक दिन वह राजा मेघवाहन श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके लिये बड़ी भारी विभूतिसे सुशोभित ऐसे श्रीसिद्ध कूट चैर्यालयमें गया था ॥ ७५ ॥ वहांपर राजाको अपने पुराण कर्मके उदयसे अनेक गुणोंसे विराजमान वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारण मुनिके दर्शन स्वयं हो गए थे ॥ ७६ ॥ राजाने बड़े आनन्दसे उन उत्तम मुनियोंकी वंदनाकी और मुनिराजने उस राजाके सामने स्वर्ग मोक्ष देनेवाले धर्मका स्वरूप कहा ॥ ७७ ॥ नदनंतर राजाने उन मुनिराजसे अपने पुत्रके पहिले भव पूछे थे । राजन् ! उन्हें मैं कहताहूं आप अपना चित्त सावधानकर सुनिये ॥ ७८ ॥ इसी प्रसिद्ध जम्बूद्वीपमें वत्सकावती देश है और उसमें श्रेष्ठधर्मसे सुशोभित प्रभाकरी नामकी नगरी है ॥ ७९ ॥ पुराणकर्मके उदयसे उस नगरीका राजा नन्दन था जो कि बहुतही सुन्दर था और उसके शुभ कर्मके उदयसे जयसेना नामकी रानी उसे प्राप्त हुई थी ॥ ८० ॥ उन दोनोंके विजयसेन नामका पुत्र था जो कि पुराण और गुणोंका एक स्थान था, विवेकी था और ज्ञानी था वह बुद्धिमान किसी

एक दिन अपनी इच्छानुसार मनोहर नामके वनमें गया और वहाँपर एक आमके पेड़को फल रहित देख कर सब भोगोंसे विरक्त हुआ। सो ठीक ही है क्यों कि वैराग्य ही मोक्षका कारण है ॥ ८१-८२ ॥ यह संसार असार है और जिस प्रकार बादलसे प्रकट हुई विजली जणमात्रमें नष्ट हो जाती है उसीप्रकार भोग राज्य शरीर और धन सब शृण्णमात्रमें नष्ट हो जाते हैं ॥ ८३॥

जिसकी बुद्धि शांत हो गई है ऐसा वह विजयसेन ऊपर लिखे अनुसार चिंतवनकर सब तरहके परिग्रहोंसे रहित पिहितान्न नामके मृनिके समीप गया और उनको जाकर नमस्कार किया ॥ ८४ ॥ उसने गुरुकी आज्ञानुसार वैराग्य धारण करनेमें तत्पर ऐसे चौदह हजार राजाओंको भी दुर्लभ ऐसा संयम धारण किया ॥ ८५ ॥ उसने कर्मोंको नाश करनेवाला कठिन वारह प्रकारका तपश्चरण किया और अंतमें समाधिमरण धारण कर चारों आराधनाओंका स्वयं चिंतवन किया। शरीरको छोड़कर पुण्यकर्मके उदयसे वह माहेंद्र स्वर्गके चक्रक नामके निशानमें दिव्य आभरणोंसे सुशोभित देव उत्पन्न हुआ ॥ ८६-८७ ॥ अपने किये हुए तपश्चरणसंग्रह हुए पुण्य कर्मसे उसने सात सागर तक समस्त इन्द्रियोंको सुख देनेवाले दिव्य भोग भोगे ॥ ८८ ॥ वहाँसे चयकर यह तोरे विद्युत्प्रभ नामका पुत्र हुआ है अब आगे अत्यंत घोर तपश्चरणकर मोक्ष जायगा ॥ ८९ ॥ मैं एक दिन पुण्यसंपादन करनेकेलिये श्रीसिद्धकूट चेत्यालयमें स्तुति करनेके लिये गया था वहाँपर मैंने यह पुण्यका कारण सब वृत्तान्त सुना था ॥ ९० ॥ वह विद्युत्प्रभ वरके सब गुणोंसे पूण है और सुखी है इसलिये गुणोंसे सुशोभित और धर्ममें तत्पर ऐसा यह कन्या उसीको देनी चाहिये ॥ ९१ ॥ तथा हे राजन् ! अपना राजकुमार अर्ककीर्ति पुण्यकी मूर्ति है इस लिये उसकेलिये पुण्यवतो ज्योतिमाला बड़ी विभूतिके साथ लेलेनी चाहिये ॥ ९२ ॥ अतसागरकी यह बात सुनकर उत्तम बुद्धिवाला सुमति नामका मन्त्री सब संकल्प विकल्पोंपर उत्तर देने लगा ॥ ९३ ॥ वह कहने लगा कि पुण्यके प्रभावसे यह कन्या पुण्यरूप आदि सब गुणोंसे विभूषित है इसीलिये इसके लिये अलग अलग कितनेही विद्याधर राजा प्रार्थना करते हैं ॥ ९४ ॥ इसलिये यह कन्या विद्युत्प्रभका नहीं देना चाहिये क्यों कि उसे बहुतों के साथ बैर करना पड़ेगा किन्तु इसके

लिए स्वयंवरकी रचना करनी चाहिए यह कहकर वह चूप हो गया ॥ ६५ ॥ अन्य सब मन्त्रियोंने कायका सिद्ध करनेवाली उसकी यह बात मान ली इसलिए राजाने मन्त्रियोंको आदर सत्कार कर बिदा किया ॥ ६६ ॥ तदनंतर राजा ज्वलनजटीने पुराणोंके अथको जाननेवाले और ज्ञानी ऐसे संधिन्न श्रोत नामके नैमित्तिकसे पूछा कि बताओ स्यंप्रभाका पति कौन होगा ? यह कहकर राजा चुप होगया और वह नैमित्तिक नीचे लिखे अनुसार वचन कहने लगा ॥ ६७-६८ ॥ पहले पुराणोंका निरूपण करते समय श्रीऋषभदेवने भरत चक्रवर्तीको प्रथम नारायणकी कथा इस प्रकार कही थी ॥ ६६ ॥ इसी जम्बूद्वीपके सुन्दर पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नगरी है ॥ २०० ॥ उसी नगरीके समीप मधुक नामके वनमें वनका स्वामी पुरूरवा नामका भद्र भीलोका राजा रहता था ॥ १ ॥ किसी एक दिन उस वनमें सागरसेन नामके मुनिराज मार्ग भूल कर विहार करते हुए उधर जा रहे थे। वे पुण्यकर्मके उदयसे उस भीलने देखे ॥ २ ॥ चारित्र पालन करनेवाले उन मुनिराजको उस भीलने बड़े अच्छे भावोंसे परलोकमें सुख देनेवाला नमस्कार किया ॥ ३ ॥ उन मुनिराजने कृपापूर्वक उस भव्यके लिये इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाला मद्य मांस आदिके त्याग करने रूप धर्मका उपदेश दिया ॥ ४ ॥ उस धर्मात्मा भीलने मुनिराजके चरण कमलोंको नमस्कार किया और काललब्धि प्राप्त हो जानेके कारण मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक मद्यमांस आदिका त्याग किया तथा श्रेष्ठधर्मको स्वीकार किया ॥ ५ ॥ उस धर्मके फलसे वह सौधम स्वर्गमें बड़ी कृद्धिवाला और दिव्य लक्ष्मीका स्वामी देव हुआ ॥ ६ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, थोड़ेही पुण्यसे वह भील ऐसा हुआ फिर भला जो अच्छे कुलमें उत्पन्न हुए लोग धर्म सेवन करते हैं वे क्यों न सुखी होते होंगे ॥ ७ ॥ इसी भरत-जैनकी अयोध्या नगरीमें भरत नामका चक्रवर्ती था। उसके सुख देनेवाली अनन्तसेना नामकी स्त्री थी उन दोनोंके वह भीलका जीव स्वर्गसे च्युत होकर मारीच नामका पुत्र हुआ था, उस बुद्धिमानने श्रीऋषभदेवके साथ दौचा ग्रहणकी थी ॥ ६ ॥ उस मारीचने भूल प्यास आदिसे उत्पन्न हुई परीपहोंके डरसे संयमरूपी माण्डिक्यको तो छोड़ दिया था और कुलिंगियोंका भेष धारणकर लिया था ॥ १० ॥ श्रीऋषभदेवके सुखसे

उस मूर्खको यह भी मालूम हो गया था कि उसे आगे चलकर मोक्ष प्राप्त

ग आदिसे सुशाभत

प्राप्त

आभूषण दिए ।

प्राप्त होगी ॥ ११ ॥ तीव्र मिथ्यात्वके उदयसे उसने श्रीजिनेन्द्रदेवका कथा केन्द्रके साथ त्रिष्टुटके लिए नरकमें पहुंचानेवाला दुष्ट सांख्यमत स्वीकार कर लिया था ॥ १२ ॥ उसने खोटे मार्गके वह प्रथम नारायण लिये उस पाप फलसे तीव्र रूपी लहरोंसे भरे हुए संसारसागरमें वह बहुत दिनके लिये सुशोभित है ॥ १३ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो वह मरीच तपस्वी था तथापि खोटे मार्गका उपदेश दे ॥ १२ ॥ कहां दुखको प्राप्त हुआ फिर भला जो खोटेमार्गका आचरण करते हैं वे क्यों न दुखी होंगे ॥ १४ ॥ इसी वह चेत्रके सुरम्य देशमें एक पोदन नामका मनोहर और शुभ नगर है वहांके राजा प्रजापतिके मृगावती नामके

भर्षा है ॥ १५ ॥ वह भीलका जीव संसाररूपी वनमें परिभ्रमणकर तथा काललब्धिपाकर तपश्चरणकेद्वारा पुण्य उपार्जनकर उन दोनोंके त्रिष्टुट नामका पुत्र हुआ है ॥ १६ ॥ उसी राजाके भद्रा नामकी रानीसे विजय नामका बड़ा पुत्र हुआ है । वे दोनों भाई बड़ेही सुशोभित हैं और वे दोनों इन्हीं श्रीश्रेयांसनाथ तीर्थकरके समयमें अपने पौरुषसे प्रतिनारायण अश्वप्रीव शत्रुको मारकर तीन खण्ड लक्ष्मीके स्वामी प्रथम नारायण बलभद्र होंगे ॥ १७-१८ ॥ इनमेंसे विजय नामका बलभद्र श्रीश्रेयांसनाथ तीर्थकरसे दीक्षा ग्रहणकर घोर तपश्चरणकर तथा कर्मोंको नाशकर मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ १९ ॥ त्रिष्टुट नारायण अशुभ योगके कारण संसारमें बहुत परिभ्रमण करेगा और फिर काललब्धि पाकर अन्तिम तीर्थकर होगा ॥ २० ॥ आपका जन्म इसी विजयाब्द पूर्व-तपर धरणेन्द्रके सम्बन्धसे महाराज कच्छके पुत्र नमिके वंशमें हुआ है और महाराज प्रजापतिका जन्म श्रीऋषभदेव तीर्थकरके उपदेशके अनुसार इस संसारमें प्रसिद्ध श्रीबाहूबरीके प्रसिद्ध वंशमें हुआ है । इस-लिये हे राजन् ! उनके साथ आपका सम्बन्ध पहिलेसेही निश्चित है फिर अब भी वह सुन्दर सम्बन्ध होना ही चाहिये ॥ २१-२३ ॥ इसलिये धर्म और लक्ष्मीसे सुशोभित आपको तीन खण्डकी लक्ष्मी और सबके स्वामी ऐसे पुण्यवान त्रिष्टुटके लिये अपनी कन्या दे देनी चाहिये ॥ २४ ॥ त्रिष्टुट को जामाता (जंबई) बनानेसे आप सब विद्याधरोंके स्वामी हो जायेंगे यह बात निश्चित है इसलिये ऐसा करना ही चाहिये ।

कर रथनूपुरके राजा ज्वलनजटीने उसकी बात मानी और प्रसन्न होकर उसे वस्त्र आभरण सम्मान आदि दिया ॥ २६ ॥ राजा ज्वलनजटीने इन्द्र नामके दूतको बुलाया और पत्र तथा भेट देकर उसी समय महाराज प्रजापतिके पास भेजा ॥ २७ ॥ त्रिष्टुप्ते जयगुप्त नामके नैमित्तिकसे पहिलेही यह बात जान ली थी इसलिये वह शीघ्रही पुष्करंडक नामके वनमें आगया था ॥ २८ ॥ वहींपर ज्वलनजटी विद्याधरका दूत आकाशसे उतरा । त्रिष्टुप्ते उसका स्वागत किया और उत्सवके साथ उसे सभामें ले गया ॥ २९ ॥ दूतने जाकर महाराजके सामने भेट रख नमस्कार किया और फिर खड़ा हो गया । महाराजने अपने हाथसे उसे आसन दिया ॥ ३० ॥ महाराजने वह सब भेट देखी और अपना अनुराग प्रकट किया तथा "हम आपकी भेट से बहुत संतुष्ट हैं, यह कहकर दूतको संतुष्ट किया ॥ ३१ ॥ तदनन्तर दूतने निवेदन किया कि "ज्वलनजटी विद्याधर पुत्रोंमें श्रेष्ठ श्रीत्रिष्टुटके लिये अपनी कन्या देना चाहता है" यह कहकर वह चुप होगया ॥ ३२ ॥ यह सुनकर महाराज प्रजापतिने सब बात यथार्थ समझ ली और प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है रख और सोनेका सम्बन्ध भला कौन नहीं चाहता है ॥ ३३ ॥ तदनन्तर महाराजने योग्य भेट देकर दूतका आदर सत्कार किया और अपनी कार्य सिद्धिके लिए दूतको विदा किया ॥ ३४ ॥ वह दूत बड़ी शीघ्रतासे गया और अपने स्वामीके लिए विवाह आदि शुभ कार्यका निवेदन किया ॥ ३५ ॥ यह सुनकर वह ज्वलनजटी विद्याधर बड़ी विभूति के साथ कन्याको लेकर आकाश मार्गसे पोदनपुर में आया ॥ ३६ ॥ महाराज प्रजापति राजा

का आना सुनकर बड़े प्रेमसे भारी विभूति के साथ शीघ्रही स्वयं सामने आए ॥ ३७ ॥ उन्होंने श्रीऋषभदेवके गत किया । महाराज प्रजापति ने हर्षसे अपना नगर सजाया, तोरण बांधे और बहुतसी डरसे संघमरूपी बांधी । ऐसे नगरमें वे महाराज ज्वलनजटीको लाए ॥ ३८ ॥ महाराज प्रजापतिने श्रीऋषभदेवके सुखसे योग्य स्थान पर ठहराया और स्नान भोजन आदि सब तरहसे उनका स्वा

वहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ ३६ ॥ तदनन्तर महाराज ज्वलनजटोने रत्नमाला आदिसे सुशोभित ॥ ३५ ॥
 अपने कुटुम्ब परिवारके लोगों को बुलाया और उनको विवाहमें देने योग्य वस्त्र आभूषण दिए ।

तदनन्तर उन्होंने शुभ लग्न और शुभ मुहूर्तमें बड़ी विभूति और भारी उत्सवके साथ त्रिपुष्टके लिए अपना कन्यारत्न समर्पण किया ॥ ४०—४१ ॥ सब राजा जिसकी सेवा करते हैं ऐसा वह प्रथम नारायण त्रिपुष्ट अपने पुण्यकर्मके उदयसे जिसे विद्याधर लोग भी चाहते हैं और जो रूप लावारणसे सुशोभित है ऐसी उत्तम कन्याको पाकर अपने धर्मके फलसे प्राप्त हुए उत्तम भोगोंका भोग करने लगा ॥ ४२ ॥ कहां तो इस पृथ्वीपर वह बड़ा भारी पर्वत और कहां वह विद्याधरोंके राजाकी पुत्री तथापि आश्चर्य है कि वह पुण्यकर्मके उदयसे भूमिगोचरी त्रिपुष्टके घर आ गई । इसलिये विद्वान लोगोंने सदा धर्म सेवन करते रहना चाहिए ॥ ४३ ॥ संसार में चाहे वह पदार्थ दूर हो और चाहे तीनों लोकोंमें कठिनसाध्य हो तथापि धर्मके फलसे प्राणियोंको वह मिल ही जाता है इस लिए श्री ब्रह्महृत्देवका कहा हुआ धर्म सदा धारण करते रहना चाहिए ॥ ४४ ॥ रत्नत्रय से उत्पन्न हुआ धर्म तीनों लोकोंका ईश्वरपना और उत्तम सुखका देनेवाला है पापोंका नाश करनेवाला है तीर्थकरकी विभूति देनेवाला है अत्यंत निर्दोष है स्वर्ग मोक्षको सर्वथा वश करनेवाला है गुणोंका खजाना है तीनों लोकोंमें पूज्य है और कल्याणों की परम्पराको समर्पण करनेवाला है । इसलिये बुद्धिमानों को उसका सेवन सदा करते रहना चाहिए ॥ ४५ ॥ श्रीशान्तिनाथ भगवान् निर्मल हैं । इसलिये स्वर्ग मोक्षके अद्वितीय कारण हैं तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी सेवा करते हैं उत्तम मुनिराज गुणोंके खजाने हैं स्वर्ग मोक्षके सुख देनेवाले हैं और विद्वान लोग भी उनकी पूजा करते हैं इसलिये उन उनकी स्तुति करते हैं सब तरहके सुख देनेवाले हैं और वर्णनकर में उनकी स्तुति करता हूँ ॥ ४६ ॥

इस प्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराण त्रिपुष्ट और स्वयम्भवाके विवाहका वर्णन करनेवाला यह दूसरा अधिकार समाप्त ॥ २ ॥



तीसरा अधिकांश ।

में अपने प्रारम्भ किये हुए कार्यकी सिद्धिके लिये समस्त गुणोंके सागर पांचवे चक्रवर्ती और कामदेव ऐसे सोलहवें तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ तदनन्तर राजा ज्वलनजटीने त्रिष्टुके लिये सिंहवाहिनी और गण्डवाहिनी दो विद्याएं सिद्ध करनेके लिये दीं ॥ २ ॥ इस प्रकार परमोत्सव मनानेवाले वे सब मिलकर अपने अपने पुण्यकर्मके उदयसे उत्तम सुखसागरमें निमग्न हो गये ॥ ३ ॥ इधर अश्व-प्रीवके नगरमें उसके पापकर्मके उदयसे उल्हासान हुआ पृथ्वी चलायल्लाग हुई और इधर उधर दिशाओंमें आग लगने लगी ॥ ४ ॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अंतमें भोगभूमिके आर्य सूर्यको देखकर चकित हुये थे उसीप्रकार वहाँकी प्रजा पहिले कभी न होनेवाले उन तीनों तरहके उपद्रवोंको देखकर चकित हो गई और डर गई ॥ ५ ॥ उन उपद्रवोंको देखकर अश्वप्रीव भी चकित हो गया और मंत्रियोंके साथ बैठकर उसने शतविंदुनामके मतिज्ञानीसे 'यह क्या है ?' इसप्रकार उनका फल पूछा ॥ ६ ॥ वह शतविंदु कहने लगा कि अपने पराक्रमसे जिसने सिंधुदेशमें सिंह मारा है, आपके लिये भेजी हुई भेट जिसने जवदेस्ती छीन ली है और रथनपुरके राजा ज्वलनजटीने अपने पुण्यकर्मके उदयसे: जिसे आपको देनेयोग्य स्त्रीरत्न समर्पण किया है वह मनुष्य आपका अनिष्ट करेगा ॥ ७-८ ॥ उसके ये सब सूचक हैं आप इसका उपाय कीजिये इसप्रकार उस निमित्तज्ञानीका कहा हुआ उस अश्वप्रीव विद्याधरने सुना ॥ ९ ॥ तदनन्तर उसने गुप्तचरोंके द्वारा सिंहका मारना आदि सूना और उस निमित्तज्ञानीकी बातका निश्चय किया ॥ १० ॥ इसके पश्चात् इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसने चिंतगति और मनोगति नामके दो विद्वान् दूत त्रिष्टुके पास भेजे ॥ ११ ॥ वे दोनों दूत शीघ्रही पोदनपुर पहुंचे उन्होंने वहाँके बलवान राजाको देखा और उसके आगे भेट रखकर वे दोनों ही विनयके साथ कहने लगे ॥ १२ ॥ कि हे राजन् ! विद्याधरोंके राजा अश्वप्रीवने आपके आज्ञा दी है कि मैं (अश्वप्रीव) रथावर्त पर्वतपर आज्ञांग आप भी वहां आवें । इयं दोनों आपने

के लिये आये हैं इसलिये उनकी आज्ञा मस्तकपर रखकर शीघ्र चलिये इस प्रकार कहकर वे दोनों ही द्रुत चपु हो रहे ॥ १३—१४ ॥ उन दूतोंकी यह बात सुनकर त्रिष्टुट क्रोध पूर्वक उन दोनों दूतोंसे कहने लगा कि “अश्वघीव (घोड़ेके से मुखवाले) अथवा खरघीव (गधेके से मुखवाले) मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखे हैं इसलिये मैं कौतूहलपूर्वक उनको यहां ही देखना चाहता हूं ।” त्रिष्टुटकी यह बात सुनकर स्वामीकी हित की इच्छा करनेवाले वे दोनों ही दूत कहने लगे ॥ १५—१६ ॥ कि हे राजन ! अनेक राजा जिसकी सेवा करते हैं ऐसा वह विद्याधरों का राजा अश्वघीव आपका तो पक्षपाती है अतएव उसके लिये आपको ऐसे वचन नहीं कहना चाहिये ॥ १७ ॥ यह सुनकर त्रिष्टुट कहने लगा कि वह खग (विद्याधर अथवा पत्नी) हमारा पक्षपाती भले ही हो परन्तु मैं उसे देखनेके लिए उस पर्वतपर नहीं जाऊंगा । यह सुनकर वे दोनों विद्याधर कहने लगे ॥ १८ ॥ कि उस चक्रवर्तीकी अनुपस्थितिमें ऐसे अभिमानके वचन नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब वह आकाशमें खड़ा होगा तब ऐसा कौन राजा है जो उसके सामने खड़ा हो सके ॥ १९ ॥ यह सुनकर त्रिष्टुट कहने लगा कि क्या वह चक्र फिरानेका काम किया करता है और घड़े आदि वर्तन बनाया करता है ? तब तो वह अच्छा शिल्पकार है फिर भला उसे क्या देखना चाहिए ? त्रिष्टुटकी यह बात सुनकर उन दोनों दूतोंने कहा कि यह कथारत्न चक्रवर्तीके योग्य था वह आज तेरे घरमें सड़ रहा है ॥ २०—२१ ॥ इसप्रकार कहकर वे दोनों ही दूत वड़ी शीघ्रतासे निकल गए, शीघ्र ही अश्वघीवके पास पहुंचे और उसको नमस्कारकर सब समाचार कह सुनाया ॥ २२ ॥ त्रिष्टुटकी सब बातें सुनकर अश्वघीव क्रोधित हुआ और बड़े आडंबर तथा सेनाके साथ स्वयं रथावर्तपर्वतपर आपहुंचा ॥ २३ ॥ नगरसे निकलते समय उसके नाशको सूचित करनेवाले पहिलेके समान तीनों तरहके उपद्रव हुए अश्वघीवका आना सुनकर बलभद्र नारायण भी अपनी विभूतिके साथ शीघ्र ही उस पर्वतपर पहुंच गए ॥ २४ ॥ वहांपर दोनों सेनाओंका भारी युद्ध हुआ दोनोंकी सेना समान मारी गई इसलिये उसी समय से यमराजका समवर्ती नाम पड़ गया था ॥ २५ ॥ बहुत देर तक तो युद्ध होता रहा फिर “व्यर्थ ही पियादोंका (सेनाका) नाश करनेसे क्या लाभ है” यह सोचकर

त्रिष्टुट स्वयं युद्ध करनेके लिए शत्रुके सामने गया ॥ २६ ॥ अश्वघोष भी पहले जन्मके बैरसे बंधा हुआ था इस लिए क्रोधित होकर उसने बाणोंकी बृष्टिसो त्रिष्टुटको घेर लिया ॥ २७ ॥ उन दोनोंका समान युद्ध होता रहा दोनोंमेंसे कोई भी एक दूसरेको न जीत सका इस लिए उन दोनोंने अपनी अपनी विद्यासे माया युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ २८ ॥

अश्वघोष पहिले तो बहुत देर तक युद्ध करता रहा परन्तु उसने अपने बैरको छोटे शस्त्रोंसे जीतना असंभव समझा इसलिये उसने रथमेंसे ही शत्रुके ऊपर चक्र चलाया ॥ २९ ॥ परन्तु त्रिष्टुटके पुण्योदयसे वह चक्र त्रिष्टुटकी तीन प्रदक्षिणा देकर उसके दहिने हाथपर आकर ठहर गया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे जीवोंको क्या र प्रात नहीं हो सकता है ॥ ३० ॥ पहिले जन्मके बैर भावोंसे त्रिष्टुटने क्रोधित होकर नरकमें जानेवाले उस शत्रु अश्वघोषको उसी चक्रसे मार दिया ॥ ३१ ॥ वह पापी अश्वघोष धर्म धारण न करनेके कारण तथा रौद्रव्यानके कारण अत्यन्त दुख देनेवाले और बहुतसा आरम्भ तथा परिग्रहसे होनेवाले सातवें नरकमें पहुँचा ॥ ३२ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो इतनी भारी विभूतिको धारण करनेवाला विद्याधरो-का राजा होकर भी पापसे नरक गया फिर भला दूसरे लोग पापोंसे दुर्गतियोंमें दुखके पात्र क्यों नहीं होंगे ? ॥ ३३ ॥ पुण्य कर्मके उदयसे सूर्य चंद्रमाके समान सुशोभित होनेवाले त्रिष्टुट और विजय दोनों ही भाई तीन खंडके स्वामी बन गये थे और वड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ३४ ॥ सब भूमिगोचरी राजाओंने विद्याधरोके राजाओंने और मागध आदि व्यंत्तरोने त्रिष्टुटका राज्याभिषेक किया और इसतरह वह पृथ्वीपर बहुत ही मान्य माना गया ॥ ३५ ॥ त्रिष्टुटने स्वयंप्रभाके पिता ज्वलनजटीको हर्षपूर्वक दोनों श्रेणियोंका स्वामी बनाया सो ठीक ही है क्यों कि पुण्यसे इस पृथ्वीपर क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥ ३६ ॥ देवोंके समूह जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे खड्ग, शंख, धनुष, शक्ति, दंड, चक्र और गदा ये सात रत्न चक्रवर्ती त्रिष्टुटके प्रगट हुए थे ॥ ३७ ॥ मोक्षगामी बलभद्र विजयके रत्नमाला गदा हल और भूसल ये चार महारत्न धर्मके प्रभावसे प्रगट हुए थे ॥ ३८ ॥ पहिले जन्ममें प्राप्त किये हुए पुण्यकर्मके

उदयसे त्रिपुष्टके रूप और लावण्यसे सुशोभित स्वयंप्रभा आदि सोलह हजार देवियां प्राप्त हुई थीं ॥ ३६ ॥ धर्मके प्रभावसे बलभद्रके भी कुल रूप गुणों से सुशोभित सौभाग्यवती आठ हजार देवियां प्राप्त हुई थी ॥ ३७ ॥ धर्मके प्रभावसे उन दोनों भाईयोंके चरण कमलोंको अनेक मुकुटवद्ध राजा मस्तक नवाकर नमस्कार करते थे और उन दोनोंकी आज्ञा पालन करते थे ॥ ३८ ॥ इसप्रकार वे दोनों भाई पुरयकर्मके उदयसे सुखसागरमें मग्न थे और उनके शरीर तीनों खंडोंमें उत्पन्न होनेवाली लक्ष्मीसे सुशोभित थे ॥ ३९ ॥

अथानन्तर—उसी विजयाद्धर्ष पर्वतकी उत्तर-श्रेणिके इन्द्रकान्त नामके शुभ नगरमें मेघवान नामका राजा था ॥ ४० ॥ पुरयकर्मके उदयसे उसके अच्छे लक्षणोंवाली मेघमाला नामकी रानी थी । उन दोनोंके सुन्दर-मुखी ज्योतिर्माला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी ॥ ४१ ॥ वह ज्योतिर्माला विद्याधरोंके स्वामी ज्वलनजटीके पुत्र अर्ककीतिने बड़े उत्सव और विधिके साथ विवाही थी ॥ ४२ ॥ उन दोनोंके अमिततेज नामका पुत्र हुआ था जोकि बहुत ही सुलक्षण था और कामदेवके समान रूप लावण्य और सौभाग्यसे सुशोभित था ॥ ४३ ॥ पुरयकर्मके उदयसे बाल चंद्रमाके समान वह कुमार अवस्थाको प्राप्त हुआ, शस्त्र और शास्त्रसे उत्पन्न होनेवाली सब विद्यायें उसने पढ़ीं और अनुक्रमसे वह यौवन अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ संसारके सुखोंमें अनुरक्त होनेवाले उन्होंने अर्ककीर्ति और ज्योतिर्मालाके सुतारा नामकी पुत्री हुई जोकि रूप और लक्षणोंसे बड़ीही सुशोभित थी ॥ ४५ ॥ इधर त्रिपुष्ट और स्वयंप्रभाके श्रोविजय और जयभद्र नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे और ज्योतिप्रभा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी ॥ ४६ ॥ इसप्रकार महाराज प्रजापतिकी बहुतसी विभूतियां प्राप्त हुई थीं । किसी एक दिन काल लब्धि प्राप्त होनेसे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे विचार करने लगे ॥ ४७ ॥ कि यह राज्य अनेक जीकोंके साथ शत्रुता उत्पन्न करनेवाला है, भयानक है, पाप और संतापका घर है तथा बग बंधन आदिसे उत्पन्न होनेवाला घोर दुखका पात्र है इसलिए इसको धिक्कार हो ॥ ४८ ॥ यह लक्ष्मी अनेक चिंताओंको उत्पन्न करनेवाली है पाप दुख और शोक प्रगट करनेवाली है तोत्र दुखोंसे उत्पन्न होनेवाली है और नरक देनेवाली है इसलिये इससे कभी सुख नहीं मिल

सकता ॥ ५२ यह स्त्री भी दुर्गति देनेमें बड़ी कुशल है, मोह उत्पन्न करनेवाली है, भयानक है, निय है और सप्त धातुओं से बनो हुई है ऐसी स्त्रीको भला कौन बुद्धिमान सेवन करेगा ॥ ५३ ॥ ये पुत्र मनुष्यों को बांधने के लिये पाश (जाल) के समान इस लोक और परलोक दोनों लोकों में कठिन दुख देनेवाले और धन धान्य आदि सब विभूतिको खा जानेवाले उत्पन्न होते हैं ॥ ५४ ॥ जिसप्रकार आमके अच्छे पकनेपर उस पेड़पर आम खानेके लिए वह तसे पची आ बैठते हैं और फल नष्ट हो जानेपर उसको छोड़कर सब अपने-अपने ठिकाने चले जाते हैं उसीप्रकार धनी कुलमें भोग भोगने के लिये सब कुटुंबी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अंतमें उसको छोड़कर चारों गतियों में चले जाते हैं ॥ ५५-५६ ॥ यह शरीर अन्न पान आदि द्रव्यों से तथा वस्त्र आभरणों से पुष्ट किया हुआ भी जीवके साथ दुष्टों का सा व्यवहार किया करता है ॥ ५७ ॥ ये भोग नरक के दुख देनेवाले हैं, पाप रोग क्लेश आदि के कारण हैं दुख पूर्वक प्राप्त होते हैं और बुद्धिमानों के द्वारा निंद्य गिने जाते हैं ऐसे इन भोगों से भला संसारमें कौन सुखी हो सकता है ॥ ५८ ॥ यह अनादि संसार दुखों से भरा हुआ है सुखरहित है अनंत है और भयानक है ऐसे इस संसारमें कौन ज्ञानी पुरुष भला प्रेम करेगा ॥ ५९ ॥ हाथमें रखे हुए पानीके समान जीवोंकी आयु क्षण क्षणमें नष्ट होती रहती है फिरभी परलोकके लिये हित चाहनेवाले लोग अपना कल्याण क्यों नहीं करते ? ॥ ६० ॥ जब तक आयु नष्ट न हो जाय, जबतक बुढ़ापा न आजाय और जब तक इन्द्रियों समर्थ बनी रहें तब तक जीवोंको अपना हित कर लेना चाहिये ॥ ६१ ॥ जिसप्रकार घरमें आग लग जानेपर कूआ नहीं खोदा जाता उसीप्रकार जब मृत्यु आजाती है तब यह जीव कुछ भी धर्म नहीं करसकता ॥ ६२ ॥ इसप्रकार वह बुद्धिमान् राजा संसारकी विचित्रताका चिंतन कर कर्मरूप शस्त्रोंके भी शत्रु, ऐसे दूगुने वैराग्यको प्राप्त हुआ ॥ ६३ ॥ तदनंतर वह राजा अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुराने तिनकेके समान न कुटुंब्व और राज्य लक्ष्मीका त्याग कर पिहिताखव मुनिके समीप पहुंचा ॥ ६४ ॥ वे मुनिराज सब तरहके परिश्रमोंसे रहित थे, परन्तु गुणरूपी संपदासे रहित नहीं थे वे सब जीवोंका हित करनेवाले थे और पूज्य

थे ऐसे मुनिराजको नमस्कार कर तथा मन वचन कायकी शुद्धि पूर्णक सब तरहके परिग्रहों का त्यागकर महाराज प्रजापतिने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये गुरुके वाक्यानुसार संयम धारण किया ॥ ६५-६६ ॥ तदनंतर वे मुनिराज अपनी शक्तिको प्रगट कर कर्मोंको संतानको नाश करनेवाला बाह्य आभ्यन्तरके भेदसे बारह प्रकारका घोर तपश्चरण करने लगे ॥ ६७ ॥ उन्होने बहुत दिन तक अत्यन्त दुष्कर और इरपोक लोगोंको भय देनेवाला तपश्चरण किया और आयुके अन्तमें अपना चित्त ध्यानमें लगाया ॥ ६८ ॥ उन मुनिराजने सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वका, संयमसे असंयमका और अप्रमत्त अवस्थासे प्रमादका नाश किया और वे क्षपकश्रेणी चढ़ गए ॥ ६९ ॥ उन्होने शुक्लध्यानसे मोहनीय कर्मको और फिर अनुक्रमसे ज्ञानवरण दर्शनावरण अन्तराय इन बाकीके तीनों घातिया कर्मोंका नाश किया और फिर वे छद्मस्थ अवस्थाको छोड़कर केवलज्ञानरूपी परमज्योतिको प्राप्त हुए ॥ ७० ॥ इन्द्रादि देवोंने आकर उनकी पूजाकी और वे केवली भगवान आघातिया कर्मोंका नाशकर सुख देनेवाले मोक्षमें जा विराजमान हुए ॥ ७१ ॥ महाराज प्रजापतिकी यह कथा ज्वलनजटोने भी सुनी और उनकी बड़ी स्तुतिकी । तदनंतर वे विचार करने लगे कि महाराज प्रजापति धन्य हैं, जिन्होंने अपना उत्तम घर भी छोड़ दिया । मैं मूर्ख बालकोंके समान भोगोंमें लोलुप हुआ अवतक निन्द्य पापोंकी खानि और नरक देनेवाले शहस्याश्रममें पड़ा हूँ ॥ ७२-७३ ॥

इसप्रकार उन्होने अपनी निंदाकी और सज्जनोंको त्याग करने योग्य राज्य अर्ककीर्तिको दिया तदनन्तर वे मुनिराज जगन्मन्दनके समीप पहुँचे ॥७४॥ उन्होने मोक्षकी इच्छा रखनेवाले धीर वीर मुनिराजको नमस्कार किया और उन मुनिराजके वचनोंके अनुसार देवोंके द्वारा पूज्य ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवका नम्र रूप अच्छे परिणामोंसे धारण किया ॥ ७५ ॥ वे मुनिराज कर्मोंको नाश करनेके लिए जमा, श्रेष्ठमादं, उत्तम आर्जव, सत्य, शौच, उत्तम संयम, श्रेष्ठ तप, सुखकी खानि त्याग, आर्किकचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ऐसे दश प्रकारके धर्म धारण करने लगे ॥ ७६-७७ ॥ वे मुनिराज ग्यारह अंग चौदह पूर्वसे उत्पन्न हुए ज्ञानका अभ्यास करने लगे, धर्मध्यान और शुक्लध्यान दोनों उत्तम ध्यान करने लगे और अत्यंत घोर तथा उत्तम तपश्चरण

करने लगे ॥ ७८ ॥ उन्होंने आत्मध्यानरूपी अधिसे घातिया कर्मरूपी ईधनको जला दिया और लोक अ-
 लोक दोनोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ७९ ॥ तदन्तर तीनों लोकोंने ईश्वरपनेको
 प्रकट करनेवाली पूजा प्राप्तकी और फिर सुखका सागर तथा आत्माके आठों गुणोंसे विराजमान निर्वाण
 प्राप्त किया ॥ ८० ॥ अथानंतर—किसी एक समय त्रिष्टुप्ने अर्ककीतिके पुत्र अमिततेजके लिये अपनी
 सुख देनेवाली द्योतिप्रभा नामकी कन्या पीलिपूर्वक स्वयम्बर विधिसे दे दी थी ॥ ८१ ॥ तथा अर्ककीतिकी
 पुत्री सुतारा स्वयंवरकी मनोहर विधिपूर्वक बड़े प्रेमसे त्रिष्टुप्के पुत्र श्रीविजयकी अर्धांगिनी बन गई थी
 ॥ ८२ ॥ इसप्रकार संतान दर संतानसे जिनका परस्पर संबंध चला आरहा है ऐसे वे सब भाई पुरयकर्कके
 उदयसे प्राप्त हुई और संतान दर संतानका कल्याण करनेवाली लक्ष्मीको प्राप्त हुए थे ॥ ८३ ॥ जिसप्रकार पानीमें
 लोहा सबसे नीचे जाकर बैठ जाता है उसीप्रकार बहुतेसे आरंभ और परिग्रहके भारसे वह त्रिष्टुप् नारायण सातवें
 नरकरूपी समुद्रमें जा डूबा था ॥ ८४ ॥ वहाँपर उसने तेतीस सागर तक जिनकी न कोई उपमा दी जा सकती
 है और न जो वाणीसे कहे जा सकते हैं ऐसे अत्यन्त घोर दुख भोगे थे ॥ ८५ ॥ आचार्य कहते हैं कि
 देखो, यदि ऐसे चक्रवर्तीको भी पापोंसे नरक जाना पड़ा तो फिर अशुभ कार्योंसे अन्य साधारण लोग
 नरकरूपी खारे समुद्रमें क्यों न डूबेंगे ? ॥ ८६ ॥ देखो इन भोगोंके कारण चक्रवर्तीकी भी ऐसी अवस्था हुई
 कि भला सर्पके समान इन भोगोंमें ऐसा कौनसा ज्ञानी है जो तल्लीन हो जाय ॥ ८७ ॥ यदि राज्यसे ऐसी
 अवस्था हुई तो फिर दुःख देनेवाले उस राज्यको धिक्कार हो तथा यदि राज्यलक्ष्मीसे ही नरककी प्राप्ति हो-
 ती है तो उस लक्ष्मीको दुष्ट स्त्रीके समान बुद्धिमानोंको छोड़ देना चाहिये ॥ ८८ ॥ नारायणके वियोगसे
 बलभद्रको भी बड़ा भारी शोक हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें इष्ट वियोगसे क्या र नहीं होता
 है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥ ८९ ॥ परचात् उन बुद्धिमानने कुटुम्ब और राज्यसंपदाको विजलीके समान
 चंचल समझा और इसप्रकार उन धीरे धीरे शोकका नाश किया ॥ ९० ॥ उन्होंने बुद्धिमानोंको त्याग कर-
 ने योग्य ऐसा राज्य तो श्रीविजयके लिये दिया और युवराजपद विजयभद्रके लिये

वैराग्यमें तत्पर वे बलभद्र शीघ्र ही मुक्तिरूपी स्त्रीके स्वामी ऐसे सुवर्णकुम्भ नामके मुनिराजके समीप पहुँचकर ॥ ६२ ॥ उन्होंने उन मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणा दीं मस्तक भुंकाकर उन्हें नमस्कार किया और मुनिराज ज्ञान आदेशानुसार सात हजार राजवोंके साथ संयम धारण किया ॥ ६३ ॥ उनसे शुक्लध्यानरूपी शस्त्रसे घाति उसके कर्मोंका नाश किया और इन्द्रादिकोंके द्वारा पूज्य ऐसे अनगर केवलीका पद प्राप्त किया ॥ ६४ ॥ इन्होंने अर्ककीर्तिने भी बलभद्रकी उत्तम कथा सुनकर उनकी बड़ी स्तुतिकी और विचार किया कि वे बड़े धैर्य धन्य हैं जिन्होंने तप धारण किया ॥ ६५ ॥ यद्यपि मैं बुद्धिमान हूँ तथापि अत्यन्त निबिड, चारों गतियोंमें परित्रमण करानेवाले, दुष्ट पापका कारण और बुरी तरहसे त्याग करने योग्य ऐसे ग्रहस्थाश्रममें मैं कैसे ही ठहर रहा हूँ ॥ ६६ ॥ इसप्रकार अपनी निंदाकर वह वैराग्यको प्राप्त हुआ और बुद्धिमानोंको त्याग करके योग्य राज्य अमिततेजको समर्पण किया ॥ ६७ ॥ वह रागद्वेष रहित होकर शीघ्र ही राजा और देवोंके द्वारा से पूज्य तथा आकाशगामी ऐसे विपुलमति नामके चारणमुनिके समीप पहुँचा ॥ ६८ ॥ उसने मुनिराजके दोनों चरण कमलोंको नमस्कार किया सब तरहके परिग्रहोंका त्याग किया और मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेवाली जिनदीचा धारण की ॥ ६९ ॥ उन्होंने बारह प्रकारका तपश्चरण किया और सुक्लध्यानरूपी तलवारसे घातिया कर्मोंको नाशकर केवलज्ञानसे प्रगट हुआ राज्य प्राप्त किया ॥ १०० ॥ तदनन्तर उन्होंने बड़े २ अतिशयोंसे सुशोभित, इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्यशुभ और अनन्त सुख देनेवाली मुक्तिरूपी स्त्रीको प्राप्त किया ॥ १०१ ॥ अथानन्तर-पुरायकर्मके उदयसे अमित तेज और श्रीविजयका सुखदायी समय बड़े प्रेमसे व्यतीत होने लगा ॥ २ ॥ किसी एक दिन कोई एक पुरुष श्रीविजयके दरवारमें आया और आशीर्वाद देकर जोरसे कहने लगा कि राजन् मेरी बात सुनिये ॥ ३ ॥ आजसे सातवें दिन पोटनपुरके राजके मस्तकपर वज्र पड़ेगा ऐसा निश्चय समझकर शीघ्र ही इसका उपाय कीजिये ॥ ४ ॥ यह सुनकर युवराज क्रोध पूर्वक कहने लगा कि तू क्या जाननेवाला है इसलिये बता तो सही कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा ॥ ५ ॥ युवराजकी बात सुनकर वह आगंतुक पुरुष कहने लगा कि मेरे मस्तकपर अभिवक्के साथ रत्नोंकी वर्षा हागे। इन

जानना व्यंजन नामका निमित्तज्ञान कहलाता है ॥ २२ ॥ श्रीबृहन्न स्वस्तिक (सांथिया) आदि शरीरपर उत्पन्न हुए एकसौ आठ लक्षणोंसे भोग ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण नामका निमित्तज्ञान है ॥ २३ ॥ वन्न शास्त्र आदिकोंमें चूरे आदिके द्वारा देव मनुष्य और राक्षसोंके भेदसे छेद करना तथा उसके द्वारा उसका फल कहना छिन्न नामका निमित्तज्ञान है । शुभ और अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारके हैं उन्हें देखकर मनुष्योंकी वृद्धि नाश आदिका यथाथ कथन करना स्वप्न नामका निमित्तज्ञान है ॥ २५ ॥ हे राजन् इसप्रकार मैंने संक्षेपसे आठ निमित्तज्ञान कहे हैं ये सब मनुष्योंके सुख दुखकी सूचना देनेवाले हैं ॥ २६ ॥ भूख प्यास शीत उष्ण आदि वाईस परिषहोंको न सह सकनेके कारण मैं उनसे दुखी हो गया और ऐसी ही अवस्थाओंमें पद्मिनीखेट नगरमें आया ॥ २७ ॥ पाप कर्मके उदयसे दुष्टमन्दभागी और पापी मैंने सब तरहके सुख देनेवाली जिनमुद्रा छोड़ दी ॥ २८ ॥ वहांपर सोमशर्मा नामके मेरे मामाने बड़े प्रेमसे हिरण्यलोमासे उत्पन्न हुई चन्द्रानना नामकी अपनी पुत्री करे साथ ब्याह दी ॥ २९ ॥ मैं वहांपर कुछ कमाता तो था नहीं सदा निमित्त शास्त्रका ही अभ्यास करता रहता था और इधर उसके पिताका दिया हुआ सब धन निवट चूका था इसलिये वह मुझे देखकर कुछ विरक्त सी हो गई थी ॥ ३० ॥ दूसरे दिन भोजनके समय उत्पत्ति क्रोधसे मेरी थालीमें मेरा इकट्टा किया हुआ कौड़ियोंका समूह पटक दिया और कहा कि येही तुम्हारा कमाया हुआ है ॥ ३१ ॥ मेरी थाली स्फटिकके समान थी उसमें वे कौड़ियां सूर्यकी किरणोंके समान जान पड़ती थीं तथा मेरी छीने हाथ भी धोए थे इसलिये कौड़ी डालते समय उसमें पानीकी धारा भी पड़ रही थी । इन सब बातोंको देखकर मैंने निश्चय करलिया कि संतोष-पूर्वक मेरा अभिषेक होगा और मुझे धन भी मिलेगा । हे राजन् आज आपको यह समाचार अमोघजिह्वने भेजा है ॥ ३२-३३ ॥ उस निमित्तज्ञानकी यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर राजा चिंतासे व्यकुल हो गया और उसको विदाकर मंत्रियोंसे इस प्रकार कहने लगा ॥ ३४ ॥ कि इस निमित्तज्ञानकी बातका निश्चय वा निर्णय करना चाहिये और फिर उसका उपाय करना चाहिये क्योंकि जड़का नाश असंयत शास्त्र ही होनेवाला होता फिर उसका उपाय करनेके लिये कौन

देर करेगा ॥ ३५ ॥ राजाकी यह बात सुनकर सुमति नामका मन्त्री कहने लगा कि हे राजन् धर्म सेवन करते हुए यत्नपूर्वक लोहेकी पेटीमें बैठ कर समुद्रके मयमें रहना चाहिये ॥ ३६ ॥ सुमति मन्त्रीकी यह बात सुनकर सुबुद्धि नामका मन्त्री कहने लगा कि समुद्रमें रहना ठीक नहीं है क्योंकि वहां मगरमच्छोंका डर है इसलिये विजयाञ्चल पर्वकी गुफामें रहना ठीक है ॥ ३७ ॥ सुबुद्धि मन्त्रीकी यह बात सुनकर पहिली सब बातोंका जाननेवाला बुद्धिमान बुद्धिसागर मन्त्री एक प्रसिद्ध कथा कहने लगा ॥ ३८ ॥ इसी भरतक्षेत्रके सिंहपुर नगरमें एक सोम नामका शानी किन्तु कुबुद्धि परित्राजक रहता था जो कि खोटे शस्त्रोंके अभ्याससे बड़ा ही अभिमानी था ॥ ३९ ॥ किसी एक दिन वह वाद विवादमें जिनदाससे हार गया समय पाकर वह मरा और उसी सिंहपुर नगरमें एक भारी भैंसा हुआ ॥ ४० ॥ खोटे शस्त्रोंके अभ्याससे उत्पन्न हुए पाप कर्मोंके उद-यसे वह एक छोटे व्यापारीके घरमें आया वहांपर वह बहुत थक गया और नमक आदि बहुत सा बोझा ला-दता रहा ॥ ४१ ॥ जब वह भैंसा बहुत थक गया और बोझा लादने योग्य नरहा तब उस व्यापारीने भी उसकी ओर उपेक्षाकी दृष्टि कर दी और उसे घास पानी देना बंद कर दिया ॥ ४२ ॥ कुछि फट जानेके कारण वह मरा और अशुभ बैर बांधकर किसी नगरके रमशानमें राक्षस हुआ । वहां उसे जातिस्मरण भी हुआ था ॥ ४३ ॥ उसी नगरमें कुम्भ भीम राज्य करते थे । पापकर्मके उदयसे कुंभ सदा भयानक नरकको ले जाने-वाले मांसमें (मांस खानेमें) तल्लीन रहता था ॥ ४४ ॥ कुंभके रसोइयाका नाम रसायनपाक था । किसी एक दिन उस रसोइयाको दुख देनेवाला पशुका मांस नहीं मिला इसलिये उसने राजाके डरसे किसी मरे हुए बालकका मांस उससे खानेके लिये दे दिया ॥ ४५ ॥ उसी दिनसे वह पापी मनुष्यके मांस खानेका लोलुपी हो गया था ॥ ४६ ॥ नरक गतिमें जानेवाले और नरमांसके लोलुपी उस कुम्भने स्वयं नरमांस खाना प्रारंभ किया ॥ ४७ ॥ इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं कि राजा प्रजाकी रक्षा करनेवाला है परन्तु प्रजाकी रक्षा करना तो दूर रहा वह पापी अपनी प्रजाको खाने लगा था ॥ ४८ ॥ यही समझकर मंत्रियोंने उस पापीका

परित्याग कर दिया था। सो ठीक ही है क्योंकि दुख देने वाला पापका घोर फल इसी जन्ममें मिल जाता है ॥ ४६ ॥ उस रत्नोद्धारके दिये हुए मांससे जीवित रहने वाले उस क्रूर राजाने उसी अपने रसोद्धारको मार-
 कर ऐसी विद्या सिद्धकी जिससे वह ऊपर लिखा हुआ भैंसाका जीव राक्षस उसके वशमें हो गया ॥ ५० ॥
 वह दुष्ट कुनिर्दयी और नरक जाने वाला कुम्भ उसी नगरमें चारों ओर घूमने लगा और उस राक्षसकी सहाय-
 तासे अपनी अच्छी प्रजाको खाने लगा ॥ ५१ ॥ उस समय उसके भयसे उसकी सब प्रजा अपनी रक्षा
 करनेके लिये वड़ी शीघ्रताके साथ उस नगरको छोड़ कारकट नामके नगरमें चली गई थी ॥ ५२ ॥ परन्तु
 वह पापी वहां आकर भी प्रजाका खूब भक्षण करने लगा था इसलिये उसी समयसे उस नगरका नाम कुम्भ-
 कारकट नगर पड़ गया था ॥ ५३ ॥ वह पापी जिस मनुष्यको देखता था उसीको खा जाता था इससे डरकर
 वहांकी प्रजाने उसको एक जगह ठहरनेका प्रवन्ध किया और उसके खानेके लिये एक मनुष्य और एक
 गाड़ी अन्न प्रतिदिन देना स्वीकार किया ॥ ५४ ॥ उसी नगरमें एक चन्द्रकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था
 और संसारको बढ़ाने वाली उसकी स्त्रीका नाम सोमश्री था ॥ ५५ ॥ दोनोंके पुण्य कर्मके उदयसे तथा
 बहुत दिन तक भूतोंकी उपासना करनेसे मंडकौशिक नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ५६ ॥ किसी एक दिन
 वह भयभीत मण्डकौशिक पाप कर्मके उदयसे गाड़ीपर बैठे हुए कुम्भके भोजनके लिये जा रहा था ॥ ५७ ॥
 देवयोगसे उसी मार्गसे भूत जा रहे थे उन भूतोंने उस ब्राह्मणको पकड़ लिया परन्तु कुम्भ हाथमें दण्डा
 लेकर आया और उसने उन सब भूतोंको फटकार लगाई ॥ ५८ ॥ उस कुम्भके डरसे भूतोंने उस ब्राह्मणको
 किसी बिलमें (गढ़में) रख दिया और वे स्वयं सब भाग गए ॥ परन्तु अशुभ कर्मके उदयसे उस ब्राह्मणको
 वहां एक अजगर निगल गया (खा गया) ॥ ५९ ॥ आचार्य करते हैं कि देखो कर्मरूपी शत्रुओंसे बन्धा हुआ
 यह प्राणी अनेक दुखोंकी परंपराको भोगता रहता है, और जब तक वह कठिन तपश्चरण नहीं करता तब
 तक वह कभी उन दुखोंसे नहीं छूट सकता ॥ ६० ॥ इसलिये हे राजन् ! विजयाह्व पर्वतकी गुफामें अनेक
 भय- ॥ ६१ ॥ इसलिये आपकी उसमें रहना सर्वथा अनुचित है इसके लिये तो कुछ और ही अच्छा

उपदेर करेगा ॥ ३५ ॥
दाना चाहिए ॥ ६१ ॥

उसकी इस कथाको सुनकर सूदम बुद्धिवाला मतिसागर नामका मन्त्री कहने लगा कि उस निमित्तज्ञानीने यह नहीं कहा है कि महाराज श्रीविजयके ऊपर वज्र गिरेगा उसने तो यह कहा है कि पोदनपुर नगरके स्वामीके ऊपर वज्र गिरेगा । इसलिए जब तक यह विघ्न दूर न हो जाय तब तक इस नगरका राजा किसी और को बना लेना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥ मतिसागरकी यह बात सब श्रेष्ठ मंत्रियोंने मान ली और सन्ने मिलकर स्वयं राज्यसिंहासनपर एक यक्षका प्रतिविम्ब स्थापन किया ॥ ६४ ॥ तथा सबने कहा कि आजसे पोदन नगरका राजा तूही है यह कहकर सबने उसकी पूजाकी इधर महाराज श्रीविजयने भी राज्य और भोगोपभोगोंकी सब संपदाएं छोड़ दीं ॥ ६५ ॥ तदनंतर वह चैत्यालयमें गया और शान्तिकेलिये सब तरहके विघ्नोंको दूर करनेवाली श्री जिनविम्बकी महापूजा करने लगा ॥ ६६ ॥ वह राजा सुपात्रोंके लिये समस्त अनिष्टोंको दूर करनेवाला दान देने लगा तथा दीन और अनाथ लोगोंको करुणादान देने लगा ॥ ६७ ॥ वह एकाम्रचित्तसे समस्त विघ्नोंको दूर करनेवाले और पंच परमेष्ठिके वाचक ऐसे पंच नमस्कार मंत्रका जप धार २ करने लगा ॥ ६८ ॥ उसने अन्य सब कार्य छोड़ दिये और वह जिन मंदिरमें बैठकर प्रतिदिन विघ्नोंको दूर करनेवाला धर्मध्यान करने लगा ॥ ६९ ॥ यह बात ठीक है कि धर्मसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे, पात्रोंको दान देनेसे और नमस्कार मंत्रके जपके फलसे सब तरहके विघ्न दूर हो जाते हैं ॥ ७० ॥ यही समझकर वह मंत्रियोंका समूह जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर, नित्य ही जपकर तथा दान देकर शान्तिकर्म करने लगा ॥ ७१ ॥ राजाके सब कुटुम्बी लोग विघ्न दूर करनेके लिये दान पूजासे उपन्न हुआ तथा शान्ति करनेवाला धर्मसेवन प्रतिदिन करने लगे ॥ ७२ ॥ नगरमें पूजाके लोग भी शान्तिके लिए दान जिनपूजा और महामंत्रका जप आदिसे अनेक गुणोंका भंडार ऐसा पुण्य सम्पादन करने लगे ॥ ७३ ॥ इसप्रकार उस नगरमें धर्मकी प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ गई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिसप्रकार वज्रसे पर्वत चूर चूर हो जाते हैं उसी प्रकार धर्मसेवनसे सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं ॥ ७४ ॥ सातवें दिन उस राज्यसिंहासनपर बौठी हुई यक्षकी प्रतिमाके मस्तकपर अकस्मात् बड़ा भारी शर्करा करता हुआ और अत्यन्त निष्ठुर ऐसा वज्रपात हुआ ॥ ७५ ॥

इसप्रकार जब वह उपद्रव नष्ट हो गया तब वे नगर निवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और पूजा दान व्रत आदिके द्वारा द्विशुणित धर्म सेवन करने लगे ॥ ७६ ॥ लोग बड़े ही प्रसन्न हुए उन्होंने उस नगरमें सब और तोरण बांधे तथा चारों ओर बड़े बड़े नगारे वजवाये इसप्रकार उन्होंने बड़ा भारी उत्सव मनाया ॥ ७७ ॥ उस विघ्नके शांत हो जानेसे राजाको धर्मका भारी निश्चय होगया और अपने किए हुए धर्मका प्रत्यक्ष फल देख लेनेसे वह बहुतही प्रसन्न हुआ ॥ ७८ ॥ राजाने संतुष्ट होकर उस निमित्त ज्ञानीको बुलाया उसका आदर सत्कार किया और पद्मखेटके साथ साथ उसे सौ गांव दिये ॥ ७९ ॥ सब उत्तम मंत्रियोंने भक्ति और विधि पूर्वक भगवान् जिनेन्द्रदेवकी शांति पूजाकी और फिर शांति देनेवाला महाभिषेक किया ॥ ८० ॥ पुरायकर्मके उदयसे सोनेके कलशोंसे राजाका अभिषेक किया और उसे सिंहासनपर विराजमान कर फिर उसे अपने राज्यका स्वामी बनाया ॥ ८१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए धर्मका सेवन करनेसे उत्पन्न हुये पुराय कर्मके उदयसे अनेक तरहके दुःख और शोक देनेवाला तथा मनुष्योंका नाश करनेवाला समस्त विघ्नोका समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ८२ ॥ यह मनुष्य धर्मके प्रभावसे सुन्दर स्त्रियां प्राप्त करता है धर्मके ही प्रभावसे अच्छे सुख प्राप्त करता है धर्मके ही प्रभावसे बड़ी भारी राज्य विभूतिको प्राप्त होता है और धर्मके ही प्रभावसे परलोकमें स्वर्गके सुख प्राप्त करता है ॥ ८३ ॥ धर्मके प्रभावसे मनुष्योंके अत्यन्त तीव्र, मनुष्य देव और सर्प आदिसे उत्पन्न होने वाले अग्नि जल आदिसे उत्पन्न होनेवाले और आकस्मिक ऐसे उन मनुष्योंको नष्ट करनेवाले अनन्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं ॥ ८४ ॥ संसारमें यह धर्म सवतरहके सुख देनेवाला है जीवका भला करनेवाला है स्वर्गमोक्षको प्राप्त करनेवाला है श्रीतीर्थंकरकी परम विभूतिको देनेवाला है गुणीका निधि है पापोंका नाश करनेवाला है समस्त अनिष्टोंको नाश करने वाला है और विद्वानोंके द्वारा सेवन करने योग्य है इसलिये गुणी पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त पापोंको छोड़कर सदा धर्मका सेवन करते रहना चाहिये ॥ ८५ ॥ श्री शांतिनाथ भगवान् जरारहित हैं देवोंके द्वारा पूज्य है समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेके लिए दीपकके समान है, इन्द्रिय दमन

शांति और संघसके स्थान हैं सब तरहके सुख देने वाले हैं समस्त दोषोंसे रहित हैं और स्वर्ग मोक्षके कारण हैं ऐसे श्री शांतिनाथ भगवानकी निर्मल और समस्त कीर्तिका वर्णन कर में उनकी स्तुति करता हूँ ॥ ८६ ॥

इसप्रकार शांतिपुराणमें अमिततेजकों राज्य प्रजापति, ज्वलनजटीका मोक्षगमन, श्रीविजयके विघ्नोंको दूर करनेका ३ या अधिकार समाप्त । ३ ॥

अथ चौथा आधिकार ।

ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले घातिया कर्मोंको शांत करने के लिए संसारभरमें शांति स्थापन करने वाले श्री शांतिनाथ जिन्हें द्रुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अथानंतर किसी एक दिन श्रीविजयने माता के उपदेशसे अपना कार्य सिद्ध करने के लिये आकाशगामिनो विद्या सिद्ध की ॥ २ ॥ उस विद्याकी सहायतासे वह राजा सुतारके साथ विमानमें बैठकर क्रीड़ा करने के लिए ज्योतिर्वनमें गया ॥ ३ ॥ वहाँपर वह अपनी रानीके साथ मनोहर नामके वनमें आनन्दसे इच्छानुसार लीलापूर्वक विहार कर रहा था ॥ ४ ॥ इधर चमरचंब नामके नगरमें विद्याधरोंका राजा इंद्राशनि राज्य करता था उसके पुण्यकर्मके उदयसे उसे आसुरी नामकी रानी मिली थी ॥ ५ ॥ उन दोनोंके अशनिघोष नामका पुत्र हुआ था उसने भी आकाशगामिनी विद्या सिद्धकी थी और उससे वह आकाशमार्गसे अपने नगरको आ रहा था ॥ ६ ॥ उस वनमें सुतारको देखकर उसपर वह मोहित हो गया और उसे लेजानेका उद्योग करने लगा उसने श्रीविजयको एक वनावटी हिरण दिखलाया ॥ ७ ॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह श्री विजय क्रीड़ापूर्वक उस हिरणके पीछे चला गया और वह पापी अशनिघोष अपना श्रीविजयकासा रूप बनाकर आकर सुतारसे कहने लगा ॥ ८ ॥

हे सुन्दरी प्रिये ! वह हिरण तो वायुके समान उड़ गया परन्तु मैं लौट आया । अब सूर्य भी डूबनेको हुआ इसलिए चलो घर चलें ॥ ९ ॥ इसप्रकार कहकर उस पापी विद्याधरने उस सुतारको अपने विमानमें ठा लिया और थोड़ी दूर जाकर उसे अपना निजी रूप दिखला दिया उसके रूपको देखकर वह बहुत ही क्रुल हो गई और कहने लगी कि यह पापी दुष्ट मूर्ख कौन है जो मुझे ले आया है ॥ ११ ॥ इधर अश-

निवेगकी आज्ञासे वैतालीविद्या सुताराका रूप बनाकर उसकी जगह बैठ गई थी ॥ जब श्रीविजय उधरसे लौटा और सुताराको (वैतालीको) खेद खिन्न देखा तो उसने उससे पूछा कि हे सुन्दरमुखी ! यह तेरी अवस्था ऐसी दुखको सूचित करने वाली क्यों हो रही है ॥ १३ ॥ इसके उत्तरमें उस वैतालीने कहा कि नाथ ! मुझे कुम्भकृत सर्पने काट लिया है यह कहकर उस दुष्टाने मायाचारीसे (विद्यासे) अपना मरने का रूप बना लिया ॥ १४ ॥ पौदनपुरके राजाश्री विजयका हृदय बहुतही कोमल था इसलिये उस विपको मणिमंत्र औपधिआ दिके द्वारा असाध्य जानकर वह उसके साथ मरनेके लिए तैयार हुआ ॥ १५ ॥ उसने लकड़ी इकट्ठीकर चिता बनाई उसमें सूर्यकांत मणिसे अग्नि लगाई और शोकसे व्याकुल होकर वह स्वयं रानीके साथ उसमें जा बैठा ॥ १६ ॥ उसी समय उसके पुण्यकर्मके उदयसे उस उण्डवकी नष्ट करनेवाले कोई दो उत्तम विद्याधर वहांपर आ पहुंचे ॥ १७ ॥ उन दोनोंमेंसे एकने अपने पराक्रमसे उलटी तरहसे विच्छेदनी विद्याका स्मरणकर उस वैताली विद्याको मार भगाया ॥ १८ ॥ वह वैताली विद्या उसके सामने ठहर न सकी इसलिये राजा श्रीविजयको अपना निजी रूप प्रकट दिखाकर अदृश्य हो गई ॥ १९ ॥ यह सब तमाशा देखकर राजाको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और उसने उस विद्याधरसे पूछा कि यह क्या है ? इसके उत्तरमें वह विद्याधर कहने लगा कि ॥ २० ॥ इसी जम्बूद्वीपके भरतखेत्रमें पुण्यवान और सुन्दर ऐसे विजयाह्व पर्वतके दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिप्रभ नामका सुन्दर नगर है । वहांका मैं संभिन्न नामका राजा हूं और पुण्य कर्मके उदयसे मेरी सर्व कल्याणी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ यह द्वीपशिख नामका मेरा पुत्र है ॥ २१-२२ ॥ मैं सदासे विद्या और श्रेष्ठपुण्यसे शोभायमान तथा सर्वोत्तम ऐसे अश्रिततेज नामके विद्याधरका अटुचर बना आ रहा हूं ॥ २३ ॥ आज मैं पुण्य सम्पादन करनेके लिए सुमेरु आदि पर्वतोंपर यात्रा कर आकाश मार्गसे आ रहा था नागमें मैंने एक विमानमें शोकके शब्द सुने ॥ २४ ॥ वे शब्द छीके थे और घड़ी करुणा और दुखसे भरे हुए थे । वह कह रही थी कि हे स्वामी श्रीविजय आप कहां हैं ? हे रथनपुरके राजन ! आप कहां हैं ? मेरी रक्षा कीजिये ॥ २५ ॥ तदनन्तर मैं उसके समीप गया और उससे कहा कि तू कौन है और किसको हरकर ले

जा रहा है ? तब वह क्रोधसे कहने लगा कि मैं चमरचंच नगरका राजा हूँ अशनिघोष विद्याधर मेरा नाम है और मैं इसे जबर्दस्ती ले जा रहा हूँ । यदि तुझमें सामर्थ्य है तो आ इसे छोड़ा ले जा ॥ २६—२७ ॥ उसकी यह बात सुनकर मैंने अपने मनमें सोचा कि यह पापी मेरे स्वामीकी बहिर्नको ले जा रहा है ॥ २८ ॥ ऐसे समयमें मुझे साधारण मनुष्योंके समान नहीं चला जाना चाहिए किन्तु इस दुष्टको मारकर सुताराको ले चलना चाहिए । यही सोचकर मैं उसके समीप गया ॥ २९ ॥ जब मैंने उसके साथ युद्धकरना प्रारम्भ किया तब सुताराने कहा कि भाई तुम युद्ध मत करो किन्तु इसी समय ज्योतिर्वनमें जा कर शोक रूपी अग्निसे जले हुए श्रीविजयसे मेरी अवस्थाका सब समाचार कह सुनाओ ॥ ३०-३१ ॥ हे राजन् ! इस प्रकार तेरी रानीके द्वारा भेजे हुए हम यहां आए हैं यह तेरे शत्रुकी भेजी हुई बैताली देवी मैंने मार भगाई है ॥ ३२ ॥ राजा सम्भन्वकी यह बात सुनकर श्रीविजयने कहा कि हे मित्र ! अब आप शीघ्रही जाकर यह सब समाचार मेरी माता और छोटे भाई आदिसे कह सुनाइए ॥ ३३ ॥ तब राजा सम्भन्वने अपने पुत्र द्वीपशिवको पोटनपरमें भेज दिया । इधर पोटनपुरमें भी बहुतसे उपद्रव हुए थे ॥ ३४ ॥ उन्हें देखकर अमोघ जिह्व और जयगुप्त निमित्तज्ञानियोंने अपने निमित्तज्ञानसे जानकर स्वंप्रभा आदिसे कहा कि इस समय महाराजको कुछ भय उत्पन्न हुआ है परन्तु वह उसी समय नष्ट हो गया है कोई पुरुष इसी समय राजी खुशीके समाचार लेकर आवेगा ॥ ३५-३६ ॥ आप लोग निश्चलताके साथ बैठे रहें किसी तरहका भय न करें । महाराज इस समय पुण्यकर्मके उदयसे बिना किसी उपद्रवके राजी खुशी निवास कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ उसी समय द्वीपशिव नामका विद्याधर आकाशसे उतर कर पृथ्वी पर आया और उसने विधिपूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको नमस्कार किया ॥ ३८ ॥ उसने कहा कि श्रीविजय कुशलपूर्वक हैं आप लोग भय छोड़ दीजिए । यह कर उसने सब समाचार ज्योंका त्यों कह सुनाया ॥ ३९ ॥ उस समाचारको सुनकर स्वयंप्रभाकी कांति नन्द पड़े गई और जिस प्रकार पृथ्वी दावानल अग्निसे जल जाती है उसी प्रकार वह शोकरूपी अग्निसे सीसी हो गई ॥ ४० ॥ वह स्वयंप्रभा अपने पुत्र और सेनाको लेकर तथा अनेक विद्याधरोंके साथ नग-

रसे निकली और पुत्रको देखनेके लिए शीघ्र ही उस वनमें जा पहुंची ॥ ४१ ॥ राजा श्रीविजयने दूरसे ही देखा कि माता आ रही है और वह शोकसे व्याकुल सी हो गई है। उसे देखकर वह सामने गया और उसने उनके दोनों चरण कमलोंको नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ स्वयंप्रभाने अपने पुत्रको देखा और बड़े संतोपसे उसका आलिंगन किया और फिर जय जीव आदि वाक्योंके द्वारा उसे आशीर्वाद दिया ॥ ४३ ॥ जब वह श्रीविजय सुखसे बैठ गया तब माताके पूछने पर उसने सौके वियोगसे होनेवाला सुताराके हरण होने आदिका सब वृत्त कह सुनाया। इसके बाद उसने माताके सामने राजा सम्भिन्नकी प्रशंसा भी अनेक तरह-उस स्वयंप्रभाने अपने छोटे पुत्र विजयभद्रको तो नगरकी रक्षाका भार सौंपा और स्वयं बड़े पुत्र श्रीविजयके साथ नगर और घर्से प्रवेश कराया और स्नान भोजन आदिके उसका बहुतही अच्छा आदर किया ॥ ४८ ॥ तदनंतर मा वेदोंने अर्थात् स्वयंप्रभा और श्रीविजयने अमिततेजके सामने पाप कर्मके उदयसे होनेवाले सुताराके हरण आदिके सब समाचार स्वयं कह सुनाए ॥ ४६ ॥ अपने देशके दूतोंसे अमिततेजने भी उसके आसुतारा मांगनेके लिए अशनिघोष विद्याधरके पास मरीच नामका एक दूत शीघ्रही भेजा ॥ ४७ ॥ अमिततेजने शब्द कहे ॥ ४९ ॥ इसलिये वह दूत शीघ्र ही वहाँसे चला आया और अपने स्वामीके पास आकर जो कुछ और उस अमिततेज विद्याधरने अपनी विद्या और सेनाके द्वारा मदनमत उस विद्याधरके नाश करनेकी तैयारी की ॥ ५० ॥ दूत राजा (शत्रुओंको रोकनेवाली) और सुद्धवीर्या (सुद्धमें पराक्रम प्रगट करनेवाली) ये तीन विद्याएं दी ॥ ५१ ॥

अमिततेजने रश्मिवेग सुवेग आदि अपने पांचसौ पुत्रोंके साथ पोदनपुर नगरके राजा श्रीविजयको शत्रुके सामने भेजा तथा वह स्वयं बड़े पुत्र सहहरश्मिके साथ सब विद्याओंके सिद्ध करनेका स्थान भूत ऐसे हीसंत पर्वतपर पहुंचा ॥ ५५-५६ ॥ वहांपर वह अपने पुत्रके साथ संजयत नामके महा चेत्यालयमें सब विद्याओंका नाश करनेवाली 'महाज्वाला' नामकी विद्या सिद्ध करने लगा ॥ ५७ ॥ इधर अशनिघोषने रश्मिवेग आदिके साथ श्रीविजयका आगम सुनकर दृष्ट पूर्वक शुद्धके लिये पुत्र भेजे ॥ ५८ ॥ सुघोष शतघोष सहस्रघोष आदि वे सब योद्धा श्रीविजयके साथ शुद्ध करने लगे ॥ ५९ ॥ वहांपर उन दोनों सेनाओंका बड़ाभारी युद्ध हुआ जो कि आश्चर्य प्रगट करनेवाला था और अनेक जीवरश्मिको जय करनेवाला था ॥ ६० ॥ उस युद्धमें कितने ही लोगोंके अंग और संधियां छिन्न भिन्न हो गई थी और उनमेंसे कितने ही उपवास धारण कर तथा हृदयमें श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण कर स्वर्ग चले गये थे ॥ ६१ ॥ जिनके शरीर बाणोंसे छिन्न भिन्न हो गये हैं ऐसे कितने ही धीरवीर योद्धा भावदीक्षा लेकर तथा ध्यान धारणकर स्वर्गमें जा विराजमान हुए थे ॥ ६२ ॥ उस युद्धमें तीव्र दुःखसे दुःखी हुए कितने ही लोग पंच नमस्कार मंत्रका ध्यानकर देवोंकी लक्ष्मीको प्राप्त हुए थे ॥ ६३ ॥ वह शुद्ध रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुआ था और अत्यंत पापोंको उत्पन्न करनेवाला था इसलिये धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले हमलोगोंने वर्णन नहीं किया है ॥ ६४ ॥ इस प्रकार अत्यंत भय उत्पन्न करनेवाला वह संयास पंद्रह दिनतक होता रहा अंतमें अन्यायसे उत्पन्न हुए पापके कारण सब शिथिल हो गये ॥ ६५ ॥ यह समाचार जानकर वह पापी भयानक अशनिघोष विद्याधर क्रोधसे अंधा होकर स्वयं युद्ध करनेके लिये आया ॥ ६६ ॥ वह बुद्धहीन और क्रुमार्गगामी विद्याधर शत्रुको पाकर अपनी हानि करनेवाला तथा अपयश और पापका कारण ऐसा घोर युद्ध करने लगा ॥ ६७ ॥ उस युद्धमें जब श्रीविजयने अपने दो रूप बनाये तब अशनिघोषने भी अपनी भ्रामरी विद्यासे अपने दो रूप बना लिये ॥ ६८ ॥ परंतु अशनिघोषके वे दोनोंरूप श्रीविजयने खंडनकृदिये, उनके खंडन करते ही उसके चार रूप हो गये इस प्रकार खंडन करते करते अशनिघोषके रूपोंकी दूनी दूनी बृद्धि होती गई ॥ ६९ ॥ इस प्रकार वह समस्त दुःस्थ

द्वारा यमके घरके समान अशनिघोषके रूपोंसे अत्यंत भरगया ॥ ७० ॥ उसी समय रथनूपुरके राजा अमित-
तेजको महापुण्यकर्मके उदयसे समस्त राज्यको बढ़ानेवाली वह विद्या सिद्ध हो गई ॥ ७१ ॥ तदनंतर वह अमि-
तेज विद्याधर अपने पुत्रके साथ युद्धस्थलपर आया और उसने आते ही उस आमरी विद्याको नाश करनेवाली
महाज्वाला विद्याको आज्ञा दी ॥ ७२ ॥ उस अशनिघोषको युद्ध करते पंद्रह दिन हो गये थे अंतमें वह
महाज्वाला विद्याको सह नहीं सका इसलिये अशुभकर्मके उदयसे भय भीत हुआ वह विद्याधर युद्धसे हट
गया और दूर भाग गया ॥ ७३ ॥ विजय नामके उत्तम नाभेव पर्वतपर भव्यजीवोंको शरणभूत ऐसा श्रीजिनेन्द्र-
देवका समक्षशरण था वह अशनिघोष विद्याधर भागकर वहाँ पहुँचा ॥ ७४ ॥ अमिततेज आदि भी क्रोधित
होकर उसके पीछे पीछे गये परन्तु वहाँपर मानस्तंभको देखकर सब शांत हो गये और सबके मन स्वस्थ हो
गये ॥ ७५ ॥ वे सबलोग (अशनिघोष अमिततेज आदि) अपना अपना वैररूपी विष छोड़कर तथा संसार
मात्रका हित करनेवाले भगवान् जिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्कारकर एक साथ बैठ
गये ॥ ७६ ॥ उसी समय उसी मार्गसे पुण्यवती सती अशनिघोषकी माता आसुरी दावानल अग्निसे जली
हुई ललाके समान सुताराको लेकर आई ॥ ७७ ॥ तथा श्रीविजय और अमिततेजसे कहने लगी कि मेरे पुत्रसे
अपराध बन पड़ा है आप उसे क्षमा कर दीजिये यह कहकर उसने उन दोनोंको वह सुतारा सौंपदी ॥ ७८ ॥
श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने जाति और स्वभावसे उरस्पन्न हुआ पशुवोंका घोर वैर भी नष्ट हो जाता है फिर भला
मनुष्योंका वैर नष्ट क्यों न हो जायगा ॥ ७९ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवके समीप दुर्भिक्ष और ईति भीति आदि सब
नष्ट हो जाता है फिर भला इस संसारमें उनके समीप जाकर वैर भावका त्याग कर देना कितनी बड़ी बात
है ॥ ८० ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवको पाकर अनादि कालसे बन्धे हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं फिर उनकी दिव्य-
ध्वनि सुनकर उनका वैर छूट जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ ८१ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवका ध्यान करनेमें
तत्पर ऐसे भव्यजीव अत्यंत दुर्निवार यमराजको भी लीलामात्रमें निवारण कर देते हैं फिर भला क्या शुभ-
कर्मोंके उदयसे शत्रुका निवारण नहीं किया जा सकता ? ॥ ८२ ॥ भगवानकी दिव्यध्वनि सुनकर यदि सिंह

हरण आदि क्रूर जीव भी परस्पर प्रेम करने लग जाते हैं फिर भला उन दोनोंमें अत्यंत प्रेम क्या नही हो सकता था ? ॥ ८२ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवके महात्म्यसे प्राणियोंके शरीरको नष्ट करनेवाले भी सब तरहके विघ्न नष्ट हो जाते हैं फिर भला इस संसारमें उन दोनोंको किसी प्रकारका विघ्न किस प्रकार हो सकता था ॥ ८४ ॥ इसलिये बुद्धिसानोंको यमराज तथा बुरे विघ्नोंको दूर करनेके लिये इस लोक और परलोक दोनोंलोकोंका हित करनेवाले श्रीजिनेन्द्रदेवका ही स्मरण करना चाहिये ॥ ८५ ॥

अथानन्तर अमिततेज विद्याधरने भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया और तत्त्वार्थोंका ज्ञान होनेके लिये हाथ जोड़कर धर्मका स्वरूप पूछा ॥ ८६ ॥ वह पूछने लगा कि हे भगवान् ! यह असार संसाररूपी समुद्र तीव्र दुखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है घोर क्रोध मान आदि कषायरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त है । हे नाथ इसका पार कौन पा सकता है ॥ ८७ ॥ हे देव आप संसाररूपी सागरके पार हो चुके हैं आप ही संसारमें एक मात्र बंध हैं और आपही सब जीवोंका हित करनेमें तत्पर हैं इसलिए आपके सिवाय यह विषय और किसीसे नहीं पूछा जा सकता ॥ ८८ ॥ हे प्रभो ! आपही संसारके नाथ हैं आप ही तीनों लोकोंका हित करनेवाले हैं आपही देवोंके द्वारा पूज्य हैं और आपही इस संसारभरमें उत्तम हैं ॥ ८९ ॥ मुनिलोग आपकी ही सेवा करते हैं आप ही जीवोंके गुरु हैं और आप ही इस संसारमें समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले दीपक हैं ॥ ९० ॥ हे जिनेन्द्रदेव ! आप अतिशय पुण्यवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो । हे जगन्नाथ आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥ ९१ ॥ हे देव, भव्यजीव रत्नत्रयरूपी धनको लेकर आपकी दिव्यध्वनिरूपी महानावपर चढ़कर संसाररूपी महासागरसे पार हो जाते हैं और मोजरूपी द्वीपमें जा पहुंचते हैं ॥ ९२ ॥ हे स्वामिन ! जिसप्रकार बिना सूर्यके प्रकाशके रात्रिका अंधकार दूर नहीं हो सकता उसी प्रकार आपकी दिव्यध्वनिरूपी दीपकके बिना हम लोगोंके मनका अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता जिसप्रकार संसार रूपी मार्गमें चलनेवाले जीव मेघोंकी वर्षासे सुखी होते हैं उसोप्रकार मोक्षमार्गमें चलनेकी इच्छा रखनेवाले भव्यजीव आपको दिव्यध्वनिकी वर्षासे सुखी होते हैं ॥ ९४ ॥ हे जिनेन्द्रदेव ! जिस प्रकार

नेघर्षर्षके द्वारा चातको की प्यास बुझाता है उसीप्रकार आपभी अपनी दिव्यध्वनिसे हम लोगों की संसारमें फैलनेवाली भोगों से उत्पन्न हुई तृष्णको दूर कर दीजिए ॥ ६५ ॥ हे जगतपूज्य ! हे जिनेंद्रदेव ! आप हम सरीखे भव्यजीवों के लिए तत्वों से भरे हुए धर्मज्ञा स्वरूप निरूपण कीजिए ॥६६॥ इसप्रकार पूछनेपर श्रीजिनेंद्रदेव दिव्यध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिसप्रकार मेघों की वर्षासे चातक पक्षी संतुष्ट होते हैं उसी प्रकार भगवानकी दिव्यध्वनिसे भव्यजीव भी संतुष्ट होते हैं ॥ ६७ ॥ भगवान तत्वों का निरूपण करने लगे कि हे विद्याधरों के राजा तू अपना मन निश्चलकर सुन, मैं तेरे लिए धर्म और तत्वों से भरा हुआ कुछ ज्ञान निरूपण करता हूँ ॥ ६८ ॥ जीवोंको घोर दुख देनेवाला यह संसार अनंत और अनादि है । अभव्योंके लिये तो इसका कभी अंत ही नहीं होता और भव्यजीवोंके लिये इसका अंत हो जाता है ॥६९॥ इस संसारके कारण घोर दुख देनेवाले कर्म हैं उन कर्मोंके अनेक भेद हैं मूलभेद तो आठ हैं और उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस हैं ॥ १०० ॥ उन कर्मोंके कारण तथा बन्ध करनेवाले आस्रव हैं जो कि सब तरहके पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योगके भेदसे अनेक प्रकारके ॥ १ ॥ उनमेंसे ज्ञान और चरित्रका घात करनेवाला तथा चित्त धर्म और शुभ अशुभ तत्वोंमें मूढता उत्पन्न करनेवाला मिथ्यात्व पांच प्रकारका कहा गया है ॥ २ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने धर्मका नाश करनेवाले इस मिथ्यात्वके एकांत विपरीत वैनयिक संशय और अज्ञान ये पांच भेद बतलाए हैं ॥ ३ ॥ संसारके समस्त तत्व चणिक हैं और कर्मोंका न कोई कर्ता है न भोक्ता है इस प्रकार बौद्धोंके द्वारा एकांत कथन करना एकांत मिथ्यात्व कहलाता है ॥ ४ ॥ देव रागी हैं, गुरु परिग्रह सहित होता है, और हिंसासे धर्म होता है इस प्रकार वेद और ब्राह्मणसे उत्पन्न होनेवाला तथा पशुओंके द्वारा यज्ञादिका किया जाना विपरीत मिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ५ ॥ मूर्ख लोग जो जिनेंद्रदेव तथा कुदेवोंमें, सुगुरु और छुगुरुमें एकसी विनय करते हैं वह तपसियोंके आश्रयसे उत्पन्न हुआ वैनयिक मिथ्यात्व है ॥ ६ ॥ केवली कबलाहारी होते हैं और स्त्रियोंको भी मोक्ष होती है इस प्रकार पाखंडियोंके द्वारा कहा हुआ संशय मिथ्यात्व है ॥ ७ ॥ देव कुदेव, धर्म, अधर्म, सुगुरु, कुगुरु, और

शास्त्र कुशास्त्रका ज्ञान न होना सो स्लेच्छों से उत्पन्न होनेवाली अज्ञान नामका मिथ्यात्व है ॥ ८ ॥ अजिनंद-
 देवने इसप्रकार पांच प्रकारका मिथ्यात्व कहा है । वह मिथ्यात्व स्वस्त दोषों का खजाना है इसलिये बुद्धिमा-
 नों को सर्वके समान उनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ९ ॥ इसी मिथ्यात्वसे पापों को उत्पन्न करनेवाली
 मूढ़ता और दुष्टता उत्पन्न होती है तथा इसी मिथ्यात्वसे विवेक धर्म ज्ञान चारित्र आदि श्रेष्ठ गुण सब नष्ट
 हो जाते हैं ॥ १० ॥ इस लिये हे भव्य ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सब तरहके पापों को उत्पन्न करनेवाले
 इस मिथ्यात्वरूपी पर्वतको सम्यग्दर्शनरूपी वज्रकी चोटसे चूर २ कर दे ॥ ११ ॥ मनुष्यों को चारों गति-
 यों में घुमानेवाला यह मिथ्यात्व पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें मुख्यतासे बंधका कारण है ॥ १२ ॥ पांचों इंद्रिय
 तथा मनको वशमें न करना और त्रस स्थावरके भेदसे छह प्रकारके जीवों की रक्षा न करना इसप्रकारका यह
 वारह प्रकारका असंयम कहलाता है ॥ १३ ॥ जीवों का घात करनेवाले पंचेंन्द्रियोंके विषयोंमें मन बचल काय
 इन तीनों योगोंके द्वारा मनुष्यों की जो उच्छृंखल (इच्छानुसार) प्रवृत्ति है वह अशुभाव्य करनेवाला
 असंयम कहलाता है ॥ १४ ॥ यह असंयम दुराचारों को उत्पन्न करनेवाला है और इसलोक परलोक दोनों
 लोकों में दुख देनेवाला है इसलिये तू इसे शत्रुके समान श्रेष्ठ व्रतरूपी तलवारके बलसे नष्ट कर दे ॥ १५ ॥
 जीवोंके जबतक अप्रत्याख्यानावरण नामके चारित्र मोहनीय कर्मका उदय रहता है तबतक अर्थात् चौथे
 गुणस्थानतक यह असंयम मुख्यतासे बंधका कारण गिना जाता है ॥ १६ ॥ चार विकथा चार कषाय पांच
 इंद्रिय स्नेह और निद्रा ये पंद्रह प्रमाद कहलाते हैं ॥ १७ ॥ ये सब प्रमाद व्यर्थ ही पापोंको उत्पन्न करनेवाले
 हैं और ब्रतोंको घात करनेवाले हैं इसलिये चलुर पुरुषोंको ध्यान अध्ययनके द्वारा शत्रुके समान इनका नाश
 कर देना चाहिए ॥ १८ ॥ ब्रतोंमें मल वा दोष उत्पन्न करनेवाली मन बचन कायकी प्रवृत्तिको प्रमाद कहते
 हैं यह प्रमाद छठे गुणस्थानमें मुख्यतासे बंधका कारण है ॥ १९ ॥ अनन्तानुबंधी क्रोध गान माया लोभ,
 अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मोन माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान
 माया लोभ इसप्रकार कषायके सोलह भेद हैं ॥ २० ॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय-जुगुप्सा, स्त्री, वेद, पुंवेद,

नपुंसकवेद ए नौ नोकषाय कहलाते हैं ॥ २१ ॥ इनमेंसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सम्यग्दर्शनका घात करते हैं, अप्रत्याख्यानावरण कौध मान माया लोभ अणुव्रतों का घात करते हैं, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ सकलसंयमका घात करते हैं और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ यथाख्यात चारित्रिका घात करते हैं ॥ २२ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने चारों गतियों में परिभ्रमण करनेवाले और अत्यंत दुःख देनेवाले ए घोर कषाय स्थितिबंधके कारण बतलाए हैं ॥ २३ ॥ ई पचीस कषाय पापकर्मके कारण हैं सातवें नरकेलिए भाग दिखलानेवाले हैं, अत्यंत भवों में परिभ्रमण करनेवाले हैं, क्रूर हैं, अशुभ कर्मोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, और समस्त दोषोंके खजाने हैं इसलिये अपने शत्रुओंके समान इनको तू क्षमा मारदव आर्जव शौच आदि शस्त्रोंके द्वारा शीघ्रही नष्ट कर ॥ २४-२५ ॥ इस पुरुषके जवतक संज्वलन कषायका उदय रहता है तवतक अर्थात् सातवें आठवें नौवें दर्शवें गुणस्थानमें ये संज्वलन कषाय मुख्यतासे बंधके कारण हैं ॥ २६ ॥ मन वचन कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं । यह योग ही संसारका कारण है और जीवोंको शुभ अशुभ करनेवाला है । यह योग पंद्रह प्रकारका है ॥ २७ ॥ चार प्रकारका मनो-योग चार प्रकारका वचन योग और सात प्रकारका काययोग यह पन्द्रह प्रकारका योग जीवों को दुःख देने-वाला है ॥ २८ ॥ सत्यमनोयोग असत्यमनोयोग उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग यह चार प्रकारका मनोयोग है तथा सत्यवचन योग, असत्यवचन योग और अनुभयवचन योग यह चार प्रकारका शुभाशुभका करनेवाला चार प्रकारका वचनयोग है ॥ २९ ॥ औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, वैक्रियक काययोग, वैक्रियक मिश्रकाययोग, आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाययोग और कर्मण काय-योग यह सात प्रकारका काययोग कहलाता है ॥ ३० ॥ इनमेंसे सत्यमनोयोग सत्यवचनयोग तथा अनुभय मनोयोग और अनुभयवचनयोग ये चतुर पुरुषोंको ग्रहण करने योग्य हैं क्योंकि ये ही धर्मकी रक्षा करने-वाले हैं उत्तम हैं और सब जीवोंको भला करनेवाले हैं ॥ ३१ ॥ असत्य मनोयोग असत्यवचनयोग उभय मनोयोग उभय वचनयोग ये सब तरहके पापोंको उत्पन्न करनेवाले हैं अन्य जीवोंको दुःख देनेवाले हैं और

दुष्ट हैं इसलिये बुद्धिमानों को अपने प्राणों का नाश होनेपर भी नहीं बोलना चाहिये ॥ ३२ ॥ जीवोंको
 दुख और क्लेशों का सागर ऐसा प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योगोंके द्वारा होता है ऐसा श्रीजिनंदेवके नि-
 रूपण किया है ॥ ३३ ॥ मन वचन कायसे उत्पन्न हुआ यह योग अकेला ही ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें
 गुणस्थानमें सातावेदनीय कर्मका बंध करता है ॥ ३४ ॥ अशुभयोगसे इसलोक और परलोक दोनों में
 अत्यंत संक्लेश दुख और शोक आदिका महासागर तथा नरकका कारण ऐसा महापाप उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥
 शुभयोग से विवेकी पुरुषों को चक्रवर्ती और तीर्थंकरकी विभूति देनेवाले तथा सब तरहके सुख प्रकट
 करनेवाले पुण्यकर्मका बंध होता है ॥ ३६ ॥ जिसप्रकार अपनी स्त्री आसक्त होकर अपने पास आ जाती है
 उसी प्रकार जो इन योगोंको रोककर परमात्माका ध्यान करते हैं उनके पास मुक्तिरूपी स्त्री अपने आप आ
 जाती है ॥ ३७ ॥ हे भव्य ! स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ध्यान और अध्ययनरूपी जालसे विषयरूपी मैदा-
 नमें दौड़ते हुए इन योगरूपी हिरणोंको तू बांध ॥ ३८ ॥ हे वत्स ! आज मैंने मिथ्यात्व अत्रित प्रमाद कषाय
 और योग ये पांच बन्धके कारण बतलाये हैं, ये सब पाप उत्पन्न करनेवाले हैं समस्त दुखोंके समुद्र हैं तीव्र
 हैं दुष्ट हैं और चारों गतियोंमें परिभ्रमण करानेवाले ॥ ३९ ॥ विषयोंमें अन्या हुआ यह मनुष्य उपर लिखे
 हुए मिथ्यात्व आदि पांचों कारणोंके द्वारा एकसौ बीस कर्मोंकी असह्य प्रकृतियोंको सदा बांधता रहता है
 ॥ ४० ॥ उन कर्मोंसे धिरा हुआ तथा दुखसे व्याकुल हुआ यह जीव अशुभ कर्मोंके उदयसे सदा पहिले
 मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही रहता हुआ संसाररूपी वनमें परिभ्रमण किया करता है ॥ ४१ ॥ यह संसाररूपी
 लहरोंसे भरा हुआ है नरक ही इसके रंध हैं जन्म मरण और बुढ़ापा ही इसकी मछलियां हैं इस समुद्रका
 कहीं अन्त नहीं है और अत्यंत कठिनतासे इसके पार जाया जा सकता है। ऐसे इस समुद्रमें मिथ्यादर्शन
 मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र सहित संयम रहित यह भव्य अथवा अभव्य जीव रात दिन डूबता और उछलता
 रहता है ॥ ४२-४३ ॥ किसी समय काललब्धि आदिको पाकर तथा सम्यग्दर्शनको घात करनेवाली सातों
 प्रकृतियोंका उपशमकर सुमार्गको दिखानेवाला उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ तदनन्तर यह मनुष्य

अप्रत्याख्यानानवरणरूपी पापकर्मके क्षयोपशमसे सब तरहके सुख देनेवाले बारह व्रतोंको धारण करता है ॥४५॥ फिर प्रत्याख्यानवरण कषायके क्षयोपशम होनेसे यह मनुष्य मुक्तिरूपी स्त्रीको प्रसन्न करनेवाले पूर्ण महाव्रतोंको धारण करता है ॥ ४६ ॥ तदनंतर सम्यग्दर्शनका घात करनेवाली सातों प्रकृतियोंका नाशकर यह जीव कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाला उत्तम और मोक्ष प्राप्त करानेमें अत्यन्त चलुर ऐसा चायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ इसके पश्चात् चायिक चारित्रसे विभूषित हुआ वह चलुर मुनि ब्रह्मक श्रेणी चढ़ता है और शुक्लध्यानरूपी तलवारसे मोहरूपी शत्रुका नाश करता है ॥ ४८ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज दूसरे शुक्लध्यानसे बाकीके तीनों चातिया कर्मोंका नाश करते हैं और समस्त लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं ॥ ४९ ॥ उस समय वे नव केवललवधियोंके स्वामी हो जाते हैं अनन्त गुणोंके सागर हो जाते हैं और तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य हो जाते हैं । तदनन्तर वे धर्मोपदेश दिया करते हैं ॥ ५० ॥ फिर वे केवली भगवान तीसरे शुक्लध्यानसे योगोंका निरोध करते हैं और चौथे शुक्लध्यानसे समस्त कर्मोंका नाश करते हैं ॥ ५१ ॥ कर्म और शरीरका संबंध छूट जानेसे एरंडके बीजके समान वे लोकके उपरी भाग तक ऊपरको गमन करते हैं तथा अनन्त स्वाभाविक गुणोंको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ वहांपर वे सदा कालतक सब तरहकी बाधाओंसे रहित, उपमा रहित, आतंकरहित और विषयोंसे रहित सदा रहनेवाले अनंत सुखका उपभोग किया करते हैं ॥ ५३ ॥ सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणमय, अरूपी, नित्य, निरंजन, ऐसे सिद्ध भगवान् मुक्ति लक्ष्मीके साथ अनन्तकाल तक सदा विराजमान रहते हैं ॥ ५४ ॥ खत्रयके संबंधसे तेरे ऐसे भव्य-जीव अनुक्रमसे संसाररूपी समुद्रको पारकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं और वहांपर सदा अगन्त सुखका अनुभव किया करते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार जन्मसे लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक कथन करनेवाली श्रीजिनेन्द्रदेवकी कही हुई बाणीको अमृतके समान पानकर वह अमितेज विद्याधर मोक्षके समान सुखी हुआ ॥ ५६ ॥ उस समय काललवधिके प्राप्त हो जानेसे उस अमितेजने स्वर्ग मोक्षका कारण ऐसा सातो तत्वोंका अद्भान करनेरूप सम्यग्दर्शन धारण किया ॥ ५७ ॥ उस भव्य विद्याधरने अपने आत्माका धर्म प्रगट

करने के लिये अपने योग्य गृहस्थों के उत्तम व्रत धारण किये: ॥ ५८ ॥ तदनन्तर उसे राजाने अपने अपने दोनो हाथ जोड़कर सरतकपर रखकर भगवानको नमस्कार किया और फिर अपने पहिले भव सन्बन्धी पृथ्क् पृथ्क् और पूछने की इच्छा है ॥ ६० ॥ हे देव ! इस अश्विनिघोष विद्याधरने गेरी छोटी वहिन सुतारा किस कारणसे हर ती थी यह सब आप वतलाइए । तथा मैंने पहिले जन्ममें ऐसा कौनसा उत्तम पुण्य किया था जिससे मैं विद्याधरोंकास्थानी हुआ और मुझे ऐसी महाविभूति प्राप्त हुई तथा श्रीविजयपर मेरा अधिक प्रेम किस कारणसे है । हे प्रभो । मेरे हितके लिये कृपाकर इन तीन प्रश्नोंका उत्तर और दे दीजिये ॥ ६२-६३ ॥ इस प्रकार जो भगवानके वचनोंमें अनुरक्त है, सम्यग्दर्शनरूपी रत्नका एक अद्वितीय पात्र है, परमधर्मका जानने-वाला है, ज्ञान विज्ञानमें चलुर है, अणुव्रतरूपी गुणोंसे शोभायमान है और सब विद्याधर जिसके चरण कम-लोंको नमस्कार करते हैं, ऐसे अमिततेज विद्याधरने श्रीभगवानके सधीप यह उत्तम कथा पूछी ॥ ६४ ॥ तथा तीनों लोक जिनके उत्तम चरण कमलोंकी पूजा करते हैं जो अत्यन्त निर्मल है संसारके समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान हैं सबका हित करनेवाले हैं, अनंतज्ञान आदि अनेक गुणरत्नोंके समुद्र हैं, मुक्तिरूपी रत्नके उत्तम वर हैं और संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाले हैं ऐसे वे श्रीजिनेन्द्रदेव सबका उपकार करनेके लिये उस अनिततेज भवके लिये पहिले भव सन्बन्धी धर्मकथा कहने लगे ॥ ६५ ॥ जिन्होंने कर्मरूपी समस्त शत्रु नष्ट कर दिये हैं जो पांचवें चक्रवर्ती हैं जिन्होंने कामदेवका अभिमान सब जीत लिया है तथापि जो कामदेव हैं अत्यन्त रूपवान हैं और समस्त निर्मल तत्वोंको जागनेवाले हैं ऐसे सोलहवें तीर्थ-कर श्रीशांतिनाथ जिनेन्द्रदेव अपनी कीर्तिसे तीनों लोकोंमें शोभायमान हो रहे हैं ॥ ६६ ॥

इसप्रकार श्रीशांतिनाथ पुराणमें अमिततेजके द्वारा धर्मसंबंधी पूजा वर्णन करनेवाला व्रत चौथा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ४ ॥



पाचवां अधिकार ।

में अपने प्रारंभ किये हुए कामको प्रारम्भ करनेके लिये तीनों लोक जिसकी सेवा करता है, विद्वान लोग जिसकी सेवा करते हैं और जो सब जीवों का हित करनेवाली है ऐसी जिनवाणीको नमस्कार करता हूँ ॥१॥ वे भगवान् अमिरामेजके पूर्वभव कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके मंगलादेशके अलका नरकमें एक धरणीजड़ नामका ब्रह्माण रहता था ॥ २ ॥ उसकी ब्राह्मणीका नाम अग्निना था उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, एकका नाम इन्द्रभूति था और दूसरेका नाम अग्नभूति, वे दोनों ही भाई मिथ्याहानी थे ॥३॥ उसी ब्राह्मणके अशुभ कर्मके उदयसे एक कपिल नामका दासी पुत्र था जो कि तीक्ष्ण बुद्धि था । जब वह धरणीजड़ अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर वह कपिल भी याद कर कर लेता था ॥ ४ ॥ उस कपिलका वेद पढ़ना जानकर उस ब्राह्मणने उसे जवर्दस्ती निकाल दिया परन्तु वह कपिल बाहर जा कर शीघ्रही वेद वेदांगका पारगामी हो गया ॥ ५ ॥ अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके मलय देशमें रत्नसंचयपुर नामका नगर है वहाँपर अपने पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे श्रीषेण नामका राजा राज्य करता था ॥६॥ वह राजा कांतिवाला था, अत्यन्तरूपवान् था, नीतिमार्गकी प्रवृत्ति करने वाला था, शूर था, धीरवीर था, राजाओंके द्वारा पूज्य था, शत्रुओंको जीतनेवाला और गुणोंका समुद्र था, ॥ ७ ॥ वह जिन धर्ममें अपना चित्त लगाता था, शास्त्रोंका जानकार था, सत्यनिष्ठ था, उसे किसी तरहकी कोई बाधा नहीं थी कोई रोग नहीं था और वह सुखसागरमें निमग्न था ॥ ८ ॥ वह सदा पात्रदान करता रहता था, श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेमें तत्पर था, गुरुमें भक्ति रखता था, सदाचारी था, विवेकी था, पुण्यवान् था, और उत्तम था ॥ ९ ॥ वह हार कुंडल केयूर मुकुट त करनेवालोंसे सुशोभित था और दिव्यवस्त्रोंसे विभूषित था इस लिये वह अपने रूपसे कामदेवको लाब उत्तरा ॥ १० ॥ इस प्रकार राज्यलक्ष्मीको वश करनेवाला वह श्रीषेण राजा अपने शुभकर्मके उद-
आहार लेनक्षत्री प्रजाका पालन करता था ॥ ११ ॥ उस श्रीषेणके पुण्यकर्मके उदयसे रूपावती लाव-

करने के लिये श्रेष्ठों से सुशोभित ऐसी रिद्धता और अनिदिता नामकी दो रानियां थीं ॥ १२ ॥

शान्ति०

५३

हाथ जो शुभकर्मके उदयसे चन्द्रमाके समान अत्यन्त रूपवान और शुभलक्षणोंसे सुशोभित ऐसा ॥ ५६ ॥ पुत्र हुआ था ॥ १३ ॥ तथा अनिदिताके धर्मके प्रभावसे रूपवान गुणवान और ज्ञान विज्ञानका

पारगामी ऐसा उषेदू नामका पुत्र हुआ था ॥ १४ ॥ जिस प्रकार पापोंको नाश करनेवाले मुनिराज सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे सुशोभित होते हैं उसीप्रकार शत्रुओंको जीतनेवाला वह राजा उनदोनो सुन्दर पुत्रोंसे शोभायमान होता था ॥ १५ ॥ उसी नगरमें एक सात्यकी नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम जम्बू था और उसके सत्य गुणसे सुशोभित सत्य भामा पुत्री थी ॥ १६ ॥ पहिले कहा हुआ धरणीजडका दासीपुत्र कपिल जने ऊ पहिनकर ब्राह्मणका रूप धारणकर उसी रत्नसंचयपुर नगरमें आया ॥ १७ ॥ सात्यकी उसे रूपवान और वेदका पारगामी देखकर उसे अपने घर ले गया और उसने अपनी सत्यभामा पुत्री उसे दे दी ॥ १८ ॥ उस सत्यभामाने रात्रिमें उस कपिलकी कितनी ही नीची चेष्टाएं देखीं इसलिये "यह अच्छे कुलका उत्पन्न हुआ नहीं है" इस चिंताने उसे आ घेरा ॥ १९ ॥ वह सोचने लगी मनुष्योंको हलाहल विष खा लेना अच्छा है, सर्पका साथ करना अच्छा है जलती हुई अग्निमें या पानीमें कूद पड़ना अच्छा है परन्तु नीच मनुष्योंकी संगति करना अच्छा नहीं है ॥ २० ॥ यही समझकर जिसका हृदय पवित्र है और जो कपिलसे कुछ विरक्त सी हो गई है ऐसी वह धीर धीर सती सत्यभामा अपने चित्तमें सदा खेदखिन्न रहने लगी ॥ २१ ॥ इधर धरणीजड दरिद्र हो गया और उसने कपिलकी भी सब बात सुन ली इसलिये वह धनकी इच्छासे उसके पास आया ॥ २२ ॥ कपिलने भी लोगोंसे कह दिया कि यह मेरा पिता है इसलिये लोगोंके द्वारा आदर सत्कार पाया हुआ वह ब्राह्मण सुख पूर्वक कपिल वा सात्यकीके घर रहने लगा ॥ २३ ॥ किसी एक दिन सत्यभामाने बहुत सा धन उस धरणीजड ब्राह्मणको देकर बड़ी विनयके साथ उससे कपिलका कुल पूछा ॥ २४ ॥ उत्तरमें उस ब्राह्मणने कहा कि हे पुत्री ! यह तेरा पति (कपिल) मेरी दासीका पुत्र है । इस दुष्टने संसारमें यह कपटवेष बना लिया है ॥ २५ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो कुटिलता वा परछी आदिसे उत्पन्न

हुए मूर्खोंके गुप्त महापाप भी कुष्ठ रोगके समान शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं ॥ २६ ॥ यह सुनकर उस पुण्य-शालिनी सत्यभामाने अपने शील भंग होनेके डरसे जवर्दस्ती कपिलका त्याग कर दिया और रणवात्ममें जाकर राजाका शरण लिया ॥ २७ ॥ कपिलने जो इतने दिन तक कष्ट करने का पाप किया था उसके बदले राजाने उस दुष्टको गंधपर चढ़ाकर अपने देशसे बाहर निकाल किया ॥ २८ ॥ दान पुण्य आदि गुणोंसे शोभायमान और शीलव्रतसे विभूषित ऐसी वह सती पतिव्रता सत्यभामा रणवासमें ही सुख पूर्वक रहने लगी ॥ २९ ॥

अथानन्तर—पुण्योपाजन करनेमें तत्पर वह श्रीबिष्णु राजा पात्रदान देनेके लिये प्रतिदिन स्वयं द्वारापेचण करता था ॥ ३० ॥ किसी एकदिन अमितगति और अरिंजय नामके दो आकाशगामी चारण मुनि उसके घर पधारे । वे दोनों ही मुनिराज सब तरहके परिग्रहोंसे रहित थे परन्तु गुणरूपी संपदाओंसे रहित नहीं थे तपश्चरणसे उनका समस्त शरीर कृश हो गया था और वे रागद्वेषसे सर्वथा रहित थे । वे संसारमें निर्लोभी थे तथापि मोक्ष साम्राज्यके मिलनमें उन्हें बड़ा लोभ था, वे समस्त जीवोंका हित करनेवाले थे धीर वीर थे और ज्ञान ध्यानमें सदा तत्पर रहते थे यद्यपि वे स्त्रीकी वांछासे भी रहित थे तथापि मुक्तिरूपी लोभमें बड़े ही आसक्त थे, मनुष्य देव सब उनकी पूजा करते थे तीनों काल सामायिक करते थे और खलत्रयसे सुशोभित थे, वे इच्छा और अहंकारसे रहित थे, मूलगुण और उत्तरगुणकी खानि थे और भव्य जीवोंको संसाररूपी समुद्रसे पार करनेकेलिये जहाजके समान थे । वे ज्ञानरूपी महासागरके पारगामी थे, पृथ्वीके समान क्षमा धारण करनेवाले थे और कर्मरूपी ईधनको जलानेकेलिये वे दोनों ही यति अग्निके समान थे, वे जलके समा-न स्वच्छ हृदयके थे, वायुके समान सब देशोंमें विहार करनेवाले थे अपने धर्मका (आत्माके धर्मका) उद्यो-त करनेवाले थे चतुर थे और प्रतिदिन वनमें निवास करनेवाले थे और वे दोनों ही विद्वान मुनि चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे विभूषित थे और शीलके अठारह हजार भेदोंसे सुशोभित थे । ऐसे वे दोनों मुनिराज आहार लेनेकेलिये राजाके घर पधारे ॥ ३१-३२ ॥ जिस प्रकार खजानेको देखकर दरिद्री प्रसन्न होता है

उसीप्रकार मनुष्योंको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करानेवाले उन दोनों मुनिराजोंको देखकर राजा श्रीषेण बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ ३६ ॥ राजाने:अपना मस्तक भुजाकर उन दोनों मुनिराजोंके चरणकमलोंको नमस्कार किया और तिष्ठ तिष्ठ कहकर दोनोंको स्थापन किया ॥ ४० ॥ श्रेष्ठदान देनेमें तत्पर उस राजाके उस समय श्रद्धा शक्ति निलोभपना भक्ति ज्ञान दया और चमत्ता ये दाताके सातों गुण प्राप्त होगये थे ॥ ४१ ॥ प्रतियह उच्च-स्थान, पादप्रचालन, अर्चन, प्रणाम, वाकशुद्धि, कायशुद्धि, मनशुद्धि और आहारशुद्धि यह नौ प्रकारकी भक्ति कहलाती है यह नवया भक्ति पुण्यकी खानि है और इसलिये पुण्यको उत्पन्न करनेवाली है । उस दानके समय राजाने ए सब नव भक्तियां की थीं ॥ ४३ ॥ जो विशुद्ध हो, प्रासुक हो, मिष्ट हो, कृतकारित आदि दोषोंसे रहित हो, मनोज्ञ हो, बहों रसोंसे परिपूर्ण हो, और ध्यान अध्ययन आदिको बढ़ानेवाला हो उसो श्रेष्ठ आहार कहते हैं ॥ ४४ ॥ ऊपर लिखे हुए सातों गुणोंसे सुशोभित उस राजाने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उन दोनों चारणमुनियोंको विधिपूर्वक तृप्त करनेवाला उत्तम आहार दिया ॥ ४५ ॥ उन दोनों रानियोंने भी उस श्रेष्ठदानकी अनुमोदना करके भक्तिपूर्वक शुश्रूषा करके तथा प्रणाम और विनय आदिके द्वारा बहुतसा पुण्य संपादन किया था ॥ ४६ ॥ उस सत्यभामा ब्राह्मणीने भी बड़ी भक्तिसे तथा दीन भावोंसे उन मुनिराजकी आदर सत्कार आदिसे सेवाकी थी इसलिये उसने भी रानियोंके समान ही पुण्य संपादन किया था ॥ ४७ ॥ इसप्रकार उन सबलोगोंने अच्छे परिणामोंसे पात्रदान देकर उसी समय महापुण्य संपादन किया था सो ठीक ही है क्यों कि अच्छे परिणामोंसे क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ॥ ४८ ॥ वे दोनों मुनिराज समभावोंसे आहार लेकर तथा उस घरको पवित्रकर और शुभ आशीर्वाद देकर आकाशमार्गसे चले गए ॥ ४९ ॥ उस दानसे उत्पन्न हुए आनन्दके रससे जिसका मन अत्यन्त तृप्त हो रहा है ऐसा वह राजा अपनेको कृतकृत्य मानने लगा और यहस्थाश्रमको सफल मानने लगा ॥ ५० ॥ अथानन्तर—कौश-म्बी नगरमें पुण्यकर्मके उदयसे महाबल नामका राजा राज्य करता था उसकी रानीका नाम श्रीमती था और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी ॥ ५१ ॥ रूप लावण्य आदि गुणोंसे विभूषित वह श्रीकान्ता कन्या

पुण्यकर्मके उदयसे श्रीषेणके पुत्र इन्द्रके साथ विधिपूर्वक विवाही गई थी ॥ ५२ ॥ उसा राजाक एक अग-
 न्तमती नामकी विलासिनी थी जो कि रूपवती और गुणवती थी । राजाने स्नेहसे वह भी श्रीकान्तके लिए
 दे दी थी ॥ ५३ ॥ वह अनन्तमती रूपत्रान उपेन्द्रके साथ आसक्त हो गई और स्वयं उसके साथ कामभोग
 आदिमें लंपट होगई ॥ ५४ ॥ इसलिये वे दोनो भाई उसकेलिए परस्पर युद्ध करने लगे । आचार्य कहते हैं
 कि देखो मनुष्यों के ऐसे भोगादि सुखोंको धिक्कार हो ॥ ५५ ॥ इनबातोंको सुनकर राजा श्रीषेणका भी
 अपनी आज्ञा भंग होनेका बहुत दुःख हुआ । और पापकर्मके उदयसे वह अद्भुत विषफल संवकर मरग-
 या ॥ ५६ ॥ धातकीखंडद्वीपमें पूर्वमेरुके उत्तर दिशाकी ओर जो उत्तर कुरु नामकी सुख देनेवाली भागभूमि
 है वहां लावण्य आदिसे सुशोभित आर्य उत्पन्न हुआ ॥ ५७-५८ ॥ वह सिंहनिदिता रानी भी उसी विषफल-
 को संघर्कर मरगई और उस दानसे उत्पन्न हुए धर्मके प्रभावसे उसी भोगभूमिमें उसी आर्यके आर्या उत्प-
 न्न हुई ॥ ५९ ॥ अनिदिता दूसरी रानी भी उसी तरह मरी और स्त्रीलिंग छंदकर महापुण्यके उदयसे उसी
 भोगभूमिमें आर्य हुई ॥ ६० ॥ वह सत्यभामा ब्राह्मणी भी प्राणोंको छोड़कर धर्मके प्रभावसे उस अनिदिता-
 के जीव आर्यके आर्या उत्पन्न हुई ॥ ६१ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो अपमृत्यु वा अपघातसे मरकर भी
 केवल उस महादानके फलसे ही वे सबलोग शुभगतिको प्राप्त हुये थे इसलिये कहना चाहिये कि दान देना
 उत्तम है ॥ ६२ ॥ इधर वे दोनो भाई युद्धकरहे थे परन्तु पूर्ण जन्मके स्नेहसे किसी मणिकुंडल नामके वि-
 द्याधरने आकर उनको रोक दिया ॥ ६३ ॥ और वह कहने लगा कि हे राजकुमारो मैं एक अच्छी कथा कह-
 ता हूं तुम अपना ईर्षाभाव छोड़कर और चित्तको शांतकर सुनो क्यों कि वह कथा तुम दोनोंका हित करने
 वाली है ॥ ६४ ॥ देखो धातकीखंडद्वीपमें पूर्वमेरु संबंधी पूर्ण विदेहक्षेत्र है जो कि सद्धर्म और तीर्थकर आ-
 दिसे सुशोभित है ॥ ६५ ॥ उसके पुष्कलावती देशमें एक भारी रूपाचल पर्वत शोभायमान है जोकि ऊंचा
 है जिन चैत्यालयोंसे विभूषित है और दूसरे मेरुके समान जान पड़ता है ॥ ६६ ॥ उसी पर्वतकी दक्षिण
 श्रेणीमें एक आदित्याभ नामका सुन्दर नगर है और उसमें पुण्यकर्मके उदयसे कुंडलीसे सुशोभित सुकुंड-

ली नामका राजा राज्य करता है ॥ ६७ ॥ उसकी रानीको शुभ नाम अमिततेजसेना है और बुद्धिमान मणि कुंडल नामका मैं उन दोनोंका पुत्र हूँ ॥ ६८ ॥ पुंडरीकिणी नगरीमें अमितप्रभ नामके केवली भगवानवें पास जाकर और उन्हें नमस्कारकर मैंने अपने पहिले भवकी कथा पूछी थी ॥ ६९ ॥ भगवानने जो कथा सुझरी कही थी वही मैं तुमसे इस समय कहना चाहता हूँ क्योंकि तीर्थकरके मुखसे उत्पन्न हुई वह कथा बड़ी मनोहर है और तुम दानोंका हित करनेवाली है ॥ ७० ॥ देखो-पुष्कर द्वीपमें जिनचेत्यालयोंका आश्रयभूत पश्चिम मेरु पर्वत है उसके पूर्वकी ओर त्रिवर्णाश्रमसे सुशोभित विदेहचेत्र है ॥ ७१ ॥ उसमें एक वीतशोका नगरी है उसमें चक्रायुध नामका राजा राज्य करता था और उसकी पुण्यशालिनी रानीका नाम कनकमाला था ॥ ७२ ॥ उस कनकमालाके कनकलता और पद्मलता नामकी दो पुत्री थीं उसी राजाके एक विद्वन्मती नामकी पतिव्रता दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । ये सब मिलकर धर्मके प्रभावसे अनेक तरहके सुखोंका अनुभव करते थे । किसी एक दिन रानी कनकमाला पुण्यकर्मके उदयसे अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ गणिनी (ब्रतवाली आचार्यानी) अमितसेना अर्जिकाके समीप पहुंची ॥ ७३-७४ ॥ उसके समीप जाकर उन सबने नमस्कार किया और काललब्धिके प्राप्त हो जानेसे सबने गृहस्थोंके व्रत स्वीकार किये ॥ ७६ ॥ वे सब व्रतोंको पालनकर सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर सौधर्म स्वर्गमें बड़े बड़ी ही गुरावती थी ॥ ७८ ॥ वे सब देव धर्मके प्रभावसे उत्पन्न हुए इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले उत्तम और ऋद्धियों तथा देवीगण आदिके संबंधसे प्रकट होनेवाले सुखोंका अनुभव करने लगे ॥ ७९ ॥ अपनी आयु-के पूर्ण हो जानेपर वे सब वहांसे च्युत हुये । उनमेंसे कनकमालाका जीव मैं मणिकुंडली हुआ हूँ कनकलता पद्मलता दोनों पुत्रियोंके जीव स्वर्गसे देव पर्याय छोड़कर वाकी वचे पुण्यकर्मके उदयसे तुम दोनों इन्द्र उपेन्द्र नामके राजपुत्र उत्पन्न हुये हो ॥ ८०-८१ ॥ तथा पद्मावतीका जीव जो सौधर्म स्वर्गमें अप्सरा हुई थी वह वहांसे चयकर यह रूपवती अनन्तमती विलासिनी हुई है ॥ ८२ ॥

शुभ और उत्तम कथा सुनकर पहिले जन्मके स्नेहसे मैं तुम्हें समझानेके लिये आया हूँ ॥ ८३ ॥ इस कथाको सुनकर उन दोनों भाईयो'ने अपनी निंदाकी और विरक्त होकर वे दोनों भाई शुभ कर्मके उदयसे सुधर्म नामके मुनिराजके समीप पहुँचे ॥ ८४ ॥ उन दोनों'ने उन मुनिराजको नमस्कार किया विरक्त होकर बाह्य आभयन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग किया और उच्छृष्ट संयम धारण किया ॥ ८५ ॥ उन दोनों मुनिराजो'ने शुक्लध्यानरूपी अग्निसे कर्मरूपी ईंधनको शीघ्र ही जला दिया और घोर तपश्चरणके द्वारा कैवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ सूक्ष्मध्यानरूपी तलवारसे उन दोनों'ने समस्त कर्मोंका नाश किया और वे तीनों शरीरोंको नष्टकर मोक्ष पथारे तथा अनंतगुणोंके पात्र बन गये ॥ ८७ ॥ अनंतमतीने भी श्रावकके संपूर्ण व्रत धारण किये और धर्मके प्रभावसे स्वर्गमें जा उत्पन्न हुई सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुग्रहसे क्या २ प्राप्त नहीं होता है ॥ ८८ ॥ अथानन्तर—श्रीशेष आदिके वे सब जीव पात्रदानके प्रभावसे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये तथा जो वचनों'से नहीं कहे जा सकें ऐसे सुखोंका अनुभव करने लगे ॥ ८९ ॥ मद्यांग तूयांग, विभूयांग, मालांग, दोषांग, ज्योतिरांग, शृहांग, भोजनांग, पात्रांग, और वस्त्रांग ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं ॥ ९० ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवने भोगभूमिमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष कहे हैं वे कल्पवृक्ष बड़े मनोहर होते हैं, रत्नमयी होते हैं और अपनी कांतिसे सब दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले होते हैं ॥ ९१ ॥ मद्यांग जातिके वृक्ष मधु, मैरय, सीधु, अरिष्ट, आसव आदि सर्गांधित और अमृतके समान अनेक प्रकारके रसों को देते हैं ॥ ९२ ॥ यह मद्य, मद्य नहीं है किंतु इसमें कामोद्दीपनकी सामर्थ्य है इस लिये उपचारसे इसे मद्य कहते हैं वास्तवमें यह एक प्रकारका वृक्षोंका रस है जिसे भोगभूमियां लोक सेवन करते हैं ॥ ९३ ॥ जो मद्य मद उत्पन्न करता है जिसे मतवाले लोग पीते हैं और जो मनको मोहित करनेवाला है ऐसे मद्यको आर्य लोग कभी नहीं पीते हैं ॥ ९४ ॥ तूयांग जातिके वृक्ष भेरी नगाड़े घंटा शंख शृदंग झलरी तालकाहला आदि वाजोंको देते हैं ॥ ९५ ॥ भूषणांग जातिके वृक्षद्वार केयूर नूपूर कुंडल करधनी कंकण और मुकुट आदि आभूषण देते हैं ॥ ९६ ॥ मालांग जातिके वृक्ष नागकेसर चंपा आदि सब ऋतुओंसे उत्पन्न होनेवाले फूलोंकी अनेक तरहकी मालाओंको

६६। पाग जातिके ऊंचे वृक्ष प्रतिदिन मण्डिमय दीपोंसे शोभायमान होते हैं और नये पत्ते फूल फलोंसे जड़े हुए दीपकोंके समान जान पड़ते हैं ॥ ६८ ॥ ज्योतिरंग जातिके वृक्ष सदा देदीव्यमान होते हुए प्रकार करते रहते हैं और करोड़ों सूर्यके समान सब दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं ॥ ६९ ॥ यहां जातिके वृक्ष मण्डप, ऊंच राजभवन, राजस्थान, चित्रशाला, नर्तनशाला, आदि देनेमें समर्थ होते हैं ॥ १०० ॥ भोजन आहार जातिके वृक्ष अमृतके समान स्वादिष्ट, पौष्टिक और छहों रसोंसे भरपूर ऐसे भोजन आदि सुन्दर आहार देते हैं ॥ १०१ ॥ अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य यह चार प्रकारका आहार कहलाता है तथा कडवा, कपायला, चरपरा, सीठा, खटा और नमकीन ये छह रस कहलाते हैं ॥ २ ॥ भाजनांग जातिके वृक्ष सोने जातिके वृक्ष कोमल वारोक और बहुमूल्य ऐसे रेशमी डुपड़े और पहनने के कपड़े देते हैं ॥ ३ ॥ बख्रांग कल्पवृक्ष न तो वनस्पतिके हैं और न देवोंके द्वारा बने हुए हैं ये केवल पृथ्वीके बने हुए हैं ॥ ४ ॥ ये वृक्ष अनादि निधन हैं और स्वभावसे ही फल देनेवाले हैं ॥ ५ ॥ ये कल्पकारणकी इनको आवश्यकता नहीं है ॥ ६ ॥ जिसप्रकार आजकल के वृक्ष मनुष्योंका उपकार करते हैं उसी प्रकार मनुष्योंको दानके फलसे ये कल्पवृक्ष भी अनेक तरहके फलोंसे फलते हैं ॥ ७ ॥ भोगभूमिमें मंगा सोना हीरा चन्द्रमा और नीलरत्न आदिसे सुशोभित रहनेवाली पांचों रंगकी सुगंधित पृथ्वी रात दिन शोभा देती रहती है ॥ ८ ॥ वहांकी पृथ्वी हर समय सब इंद्रियोंको सुख देती रहती है और उसपर सदा कोमल चिकनी चार अंगुल प्रमाण घास सुशोभित रहती है ॥ ९ ॥ वहांके पशु रसायनके रसकी बुद्धि रखकर मंगा दिष्ट कोमल और चिकनी ऐसी उस घासको सदा चरते रहते हैं ॥ १० ॥ वहांपर क्रीडा पर्वत भी बने हुए हैं जो सुन्दर हैं किरणें जिनमें से छूट रही हैं सोना मंगा रत्न आदिके बने हुए हैं और कल्पवृक्षोंसे शोभायमान हैं ॥ ११ ॥ वहांपर स्वच्छ जलसे भरी हुई बावड़ी भी हैं जिनमें रत्नोंकी सीड़ियां लगी हुई हैं तथा स्थान स्थानपर रत्नमय बालूसे सुशोभित नदियां बहती ही रहती हैं ॥ १२ ॥

वहाँके बन भी बड़ी अच्छी शोभा देते रहते हैं जिनमें उनमत्त कोकिल सदा बोलती रहती है सब
 चतुर्घोंके फूल फूल खिले रहते हैं और दूसरे देवारण्यके समान जान पड़ते हैं ॥ १३ ॥ वहाँपर सूर्यका सं-
 ताप कभी नहीं होता न बादलों से वर्षा होती है न शीतकाल होता है और न कोई भय होता है ॥ १४ ॥
 न वहाँपर चांदनी होती है न रातदिनका विभाग होता है न ऋतुएं पलटती हैं और न वहाँपर किसीको
 दुःख देनेवाले किसीके भाव प्रकट होते हैं ॥ १५ ॥ वहाँपर सिंह, सूवर, बिही, बाघ, कुत्ता आदि अशुभ जान-
 वर मांसभक्षी और क्रूर कभी नहीं होते ॥ १६ ॥ शंख, चीटी, डासे, मच्छर, खटमल, बीछी, आदि विकलत्रय
 (दो इन्द्रिय ते इन्द्रिय चौइन्द्रिय) जीव भी वहां नहीं होते ॥ १७ ॥ वहाँपर कौवा गीध आदि पक्षी नहीं
 होते तथा सर्प आदि विषैले जानवर और दुष्ट मांसभक्षी जानवर नहीं होते ॥ १८ ॥ वहाँपर रोगी द्वेष
 करनेवाला, ज्वरसे पीडित, बूढ़ा, दीन, कुरूप, बदसूरत, उन्मत्त (पागल) लंगड़ा लूला आदि किसी अंग
 से रहित, दुखी, दरिद्री, दुर्जन, शोक करनेवाला, क्रोधो, अभिमानी, दुबल, दुःस्वर (बुरी आवाजवाला)
 अशुभ, क्रूर और पापकर्म करनेवाला कभी दिखाई नहीं देता १९—२० ॥ वहाँपर न तो किसीको इष्टवि-
 योग होता है न अनिष्ट संयोग होता है न किसीका शीलभंग होता है न कोई अनाचार होता है, विषाद,
 खानि, निद्रा, तंद्रा (आलस) पलकसे पलक लगना आदि कुछ नहीं होता, न शरीर संबन्धी मल मूत्र
 होता है न लार होती है और न पसीना होता है ॥ २१—२२ ॥ वहाँपर सब भोगभूमिया उदय होते हुए सूर्य
 के समान होते हैं सब पसीना रहित रज रहित उत्तम और हार, कंकण केयूर, मुकुट आदि से शोभायमान
 रहते हैं ॥ २३ ॥ सबके भोगोपभोगकी सामग्री एकसी होती है सबका सुख एकसा होता है सब सुन्दर होते
 हैं और सबके वजूवृषभ नाराच संहनन होता है ॥ २४ ॥ सबका स्वर मीठा होता है देखनेमें सब मनोहर
 होते हैं मंदकथायी होते हैं रूपवान होते हैं शुभ होते हैं सब दयालु और कोमल होते हैं तथा समचतुरख
 संस्थावाले होते हैं ॥ २५ ॥ कला विज्ञान चातुर्य आदि गुणोंसे सुशोभित होते हैं तथा शुभकर्मके उदयों
 ने सब आर्य स्वभावसे ही भद्र और उत्तम होते हैं ॥ २६ ॥ वहाँपर उत्पन्न होनेके बाद सातदिन तक

को अपना मुँह किये हुये पड़े रहते हैं और अपने अंगूठेसे उत्पन्न हुए दिव्यरसका पान किया क ॥ २७ ॥ मुनीश्वरलोग उनको आगेकी दशा इसप्रकार बतलाते हैं कि दूसरे सातदिनतर तो वे दंपती पृथ्वी-पर रिगते हैं फिर तीसरे सप्ताहमें वे उठ खड़े होते हैं मीठे शब्द करते हैं और पृथ्वीपर लीलापूर्वक गि-रते पड़ते चलना सीखते हैं ॥ २८-२९ ॥ उसके बाद चौथे सप्ताहमें पैरोंको स्थिर रखते हैं और फिर पांचवें सप्ताहमें कला ज्ञान आदि गुणोंसे परिपूर्ण होते हैं ॥ ३० ॥ छठे सप्ताहमें पूर्ण नवयौवन हो जाते हैं और वस्त्र आभूषण आदिसे सुशोभित वे भोगभूमिया बड़े ही अच्छे जान पड़ते हैं ॥ ३१ ॥ वे गर्भमें भी नौ महीने तक रहोंके बने हुए भीतरी घरके समान रहते हैं और फिर दानके फलसे बड़े सुखसे उनका जन्म होता है ॥ ३२ ॥ जब वे दोनों दंपति उत्पन्न होते हैं तब माता पिता की अवश्य ही मृत्यु हो जाती है मरते समय माताको छींक आती है और पिताको जंभाई आती है इसप्रकार उनकी मृत्यु सुखसे ही होती है ॥ ३३ ॥ इसीलिये वहाँपर जोनोंके भाई पुत्र आदिका संकल्प नहीं होता उनके केवल पति पत्नीका ही संबन्ध होता है उनके और किसी संबन्धकी कल्पना नहीं होती ॥ ३४ ॥ उनके शरीरकी उंचाई तीन कोस होती है वे सम्पूर्ण लक्ष्णों से सुशोभित होते हैं और बुढापा रोग आदि उनके कुछ नहीं होता ॥ ३५ ॥

श्रीजिनेन्द्रदेवने उन आर्योंकी आयु तीन पल्यकी बतलाई है तथा उसका कभी कदलीघात नहीं होता और वे सदा यौवन अवस्थामें ही बने रहते हैं ॥ ३६ ॥ वे तीन दिनोंके बाद बदरीफलके (बेरके) समान आहार लेते हैं जो कि अमृतमय दिव्य और महास्वाद्विष्ट होता है ॥ ३७ ॥ वे आर्य सदा संकल्पमात्रसे ही दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए और सब चतुर्वर्षों सुख देनेवाले भोगोंका अनुभव किया करते हैं ॥ ३८ ॥ सम्यग्दर्शनरहित भद्र पुरुष ही उच्छृष्ट पात्रको दान देनेसे भोगोपभोगको सेवन करनेवाले विचक्षण आर्य होते हैं ॥ ३९ ॥ पात्रदानकी अनुमोदना करनेसे उदार हृदयके पशु भी भोगभूमिमें भोगोपभोगोंसे भरपूर शुभ जन्म लेते हैं ॥ ४० ॥ केवल भोगोंकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य कुपात्रको दान देनेसे इस भोग-भूमिमें सुखी पशु होते हैं ॥ ४१ ॥ जो सम्यग्दर्शन रहित भी एक बार पात्रदान देता है वह भोगभूमिमें

सुखसागरके मध्यमें अवश्य जाकर मग्न होता है ॥ ४२ ॥ प्रीति उत्पन्न करनेवाला और बाधा रहित जो सुख भोगभूमियोंको होता है वह अनेक तरहकी चिन्ता करनेवाले चक्रवर्तियोंको भला कहां मिल सकता है ॥ ४३ ॥ भोगभूमिमें रहनेवाले जीवोंको दानसे ही अनेक प्रकारकी ऋद्धि प्राप्त होती है दानसे ही अनेक तरहके सुख मिलते हैं दानसे ही अनेक तरहके भोग मिलते हैं दानसे ही अनेक तरहके गुण प्राप्त होते हैं दानसे ही अनेक तरहकी रूप लावण्य आदि संपदाएं प्राप्त होती हैं और दानसे ही अनेक तरहकी प्रीति प्राप्त होती है ॥ ४४-४५ ॥ भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले आर्य पात्रदानसे उत्पन्न हुए महासुखोंका उपभोगकर मंद कृपायरूप भावोंसे वे सब स्वर्गका ही जाते हैं ॥ ४६ ॥

अथानन्तर—श्रीपैणका जीव भी बहुत दिनतक वहांके सुख भोगकर सौधर्म स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ ॥ ४७ ॥ सिंहनिन्दिताका जीव भी भोगभूमिके सुख भोगकर उसी स्वर्गके उसी विमानसे विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ॥ ४८ ॥ अनिन्दिताका जीव भोगभूमिके सुखोंका अनुभवकर उसी सौधर्मके विमलप्रभ नामका देव हुआ ॥ ४९ ॥ सत्यभामा ब्राह्मणीका जीव भी सुख पूर्वक प्राणोंको छोड़कर पुरायकर्मके उदयसे उसी विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी हुई ॥ ५० ॥ उन सबका शरीर निर्मल था सात धातुओंसे रहित नख केश आदिसे रहित था और आंखोंकी टिमिकारसे रहित था ॥ ५१ ॥ उन सबके मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान थे आठ ऋद्धियोंसे वे सुशोभित थे, मानसिक आहारसे संतुष्ट हो जाते थे, बेक्रियिक उनका शरीर था और वे बड़े ही रूपवान थे ॥ ५२ ॥ उनके रोग क्लेश विषाद आदि कभी नहीं होता था, उनका हृदय सदा शुभ रहता था, वे बड़े ही निर्मल थे मधुर भाषण करते थे सुन्दर और नेत्रोंको सुखदेनेवाले थे ॥ ५३ ॥ वे सब दिव्य माला दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित थे, शुभ लक्षणोंवाले थे, पसी-नारहित थे सुन्दर थे, उनका समचतुरस्र संस्थान था और सुन्दर मूर्ति थी ॥ ५४ ॥ पहले जन्ममें उपार्जन किये हुए पुरायकर्मके उदयसे देव और देवी सब रूप लावण्य और शोभासे सुशोभित थे और अनेक गुणोंसे विभूषित थे ॥ ५५ ॥ वे सब देव दिव्य सामग्री लेकर मेरु पर्वत नन्दीश्वरद्वीप आदि स्थानोंमें अ-

चैत्यालयोंमें जाकर भगवानकी पूजा करते थे ॥ ५६ ॥ वे देव परलोक सम्बन्धी सुख प्राप्त करानेवाले कर्म भूमियोंमें जाकर बड़ी भक्तिसे प्रतिदिन श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दना करते थे ॥ ५७ ॥ वे देव तत्त्वोंको जानने और उनपर श्रद्धा करनेके लिये अपने परिवारके साथ श्रीतीर्थकरके मुखसे प्रगट हुई जिनवाणीको सुनते थे वे देव दिव्य भवनोंमें मेरुपर्वतपरवनोमें और द्वीपसमुद्रोंमें अपनी अपनी देवियोंके साथ सदा अनेक तरहकी क्रीड़ा किया करते थे ॥ ५१ ॥ वे सब देव अपनी अपनी देवियोंके साथ मधुर गीत सुनते थे, सुन्दर नृत्य देखते थे, और अनेक तरहके भोग भोगते थे स्वर्गोंमें बड़ा भारी सुख है इस लिए आनन्द रससे संतुष्ट हुए और सुख सागरमें निमग्न हुए वे देव वीतते हुए सप्तयुगों भी नहीं जानते थे ॥ ६१ ॥ अपने पुण्य-कर्मके उदयसे उन चारों जीवोंकी सब तरहके दुःखोंसे रहित सब तरहकी बाधाओंसे रहित और सुखकी स्थान ऐसी पांच पत्थकी आयु थी ॥ ६२ ॥ उसको पूरीकर श्रीषण्णका जीव वहांसे चयकर पुण्यकर्मके उदयसे तू अर्ककीर्तिका पुत्र अमिततेज नामका बड़ा राजा हुआ है ॥ ६३ ॥ रानी सिंहनिन्दिताका जीव जो स्वर्गमें विद्युत्प्रभा देवी थी वह चयकर शुभकर्मके उदयसे ज्योतिष्मा नामकी तेरी स्त्री हुई है ॥ ६४ ॥ रानी अग्नि-न्दिताका जीव जो स्वर्गमें देव था वह वहांसे चयकर पुण्यके फलसे बुद्धिमान यह श्रीविजय हुआ है जोकि तुझपर बहुत प्रेम करता है ॥ ६५ ॥ सत्यभोमा ब्राह्मणीका जीव जो स्वर्गमें देवी थी वह चयकर शुभकर्मके उदयसे पुण्यवती और शुभलक्षणोंसे सुशोभित ऐसी यह सुतारा हुई है ॥ ६६ ॥ ऐरावती नदीके किनारे रथभूत रमण नामके वनमें एक ताप साश्रम था जिसकी पृथ्वी सब जली हुई थी और जो मिथ्यात्वसे भरपूर था ॥ ६७ ॥ उसमें एक कौशिक नामका तपसी रहता था जोकि मिथ्यातपश्चर और मिथ्या ब्रत करनेमें गुण तपस था अशुभ कर्मके उदयसे उसके चपलवेगा नामकी स्त्री थी ॥ ६८ ॥ पहिले कहा हुआ कपिल नामका मूख ब्राह्मण बहुत दिनोंतक चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता रहा और अनाचार करनेके कारण उन दोनोंके सुगन्धर्ग नामका पुत्र हुआ ॥ ६९ ॥ वह भी मिथ्यात्व कर्मके उदयसे संसारमें परिभ्रमण करनेवाला और पंचांगि आदिसे उत्पन्न हुआ मिथ्यातपश्चरण ही करता था तथा मिथ्या ब्रतोंको ही पालता था ॥ ७० ॥ किसी

नौके द्वारा ५१ करने योग्य ऐसा निदान किया ॥ ७१ ॥ उस पहिले जन्ममें किये हुए निदानसे विद्याध-
 रोंके कुलमें यह अशनिघोष विद्याधर हुआ है और पहिले जन्मके स्नेहके कारण आज इसने यह सुतारा
 हरली है ॥ ७२ ॥ प्रेम द्वेष और स्नेह वेर ये सब पहिले जन्मके संबंधसे प्राणियोंके भव भवमें अनेक प्रका-
 रसे साथ जाते हैं ॥ ७३ ॥ इसलिये हे राजन् अपने आत्माका हित करनेवालोंको किसी दुर्बलके साथ भी
 सैकड़ों दुःख देनेवाला वेर कभी नहीं करना चाहिये ॥ ७४ ॥ हे राजन् । इस जन्मसे नौवें भवमें तू श्रीशां-
 तिनाथ नामका सोलहवां तीर्थकर और पांचवां चक्रवर्ती होगा ॥ ७५ ॥ इसप्रकार भगवानरूपी चन्द्रमाकी
 वाणी रूपी चांदनीसे उस विद्याधरका हृदयरूपी कुमुदिनीका घर (समूह वा तलाव) खूब खिल गया ॥ ७६ ॥
 उस समय वह विद्याधर अपने तीर्थंकर पठकी प्रातिकी आज्ञा सुनकर बड़े भारी आनन्दमें डूब गया और
 अपनेका ऐसा मानने लगा मानो उसे अरहंतकी विभूति प्राप्ति ही हो गई हो ॥ ७७ ॥ अशनिघोष विद्याध-
 रने अपनी कथा सुनकर स्वयं अपने आत्माकी बड़ी निन्दाकी और परम वैराग्यको पाकर वहींपर उसने संयम
 धारण कर लिया ॥ ७८ ॥

इस कथाको सुनकर अशनिघोषकी माता आसुरीकी भी स्वर्ग मोक्ष देनेवाला संवेग प्राप्त हुआ और
 उसने भगवानके वचनानुसार कर्मोंको नाश करवाली दीक्षा ग्रहण कर ली ॥ ७९ ॥ श्रीविजयकी माता स्वयं-
 प्रभा भी देह भोग और संसारसे विरक्त हुई और उसने भी कर्मरूप शत्रुओंका नाश करनेके लिए मोच प्राप्त
 ला संयम धारण कर लिया ॥ ८० ॥ सुतारा भी अपने भव सुनकर विरक्त हुई और मोक्षके लिये
 रूपी आभरणोंसे सुशोभित होकर कर्मोंका नाश करनेवाला तपश्चरण करने लगी ॥ ८१ ॥ बाकीके
 विजय आदि सब लोगोंने भक्ति पूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं उनको नमस्कार किया
 वे अमितेजके साथ अपने अपने योग्य स्थानको पधारे ॥ ८२ ॥ ब्रतोंका समुदायही जिसका मुकुट है
 न ही जिसका कुंडल है, यह नियम ही जिसके शस्त्र हैं, सम्यग्दर्शन ही जिसका हार है, जो न्यूनक तरह-
 न । एयोंका आधिपत्य

है ऐसे शान्तिनाथके लिये मैं नमस्कार करता हूँ। संसारमें शान्तिनाथसे ही धर्मकी प्रवृत्ति होती है, शान्तिनाथका ही सुख निर्दोष है, चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर की विभूति भी शान्तिनाथमें ही विराजमान है ऐसे वे शान्तिनाथ भगवान तुम लोगों का कल्याण करें।

पुराण

इसप्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराणमें अतत्त्वतीर्थको सम्यक्त्वकी प्राप्ति और वक्रायुध चक्रवर्तीका भय वर्णन नाम आठवा अधिकांश समाप्त हुआ ८ ॥

नवमा अधिकांश ।

जो शान्तिनाथ भगवान शान्ति करनेवाले हैं सर्वज्ञ हैं सुखके सागर हैं और जिनाधीश हैं उनको मैं उनका पद प्राप्त करनेके लिये मस्तक भुक्काकर सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा वज्रायुध सभामें सिंहासनपर विराजमान थे और उनपर चमर डुल रहे थे इसलिये वे उससमय इन्द्रके समान जान पड़ते थे ॥ २ ॥ उससमय एक विद्याधर डरसे घबड़ाता हुआ आया और उसने अपनी रक्षाके लिये चक्रवर्तीकी शरण ली ॥ ३ ॥ उसके पीछे पीछे सभामवनकी कंपाती हुई एक विद्याधरी आई क्रोधरूपी अग्निसे वह जाञ्जल्यमान होरही थी और हाथमें नंगी तलवार लिये उसे मारना चाहती थी ॥ ४ ॥ उस विद्याधरीके पीछे एक बूढ़ा विद्याधर आया, गदा उसके हाथमें थी और उन दोनोंके बेरका वह जानकार था ॥ ५ ॥ वह बूढ़ा विद्याधर राजाको नमस्कार कर कहने लगा कि हे स्वामिन् ! आप दुष्टोंको निग्रह करनेमें और सज्जनोंको पालनेमें तत्पर हैं ॥ ६ ॥ दुष्टोंका निग्रह करना और सज्जनोंका प्रतिपालन करना क्षत्रियोंका धर्म है और उस धर्मको आप सदा पालन करते रहते हैं ॥ ७ ॥ इसलिये आप सरीखे धर्मात्माको इसका निग्रह अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह अन्यायका कारण है और पापी है इसलिए अवश्य निग्रह करने योग्य है ॥ ८ ॥ यदि आपको इसके अन्यायको सुननेकी इच्छा हो तो हे देव । मैं कहता हूँ आप मन लगाकर सुनिए ॥ ९ ॥ यह जंबूद्वीप धर्मका स्थान है, तथा देव विद्याधर और मनुष्योंसे भरा हुआ है । उसमें एक कच्छ नामका मनोहर देश है और उसमें एक विजयाद्व पर्वत है ॥ १० ॥

और गुणके समुद्र ऐसे ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हुई ॥ ७१ ॥ वहाँके निरन्तरके दिव्य भोगोंसे आयु पूरीकर वहाँसे चयकर शुभकर्मके उदयसे यह तेरी पुत्री हुई है ॥ ७२ ॥ इसलिये पूर्व जन्मके स्नेहसे जिसका मन रागसे अन्या हो रहा है ऐसे इस अजितसेनने इस विद्याधारीके जयदर्स्ती विकार उत्पन्न करना चाहा था ॥ ७३ ॥ पहिले जन्मके संस्कारसे इस लोकमें भी जीवोंके स्नेह बेर गुण दोष राग द्वेष आदि सब बराबर चले आते हैं ॥ ७४ ॥ यही समझकर बुद्धिसान शत्रु के लिए कभी विषाद नही करते हैं इसलिये इस अन्याय करनेवालेका बेर इस पुत्रीके साथ तु भी छोड़ ॥ ७५ ॥ वह शांतिमति विद्याधरी राजा बज्रायुधसे अपने पहिले भवके विचित्र समाचार जानकर संसारसे विरक्त हुई ॥ ७६ ॥ उसने अपने विवाह आदिके सब कार्य छोड़ दिये और पिताका भी त्यागकर देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे चैमकर तीर्थकरके समीप पहुंची ॥ ७७ ॥ उस सतीने उन जिनेंद्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा दीं उन्हें नमस्कार किया और धर्माश्रुतके पीनेकी इच्छासे सभामें बैठ गई ॥ ७८ ॥ उसने अपने कानोंसे जन्म मरण और बुढ़ापेको जलनको दूर करनेवाला आत्मरस प्रकट करनेवाला और मुनियोंके समझने योग्य ऐसा उन तीर्थकरके मुखरूपी चंद्रमासे झरनेवाला धर्माश्रुतरूपी उत्तम रस पिया और अजर अमर होनेके समान संतोष धारण किया ॥ ७९-८० ॥ तदनन्तर वह सुलक्षणा नामकी गुणशालिनी श्रेष्ठ गणिनीके समीप पहुंची और उसे नमस्कारकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उसने मोक्षको वश करनेवाला चारित्र धारण किया ॥ ८१ ॥ उस शांतिमती विद्याधरीने एक साड़ीके बिना अनेक प्रकारके वाद्य परिग्रहका त्याग किया और मिथ्यात्व आदि अन्नरंग परिग्रहका भी त्याग किया ॥ ८२ ॥ संवेग गुणसे सुखका सागर ऐसा तीव्र तपश्चरण किया और शास्त्रोंका अभ्यासकर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि धारण की ॥ ८३ ॥ अन्तमें चार प्रकारका सन्यास धारण किया, एकाग्रचित्तसे भगवान जिनेंद्रदेवका स्मरण किया, भावनाओंका चिन्तन किया, समाधिपूर्वक प्राणोंका त्याग किया और सम्यग्दर्शनके प्रभावसे स्त्रीलिंगका नाशकर धर्मके प्रभावसे वह ईशानस्वर्गमें बड़ी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव हुई ॥ ८४-८५ ॥ अविधिज्ञानसे अपने पहिले भवको जान कर वह देव अपने शरीरकी पूजा करनेके लिये और मुनि तथा जिनप्रतिमाकी पूजा कर-

घरका दरवाजा है और दीपक है और स्वर्ण मोतिलरूपी घरके लिये बड़ा भारी अर्गल है । यह स्त्री सब पापों की खानि है ॥ ५८ ॥ चंचल हृदयवाली यह स्त्री धर्मरत्नोंके खजानेको चुरानेके लिये चोर है यह पापिनी मनुष्योंको भक्षण करनेके लिये दृष्टिद्विष (जिसको देख ले वही मर जाय) सपिणीके समान है ॥ ५९ ॥ ये मूर्ख स्त्रियोंके समागमसे नरक देनेवाले और अनेक जीवोंको नष्ट करनेवाले पापोंको प्रतिदिन व्यर्थ ही उपार्जन किया करते हैं ॥ ६० ॥ संसारमें कितने ही पुण्यवान तो ऐसे हैं जो अपनी स्त्रीको भी छोड़कर संयम धारण करते हैं परन्तु मेरे समान कुछ ऐसे भी नीच हैं जो परस्त्रियोंको चाहते हैं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार अपने निंदाकर उसने पहिले इकट्ठे किये हुए पापोंका नष्ट किया और पापरूपी वनको जलानेके लिये अशिके समान संवेगको दूना किया ॥ ६२ ॥ तदनन्तर चारित्र धारण करनेकी इच्छा करता हुआ वह नलिनकेतु उस स्त्रीको और राज्य भागोंको छोड़कर सीमंकर मुनिके समीप पहुंचा ॥ ६३ ॥ उसने दुखरूपी दावानलको बुझानेके लिये वर्षाके समान उन मुनिराजके दोनों चरण कमलोंको नमस्कार किया और बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़कर दीक्षा धारण की ॥ ६४ ॥ उसका संवेग गुण बहुत बढ़ा हुआ था इस लिये उसने घोर तपश्चरण किया और समस्त तत्त्वोंसे भरे हुए आगमका खूब अभ्यास किया ॥ ६५ ॥ उन मुनिराजने क्षपकथ्रेणी चढ़कर पृथक्त्ववितर्क नामके शुक्लव्यानरूपी तलवारसे दुष्ट कथायरूपी शत्रुओंको मारा और फिर तीनों वेदोंको नष्ट किया । फिर उन्होंने दूसरे शुक्लव्यानरूपी वज्रसे वाकोंके घातियाकर्मरूपी पर्वतको चूर चूर किया और इसप्रकार साचात् केवलज्ञान प्रकट किया ॥ ६६ ॥ इन्द्रादिकोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की और फिर वे बुलढे सागर जिनराज अघातियारूपी शत्रुओंको नष्टकर शाश्वत मोक्षपदमें जा विराजमान हुए ॥ ६८ ॥ प्रीतिकराने भी अपने दुराचरणकी निन्दा की और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए संवेग धारणकर सुव्रता नामकी आर्त्तिकके समीप पहुंची ॥ ६९ ॥ उसने घर सम्बन्धी सब परिग्रहोंका त्यागकर संयम धारण किया और कर्मरूपी तिनकोंको जलानेवाली अग्निको शुद्ध करनेके लिए चांद्रायणतप किया ॥ ७० ॥ अन्तमें सन्यास धारणकर विधिपूर्वक प्राणोंका त्याग किया और उस

ध्यानका अभ्यास किया और धर्म ध्यानादिक किया ॥ ४३ ॥ अन्तमें उन्होंने सन्यास धारणकर मन शुद्ध किया, सब आराधनाओंका आराधन किया, हृदयमें श्रीजिनेंद्रदेव विराजमान किए और बड़े प्रयत्नसे प्राणों का त्याग किया इसलिये उनका जीव उस चारित्ररूप धर्मके प्रभावसे ईसान स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव हुआ ॥ ४४-४५ ॥ उसकी एक सागरकी आयु थी, वहांपर वह देवांगनाओंके सुख भोगता था, और अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करता था ॥ ४६ ॥ वह देव स्वर्गलोक मनुष्यलोक और त्रिपंच लोककी जिन प्रतिमाओंकी पूजा बड़ी विभूतिके साथ किया करता था ॥ ४७ ॥ अथानन्तर—इसी जंबूद्वीपके सुकच्छ देशमें शिखरोंपर देवियोंके भवनोंसे शोभायमान विजयाञ्च पर्वत है ४८ ॥ उसकी उत्तर श्रेणीके कांचनतिलक नगरमें पुण्यमें कर्मके उदयसे महेंद्रविक्रम नामका विद्याधर राज्य करता था ॥ ४९ ॥ उसको सुख देनेवाली रानीका नाम अनलवेगा था उन दोनोंके वह देव स्वर्गसे चयकर अजितसेन नामका पुत्र हुआ ॥ ५० ॥ इधर राजपुत्र नलिनकेतुको भी उल्कापात देखकर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और काललब्धि प्राप्त होनेसे उसे संवेग प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥ पहिले उसने जो अपना दुश्चरित्र किया था उसकी वह निन्दा करने लगा और हृदयमें परस्त्री छोड़नेके पापका पश्चात्ताप करने लगा ॥ ५२ ॥ वह विचार करने लगा कि मैं बड़ा पापी हूं, परस्त्री लंपट हूं, पापी हूं, विषयबंध हूं और सैकड़ों अन्याय करनेवाला हूं ॥ ५३ ॥ स्त्रियोंके शरीरमें अच्छापन ही क्या है वह चमड़ा हड्डी और अंतड़ियोंका समूह है संसारमें जितने अमनोत्तम पदार्थ हैं उन सबका आधार और विष्टा आदि दुर्गंध चीजोंका घर है ॥ ५४ ॥ यह शरीर सात धातुओंसे बना है निंब है दुर्गंधमय है घृणा करने योग्य है, और इसके नौ छिद्रोंसे सदा मल मूत्र मूत्र आदि बहा करते हैं ॥ ५५ ॥ यह केवल बाहरसे गोरे चमड़े से ढका हुआ है और ऊपरसे बल्ल आभूषणोंसे सुशोभित है यह किंपाकफल नामके विषफलके समान है अंतमें यह बहुत ही दुख देनेवाला है ॥ ५६ ॥ स्त्रियोंका शरीर करोड़ों कीड़ोंसे भरा हुआ है और विषके समान है संसारमें ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो इसका सेवन करे। जो ज्ञानी होकर भी इसका सेवन करे तो समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि ही बिगड़ गई है ॥ ५७ ॥ यह

उदयसे वह उतपर कामासक्त होगया ॥ २७ ॥ वह बिना उसके विकल होगया और उस कामाग्निको वह सह नही सका इसलिए उस मूर्खने न्याय मार्गका उल्लंघनकर जवर्दस्ती वह हर ली ॥ २८ ॥ उसके वियो-गसे सुदत्तका हृदय भी शोकसे व्याकुल होगया और वह अपनेको पुण्यहीन समझकर अपनी निंदा करने-लगा ॥ २९ ॥ वह विचार करने लगा कि मैंने पहिले भवमें न तो धर्मको पालन किया था, न तप किया था, न चारित्र पालन किया था न दान दिया था और न भगवान जिनंद्रेवका पूजन किया था ॥ ३० ॥ इसी-लिए मेरे पापकर्मके उदयसे पुण्यवान न होनेसे इसने मेरी रूपवती अच्छी स्त्री जवर्दस्ती हर ली है ॥ ३१ ॥ संसारमें सुख देनेवाले इष्ट पदार्थोंका जो वियोग होता है तथा स्त्री पुत्र धन आदिका वियोग होता है तथा दुष्ट शत्रु चोर रोगक्लेश दुख आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग होता है अथवा और भी जो कुछ प्राणियोंको अनिष्ट होता है वह सब पापरूप शत्रुके द्वारा ही किया हुआ होता है और किसी तरह नहीं हो सकता ॥ ३२-३४ ॥ मनुष्योंके जवतक पहिले भवमें उपार्जन किया हुआ और अनेक दुख देनेवाले पाप कर्मोंका उदय है तवतक उन्हें उत्तम सुख कभी नहीं मिलसकता ॥ ३५ ॥ यदि पापरूप शत्रु कोई चीज न हो तो फिर मुनि-राज घर छोड़कर वनमें जाकर तपश्चरणरूपी तलवारसे किसको मारते हैं ॥ ३६ ॥ संसारमें वे ही सुखी हैं जिन्होंने अलौकिक सुख प्राप्त करनेकेलिये चारित्ररूपी शस्त्रके प्रहारसे पापरूपी महाशत्रु मार डाला है ॥ ३७ ॥ इसलिये मैं भी सम्यक्चारित्ररूपी धनुषको लेकर ध्यान रूपी बाणसे अनेक दुखोंके सागर ऐसे पापरूपी शत्रुको मारूंगा ॥ ३८ ॥ इसप्रकार हृदयमें विचार कर वह वैश्य काललब्धिके प्राप्त होनेसे स्त्रीभोग शरीर और संसार सबसे विरक्त हुआ ॥ ३९ ॥ तदनन्तर वह दीचा लेनेकेलिये सुदत्त नामके तीर्थकरके समीप पहुंचा और शौकादिक छोड़कर तपश्चरण करनेके लिये तैयार हुआ ॥ ४० ॥ समस्त जीवोंका हितकरने-वाले उन तीर्थकरको नमस्कारकर उसने मुक्तिरूपी स्त्रीको बश करनेवाला संयम धारण किया ॥ ४१ ॥ वह विरक्त होनेके कारण बहुत दिनतक शरीरका क्लेश पहुंचानेवाला कायोत्सग आदि अनेक प्रकारका घोर तपश्चरण करने लगा ॥ ४२ ॥ उन मुनिराजने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये बिना किसी प्रमादके जन्मपर्यन्त

मुनिराज तृष्णारूपी तापको शांत करनेके लिए तत्वरूपी शीतल जलसे भरे हुए आगमरूपी महासागरका अवगाहन करते थे उसमें स्नान करते थे अर्थात् उसका खूब मनन करते थे ॥ २२ ॥ वे मुनि पन्द्रह दिन एक महीना एक वर्ष आदिकी मर्यादासे शोषणोपवास आदि धारणकर अनेक प्रकारका घोर और दुष्कर पूर्ण ताप करते थे ॥ २३ ॥ वे चित्तको एकाग्र कर सूने मकानोंमें, पर्वतपर, वृक्षोंके कोटरोंमें और गुफा में उत्तम ध्यान धारण करते थे ॥ २४ ॥ वर्षाकालके चार महीनेतक वे मुनिराज वृक्षके नीचे लकड़ीके खम्भेके समान खड़े होकर पापकर्मोंको नाश करनेवाला योग धारण करते थे ॥ २५ ॥ शीतकालमें रात्रिके समय चौराहेमें कायोत्सर्ग धारणकर बरफसे जले हुए पर्वतके समान भयरहित होकर खड़े रहते थे ॥ २६ ॥ ग्रीष्मऋतुमें वे मुनिराज पसीनेकी बूंदोंसे विमूषित होकर धूपसे जलती हुई पर्वतके ऊपरकी शिलापर सूर्यके सामने कायोत्सर्ग धारणकर खड़े होते थे ॥ २७ ॥ इसप्रकार वे मुनिराज अनन्त सुख प्राप्त करनेके लिये तथा शरीर और कर्मोंके नष्ट करनेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार तीनो ऋतुओंसे उत्पन्न हुए कायक्लेशको धारण करते थे ॥ २८ ॥ किसी एक दिन वज्रवृषभ नाराच संहननको धारण करनेवाले वे धीर वीर मुनिराज पापोंको नाश करनेके लिए सिद्धगिरि पर्वतपर प्रतिमा योग धारणकर बड़ी स्थिरतासे विराजमान हुये ॥ २९ ॥ उन्हें देखकर आकाशसार्गसे जाते हुये त्रिधाधर हृदयमें आश्चर्य करते हुये इस प्रकार कल्पना करते थे क्या यह पर्वतका शिखर है अथवा कोई बलाया हुआ खम्भा है अथवा मस्तकपरके काले केशोंके भ्रमरोंसे घिरा हुआ कोई वृक्ष ही है अथवा शरीरसे ममत्व छोड़े हुये कोई मुनिराज है ॥ ३०-३१ ॥ वे मुनिराज इतने निश्चल थे कि उन्हें वृक्ष समझकर अनेक प्रकारके दुष्ट भयंकर सर्प भी मस्तकतक उनके शरीरपर चढ़ जाते थे ॥ ३२ ॥ उन मुनिराजके दोनों चरणोंका सहारा लेकर सांपोंके बिले भी खूब बह गये थे सो ठीक ही है क्योंकि मुनियोंके चरण कमलोंमें लगकर शत्रु भी बह जाते हैं ॥ ३३ ॥ कितनी ही वेलोंने मानों मार्दव गुणको (कोमलताको) प्राप्त करनेकी इच्छासे ही कंठतक उन मुनिराजके शरीरको घेरकर खूब अच्छी तरह ढक लिया था ॥ ३४ ॥ वे मुनिराज उत्कृष्ट आत्माका ध्यान धारणकर समस्त परीबहोंको जीतकर ऐसे निश्चल विराजमान हो गये

संसाररूपी धनमें धूमता रहता है और दुबलरूपी पर्वतपर चढ़ता उतरता रहता है ॥७॥ यदि संसार ही कल्याणकारी होता तो श्रीजिनेन्द्रदेवने इसका क्यों नाश किया और मोक्षकी राज्यलक्ष्मीके साथ साथ मुक्तिरूपी स्त्री क्यों ग्रहण की ॥ ८ ॥ इस प्रकार चिंतन करनेसे उन चक्रवर्तीका वह अनेक प्रकारके सुख देनेवाला और ज्ञानका कारण ऐसा उत्तम वैराग्य देना चढ़ गया ॥ ९ ॥ तदनन्तर वे चक्रवर्ती श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कारकर, उनके वचनानामको पीकर और भोग त्याग आदिले उत्पन्न हुए, दाहको नष्टकर अपने घर चले गए ॥ १० ॥ संसारसे विरक्त हुए उन बुद्धिमानने वडे उत्सवके साथ सननोंके द्वारा त्याग करने योग्य राज्य सहस्रायुधको दिया और इस प्रकार वे निश्चिन्त हुए ॥ ११ ॥ तदनन्तर वे चक्रवर्ती दीक्षा लेनेकी इच्छासे छहो बंडकी राज्य लक्ष्मी, नौ निधि, चौदह रत्न और अयानवे हजार धियोको छोड़कर अपने पिता जेसंदर तीर्थकरके समीप पहुंचे ॥ १२-१३ ॥ वे अज्ञान तोनों नाकोंके स्वामी थे, गुणोंके समुद्र थे और अनन्त महिमा सहित विराजमान थे। चक्रवर्तीने उनको बड़ी भक्तिसे मस्तक भुक्ताकर तीन बार नमस्कार किया और तीन प्रदक्षिणाएं दीं ॥ १४ ॥ उन्होंने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उनकी आज्ञानुसार वस्त्रादि वाय परिग्रहों का त्याग किया, मिथ्यात्व आदि अन्तर्ग परिग्रहका त्याग किया और दीक्षा धारण की ॥ १५ ॥ उन्होंने अहिंसा आदि पांच महाव्रत धारण किए, ईर्ष्या समिति आदि पांच उत्तम समितियां धारण की, स्पर्श आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयोंको रोका, सामयिक आदि ब्रह्म आवश्यक धारण की, केशलोच किया, नग्न अवस्था धारण की, स्नानका त्याग किया, सदा पृथ्वीपर सतिका नियम लिया, दन्त धावन करनेका त्याग किया और मध्याह्नके समय सूर्यके घरपर मुब देनेवाला एकवार खड़े होकर पवित्र प्रासुक भाजन लेनेका नियम लिया ॥ १६-१८ ॥ श्रीजिनेन्द्रदेवने दीक्षा देते समय बजायुध चक्रवर्तीको ये उपर लिये अट्टाईस मूलगुण दिये थे ॥ १९ ॥ मुनियोंको ये अट्टाईस मूलगुण प्राणनाश होनेपर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि ये मूलगुण ही समस्त गुणोंके मूलभूत हैं सबकी जड़ हैं ॥ २० ॥ मुनिराज बिना किसी अतिव्रतके समस्त प्रमादोंको छोड़कर इन मोक्ष देनेवाले अट्टाईस मूलगुणोंको सदा पालन करते रहते हैं ॥ २१ ॥ वे

नरकरूपी क्रूरसे रचा करनेवाला है, मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेवाला है, वह धर्म महाव्रत धारणकर, घोर और दुष्कर तपश्चरणा कर, रत्नत्रय, यम, नियम, योग, महाध्यान आदिके द्वारा निर्मल हृदयवाले धीरवीर मुनियोंके द्वारा धारण किया जाता है ॥ ८३-८४ ॥ तथा स्वर्गोंके सुख देनेवाला एकदेश धर्म सम्यग्ज्ञान, अणुव्रत, दान, पूजन, गुरुसेवा प्रोबोधोपवास, निरंतर व्रतोंकी भावना, और तीर्थकरोंकी भक्ति आदिके द्वारा सदा आराधन किया जाता है ॥ ८५-८६ ॥ इसप्रकार अरहंत भगवानका उपदेश सुनकर वह राजा बजा-युध काललब्धि प्राप्त हो जानेके कारण शरीर भोग और संसारसे विरक्त हुआ ॥ ८७ ॥ तदनंतर वह बुद्धिमान अपने मनमें विचार करने लगा कि संसारमें अपने भोगोंकी लंपटता भी बड़ी ही विचित्र है ॥ ८८ ॥ आश्चर्य है कि ये मेरे पोते हैं आज इनको धीरवीरता और तपश्चरण गुणके कारण बालकपन में ही केवल ज्ञानकी संपदा प्राप्त हो गई है। इसलिये संसारमें इन्हींका आत्मा धन्य है ॥ ८९ ॥ देखो, मुझे तीन ज्ञान प्राप्त हैं तो भी मैं मूर्खके समान भाई बंधुरूपी सांकलसे बंधा हुआ राज्यरूपी कारागार में पड़ा हूँ ॥ ९० ॥ जिन धीरवीरता आदि गुणोंसे धीर वीर पुरुष मोज प्राप्त करकेलिये कर्मरूपी शत्रुओंको न नाश कर सकें उन धीर वीरता आदि गुणोंसे भी संसारमें क्या सिद्ध हो सकता है ? ॥ ९१ ॥ इस शरीरमें भी क्या सार है जिसके लिये मूर्ख लोग इसको पुष्ट वा पालन पोषण करनेके लिये नरक देनेवाले अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करते हैं ॥ ९२ ॥ यह शरीर शुक्र शोणितसे उत्पन्न हुआ है सात धातुओंसे भरा हुआ है विष्ठा आदिसे भरपूर है मल मूत्रका पात्र है और कीड़ोंसे भरा हुआ है। इसकी हड्डियोंका समूह केवल चमड़ेसे आदि केवल एक भवमें ही दुख देते हैं परन्तु ये भोग अनन्त जन्मोंमें दुख देते हैं ॥ ९३ ॥ इस लिये बुद्धिमान लोगोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए क्रोधित हुए सर्पके समान इन भोगोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए और प्राण नाश होनेपर भी इनका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि ये धर्मका नाश करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ यह संसार सब तरहके दुखोंकी खानि है, घोर है, विषम है, विनश्यत है, अनन्त है, और भयानक है। इसमें भला कौन बुद्धिमान प्रस करेगा ॥ ६ ॥ विषयोंमें अन्धा हुआ यह जीव कर्मोंके उदयसे इस

के लिए अपनी दिव्य ध्वनिके द्वारा समस्त जीवोंका हित करनेवाले धर्मका स्वरूप कहने लगें ॥ ७० ॥ वे कहने लगे कि हे चक्रवर्ती, तू मनको स्थिरकर सुन । मैं संसारका स्वरूप बतलाता हूँ धर्मका स्वरूप बतलाता हूँ और उसके कारणोंको भी बतलाता हूँ ॥ ७१ ॥ यह संसार अनंत है अभव्य जीव इसका धार कभी नहीं पा सकते यह अनादि है दुखोंसे भरा हुआ है और चतुर्गतिमय है ॥ ७२ ॥ यद्यपि अनादि है तथापि रत्न-त्रयको प्रगट करनेवाली काल लब्धिको पाकर तुम सरीखे भव्य जीवोंको यह शांत भी हो जाता है अर्थात् इराका अंत भी हो जाता है ॥ ७३ ॥ यह संसाररूपी महासागर अत्यन्त घोर है दुःखरूपी सेकड़ों लहरोंसे भरपूर है जन्म मरण और बुढापायरूपी मगर मच्छोंसे भरा हुआ और अत्यन्त भयानक है । इसमें जो जीव रत्नत्रयी रूपी श्रेष्ठ पात्रोंसे भरी हुई धर्म नावको नहीं पाते हैं वे ही अनंतवार डूबते और उछलते रहते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इसलिये संसारको नाश करनेके लिए चतुर पुरुषोंको धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिए । क्योंकि धर्मही मुक्तिस्त्रीका पिता है जो लोग मुक्तिस्त्रीमें आसक्त है उन्हें उसकी प्राप्तिके लिए उसके पिता धर्मका सेवन अवश्य करना चाहिए ॥ ७६ ॥ तीनों लोकोंमें क्षीय उत्पन्न करनेवाली, पंच कल्याणकोंसे सुरोभित तथा तीर्थकर भी जिसके लिये सेवा करते हैं ऐसी समवसरणादि लक्ष्मी मनुष्योंको धर्मके ही प्रभाव से होती है ॥ ७७ ॥ सस्यगृष्टी जीवोंको इन्द्रका राज्यपद धर्मसे ही मिलता है जिसमें सब देव-गण सेवा करते हैं और जो समस्त भोगोंका एक स्थान गिना जाता है ॥ ७८ ॥ हे चक्रवर्ती । तुझे जो यह चक्रवर्ती की लक्ष्मी प्राप्त हुई है वह पहिले जन्मके धर्मके प्रभावसे ही हुई है इस लक्ष्मीकी देव विद्याधर सभी सेवा करते हैं और यह संसारकी सध उपमाओंसे रहित है ॥ ७९ ॥ संसारमें जो कुछ वस्तु दुर्लभ है जो कुछ सुव है और जो कुछ उत्तम पद है वह सब चतुरपुरुषोंको धर्मके प्रभाव से तीनों लोकोंमें से स्वयं आकर उपस्थित हो जाता है ॥ ८० ॥ धर्म ही बंधु है, धर्म ही परम मित्र है धर्म ही स्वामी है, धर्म ही पिता है धर्म ही माता है धर्म ही हितकारक है और धर्म ही परजन्मके लिए पार्थेय (दोसा-रास्तेमें खानेकी चीज) है ॥ ८१ ॥ धर्म ही मृत्युके बचाने लिये शरण है, धर्मही बुढापायरूपी व्याधिकी औषधि है और उत्तम धर्मही

पर्वतके समान अचल ध्यानरूढ ऐसे वे मुनिराज देखे ॥ ६५ ॥ उनके दर्शन करने मात्रसे ही उस पापीको क्रोध उत्पन्न हुआ और वह दुष्ट उन मुनिको भय उत्पन्न करनेवाला और दुखोंसे भरपूर ऐसा उपसर्ग करने लगा ॥ ६६ ॥ वह दुष्ट चित्तको चलानेवाले (डिगानेवाले) बध बंधन ताडन दुर्वचन और हाव भावोंके अनेक विकारोंसे उपसर्ग करने लगा ॥ ६७ ॥ परन्तु वे मुनिराज घोर उपद्रवोंको जोतकर तथा अपने मनको आत्मध्यानमें लगाकर निर्भय होकर मेरुध्वतके समान निश्चल विराजमान थे ॥ ६८ ॥ देवसे कदाचित् पर्वतोंकी मालायें चलायमान हो जायं परन्तु धीरवीर मुनियोंका ध्यानमें लगा हुआ मन किसी समयमें भी चलायमान नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥ उस दुष्टने उन मुनिराजको उस महाध्यानसे चलायमान करनेकी प्रतिज्ञाकी थी परंतु वह उन्हें चलायमान कर न सका इसलिये वह ललित और लाचार होकर अदृश्य होगया ॥ १०० ॥ संसारमें वे मुनिराज धन्य हैं जो दुर्जनोंके द्वारा घोर उपसर्ग होनेपर भी अपने ध्यानसे कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥ १ ॥ ऐसे मुनिराजके चरण कमलोंको इन्द्र चक्रवर्ती, आदि सभी नमस्कार करते हैं इसलिये मैं भी उनका पद प्राप्त करनेकेलिए मस्तक भुंकाकर उनको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ उन मुनिराजने जीवन पर्यंत तपश्चरण किया और अन्तमें अपनी आयु छोड़ी जानकर अपनी शक्ति प्रगटकर सन्यास धारण किया ॥ ३ ॥ उन मुनिराजने श्रीजिनेंद्रदेवके चरण कमलोंमें अपना मन लगाया, शुभ आराधनाओंका आराधन किया और अपने शरीर आदिसे परिणामोंका त्याग किया ॥ ४ ॥ वे मेघनाद मुनि सन्यासकी श्रेष्ठविधिके अनुसार प्राणोंका त्यागकर उत्तम चरित्रके फलसे सुखके स्थानभूत अच्युत स्वर्गमें प्रतींद्र हुए ॥ ५ ॥ उस प्रतींद्रने अपने अवधिज्ञानसे वहांके इन्द्रका किया हुआ उपकार जाना इसलिये उसको नमस्कारकर उसकी पूजाकी ॥ ६ ॥ वह प्रतींद्र पहिले भवके स्नेहसे उस इन्द्रके साथ समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले भगवान् इन्द्राञ्जनुभव किया करता था ॥ ७ ॥ वह प्रतींद्र उस इन्द्रके साथ जिनालयोंमें जाकर सबके किए हुए कृत्योंसे परमोत्सव मचाया करता था ॥ ८ ॥

के लिए अपनी दिव्य ध्वनिके धमके प्रभावसे सुख सागरमें निमग्न हो रहे थे ॥ अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके गुणोंके सागर ऐसे पूर्व विदेहक्षेत्रमें एक मंगलावती नामका मनोहर देश है ॥ १० ॥ वह मंगलावती महादेश अनादि निधन है, सीता नदी तथा कुल पर्वतके बीचमें है और वजारगिरि तथा वनकी बेदीसे घिरा हुआ है ॥ ११ ॥ उसके मध्यमें विजयाह्न पर्वत पड़ा हुआ है उसकी दोनों गुफाओंमेंसे गंगा सिन्धु दो नदियां बहती हैं। उन सबसे अर्थात् गंगा सिन्धु और विजयाह्न पर्वतसे उस विशाल देशके छह खण्ड हो गए हैं ॥ १२ ॥ सीता नदी विजयाह्न पर्वत और गंगा सिन्धु नदियोंके मध्यभागमें आर्याखण्ड शोभायमान है उस आर्याखंडमें सदा आर्य लोग ही निवास करते हैं ॥ १३ ॥ वह मंगलावती देश श्रीजि-नेन्द्रदेव तथा मुनियोंकी बंदनाके उत्सवोंसे यात्रा पूजा प्रतिष्ठा आदिके संकड़ों उत्सवोंसे धर्मव्याप्तके कारण ऐसे विवाह आदि अन्य अनेक उत्सवोंसे तथा और भी मांगलिक कार्योंसे सदा शोभायमान रहता है। इसलिए उसका मंगलावती यह सार्थक नाम है वह देश पुण्यवान लोगोंसे भरा हुआ है और सदा मांगलिक कार्योंसे सुशोभित है ॥ १४-१६ ॥ वहाँके सब जीवोंको सुख देनेवाले सकल (फल सहित) और मनोहर वन, ध्यानमें विराजमान हुए मुनिराजोंसे कायात्सर्ग धारण किए हुए मुनिराजोंसे और मुनि-राजके मूखसे निकले हुए सिद्धान्तशास्त्रके शब्दसमूहसे मुनियोंके श्रेष्ठ चरित्रके समान शोभायमान हे ॥ १७-१८ ॥ उस देशके गांव बड़े मनोहर हैं, पास पास हैं, जिनमें अनेक चैत्यालय हैं और धर्मास्त्रा तथा सज्जन लोग उनमें निवास करते हैं ॥ १९ ॥ उस देशमें न अधिक वर्षा होती है न कम। चौर, चूहे तांते, सोड़ी आदिका भय भी नहीं है न उसमें कुड़ियोंके मंदिर हैं, न पाखण्डी और कुथम है ॥ २० ॥ वह देश तीनों वर्णोंसे भरपूर है संकड़ों मुनि उसमें विहार करते हैं तथा गांव खेत मटव आदि सभी उस देशमें मौजूद हैं ॥ २१ ॥ उस देशके उत्पन्न हुए कितने ही लोग तपश्चरणके प्रभावसे कर्मोंको नाशकर मोक्ष जाते हैं और कितने ही रत्नत्रयके प्रभावसे स्वर्ग जाते हैं ॥ २२ ॥ चरित्ररूप धर्मको धारण करनेसे कितनेसे कितने ही सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होते हैं और कितने ही पात्रदान देनेसे भोगभूमिमें जाते हैं ॥ २३ ॥ वहाँपर असंख्यात तीर्थ-

धर्मोपदेश यह पांच प्रकारका स्वाध्याय करना चाहिए ॥ १८ ॥ धीरवीर पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये अपनी शक्तिके अनुसार बौद्ध अभ्यंतर परिग्रहोंका त्यागकर कायोत्सर्ग करना चाहिये क्योंकि यह कायोत्सर्ग ही मोक्षरूपी स्त्रीका पिता है ॥ १९ ॥ इसी प्रकार इष्ट वियोगसे उत्पन्न होनेवाला, अनिष्ट करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ शुक्ल ध्यानके भी चार भेद हैं पहिला पृथक्त्ववितर्क विचार, दूसरा एकत्ववित्तर्कविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति । यह चारों प्रकारका महाध्यान समस्त कर्मरूपी ईंधनको जलानेके लिए अग्निके समान हैं । इसलिये मुनिराजको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए मनको शुद्धकर इनका ध्यान करना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ विवेको पुरुषोंको समस्त पूर्ण सुख प्राप्त करनेके लिए अपनी शक्ति प्रकटकर यह बारह प्रकारका पूर्ण तपश्चरण करना चाहिये ॥ २९ ॥ जो मनुष्य पापोंको शांत करनेके लिए मन बचन कायकी शुद्धि पूर्वक अपनी शक्तिके अनुसार पापरहित पूर्ण तपश्चरणका पालन करते हैं वे अनन्त सुख सागरको प्राप्त होते हैं और मुक्तिके स्वयं स्वीकार किए हुए पति बनते हैं ॥ ३० ॥ मुनिराज मेघरथने अपने छोटे भाई दृढरथकेसाथ मोक्ष प्रातिके लिए जो ऊपर लिखा तपश्चरणका अनुष्ठान किया था उसको मैं अब संक्षेपसे कहता हूं ॥ ३१ ॥ उन मुनिराजने मनुष्योंके लिए असह्य ऐसा पन्द्रह दिनका, एक महीना, दो महीना, छह महीना और एक वर्ष आदिका अनेक प्रकारका अनशन तप किया था इसीप्रकार वे मेघरथ मुनिराज निद्रा और परिश्रम दूर करनेके लिए एक गास दो गास आदि लेकर अथमोदर्य तप करते थे ॥ ३३ ॥ वे मुनिराज वृत्तिपरिसंख्यान नामका श्रेष्ठ तपश्चरण करनेके लिए भिक्षाके समय अमुक अमुक दाताके मिलेगा तो आहार लूंगा, अमुक आहार मिलेगा तो लूंगा चतुर्मासमें नहीं लूंगा इत्यादि कठिन प्रतिज्ञाएं करते थे ॥ ३४ ॥ वे मुनिराज अपने छोटे भाई के साथ और इंद्रियां आदि को दमन करनेके लिए गर्म जलके साथ अनन्त सुख देनेवाला पवित्र और नीरस आहार लेंते थे । (अथवा गर्म जलसे धोया हुआ आहार लेंते थे) ॥ ३५ ॥ वे चतुरमुनि-ध्यानकी सिद्धिके लिए श्मशान, निजनवन, सूने घर गुफा और वृक्षोंके कौटर आदिमें शय्यासन धारण करते थे ॥ ३६ ॥ वे मुनि काय क्लेश सहन

करनेके लिए असह्य शीष्म समयमें सूर्यकी किरणोंसे संतप्त हुए पर्वतके ऊपरकी शिलापर सूर्यके सामने
 मंडंकर विराजमान होते थे ॥ ३७ ॥ वर्षाऋतुकी रातोंमें पापोंको नाश करनेके लिए पक्षियोंके घोसलोंसे भरे
 हुए, घोर और तेज वायुसे हिलते हुए वृक्षके नीचे विराजमान होते थे ॥ ३८ ॥ वे घोर मुनिराज जाड़ेके
 दिनोंमें अपने भाईके साथ बर्फसे ढके हुए घोर ठंडे चौहटेमें कायोत्सर्ग धारणकर विराजमान होते थे ॥ ३९ ॥
 यदि उनके चरित्रमें कोई अकस्मात् भी दोष लग जाता था तो वे उसकी शुद्धिके लिये विना किसी आलसके
 उसी समय प्रायश्चित्त देते थे ॥ ४० ॥ वे बुद्धिमान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप मुनि आदि
 कोंमें मन पचन कायकी शुद्धता पूर्वक विद्या आदि अनेक गुण देनेवाला विनय धारण करते थे ॥ ४१ ॥ वे
 अपने भाईके साथ दश प्रकारके ज्ञानी तपस्वी मुनियोंको आत्मिक अनेक गुण देनेवाला वैयावृत्य करते थे
 ॥ ४२ ॥ वे मुनि अज्ञानको दूर करने और ज्ञान संपादन करनेके लिये स्वाध्यायकी शुद्धताको प्राप्त होकर
 अन्न पूर्व और प्रकीर्णोंका सदा पाठ किया करते थे । वे शरीरसे ममत्व छोड़कर समस्त अशुभ कर्म रूपी
 अग्निको बुझानेके लिए मेघके समान पक्ष, महीना, ब्रह्म महीना, एक वर्ष आदिका व्युत्सर्ग धारण करते थे
 ॥ ४३ ॥ अपने हृदयको धर्म और शुक्लध्यानमें लगानेवाले शुद्ध बुद्धिवाले वे मुनिराज निच्य आर्त और रौद्र
 ध्यानको स्वप्नमें भी कभी हृदयमें धारण नहीं करते थे ॥ ४४ ॥ किंतु वे मुनि अपने मनमें पदार्थ और नयसे
 परिपूर्ण तथा शास्त्रोंसे उत्पन्न हुए चारों प्रकारके उच्छृष्ट धर्मध्यानको सदा चिन्तन करते थे ॥ ४५ ॥ कभी
 वे अपने मनके संकल्प विकल्पोंको छोड़कर रत्नके दीपकके समान, स्वच्छ और कर्मरूपी वनको जलानेके
 लिए अग्निके समान प्रथम शूक्लध्यान धारण करते थे ॥ ४६ ॥ इसप्रकार वे मुनिराज अपने भाईके साथ
 अपनी भक्तिको न छिपाकर अत्यंत घोर तीव्र और पापरहित बारह प्रकारका तपश्चरण करते थे ॥ ४७ ॥
 उन बुद्धिमानने हिंसा भ्रूट चौरौ अब्रह्म और परिग्रह इन पांचों पापोंका मन बचन काय और कृत कारित
 अनुसोदनासे जन्म पर्यंत तक त्याग कर दिया था ॥ ४८ ॥ वे दयालु मुनिराज ईर्या, भाषा ऐषणा, आदा-
 ननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पांचों समितियोंको बड़े प्रयत्नसे पालन करते थे ॥ ४९ ॥ तीनों गुप्तियोंके पालन

देश देकर उनका दुख निवारण किया करते थे ॥ ६७ ॥ वेचतुर मुनि अपने और दूसरोंके गुणोंकी बुद्धिको लिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले रोगी मुनियोंका वैयाघृत्य किया करते थे ॥ ६८ ॥ अरहंतोंकी भक्ति करनेमें तत्पर वे मुनिराज अपने मनमें सदा "अहंत्वं" इन दो अक्षरोंका ध्यान करते थे और वचनसे भी सदा इन्हीं दो अक्षरोंका जप किया करते थे ॥ ६९ ॥ जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य इन पंचाचारोंका स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे पालन कराते हैं उनको आचार्य कहते हैं उन आचार्यकी भक्ति भी वे सदा किया करते थे ॥ ७० ॥ जो स्वयं श्रुतज्ञानरूपी अमृतका पान किया करते हैं और भव्योंको उस श्रुतज्ञानरूपी अमृतका पान करानेकेलिये सदा उद्यत रहते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं वे मुनि ऐसे उपाध्यायोंकी भक्ति भी सदा किया करते थे ॥ ७१ ॥ आसके कहे हुए, अनेक तत्वोंसे भरपूर, और इन्द्र नरेंद्रोंके द्वारा पूज्य ऐसे शास्त्रोंमें भी सदा गाढ़ भक्तिधारण करते थे ॥ ७२ ॥ वे मुनिराज तृण, सुवर्ण, सुख दुख, निंदा स्तुति और जीने मरनेमें उत्कृष्ट समता भाव रखते थे ॥ ७३ ॥ तीर्थकरोंके गुणोंमें अनुरक्त हुए वे मुनिराज सिद्ध पद प्राप्त करनेकेलिये प्रतिदिन चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति किया करते थे ॥ ७४ ॥ वे मुनि तीनों समय मन वचन कायसे मुक्तिरूपी स्त्रीके स्वामी ऐसे पांचों परमेष्ठियोंकी वंदना सदा किया करते थे ॥ ७५ ॥ अपनी निंदा गहाँ आदिमें तत्पर रहनेवाले बुद्धिमान और प्रमादरहित वे मुनि व्रतोंके अतिचार दूर करनेकेलिये प्रतिक्रमण किया करते थे ॥ ७६ ॥ वे मुनि तपश्चरण पालन करनेके लिये योग्य पदार्थोंका भी त्यागकर अपने शरीरमें भी वैराग्य धारण करते थे ॥ ७७ ॥ वे मुनि अपने शरीरसे समत्व छोड़कर तथा दृढ़ स्तंभके समान निश्चल होकर अपनी शक्तिके अनुसार मोक्षके कारणभूत कायोत्सर्गको धारण करते थे ॥ ७८ ॥ जो मुनि मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये नियमपूर्वक इन छहों आध्यायकोंका पालन करते हैं उनकी स्वप्नमें भी कभी कोई हानि नहीं हो सकती ॥ ७९ ॥ वे मुनि तप ज्ञान आदि सद्गुणोंके द्वारा श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए रत्नत्रयरूपी मोक्षमार्गको सदा प्रकाशित किया करते थे ॥ ८० ॥ धर्ममें प्रेम रखनेवाले वे मुनि अपने पापोंको नाश करनेकेलिये जैनियोंके साथ अधिक प्रेम करते थे और श्रुतज्ञानको

करनेमें तत्पर रहनेवाले वे संयमी मुनिराज अपने ध्यानयोगके बलसे ही मन वचन कायकी प्रवृत्तियोंका निग्रह करते थे ॥ ५१ ॥ भूल, व्यास, शीत, उष्ण, दंशशक, नग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, दुःखस्पर्श, मल सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन ये बाईस परीषह कहलाती हैं । ये परीषह दुर्धर हैं, असह्य हैं, मनुष्योंके लिए अत्यंत कठिन हैं कातरोंको भय उत्पन्न करनेवाली हैं और अत्यन्त दुःख देनेवाली हैं परन्तु वे मुनिराज अपने भाईके साथ इन सब परीषहोंको सहन करते थे ॥ ५२-५५ ॥ वे धीर वीर अपने ध्यानरूपी शस्त्रके बलसे एक वारमें आई हुई अत्यन्त कठिन और रौद्र उनईस परीषहोंको जीतते थे ॥ ५६ ॥ तदनन्तर उन्होंने अपने गुरुके समीप तीर्थकर नाम कर्मको देनेवाले सोलह कारणोंका चिंतवन किया था ॥ ५७ ॥ उन्होंने सम्यग्दर्शनको नाश करनेवाली देव मूढता आदि तीनों मूढताएं नष्टकी थी, और बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले जाति कुल आदिके आठ मद नष्ट किए थे ॥ ५८ ॥ इसीप्रकार मिथ्यात्व आदिसे उत्पन्न हुए छह अनायतनोंका त्याग किया था और शंका आदि आठों दोषोंका त्याग किया था इसप्रकार उन्होंने सम्यग्दर्शनके पच्चीसों दोषोंका त्याग किया था ॥ ५९ ॥ चिंतवन करनेमें तत्पर रहनेवाले उन मुनिराजने अपने मनमें निःशंकित आदि आठों अज्ञानोंको धारण कर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि धारण की थी ॥ ६० ॥ मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेवाली तीर्थकर, मुनि तप और खड्ग-यकी विनयको चिंतवन उन्होंने किया था ॥ ६१ ॥ स्वप्नमें भी प्रमादोंका त्याग कर मोक्ष देनेवाले अठारह हजार शीलमें कोई अतिचार नहीं लगाते थे ॥ ६२ ॥ लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले अङ्ग पूत्र आदिके ज्ञानको वे सदा पढते रहते थे और भव्य जीवोंको पढाते रहते थे ॥ ६३ ॥ वे परमज्ञानो मुनिराज समस्त अकल्याण करनेवाले शरीर संसार और भोगोंमें मोक्षके कारणभूत संवेगका चिंतवन करते थे ॥ ६४ ॥ वे मुनिराज सब पाणियोंके लिए ज्ञान दान अभयदान आदि दान दिया करते थे और मुनियोंको विशेषकर सदा दिया करते थे ॥ ६५ ॥ वे मुनिराज समस्त कर्मोंको नाश करनेवाली वारह प्रकारके तपश्चरणकी भावना सदा किया करते थे ॥ ६६ ॥ वे संयमी मुनिराज किसी रोग आदिके कारण दुःखी हुए साधुओंको धर्मोप-

होनेसे मनुष्योंके हृदयमें राग बढ़ता है ॥ ५५ ॥ जिसप्रकार इन्द्रकी इन्द्राणी होती है उसीप्रकार वह रानी अपने पतिको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, वह उच्छ्वट प्रणयकी भूमि थी ॥ ५६ ॥ इस प्रकार महाराज विश्वसेन अपने पुण्यकर्मके उदयसे ऐरा देवीके साथ साथ यथासमय तृपित करनेवाले भोग भोगते थे ॥ ५७ ॥ अथानन्तर—सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे जब जान लिया कि महाराज मेघरथके नगरमें महाराज विश्वसेन राज्य करते हैं उनकी महारानी ऐराके शुभ उदरसे धर्मके नाथ, सबके द्वारा पूज्य मुक्तिके भर्ता और सबको शान्ति देनेवाले सोलहवें तीर्थंकर श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथ अवतार लेगे । इस-लिये हे धनधीश्र । तुम पुण्य संपादन करनेकेलिये वहां जाओ और स्वयं बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके घर महा आश्चर्य प्रगट करनेवाली रत्नोंकी वर्षा करो ॥ ५८-६१ ॥ इन्द्रकी बात सुनकर उस यक्षराजके भाव दूने होगये और वह इन्द्रकी आज्ञाको मस्तकपर रखकर पुण्य संपादन करनेकेलिये शीघ्र ही उनके घर आया ॥ ६२ ॥ तथा वह प्रतिदिन महाराज विश्वसेनके घर बहुमूल्य वेद्वर्ष पञ्चराग आदि मणियोंकी तथा उत्तम सुवर्णकी वर्षा करने लगा ॥ ६३ ॥ उस रत्नोंकी वर्षासे गंगा सिन्धु आदि नदियोंके शीतल कण थे और भगवान्के जन्मको सूचित करनेवाले तथा कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके मनोहर पुष्प थे ॥ ६४ ॥ वह रत्नोंकी धारा ऐरावत हाथीकी मोटी और बहुत चौड़ी सूँड़के समान थी और ऐसी दृच्छी जान पड़ती थी मानों धर्मरूपी वृक्षके मोटे २ अंशुओंकी परम्परा ही हो ॥ ६५ ॥ आकाशका रोककर पड़ती हुई वह रत्नोंकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों स्वर्गकी लक्ष्मी ही ऐरा देवीकी सेवा करनेके लिये पृथ्वीपर आ रही हो ॥ ६६ ॥ वह आकाशसे पड़ती हुई सुवर्णमयी वर्षा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों अपनी शोभा से मनुष्योंको पुण्यका फल साक्षात् ही दिखता रही हो ॥ ६७ ॥ वह महाराज विश्वसेनका घर रत्न और सुवर्णकी महा वृष्टिसे सब ओर भर गया, उसे देखकर सब लोक धर्माचरण करनेमें तत्पर हो गये ॥ ६८ ॥ वह ऐरा महादेवीका मन्दिर देवोंने सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षासे भर दिया इस लिये मणियोंकी सैकड़ों

किरणोंसे भरा हुआ वह घर ताराओंके समूहके समान जान पड़ता था ॥ ६६ ॥ इसप्रकार वह कुबेर पुराण
 संपादन करनेके लिये ब्रह्म महीने तक प्रसन्न होकर प्रतिदिन बहुमूल्य रत्नोंकी वर्षा करता रहा ॥ ७० ॥
 अथानन्तर—प्रथम स्वर्गके इन्द्रने धर्मकी प्रेरणासे पञ्चद्रह आदिके कमलोंपर निवास करनेवाली श्री, ह्री, धृति,
 कालि, बुद्धि, लक्ष्मीइन देवियोंसे कहा कि महाराज विश्वसेनकी महादेवी ऐराके शुभ उदरमें तीर्थंकर चक्रव-
 र्ती और कामदेवइन तीन पदोंसे सुशोभित भगवान् शान्तिनाथ अबतार लेंगे ॥ इसलिये तुम शीघ्र जाओ और
 भगवान्के जन्मके लिये उत्तम पवित्र द्रव्योंसे गर्भशोधना करो। इन्द्रकी आज्ञासे उन देवियोंने पवित्र द्रव्योंसे
 गर्भशोधना कर उसे शुद्ध स्फटिकके समान कर दिया ॥ ७४ ॥ श्रीदेवीने भगवानकी मातामें लक्ष्मी धारणकी,
 हीने लज्जा, धृतिने धैर्य, कीर्तिने स्तुति, बुद्धिने ज्ञान और लक्ष्मीने संपदा धारण की ॥ ७५ ॥ इस प्रकार वे
 देवियां मातामें अपने २ गुणोंको अलग रथापनकर केवल पुराण संपादन करनेके लिए माताकी सेवा करने
 लगीं ॥ ७६ ॥ अथानन्तर चतुर्थ स्नान करनेके बाद वह भगवानकी मातायोंसे सुशोभित रत्नोंके बने हुये,
 मनोहर भवमें सुन्दर कोमल शय्यापर शयन कर रही थीं। उसी दिन उत्तमे रातके पिछिले पहर भगवानके
 जन्मका सूचित करनेवाले और श्रेष्ठ फल देनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ ७७-७८ ॥ उसने पहिले स्वप्नमें शर-
 दक्षतुके बादलके समान गर्जता हुआ और ऐरावत हाथोंके समान ऊंचा मदनोन्मत्त हाथी देखा ॥ ७९ ॥
 दूसरे स्वप्नमें एक बेल देखा, उस बेलका स्त्रंथ नगाड़के समान ऊंचको उठा हुआ था वह मोटा था, धीरे २
 उहार रहा था, सफेद था, और ऐंता जान पड़ता था मानो अमृतकी राशि ही हो ॥ ८० ॥ तीसरे स्वप्नमें उसने
 एक सिंह देखा, चंद्रमाका व्यापक समान उसका शरीर था लाल उत्तके बंधे थे और ऐंसा जान पड़ता था
 मानो अपने पुत्रका एक जगह इकट्ठा किया हुआ पराक्रम ही हो ॥ ८१ ॥ चौथे स्वप्नमें लक्ष्मी देखी, वह
 लक्ष्मी सोनेके ऊंचे सिंहासनपर बैठी थी और ऐरावत हाथी सोनेके कलशोंसे उसे स्नान करा रहे थे ऐसी
 वह लक्ष्मी माताका अपनी ही लक्ष्मी जान पड़ी थी ॥ ८२ ॥ पांचवें स्वप्नमें उसने आनन्दसे दो मालाएँ
 देखीं, उन मालाओंकी सुगंधिसे उन्मत्त भ्रमर उनपर लग रहे थे और उन भ्रमरोंके झकरोरोंसे वे मालाएँ

ऐसी जान पड़ती थीं मानों' उन्हों'ने गाना ही आरम्भ किया हो ॥ ८३ ॥ बहूँ स्वप्नमें उसने चंद्रमा देखा, चन्द्रमा समस्त कलाओं'से पूर्ण था, ताराओं' सहित था, बड़ी सुन्दर चांदनी उससे निकल रही थी अन्धकारको वह नष्ट कर रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' माताका मुख ही हो ॥ ८४ ॥ अपने मांगलिक कार्यमें सातवें स्वप्नमें उसने उदयाचलसे उदय होता हुआ सूर्य देखा जो कि अन्धकारको नाश कर रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' सोनेका बना हुआ कलश ही हो ॥ ८५ ॥ आठवें स्वप्नमें उसने रत्नोंसे ढके हुए दो सुवर्णमय कलश देखे वे कलश ऐसे जान पड़ते थे मानों' जिनके मुंह कमलोंसे ढके हुए हैं ऐसे अपने स्नान करनेके कलश ही हों ॥ ८६ ॥ नौवें स्वप्नमें उसने स्वच्छ जलसे भरे हुए और जिसमें कमोदनी और कमल दोनों ही फूल रहे हैं ऐसे कीचडरहित मनोहर सरोवरोंमें दो मछलियां देखीं ॥ ८७ ॥ दशवें स्वप्नमें उसने एक सुन्दर सरोवर देखा उस सरोवरका जल तैरते हुए कमलोंकी पराग वा केसरसे पीला हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' वह सुवर्णके चूर्णसे ही भर रहा हो ॥ ८८ ॥ ग्यारहवें स्वप्नमें उसने समुद्र देखा, वह समुद्र बुभित हो रहा था, लहरें उसमें उठ रही थीं, अनेक रत्न उसमें पड़े हुए थे और ऐसा जान पड़ता था मानों' अपने पुत्रके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नोंका एक स्थान ही हो ॥ ८९ ॥ बारहवें स्वप्नमें उसने सुवर्णका बना हुआ एक सिंहासन देखा, वह सिंहासन बहुत ऊंचा था, अनेक मणियां उसमें जड़ी हुई थीं और ऐसा जान पड़ता था मानों' मेरु पर्वतका एक अद्भुत शिखर ही हो ॥ ९० ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक देव विमान देखा वह विमान बहुमुल्य रत्नोंसे दैदीप्यमान था और ऐसा जान पड़ता था मानों' देवोंके द्वारा लाया हुआ अपने पुत्रका प्रसूतिभवन ही हो ॥ ९१ ॥ चौदहवें स्वप्नमें उसने पृथ्वीको फोड़कर निकलता हुआ नागेन्द्रका भवन देखा वह भवन सुन्दर था सुवर्ण रत्नोंका बना हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानों' जिन भवन ही हो ॥ ९२ ॥ पन्द्रहवें स्वप्नमें उसने अत्यंत दैदीप्यमान रत्नोंकी महा राशि देखी वह राशि ऐसी जान पड़ती थी मानों' अपने पुत्रके निःस्वेद (पसीना न आना) आदि गुणोंका समूह ही हो ॥ ९३ ॥ सोलहवें स्वप्नमें उसने धूमरहित जलती हुई दैदीप्यमान अग्नि देखी वह अग्नि ऐसी जान पड़ती

थी मानों अपने महा उज्वल प्रताप ही मूर्ति धारण कर आ गया हो ॥ ६४ ॥ सब स्वप्नोंके अन्तमें उसने
 सब लक्षणोंसे सुशोभित, सुवर्णकीसी कांतिवाला उंचे शरीरका गजराज अपने मुखरूपी कमलमें प्रवेश
 करता हुआ देखा ॥ ६५ ॥ तदनन्तर जिसप्रकार सीपमें मोतीका विंदु आ जाता है उसी प्रकार शुभ कर्मके
 उदयसे भादो कृष्ण सप्तमीके दिन शुभ भरणि नक्षत्रमें उस ऐरा महादेवीके गर्भमें महाराज मेघरथका जीव
 सर्वार्थसिद्धिसे चयकर आ विराजमान हुआ ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार पुण्यकर्मके उदयसे सब मलोंसे रहित
 भगवान् शांतिनाथ अपने कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेके लिये देवियोंके द्वारा संशोधित मोचके समान
 दुख रहित सन्तोहर दिव्य गर्भमें अवतरित हुए ॥ ६८ ॥ भगवान् शांतिनाथके जीवने धर्मके प्रभावसे मनुष्य
 भवमें भी अनेक प्रकारके सुख भोगे थे और स्वर्गमें भी तथा अत्रैवेयक सर्वार्थसिद्धि आदि विमानोंमें भी
 अनेक प्रकारके सुख भोगे थे। अनेक इन्द्र उनको पूजा करते थे और सेवा करते थे। वे भगवान् बड़े ही सुंदर
 थे और तीनों ज्ञानोंसे सुशोभित थे यही समझकर बुद्धिमानोंको भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए पूर्ण धर्मका
 सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ६९ ॥ इस संसारमें जीवोंको धर्मके ही प्रभावसे सुख मिलता है धर्मके
 प्रभावसे ही अनेक भोग और गुणोंका सागर स्वर्ग मिलता है, धर्मके ही प्रभावसे शत्रुरहित सुराज्य मिलता
 है और धर्मके ही प्रभावसे तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली बहुतसी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ १०० ॥ धर्मके
 ही प्रभावसे देवोंके द्वारा पूज्य ऐसा इन्द्रपद प्राप्त होता है, धर्मके ही प्रभावसे चक्रवर्तीका पद प्राप्त होता है
 जिसकी अनेक राजा सेवा करते हैं, धर्मके ही प्रभावसे तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसा तीर्थंकर पद प्राप्त
 होता है और धर्मके ही प्रभावसे विद्वान् लोग सुख देनेवाले मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ १ ॥ साक्षात्
 मोक्षका कारण ऐसा वह मुनियोंका उत्तम धर्म सम्यग्दर्शनसे प्रगट होता है, सम्यग्ज्ञानसे प्रकट होता है
 और सम्यक्चारित्रसे प्रकट होता है समस्त इन्द्रियोंको दमन करनेसे प्रकट होता है मनका निग्रह करनेसे
 और आत्माका ध्यान करनेसे प्रकट होता है ॥ २ ॥ तथा स्वर्गके सुख देनेवाला वह गृहस्थोंका धर्म पात्रोंको
 दान देनेसे, भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे, भगवान् तीर्थंकर परमदेवका स्मरण करनेसे, व्रतोंको

करनेका कारण माना जाता है ॥ ५८ ॥ तदनन्तर अखण्ड महिमाको धारण करनेवाले बुद्धिमान राजा मेघरथ भी अपनी रानियोंके साथ निर्विघ्न रीतिसे अपने घर पहुँचे ॥ ५९ ॥ अथानन्तर—किसी एक दिन राजा मेघरथ महापूजाकी योग्य सामग्रीसे पापोंको नाश करनेवाली नन्दीश्वरकी पूजाकर उपवास करते हुए विराजमान थे, उस दिन उन्होंने घरका सब आरम्भ आदि छोड़ दिया था, अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यके महोदयसे धर्म अर्थ काम इन तीनों पुष्पाथोंकी सिद्धि होनेसे उनके मनोरथ सब पूर्ण हो गए थे, तत्त्वोंकी यथार्थ श्रद्धासे वे सुशोभित थे, शास्त्रोंके पारगामी थे, व्रत शील आदि गुणोंसे विभूषित थे, श्रेष्ठ धर्मका पालन करते थे, करुणादान आदि करनेमें तत्पर थे, वे भव्योंके लिये सूर्यके समान थे, उनके ज्ञानरूपी नेत्र सदा खुले रहते थे, पुत्र, भाई, स्त्री आदि सब कुटुम्ब उनकी सेवा करते थे और वे सदा जैन धर्मका उपदेश दिया करते थे । जिस समय वे उपवास करते हुए विराजमान थे और सब कुटुम्बी जन उनके समीप बैठे हुए थे उसीसमय भयसे घबड़ाता हुआ और कांपता हुआ एक कबूतर जीवित रहनेकी इच्छासे उनके पास आया ॥ ६०-६४ ॥ उसके पीछे ही उसके मांसके खानेका लोलुपी, महाक्रूर और दुष्ट ऐसा बूढ़ा गीध

॥ ६५ ॥ वह गीध महाराज मेघरथके सामने खड़ा होकर दीन वाणीसे कहने लगा कि हे देव ! मैं दुर्बल हूँ और भूखकी बड़ी भारी वेदनासे घबड़ाया हुआ हूँ इसलिये यह कबूतर जो मेरा भक्ष्य

शरण आया है इसे मुझे दे दीजिये क्योंकि आप दानशूर हैं । यदि आप इसे मुझे न देंगे यहाँपर ही मरा हुआ समझिये ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार दीन वचन कहकर वह भूखा पची खड़ा

पात सुनकर मेघरथका भाई दृढ़रथ कहने लगा । कि हे पूज्य ! इस गीधकी बात सुनकर मुझे

यह इस प्रकार किस कारणसे कहता है पहिले भवके किसी बैरसे अथवा केवल जातिवै-

द टिप्पणी है कि तब मेघरथ कहने लगे कि हे भाई मन लगाकर सुन, मैं इनके पहिले जन्म

का भय उत्पन्न करनेवाली इन दोनोंकी कथाका कहता हूँ ॥ ७० ॥ इसी

कारण से उसने मेघरथको भय हुआ है उसके मनोहर पहिनीखेट नामके नगरमें एक साग-

० गान्ति

१६८

० गान्ति

१६८

मालूम हुआ कि मेरी दुर्लभ आयु थोड़ी रह गई है यह जानकर वह प्रसन्न होकर समाधिगुप्त मुनिके निकट पहुंचा ॥ ४३ ॥ मनमें बैराग्य धारण करते हुए उस राजाने उन मुनिराजको नमस्कार किया और पाप शांत करनेके लिए व्रतपूर्वक सन्धास धारण किया ॥ ४४ ॥ उसने भूल प्यास आदि सब घोर परीषह सहन कीं और समाधिपूर्वक धर्मध्यानसे प्राणोंका त्याग किया ॥ ४५ ॥ वह राजा राजगुप्त व्रत दान और सन्यास आदि से प्राप्त हुए पुण्यकर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गमें ब्रह्म नामका इन्द्र हुआ ॥ ४६ ॥ वहांपर वह पहिले उपार्जन किए हुए पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्राणीके साथ इन्द्रकी लक्ष्मीका उपभोग करने लगा और इसप्रकार दश सागरकी आयु पूरी की ॥ ४७ ॥ आयु पूरी होनेपर वहांसे च्युत हुआ और वाकी वचे हुए पुण्यकर्मके उदयसे विद्या-धर कुलमें यह श्रीमान् सिंहरथ विद्याधर हुआ है ॥ ४८ ॥ शंखिका भी संसारमें परित्रमणकर तपश्चरणके प्रभावसे विमानादिकोंसे सुशोभित और सुखके स्थान ऐसे देवलोकमें जाकर उत्पन्न हुई ॥ ४९ ॥ वहांसे चयकर विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके अवस्वालपुर नगरके राजा इन्द्रकेतुकी रानी सुप्रभावतीसे पुण्यकर्मके उदयसे यह सदनवेगा नामकी सती और सुलक्षणोंवाली पुत्री हुई है ॥ ५०-५१ ॥ इसप्रकार अपने पहिले भव सुनकर वह विद्याधर बहुत संतुष्ट हुआ, राजा मेघरथके पास आकर उन्हें नमस्कार किया, योग्य पदार्थोंसे उनकी पूजा की और घर भोग संसार शरीरसे विरक्त होकर दीक्षा लेनेकी इच्छासे स्त्रीके साथ अपने घरको चला गया ॥ ५२-५३ ॥ उसने घर जाकर सज्जनोंके द्वारा त्याग करने योग्य ऐसे राज्यका कठिन भार अपने सुवर्णातिलक नामके पुत्रको दिया और चारित्रसे उत्पन्न हुआ उत्तम सुगम भार ग्रहण करनेके लिए सुकिरूपी स्त्रीके पति और जगतके स्वामी, ऐसे घनरथ तीर्थकरके समीप पहुंचा ॥ ५४-५५ ॥ वहांपर जाकर उस सिंहरथ विद्याधरने मस्तक झुकाकर उन तीर्थकरकी बंदना की और मौच प्राप्त करनेके लिए अनेक राजाओंके साथ प्रारन्नतापूर्वक दीक्षा धारण की ॥ ५६ ॥ विद्याधरी सदनवेगाने भी गुणोंकी स्थानभूत प्रिय-मित्रा नामकी गणिकीके पास जाकर दोचा धारण की और सबप्रकारका तपश्चरण करने लगी ॥ ५७ ॥ देवों, काललब्धि पाकर भव्यजीवोंका क्रोध भी कभी कभी चारित्र आदिको धारण करनेमें पापकर्मोंके त्प

रसेन नागका वरिष्णक रहता था, उसकी स्त्रीका नाम अमितसती था, उनके दो पुत्र थे, बड़े लोभी थे, धनके बड़े लालची थे, धनमित्र और नर्दिवेषण उनका नाम था वे बड़े क्रूर थे, सदा द्रव्य पानेकी इच्छा रखा करते थे और इसीलिए सदा आर्तध्यानमें लीन रहते थे, ७१-७३ ॥ किसी एक दिन वे दोनों ही दुष्ट व मूर्ख किसी धनके लिये परस्पर लड़ने लगे, दोनोंने एक दूसरेको मारा, दोनोंको भारी चोट पहुंची और उस तीव्र दुखसे दोनों मर गये ॥ ७५ ॥ वे दोनों आर्तध्यानसे मरे थे, कुमारगामी थे, दोनोंने आपसमें बर बांध रक्खा था इसलिये वे मरकर अनेक दुखोंसे दुखी ऐसे वे दोनों पत्नी हुए हैं ॥ ७५ ॥ उस गोधके पीछे एक देवको आते हुए देखकर छोटे भाई दृढरथने पूछा कि हे भाई ! कहिये यह देव कौन है और क्यों आया है ॥ ७६ ॥ इसके उत्तरमें मेपरथ कहने लगे कि हे भाई ! ध्यान देकर सुन मैं इसके पहिले भवकी कथा कहता हूं और इसके आनेका कारण भी बतलाता हूं ॥ ७७ ॥ पहिले तेने विजयाङ्क पर्वतपर दमत्तारिके साथ युद्ध करते समय क्रोधपूर्वक राजपुत्र हेसरथको मारा था वह मरकर संसारमें परित्रमणकर शुभकर्मके उदयसे जिन चेत्या-लयोंसे सुशोभित कैलाश पर्वतके किनारे पर्याकांता नदीके तटपर एक सोम नामका तापसी रहता था, आ-दत्ता उसकी स्त्रीका नाम था उनके चन्द्र नामका पुत्र हुआ था ॥ ७९-८० ॥ कुशाखोंको जानकर और कुमारग-गामी वह मूर्ख भोगादिकोंकी इच्छा करता हुआ प्रतिदिन पंचाग्नि तप तपता था ॥ ८१ ॥ अज्ञानपूर्वक कष्ट सहनेके कारण आयु पूरा होनेपर वह ज्योतिर्लोकमें जाकर यह नीच ज्योतिषी देव हुआ ॥ ८२ ॥ किसी एक दिन यह देव विनोद पूर्वक चैत्यालयोंसे सुशोभित और महात्मनोहर ऐसे ऐशान स्वर्गको देखनेके लिये गया था ॥ ८३ ॥ वहांपर ईशान इन्द्रकी सभाके सभासद देवोंने कुछ मेरी प्रशंसा की थी और कहा था कि इस पृथ्वीपर दान देनेवाला एक मेघरथ ही है इस समय उसके समान अन्य कोई नहीं है वह दान आदिका विचार करनेवाला है और व्रती है उस प्रशंसाको सुनकर हृदयमें डह उत्पन्न होनेके कारण मेरी परीक्षा लेने-केलिये आया है ॥ ८४-८५ ॥ इसलिये हे भाई ! अब तू मन लगाकर दानादिकका लक्षण सुन । मैं पात्र, देने योग्य द्रव्य और विधि आदि सब कहता हूं ॥ अनुग्रह वा उपकार करनेके लिए अपना धन या और कोई

पदार्थ देना दान है। उपकार भी अपना उपकार और दूसरेका उपकार ऐसे दो प्रकारका होता है ॥ ८७ ॥ दान देनेसे जो विशेष पुण्य होता है, जो कि भोगभूमि और स्वर्गका कारण है तथा उससे जो निर्मल यश फैलता है वह अपना उपकार कहलाता है ॥ ८८ ॥ उस दानसे लेनेवाले पात्र लोगोंके प्राणोंको रक्षा होती है उससे वह धर्मध्यान व्युत्सर्ग, ब्रह्म आनश्यक तप और व्रत पालन करता है उसका चित्त स्थिर रहता है, उसकी भूलका नाश होता है, उससे सुख पहुंचता है और वह उससे शास्त्रोंका पठन पाठन करता है वह सब परोपकार कहलाता है ॥ ८९-९० ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने श्रद्धा, भक्ति निर्लोभता, शक्ति, ज्ञान, दया, क्षमा ये दाताओंके सात गुण बतलाये हैं ॥ ९१ ॥ संसारमें इन ऊपर लिखे गुणोंसे सुशोभित, सम्यग्दृष्टी, ब्रती, जिनभक्त और सदाचारी उत्तम दाता गिना जाता है ॥ ९२ ॥ अन्न देने योग्य पदार्थ बतलाते हैं सद्गृहस्थोंको पात्रोंके लिये आहार दान देना चाहिए। वह आहार कृतकारित आदि दोषोंसे रहित होना चाहिए मनोहर, निर्दोष, प्रासुक, शुभ किसी प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न न करनेवाला, दाता पात्र दोनोंके गुणोंको बढानेवाला, अनुक्रमसे मोचका साधन उद्गमादि दोषोंसे रहित, प्रासुक, मधुर, पात्रके ज्ञान चारित्र आदिको बढानेवाला, तृप्ति करनेवाला और अत्यन्त निर्दोष होना चाहिये और वह विधिपूर्वक दिया जाना चाहिए ॥ ९३-९५ ॥ इसी-प्रकार पात्रोंके शरीरमें कोई व्याधि जानकर बुद्धिमानोंको हिंसा आदि पाप कर्मोंसे रहित तैयार को गई और समस्त रोग ब्रह्मेश आदिको दूर करनेवाली औषधि उन पात्रोंके लिये देना चाहिए ॥ इसीप्रकार ज्ञानी मुनियोंके लिये बुद्धिमानोंको ज्ञानदान वा शास्त्रदान देना चाहिए। वे शास्त्र सर्वज्ञ प्रणीत, पदार्थोंके सत्यार्थ स्वरूपको कहनेवाले दीपकके समान समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले, अज्ञानको दूर करनेवाले, ज्ञानके कारण, धर्मका उपदेश देनेवाले, पूर्वापर विरुद्धता आदि दोषोंसे रहित और गुणोंको प्रगट करनेके लिये खानिके समान होने चाहिए ॥ ९७-९८ ॥ चतुर पुरुषोंको दयादान सब जीवोंमें करना चाहिए क्योंकि यह दयादान ही धर्मकी जड़ है, गुणोंका स्थान है और सब जीवोंका हित करनेवाला है ॥ ९९ ॥ हे भाई! इस संसारमें मुनि-राज ही सब तरहके परिग्रहोंसे रहित हैं रत्नत्रयसे विभूषित हैं, सब जीवोंका हित करनेवाले हैं, धीर वीर हैं,

लोभ आदि सब विकारों से रहित हैं, ज्ञानध्यानमें लीन रहते हैं, चतुर हैं, संसाररूपी समुद्रके पारगामी हैं, भव्य दाताओंको संसारसे पारकर देनेवाले हैं, समस्त परीषहोंको जीतनेवाले हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेवाले हैं, शरीरके संस्कारसे रहित हैं, काम और इंद्रियरूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी सेनाके लिये सिंहके समान हैं, सातों ऋद्धियोंसे विभूषित हैं इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं, द्वादशंग श्रुतज्ञानरूपी महासागरके मध्यमें क्रीड़ा करनेवाले हैं, तीनों समय योगोंमें आसक्त रहनेवाले हैं, मोक्षकी इच्छा रखते हैं, वनमें निवास करते हैं, संसारसे भयभीत है, सुवर्ण और तृण सबको समान समझते हैं, अनेक गुरोंसे विभूषित हैं और सब दोषोंसे रहित हैं ऐसे मुनिराजोंको ही उत्तम सत्पात्र समझना चाहिये ॥ १००-१०५ ॥ जो मुनि अत्यन्त दुस्तर ऐसे इस संसाररूपी महासागरसे स्वयं पार हों और दातओंको पार कर दें उन्हींको उत्तम पात्र समझना चाहिये ॥ ६ ॥ पात्रदानका फल भोगभूमि में प्राप्त होता है जहां कि मिथ्यादृष्टी भी अनेक प्रकारके सुख प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ वहांपर उन्हें दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये इच्छानुसार सुख प्राप्त होते हैं और फिर देवियोंके समूहसे उत्पन्न होनेवाले देवगतिके सुख मिलते हैं ॥ ८ ॥ सम्यग्दृष्टी जीव सुपात्रोंको दान देनेसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंसे भरे हुये और सुखके सागर ऐसे सोलहवें स्वर्गमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ पात्रदानकी अनुमोदना करनेसे मनुष्य तथा पशु भी अनेक सुखोंसे भरो हुई भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ हे भद्र ! पात्रोंका दान देना गृहस्थोंके लिए महापुण्य का कारण है इस लोक परलोक दोनों लोकोंमें अनेक प्रकारकी विभूति देनेवाला है और यशका हेतु है ॥ ११ ॥ इसलिये गृहस्थोंको स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये मन वचनकायकी शुद्धिपूर्वक सुपात्रोंको चारों प्रकारका दान सदा देते रहना चाहिये ॥ १२ ॥ मांस वा सुवर्ण आदिका दान कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि वह कुदान है पापोंका सागर है और दाता दोनोंके लिये नरकका कारण है ॥ १३ ॥ लोभके कारण जो दुष्ट विषयी, मांस आदि कुदान लेनेकी इच्छा करता है वह कभी पात्र नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ जो मूख मांस आदि कुदानोंको देता है वह कभी दाता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह उस पापसे अपनेको

आर दूसराका भा नरकम गराता है ॥ १५ ॥ जो मूर्ख कुदान देता है और लेता है वे दोनों ही पापकर्मके उदयसे नरकके स्वामी होते हैं ॥ १६ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको कंठगत प्राण होनेपर भी नरकका मार्ग और पापोंका धर ऐसा कुदान कभी नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ अतएव यह गीध सत्यात्र नहीं है क्योंकि यह दूसरे जीवोंके मांसका लोलुपी है, दुष्ट है, विषयांध है और अनेक जीवोंकी हिंसा करनेवाला है ॥ १८ ॥ यह कबूतर भी देने योग्य नहीं है क्योंकि यह भद्र है, केवल दाने चुगता है भयसे इसका सब शरीर कंप रहा है यह क्षुद्र जीव है और अपने शरण आया है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शरण आए हुये और भयसे घबराये हुये पशु भित्र वा शत्रुको दे देते हैं संसारमें वे सबसे नीच हैं उनके समान और कोई नीच नहीं है ॥ २० ॥ भयसे घबड़ाया हुआ यह कबूतर अपने शरण आया है इसलिये इस गीधको यह कभी नहीं देना चाहिये ॥ २१ ॥ अत्यन्त रौद्र परिणामोंको धारण करनेवाले इस गीधका जीना व मरना जो कुछ इसके कर्मके उदयके अनुसार होनहार होगा वही हांगा । क्योंकि इस संसारमें पुण्यपापको धारण करनेवाले जीव सदा अपने कर्मके उदयसे मरते हैं और अपने कर्मके उदयसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २२-२३ ॥ रौद्र परिणामोंको धारण करनेवाले कितने ही जीव पाप कर्मके उदयसे परस्पर एक दूसरेको खाते हैं अथवा जालि वैर अथवा अत्यन्त बेरके कारण परस्पर युद्ध करते हैं ॥ २४ ॥ इसलिये धर्मात्मा जीवोंको धर्मकी प्राप्ति और दया पालन करनेके लिये भयसे डरे हुए जीवोंकी प्रतिदिन शुभ रत्ना करनी चाहिये ॥ २५ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने जीवों पर दया करना ही धर्म बतलाया है, इसलिए इस कबूतरको हमें रक्षा ही करनी चाहिये ॥ २६ ॥ इसप्रकार राजा मेघराथकी वाणी सुनकर उस देवको निश्चय होगया और उसने आकर भक्तिपूर्वक उनके चरणोंको नमस्कार किया तथा उनकी स्तुति की ॥ २७ ॥ वह कहने लगा कि हे देव ! आप महान् पुरुषोंके द्वारा भी पूज्य हैं, दानकी विधि आदि जाननेवाले आपही हैं आप देवोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं और तीनों ज्ञानरूपी नेत्रोंसे विभूषित हैं ॥ २८ ॥ हे देव ! हे नराधीश ! आपकी कीर्ति स्वर्गमें भी देवोंके कानोंमें कुँडलोंके समान सुशोभित होती है इसलिये आपको धन्य है ॥ २९ ॥ इसप्रकार उस ज्योतिषी देवने महाराज

मेघरथकी स्तुति की, उनसे अपनी स्वर्गकी सब कथा कही, दिव्य वस्त्र भूषण माला आदिसे उनकी पूजा की, नम्र और शुभ वचनों से बारबार उनकी प्रशंसा की और फिर वह उनको नमस्कारकर प्रसन्नताके साथ अपने स्थानको चला गया। उन दोनों गोध और कबूतरने भी अपने पहिले भवके वैरकी कथा सुनकर और उसे समझकर शीघ्र ही परस्पर दोनोंने अपना २ वैर छोड़ दिया। उन दोनोंने अनेक प्रकारसे आत्माकी निंदा की, संसारसे विरक्ता धारण की, और सब प्रकारके आहारको त्यागकर सदाके लिये अनशन (उपवास) व्रत धारण किया। उन्होंने अपनी धीरवीरताकी शक्ति प्रगटकर संन्यास धारण किया, श्रीजिनेन्द्रदेवको हृदयमें विराजमानकर विधिपूर्वक प्राण छोड़े। संन्यास धारण करनेके कारण प्राप्त हुए पुण्यकर्मके उदयसे वे दोनों ही पक्षीके जीव देवारण्य वनमें अच्छी विभूतिको धारण करनेवाले सुरूप और अतिरूप नामके देव हुये ॥ ३४—३५ ॥ वे दोनों ही अपने अबधिज्ञानसे पहिले भवकी सब बात जानकर राजा मेघरथके पास आये और उनको नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३६ ॥ हे विद्वानोंमें श्रेष्ठ ! आप धर्मकी प्राप्ति करानेमें बड़े ही चतुर हैं और मेघके समान परोपकार करनेके कारण हैं ॥ ३७ ॥ हे देव, आप श्रीजिनेन्द्रदेवके आगमके ज्ञाता हैं, तत्त्वोंके जानकार हैं, सम्यग्दर्शन आदि रत्नों से विभूषित हैं और शीलके सागर हैं ॥ ३८ ॥ हे देव ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों तिर्यचयोनिको छोड़कर शुभ उदय और दिव्य गुणोंको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए हैं ॥ ३९ ॥ इसलिये अनेक गुणोंको धारण करनेवाले आप ही हम लोगोंके इस जन्मके गुरु हैं आप ही हम लोगोंको नमस्कार करने योग्य है और आप ही विद्वानोंके द्वारा पूज्य हैं ॥ ४० ॥ इसप्रकार मनोहर और सार्थक वाक्यों से उनकी स्तुतिकर बहुमूल्य दिव्यमाला वस्त्र आभूषणोंसे उनकी पूजा की भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया, बार २ उनकी प्रशंसा की, और फिर मस्तक झुकाकर उनको नमस्कारकर वे दोनों देव अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर—किसी एक दिन सब परिग्रहों से रहित दमवर नामके चारण मुनि आहार लेनेके लिए महाराज मेघरथके घर पधारे ॥ ४३ ॥ महाराज मेघरथने दुर्लभ निधानके समान उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता

से तिष्ठ तिष्ठ कहकर उनको स्थापन किया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर दातके सातों गुणों से सुशोभित राजा मेघ-
रत्न भक्तिपूर्वक प्रतिग्रह आदि पुण्य उपार्जन करनेवाली नौ प्रकारकी विधिसे वृद्धि करनेवाला, शुद्ध, प्रासुक
मधुर, उत्तम, निर्दोष, और तृप्ति करनेवाला आहार उन मुनिराजको दिया ॥ ४५-४६ ॥ उसी समय उस
दानसे प्राप्त हुए पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके स्थानभूत उन राजा मेघरथके घर रत्नवृष्टि आदि पंचा-
श्रचर्योंकी वर्षा हुई ॥ ४७ ॥ पात्रोंको दान देनेसे जिसप्रकार इसलोकमें अनेक रत्नोंकी प्राप्ति होती है उसी
प्रकार परलोकमें भी बुद्धिमानोंको भोगभूमि स्वर्ग मोक्षकी महाविभूति प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ यही सम-
झकर यहूथोंको मुनिराजके लिये लक्ष्मीका स्थान और इसलोक परलोक दोनोंमें सुखका सागर ऐसा
दान सदा देते रहना चाहिये ॥ ४९ ॥ इसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले वे महाराज मेघ-
रथ दान पूजाकर तथा पर्वके दिनोंमें प्रोपधोपवासकर अनेक प्रकारसे धर्मका उपार्जन करते थे ॥ ५० ॥
किसी एक दिन नंदीश्वर पर्वतपर उन्होंने प्रोपधोपवास किया बड़ा विभूतिसे जिनेन्द्रदेवके गुणोंका स्म-
रण करते हुए प्रतिमायोग धारणकर मेरु पर्वतके समान स्थिर विराजमान हुए ॥ ५१-५२ ॥ ऐसेही समयमें
देवोंके द्वारा पूज्य ऐसान स्वर्गका इन्द्र देवोंकी सभामें विराजमान था, उसने धीरवीर महाराज मेघरथको
इसप्रकार विराजमान जानकर आश्चर्यके साथ कहा कि आप धन्य हैं, आपही गुणोंके सागर हैं ज्ञानी हैं,
पुरयवान हैं, विद्वान् हैं, और धैर्यशाली हैं आज आपको देखकर आश्चर्य होता है। इसप्रकार प्रसन्न होकर
उसने कहा ॥ ५३-५४ ॥ अपने मनमें ही इसप्रकारकी स्तुति करते देख देवोंने इन्द्रसे पूछा कि हे नाथ ! आपने
इससमय किस सज्जनकी यह दिव्य स्तुति की है ॥ ५५ ॥ तब इन्द्रने कहा कि देवो ! सुनो जो स्तुति
करने योग्य है और जिनकी सार्थक स्तुति मैंने की है उनकी मैं उत्तम कथा सुनाता हूँ ॥ ५६ ॥ राजा
मेघरथ बड़े धीर वीर हैं, शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं, राजाओंके शिरामणि हैं, तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले
हैं आसन्न भव्य हैं और अनेक गुणोंकी खानि हैं। आज उन्हेंने प्रतिमायोग धारण किया है इसलिये

पत्ता की और वे प्रसन्नताके साथ अपने स्थानको गईं ॥ ७२ ॥ रात्रिके व्यतीत होनेपर महाराज मेघरथने निर्विघ्न रीतिसे कारोत्सर्गका त्याग किया-और फिर वे धर्मस्थानका सेवन करते हुए निरंतर भोग भोगने लगे ॥ ७३ ॥ किसी दूसरे दिन देवियोंके साथ देवोंकी सभामें इन्द्रानुसार सिंहासनपर विराजमान हुए ईशान स्वर्गका इन्द्र कहने लगा कि इस संसारमें प्रियमित्राका रूप सबसे उत्तम है बाहरी हाव भव आदि उत्तम गुणोंसे पूर्ण है अद्वितीय है उपसारहित है सब रूपोंसे बढ़कर है वह मानों पुण्यरूप परमात्माओंसे ही बनाया गया है । संसारमें उसका सा रूप और किसीका नहीं है । इसप्रकार प्रियमित्रासे रूपकी प्रशंसा कर वह इन्द्र चुप हो गया ॥ ७४-७६ ॥ इन्द्रकी यह बात सुनकर रतिवेणा और रतिवेगा नामको देवांगनाएं उसका रूप देखनेके लिये पृथ्वीतलपर आईं जिस समय वे आईं थीं उस समय प्रियमित्राके स्नान करनेवा समय था उस भद्राङ्के शरीरपर गंध तेल लगा हुआ था और शृंगार कुछ था नहीं । उसे देखकर उन दोनों देवियोंको इन्द्रके बचनोपर विश्वास हुआ और उस रानीके साथ बात चीत करनेके लिये उन देवियोंने वैश्य कन्याका रूप धारण किया ॥ ७७-७९ ॥ उन दोनों कन्याओंने प्रियमित्राकी सखीसे कहा कि तुम जाकर प्रियमित्रासे कहो कि आपको देखनेके लिए दोवैश्य कन्याएं आईं हैं । उस सखीने जाकर प्रियमित्रासे कह दिया । प्रियमित्राने कहा कि मैं नहा धोकर शृंगार कर आती हूं तब तक वे ठहरे ॥ ८०-८१ ॥ इसके बाद रानीने राणियोंको जोश उपपन्न करनेवाला अपना शृंगार किया और उन दोनोंको बुलाकर अपना रूप दिखाया ॥ ८२ ॥ उसे देखकर देवियोंने कहा कि शरीरकी कांति जो पहिले थी वह अब नहीं रही उससे कुछ कम हो गई है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ८३ ॥ देवियोंकी इस बातको सुनकर प्रियमित्रा उस बातका निश्चय करनेके लिए महाराज मेघरथका मुंह देखने लगी ॥ ८४ ॥ महाराज मेघरथने कहा कि हे कांति ! कर्मके उदयसे तेरे मुखकमलकी कांति पहिले कीसी नहीं है पहिलेसे अक्षय कुछ कम हुई है ॥ ८५ ॥ पर सुनकर देवियोंने अपना रूप प्रगट किया, अपने आनेके समाचार कहे और मनमें विचार करने लगी कि इस चण्डभंगुर रूपको धिक्कार है ॥ ८६ ॥ इस संसारमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है रूप, लावण्य, शौभाग्य शरीर

उन्होंने शरीरसे मसल खोड़ दिया है वे महा त्यागी हो गये हैं और शीलरूपी आभरणसे सुशोभित हो रहे हैं। इससमय मैंने उन्हीको स्तुति की है ॥ ५७-५८ ॥ इन्द्रकी कही हुई इस बातको सुनकर अतिरूपा और सुरूपा नामकी दो देवियां उनकी परीक्षा करनेके लिये पृथ्वीपर आईं ॥ ५९ ॥ उस समय महाराज मेघरथ शरीरसे भमल खोड़े हुए, क्रोधादि कषाय रहित, समता व्रतको धारण किए हुए, लामबान्, महाधीरवीर और सब विकारोंसे रहित विराजमान थे। उस समय वे समुद्रके समान गंभीर थे पर्वतके समान शरीर उनका निरचल था, वे षट्कांतमें विराजमान थे, श्रांत परिणामोंको धारण किये हुये थे, ध्यानमें लगे हुए थे, और अत्यंत निरपृह थे। सब चिन्ताओंसे रहित थे, निर्भय, ज्ञानी, बुद्धिमान थे, कायोत्सर्ग धारण किये हुये थे और व्रत शील आदिसे सुशोभित थे ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार गुणोंके धर उपसर्गके कारण वज्रोंसे ढके हुए सुनिराजके समान महाराज मेघरथको उन देवियोंने देखे ॥ ६३ ॥ उन देवियोंने अत्यंत धीर वीरता धारण करनेवाले उन महाराज मेघरथपर कात्तरोको भय उत्पन्न करनेवाला असह्य और भारी उपसर्ग करना प्रारंभ किया। ध्यानमें जोष उत्पन्न करनेवाले मनोहर भाव, विलास, विभ्रम, गीत, नृत्य कामको बढ़ानेवाली रागरूप चेष्टायें, हठ आलिंगन, वीणा आदिके मधुर शब्द, कामरूपी अग्निको बढ़ानेके लिए ईंधनके समान अनेक प्रकारके वचनालाप, भय आदिको उत्पन्न करनेवाले दृष्टित वाक्य, तथा और भी कात्तरोको भय उत्पन्न करनेवाले ध्यानका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके ऐसे ही ऐसे धीर दुर्वाँके कारणों से उन देवियोंने उपसर्ग किया ॥ ६४—६८ ॥ तब महाराज मेघरथने संवेगसे सुगंधित रागरहित अपनी निरचल मन श्रोतिनंददेवके चरण कमलोंमें लगाया ॥ ६९ ॥ उन देवियोंके द्वारा की हुई तीव्र धीर और रौद्र परीपहोंको जीतकर सिंहके समान वे महाराज मेघरथ मेरुपर्वतके समान निरचल विराजमान रहे ॥ ७० ॥ जिस प्रकार विजलीको लहर सुमेरु पर्वतको नहीं हिला सकती उसीप्रकार वे दोनों देवियां मेघरथके मनरूपी पर्वतको चलापमान करनेसें असमथ हुईं और उनका सब परिश्रय व्यर्थ गया ॥ ७१ ॥ तब उन दोनों देवियोंने कहा कि ईशान इन्द्रका कहा हुआ सब सच है यह कहकर उन्होंने उनको प्रणाम किया उनकी

हुआ अप्राप्तुक जलका त्याग कर देना चाहिये ॥ २ ॥ सूक्ष्म जीवों की दया पालन करनेकेलिये अन्नपान स्वाद्य और स्वाद्य यह चारों प्रकारका आहार राजिमें कभी नहीं खाना चाहिये ॥ ३ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने धर्मसेवन करनेकेलिये जघन्य ध्रावकोंकेलिये ये छह प्रतिमायें निरूपणकी हैं ये प्रतिमायें सुगम हैं और रत्नगर्भा सीढ़ी हैं ॥ ४ ॥ जो पुरुष सब स्त्रियोंको अपनी माता बहिन और पुत्रीके समान देखता है उसके निर्मल ब्रह्मचय पूगट होता है ॥ ५ ॥ असि मसि कृपि वाण्ड्य आदि सब प्रकारका आरम्भ पापका कारण है इसलिये मन बचन कायसे उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६ ॥ दूष्य धान्य सुवर्ण आदिसि उत्पन्न होनेवाला परिग्रह सब अनेक प्रकारके अशुभोंकी खानि है इसलिये बखोंको छोड़कर वाकीके सब बखोंका त्यागकर देना चाहिए ॥ ७ ॥ यहस्थोंकी ये तीन प्रतिमायें सध्यम कहलाती हैं । प्रतिमायें हृदयमें वैराग्य धारण करनेवालोंको मोक्ष मुख देनेवाली हैं ॥ ८ ॥ आहार वरके व्यापार और विवाहादि कार्योंमें चतुर पुरुषोंको कभी सम्भति नहीं देनी क्योंकि इनमें सन्मति देना पापका समुद्र है ॥ ९ ॥ पापोंको शांत करनेके लिए और धर्मकी सिद्धिके लिए दूसरेके धरपर कृत आदि दोषोंसे रहित रवादिष्ट रहित पापरहित शुद्ध भिक्षा भोजन करना चाहिए ॥ १० ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने ये दोनों ही मनोहर प्रतिमायें उत्कृष्ट बतलाई हैं श्रावकोंको ये ही दो प्रतिमायें स्वर्ग मोक्षकी कारण हैं ॥ ११ ॥ जो बुद्धिमान् इन उपर कही हुई ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करता है वह सोलहवें स्वर्गको प्राप्त होता है और अनुक्रमसे मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ १२ ॥ इस कथनके बाद श्रीजिनेंद्रदेवने अपने पुत्रके सामने कृपापूर्वक इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख देनेवाली यहस्थोंकी सब क्रियायें कही ॥ १३ ॥ गर्भान्वय क्रिया दीक्षान्वय क्रिया और कर्त्तव्य क्रिया ये तीन प्रकारकी क्रियाएं होती हैं अब आगे इनकी संख्या बतलाते हैं ॥ १४ ॥ गर्भधानसे लेकर निर्वाण पर्यंत जो क्रियाएं सम्भयदर्शन पूर्वक की जाती हैं उन्हें गर्भान्वय क्रियाएं कहते हैं उनकी संख्या तिरपन है ॥ १५ ॥ अघतारसे लेकर मोक्ष प्राप्त होनेसे पर्यंत जो माला सिद्ध करनेवाली क्रियाएं हैं उन्हें दीक्षान्वय क्रियाएं कहते हैं उनकी संख्या अड़तालीस है ॥ १६ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने पूर्ण कल्याण प्राप्त करनेके लिये सद्ग्रहिल्ल

और सप्ताध्य सब कालके सुखमें पड़कर पूरा हो जाता है। इसप्रकार चिन्तमें विचार कर और विरक्त होकर उन देवियों में दिव्य वस्त्र आभूषण और मालासे प्रियमित्राकी पूजा की और फिर अपनी कांतिसे दिशाओंको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गई ॥ ८७-८८ ॥ महा रानी प्रियमित्रा इस बातसे बहुत खेदखिन्न हुई और उस सतीके हृदयमें बहुत शोक हुआ तब महाराजने बड़े प्रेमसे कहा कि हे प्रिये। क्या तू नहीं जानती है कि यह चर अचर संसार तिथ्यानित्यात्मक है इसमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है ॥ ८९-९० ॥ यही समझकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसप्रकार महाराजने उसे आश्वासन दिया और राज्यभोग स्त्री आदि सबसे बंधुत विरक्त हुए ॥ ९१ ॥ किसी दूसरे दिन महाराज मेघरथ अपने सब परिवारके साथ अपने पिता तीर्थंकर धनरथको वन्दना करने के लिए मनोहर नामके उद्यानमें गए ॥ ९२ ॥ वहांपर सुर असुर सबसे घिरे हुए पूज्य धनरथ तीर्थंकर तिंहासतपर विराजमान थे ॥ ९३ ॥ महाराज मेघरथने सब परिवारके साथ उनकी तीन प्रदिल्लाण् दी उनकी नमस्कारःकिया बड़ी भक्तिसे उनकी पूजनकी और उत्तम स्त्रोत्रोंसे उनकी स्तुतिकी ॥ ९४ ॥ फिर महाराज मेघरथने सब जीवोंके हितकी इच्छा रखते हुए श्रावकोंकी क्रियाएं पूछी सो ठीक है क्योंकि सज्जनोंकी चेष्टाएं प्रायः कल्पवृक्षोंके समान परंपकारके ही लिए होती हैं ॥ ९५ ॥ तीर्थंकर धनरथने भव्य पुत्रोंको धर्मकी प्राप्ति कराने के लिए अपनी सब भायामयी ध्यानिसे उपदेश दिया और कहा कि हे पुत्र। सुन मैं श्रावकोंके आचरणको सूचित करने वाले उपासकाध्ययन नामके सातवें अङ्गको पूर्ण रीतिसे कहता हूँ ॥ ९६-९७ ॥ सबसे पहिले श्रावकोंको शृंगारिदांपोंसे रहित तत्वोंके यथार्थ श्रद्धान करनेरूप सन्म्यधर्शनको धारण करना चाहिए क्यों कि यही सन्म्यधर्शन समस्त श्रेष्ठ ब्रतोंका मूल कारण है ॥ ९८ ॥ पांच अणुब्रत तीन गुणब्रत ए वारह ब्रत कहलाते हैं ॥ ९९ ॥ इनके सिवाय श्रावकोंको धनंध्यान धारण करने के लिए आर्तध्यानको छोड़कर तीनों समय ब्रतरूप उत्तम तामादिक करना चाहिए ॥ १०० ॥ चतुर पुरुषोंको अपने कर्म नष्ट करनेकेलिए धरके व्यापार छोड़कर सब पर्वक दिनोंमें नियमपूर्वक सदा पापधापास करना चाहिए ॥ १ ॥ बुद्धिमानोंको सचित्त द्याल पत्ते, कन्द, मूल, फल, बीज, नहीं खाना चाहिए तथा अप्रियर नहीं पका

से लेकर सिद्ध पर्यंत सात कर्त्रन्वय क्रियायें बतलाई हैं ॥ १७ ॥ श्रीघनरथ जिनेंद्रदेवने इन सब क्रियाओं का स्वरूप विधि और फल संक्षेपसे कहा तथा और भी सद्धर्मका किया ॥ १८ ॥ महाराज मेघरथने उन घनरथ तीर्थंकरका कहा हुआ क्रियाओं का स्वरूप और स्वर्ग मोक्ष देनेवाला यहस्थोंके धर्मका स्वरूप सुना ॥ १९ ॥ फिर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनको नमस्कार किया और सोच प्राप्त करनेकेलिए हृदयको अत्यंत शांत कर वे संसार देहका भोगका स्वरूप बार बार चिंतवन करने लगे ॥ २० ॥ वे विचार करने लगे कि संसार एक समुद्रके समान है, यह अत्यन्त दुःसह है, भीम है, विषम है, दुखरूपी मगर मच्छोंसे भरा हुआ है, जन्म मरण और बुढ़ापा ही इसके आवर्त (भँवर) हैं, चारों गतियां ही इसकी चंचल लहरें हैं, नरक ही इसके बड़वानल कुम्भ हैं, यह अत्यन्त निस्सार है, अपार है, समस्त पापोंका समूह ही इसका जल है, जीवों का परित्रमण ही इसका फेन है, यह अनादि है, अनंत है घोर है, उत्पाद व्यय धौव्य स्वरूप है, सबतरहके दुःखोंका निधान है अत्यन्त निध है और भव्यजीवोंको अत्यन्त ही भयंकर है । इसमें अशुभ कर्मरूपी सांकलसे जकड़े हुए जोव धर्मरूपी जहाज को न पाकर ही सदा उछलते और डूबते रहते हैं ॥ २१-२४ ॥ धर्मके बिना ये जीव अनादि कालसे कर्मोंके द्वारा जवर्दस्ती ठगे गए हैं इसीलिए दुखरूपी वाघोंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें सदा घूमा करते हैं ॥ २५ ॥ इस संसारमें मुनियोंके बिना और कोई मनुष्य सुखी नहीं है । किन्हींको कोढ़ आदि रोगोंसे उत्पन्न होनेवाला तीव्र घोर दुख है किन्हींको दरिद्रताका दुख है, किन्हींको अत्यन्त शोकसे दुख हो रहा है, किन्हींको भयसे दुख हो रहा है, किन्हींको मानभंग होनेका दुख है, जोकि वचनसे भी नहीं कहा जा सकता और किन्हींको पुत्र स्त्री आदिके वियोगसे उत्पन्न होनेवाला शोकका दुख है ॥ २६-२८ ॥ किन्हींके पुत्र दुराचारी और दुर्व्यसनी हैं और किन्हींकी स्त्री दुष्ट, दुराचारिणी और भयानक है ॥ २९ ॥ किन्हींके भाई दुष्ट शत्रुओंके समान हैं किन्हींका पिता दुष्ट है और किन्हींकी माता व्यभिचारिणी है ॥ ३० ॥ किन्हींके गोत्रमें कलंक लगानेवाली व्यभिचारिणी पुत्रियां हैं और किन्हींके सेवक ही डैरी हो रहे हैं और मारनेके लिये सदा तैयार रहते हैं ॥ ३१ ॥ किन्हींके नरकके

दुखों से भी बढ़कर मानसिक पीड़ा है और किन्हींके क्रोध लोभ आदिकी बाधा सदा बनी रहती है ॥३२॥
 देखो ! भरत चक्रवर्ती चरमशरीरो था तथापि उसे छोटे भाईके द्वारा मानभंगका महा दुख प्राप्त हुआ था ॥ ३३ ॥ जब चक्रवर्ती की ही यह बात है तब फिर कर्मोंके आधीन रहनेवाले अशुभ कर्मोंसे घिरे हुए जन्म बुढापा आदि दोषसहित तुच्छ पुण्यवाले अन्य लोग भला कैसे सुखी हो सकते है ॥३४॥ जिसप्रकार केलेके खंभेमें कुछ सार नहीं है और न इन्द्रजालमें कुछ सार है उसी प्रकार तीनों लोकोंमें कुछ सार नहीं है ॥३५॥ इस संसारमें घर, राज्य, शरीर, स्त्री, लक्ष्मी, पुत्र सेवक आदि कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है ॥ ३६ ॥ जो घर अग्नि आदिके संयोगसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है उस बादलके समान थोड़ी देरतक रहनेवाले घरमें भला कौन बुद्धिमान विश्वास करेगा ॥ ३७ ॥ राज्य भी सबैरेके समय दाभके पत्तेकी अनीपर रखी हुई ओसकी बूंदके समान चंचल है पापोंसे भरा हुआ है और शत्रुके दुखोंका एक स्थान है ॥ ३८ ॥ स्त्री भी इस समयमें प्राणियोंको मोहादिरूपी जलसे सीची हुई और नरकादि फलोंको देनेवाली विषकी अशुभ बेलके समान है ॥ ३९ ॥ प्राणियोंके लिए भाई बन्धनके समान है और पापके कारण है तथा धन धान्य आदिकी क्षय करनेवाले पुत्रभी फंसानेके लिये जालके समान है ॥ ४० ॥ जो भाई विरादरीके लोग, अपने मरे हुए कुटुम्बीको स्मशानमें छोड़कर चले आते हैं और फिर कभी फिरक भी नहीं देखते वे भला अपने कैसे हो सकते हैं ॥ ४१ ॥ चक्रवर्ती आदिकी राज्यलक्ष्मी विजलीकी रेखाके समान चंचल है महामोह करनेवाली है और मनुष्योंको नरकरूपी घरके दरवाजेके समान है ॥ ४२ ॥ इसप्रकार संसारकी विचित्रता और पदार्थोंको अतित्य समझकर बुद्धिमान लोग संसारको छोड़कर तपश्चरण कर मोच प्राप्त करते हैं ॥ ४३ ॥ इस शरीरसे नौ द्वारोंके द्वारा दुर्गंध अशुभ मल स्वयं बहता रहता है, यह विष्टाका घर है, और सब ओर सैकड़ों कीड़ोंसे भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ यह शरीर नरकके समान असार है, शुक्र शोणितसे उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओंसे बना हुआ है, निध है पृथ्वाके योग्य है और दुखका स्थान है ॥ ४५ ॥ तथा सब अशुभ रोगरूपी सर्पोंका विल है, अशुभ कर्मोंका कारण है सब प्रकारके दुखोंका निधान है और भूख प्यास आदिसे सदा

रोगरूपी अग्नि इस शरीररूपो झोंपड़ीको नहीं जला देती तबतक जीवोंको अपना हित कर लेना चाहिए क्योंकि फिर इस शरीरसे कुछ नहीं हो सकता ॥ ६० ॥ जबतक बुढ़ापीरूपी राक्षसी इस शरीरको नहीं खा जाती तबतक जीवोंको दीक्षा धारणकर स्वर्ग और मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिए ॥ ६१ ॥ जबतक इन्द्रियां अपने कार्यसं समर्थ हैं तबतक बुद्धिमानोंको तपश्चरणके बलसे मुक्तिरूपी स्त्री अपने हाथमें कर लेनी चाहिए ॥ ६२ ॥ जबतक आशु पूरी न हो जाय तबतक भारी तपश्चरण कर लेना चाहिए क्योंकि मकानमें अग्नि लग जानेपर फिर कंआ खोदना व्यर्थ ही है ॥ ६३ ॥ जिन्होंने शारीरिक सुखोंसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तपश्चरण चारित्र्य व्युत्सर्ग आदिके द्वारा शरीरको कुश किया उन्हींका शरीर सफल समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ चही तमझकर अत्यन्त निस्सार और क्षणभंगुर इस शरीरको पाकर सारभूत तपश्चरण करना चाहिये इसीसे यह शरीर सफल हो सकता है ॥ ६५ ॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तथा तप ध्यान आदि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये थोड़ा अन्न पान आदि देकर सेवकके सम्मान इसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ इन भोगोंसे भी कभी तृप्ति नहीं होती, ए शरीरको कुश करनेवाले हैं, दुष्ट हैं, पहिले तो मनोहर जान पड़ते हैं परन्तु हैं पापके समुद्र और फल देते समय अत्यंत भयानक ॥ ६७ ॥ ये भोग परार्थीन हैं, क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले हैं, नरकरूपी धारके मार्गको दिखलानेवाले हैं, पशुओंने ही इनको स्वीकार किया है तथा मोक्षयात्री मुनियोंने सदा इनकी निंदा की है ॥ ६८ ॥ ए भोग धर्मरूपी राजाके महाशत्रु हैं, मोक्षरूपी धरके किबाड़ हैं, सब प्रकारके दुखोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, धीरे हैं और स्वर्गरूपी धरको बन्द करनेके लिए आर्गल (बंडा, आगल) के समान हैं ॥ ६९ ॥ व्याधि, क्लेश, दाह, भय, चिंता आदिके दो सागर हैं क्रूर हैं भूर्वा लोग ही इनका आदर करते हैं और धीरे सज्जन लोग इनका त्याग कर देते हैं ॥ ७० ॥ ए भोग बड़ो कठिनतासे प्राप्त होते हैं, दुखोंसे उत्पन्न होते हैं और मानभंग आदि दुखके कारण हैं इसलिए इस संसारमें ऐसा कौन बुद्धिमान है जो धर्मको छोड़कर इन भोगोंको सेवन करे ? ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार तेलके सींचनेसे अग्नि और अधिक बढ़ती है उसी प्रकार चुरी जलन उत्पन्न करनेवाली मनुष्यां

दुखी रहता है ॥४६॥ यह शरीर कामरूपी अग्निसे सदा जलता रहता है समस्त पापोंका कारण है और कर्मसे उत्पन्न हुआ है फिर भला इस संसारमें प्राणियोंको इससे सुख कैसे मिल सकता है ॥ ४७ ॥ यह शरीर अत्यन्त अशुद्ध है अशुद्ध द्रव्योंसे भरा हुआ है। इसमें केवल मलमूत्र ही नहीं भरा है किन्तु यह अशुद्ध पदार्थोंका घर ही है ॥ ४८ ॥ यह शरीर अन्न पान तान्बूल आदि पुष्ट करनेवाले पदार्थोंको भी अपने संसर्गसे अपवित्र और दूष्णके योग्य बना देता है ॥ ४९ ॥ यह मनुष्योंका शरीर इन्द्रधनुषके समान अतिथ है, पापकी खानि है और जब अग्नि शूल वा वृत्तुके संयोगसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ इस शरीररूपी घरमें भूख, प्यास, काम, रोग, क्रोधरूपी अग्नियां सदा जलती रहती हैं फिर भला चतुर पुरुष इसमें किस प्रकार प्रेम कर सकता है ॥ ५१ ॥ यह मनुष्योंका शरीर वज्र आभरण आदिसे सुशोभित हुआ बाहर से ही मनोहर दिखता है यदि इस भीतरसे देखा जाय तो शरावके घड़ेके समान अत्यंत वीभत्स और अशुभ जान पड़ता है ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार चाडालके घरमें कुछ सार दिखाई नहीं देता उसी प्रकार हड्डी चमड़ा और विष्टा आदिसे भरे हुए इस शरीरमें भी कभी सार दिखाई नहीं दे सकता ॥ ५३ ॥ यदि उसको एक दिन भी अन्नादिक भोजन न मिले तो फिर यह अग्निमें पड़े हुए सूके पत्तेके समान शीघ्र ही क्षीण हो जाता है ॥ ५४ ॥ अन्न पान आदि पदार्थोंसे प्रति दिन इस शरीरका पालन पोषण किया जाता है तथापि यह शरीर जोवके साथ नहीं जाता, दुष्टके समान यहां ही रह जाता है ॥ ५५ ॥ जो रागी मूर्ख प्रति दिन इस शरीरका पोषण करते हैं उनको यह शरीर शत्रुके समान केवल रोगोंका समूह ही देता है ॥ ५६ ॥ अथवा परलोकमें यह शरीर उनको नरकयोनि अथवा तिर्यचयोनि देता है जो कि समस्त अशुद्धताकी खानि है और काम इंद्रियोंकी लालसा और क्रोधरूपी शत्रुओंसे भरी हुई है ॥ ५७ ॥ परन्तु जो लोग तपश्चरण, व्रत और कायबलेश आदि परीशर्होंसे इसको सोखते हैं कृश करते हैं उनको स्वर्ग मोलके सुख प्राप्त होते हैं इससे बहूकर भला और आश्चर्य क्या होगा ॥ ५८ ॥ इसलिये जबतक यह भूखा यमराज इस शरीरको जवर्दस्ता नहीं खा लेता तबतक चतुर पुरुषोंको इस शरीरसे तप यम धर्म आदि कर लेना चाहिए ॥ ५९ ॥ जबतक-

ब्रह्मचर्यका प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मपद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मचर्यका

रूपी औषधिसे ही नष्ट होता है इसलिए मनुष्योंको ब्रह्मपद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मचर्यका ही पालन करना चाहिए ॥ ५५ ॥ मनुष्योंका जीवन (आयु वा आयुक्रमके निषेक) संख्यात्मक है नियमित है और वह हाथमें रखे हुए पानीके समान प्रतिश्रण नष्ट होता रहता है फिर भला ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कोन है जो दीक्षा धारण करनेमें आत्माका हित करनेमें, और धर्म पालन करनेमें ढेर करे क्योंकि मृत्यु कब आयेगी यह किसीको मालूम नहीं है ॥ ५६-५७ ॥ ये भाई वंशु सब बंधनके समान हैं, बंचल संपदा विपत्ति के समान है राज्य पापकी खानि है और जालके समान फंसानेवाली स्त्रियां पाप उत्पन्न करनेवाली हैं ॥ ५८ ॥ ये विषय विषयके समान हैं भोग रोगके समान हैं और मनुष्योंका जीवन सर्वेके समय दामकी अनीपर लगी हुई पानीकी (ओसकी) बूंदके समान शीघ्रही नष्ट होनेवाला है ॥ ५९ ॥ यदि ऐसा नहीं है तो फिर तीर्थकर आदि पहिलेके सज्जन लोग घरको छोड़कर तपश्चरण करनेके लिए जन्में क्यों नले गए ॥ ६० ॥ घनरथ तीर्थकर अपने हृदयमें इसप्रकार चिंतन कर यहनिवास आदि सब पदार्थोंसे विरक्त हुए और जब वह दीक्षा लेनेके लिए तैयार हुए उसी समय लौकांतिकदेव अपने अर्वाधिदानसे तीर्थकरकी ओसे सार्थक जानकर उनकी इच्छानुसार प्रार्थना करनेके लिए शीघ्रही भक्तिपूर्वक स्वर्गसे आये ॥ ६१-६२ ॥ उन्होंने पदार्थोंसे विरक्त श्रुकाकर तीर्थकरको नमस्कार किया और फिर वे अपनी बुद्धिके अनुसार बड़े भावोंसे सार्थक हिलेही मस्तक श्रुकाकर तीर्थकरको नमस्कार किया और फिर वे तीनों लोकोंका हित करनेवाले स्तुति करने लगे ॥ ६३ ॥ हे देव ! आप जगतके स्वामी है हे नाथ ! आप तीनों लोकोंका हित करनेवाले हैं । हे समस्त गुणोंके एक स्थान । जिनके कोई आप्रय नहीं है उनके आप भाई हैं ॥ ६४ ॥ आप पूर्वजोंके भी महापूरुष हैं नमस्कार करनेयोग्योंके भी सेवा करने योग्य हैं ॥ ६५ ॥ आप देवोंमें महादेव हैं मुनियोंमें भी महापूरुष हैं नमस्कार करने योग्य लोगोंके भी सेवा करने योग्य हैं ॥ ६६ ॥ हे नाथ, आप जानकारोंमें योग्य हैं और सेवा करने बड़े गुरु हैं और मान्य जीवोंमें जगतमान्य हैं ॥ ६६ ॥ हे नाथ, आप उत्तम त्रती हैं ॥ ६७ ॥ महासुनि हैं गुरुओंमें सबसे बड़ी गुरु हैं और मान्य जीवोंमें महाबुद्धिमान हैं, और त्रतियोंमें उत्तम त्रती हैं ॥ ६७ ॥

एके जानकार हैं ज्ञानियोंमें महा धर्मात्मा हैं तपस्वियोंमें महा तपस्वी हैं पवित्रोंमें महा पवित्र हैं और धीर धीर प्राणि-प धर्मात्माओंमें महा धर्मात्मा हैं

का एक स्थान ऐसा यह शरीर तो कहां ? और तीन लोकका नाथ, सर्वज्ञ, सुखकी खानि, पवित्र, ज्ञानी पूज्य, शुद्ध, और कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाला यह आत्मा कहां ? ज्ञानी पुरुषके शरीर और आत्मा इन दोनोंका सम्बन्ध कैसे हो सकता है यह संबंध तो केवल कर्मोंका किया हुआ है क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो अपने उच्छ्वस्त आत्माको अपने शरीरसे पृथक् समझता है ॥ ४३-४५ ॥ जिसप्रकार किट्टिकालिमाको जलाकर उससे शुद्ध सुवर्ण अलग ग्रहणकर लिया जाता है उसी प्रकार कर्मरूपी काठसे भरे हुए और अशुभ कर्मोंसे उत्पन्न हुए इस शरीररूपी घरको ध्यानरूपी अग्निसे जलाकर इस शरीरसे ही पवित्र आत्मा को अलग ग्रहण कर लिया जाता है ॥ ४६ ॥ फिर यह जीव समस्त कर्मोंके क्षय होजाने से सर्वज्ञ होकर आत्माका कल्याण करनेवाले, अनंत सुखसे भरे हुए, नित्य और निरामय (रोग आदि दोषोंसे रहित) मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ ४७ ॥ इसलिये जबतक शरीरमें जीवोंकी ममता (ममत्व बुद्धि) बनी है तबतक वह शरीर भव भवमें प्राप्त होता है । इसलिये चतुर पुरुषोंको वह ममत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ४८ ॥ इसलिये अपने आत्माका हित चाहनेवाले पुरुष दुखोंके निधि और रोग क्लेश करनेवाले शत्रुके समान इस शरीरसे क्या सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४९ ॥ जो धीर वीर पुरुष शरीर पाकर शारीरिक सुख छोड़कर और तपश्चरणकर अपने आत्माका हित सिद्ध करते हैं उन्हींका शरीर सफल समझना चाहिये ॥ ५० ॥ जिसप्रकार ईंधनसे अग्नि बढ़ती है घटती नहीं, उसी प्रकार जो मनुष्य भोगोंसे इस शरीरका लालन पालन करते हैं उन्हें कभी संतोष नहीं हो सकता । उनकी तृष्णा दिन दूनी बढ़ती जाती है ॥ ५१ ॥ इसलिये अनेक प्रकारके भोगोंसे तथा भोगोपभोगकी सामग्रियोंसे क्या लाभ है क्योंकि उनसे सुख देनेवाला संतोष कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ ये भोग विनश्वर हैं सर्पके फणके समान दुख देनेवाले हैं इनसे कभी तृप्ति नहीं होती ये शरीरकी विडंबना करनेवाले हैं और दुखसे उत्पन्न होनेवाले हैं इसलिए ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इनका सेवन करे ॥ ५३ ॥ जो मनुष्य कामज्वरसे संतप्त होकर उसकी शान्तिके लिए स्त्रीरूपी औषधिकी इच्छा करते हैं वे तेलसे अग्निकी लौको रोकना चाहते हैं ॥ ५४ ॥ यह कामज्वर ब्रह्मचर्य-

योंमें महा धीर वीर हैं ॥६८॥ आप तीनों लोकोंके स्वामियोंमें स्वामी हैं, चक्रवर्तियोंके भी चक्रवर्ती हैं, सहनशीलोंमें भी सहनशील हैं और जिनेन्द्रोंमें भी परम जिनेद्र हैं ॥ ६९ ॥ जीतनेवालोंमें सबसे उत्तम जीतनेवाले हैं, विराणियोंमें परम विराणी हैं, रक्षक हैं और ईश्वरोंमें महेश्वर हैं ॥ ७० ॥ जिसप्रकार सूर्यको दीपक चढाते हैं समुद्रको जलांजलि देते हैं और बनस्पतिको पुष्प चढ़ाते हैं उसी प्रकार यह हमारा आपको बोध कराना है ॥ ७१ ॥ आप पहिलेके तीन ज्ञानरूपी (मति श्रुत अबधि) नेत्रोंसे समस्त हेय उपादेयको जानते हैं गुणदोषोंको जानते है और बन्ध मोक्ष तथा संसारको जानते हैं ॥ ७२ ॥ आप अन्तरंग वहिरंग लक्ष्मीसे सुशोभित हैं अनंत गुणोंके स्वामी हैं मुक्तिके पति हैं जगतके बांधव हैं और सबके स्वामी हैं इसलिये मन वचन कायसे आपको नमस्कार है ॥ ७३ ॥ इसप्रकार भक्तिपूर्वक उन्होंने उन तीर्थकरका स्तवन किया, कल्प वृक्षके पुष्पोंसे तथा दिव्य गंधादिकसे उनकी पूजा की, मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया, अपना नियोग (कर्त्तव्य) पालन किया और महा पुण्य उपाजन कर वे आकाश मार्गसे अपने स्थान चले गये ॥ ७४-७५ ॥ इन्द्रोंके साथ साथ चतुर्निकायके देव अपने अपने चिन्होंसे तीर्थकरके दीचा कल्याणको जानकर बड़ी भक्तिसे आये दीचा धारण करनेके लिये उन्होंने बड़ी विभूतिसे उनका अभिषेक किया, तथा आभरणादिकोंसे उनकी पूजा की, ॥ ७६-७७ ॥ तदनन्तर उन घनरथ तीर्थकरने मेघरथका राज्यभिषेक किया, और अपनी विभूतिके साथ साथ बुद्धिमानोंको त्याग करने योग्य राज्य उनको समर्पण किया ॥ ७८ ॥ फिर वे भगवान अनेक प्रकारको शोभासे सुशोभित दिव्य पालकोंमें विराजमान होकर सब देवोंके साथ बनमें गये ॥ ७९ ॥ वहां जाकर उन भगवानने मन वचन कायकी शुद्धि और सिद्ध भगवानकी साक्षी पूर्वक वज्रादिक बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया और मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रहोंका त्याग किया ॥ ८० ॥ उन्होंने मस्तक पर पंचमुखि लोंच किया और इन्द्रोंके द्वारा की हुई पूजासे पूज्य होकर उत्तम संयम धारण किया ॥ ८१ ॥ वे जितेंद्रिय बुद्धिमान भगवान मन वचन कायकी शुद्धि धारण करने लगे और क्षमा द्वारा कषायरूपी विषका नाश करने लगे ॥ ८२ ॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले उन धीर वीर भगवानने शुक्लेश्वर्या, महाध्यान और मौन-

ग्यारहवां अधिकार ।

मैं शांतिरूप गुणको प्राप्त करनेकेलिए संसारकी समस्त अशांतिको दूर करनेवाले और शांतिरूपी गुणके समुद्र ऐसे श्रीशांतिनाथकी मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा मेघरथ अपनी देवियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए अनेक वृक्षोंसे भरे हुए देवरमण नामके उद्यानमें गए ॥ २ ॥ वहाँ जाकर उन्होंने उस वनको देखा, क्रीड़ाकी और फिर अपनी देवियोंके साथ एक चंद्रकांत शिलापर विराजमान हुए ॥ ३ ॥ उसी समय कोई एक विद्याधर विमानमें बैठा हुआ उनके ऊपरसे जा रहा था परन्तु उनके ऊपरसे जानेके कारण वह विमान रुक गया और बड़े पथरके समान भारी होगया ॥४॥ विमानको रुका हुआ देखकर वह सब दिशाओंकी ओर देखने लगा और नीचेकी ओर किरणोंसे व्याप्त और राजा मेघरथसे शोभायमान एक शिला देखी ॥ ५ ॥ उसे देखते ही वह उस शिलाके नीचे धुस गया और अपनी विद्यासे क्रोधपूर्वक अपने हाथसे ही उसे जबरदस्ती उठानेका प्रयत्न करने लगा ॥ ६ ॥ तब राजा मेघरथने उस शिलाको अपने पैरके अग्रगूठेसे दावकर उसी समय उस विद्याधरको दबाया, दुखी किया ॥ ७ ॥ पैरके दबानेसे उस शिलाका बोझ उस विद्याधरपर बहुत पड़ा वह उस दुखको सह नहीं सका इसलिये कातर होकर दीन मनुष्यके समान शीघ्र ही करुणा भरे शब्दोंमें रोने लगा ॥ ८ ॥ उसके रोनेकी आवाज सुनकर विद्याधरी विमानसे उतरी शोकसे उसका मुख सूख गया और वह महाराज मेघरथसे कहने लगी ॥ ९ ॥ कि हे नाथ ! मुझपर दया कीजिए । हे प्रभो ! इस मेरे पतिको छोड़िए और शीघ्र ही मुझे पतिकी भीख दीजिए, नहीं तो आज मैं अनाथ हो जाऊंगी ॥ १० ॥ उस विद्याधरीकी यह बात सुनकर धर्मात्मा मेघरथने कृपा पूर्वक उसी समय उस शिलासे अपना पैर उठा लिया ॥ ११ ॥ यह सब देखकर रानी प्रियमित्रा कहने लगी कि हे नाथ ! यह विद्याधर कौन है ? और इसने ऐसा क्यों किया ? ॥ १२ ॥ तब राजा मेघरथ कहने लगे कि हे भार्ये ! तू अपना चित्त एकाग्र कर सुन, मैं इस विद्याधरकी

सुन—मैं जिनगुणसंपत्ति नामके शुभ व्रतको कहता हूँ ॥ २८ ॥ जो मनुष्य श्रीजिनेन्द्रदेवकी विभूति देनेवाले इस व्रतको मन वचन कायकी शुद्धतासे पालन करता है वह मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष पद प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ पहिले जिनालयमें बड़े उत्सवसे भगवानका अभिषेक करना चाहिये और फिर भव्य जीवोंको विधिपूर्वक उसका विधान करना चाहिये ॥ ३० ॥ तीर्थकर पदको देनेवाले सोलह कारणोंको उद्देश्य कर बुद्धिमानोंको सोलह उपवास करने चाहिये । फिर पांचों महाकल्याणोंको उद्देश्यकर भक्तिपूर्वक सब कल्याणोंको करनेवाले पांच प्रोषधोपवास करने चाहिये फिर आठों प्रातिहार्योंका निमित्त लेकर भक्तिपूर्वक प्रातिहार्यादिककी विभूति देनेवाले आठ उपवास करने चाहिये ॥ ३१-३३ ॥ फिर जिनेन्द्रदेवकी विभूति देनेवाले चौतीस अतिशयोंको उद्देश्य कर भाजपूर्वक चौतीस उपवास करने चाहिये ॥ ३४ ॥ इसप्रकार भव्य जीवोंको अनेक सुख देनेवाले और कर्मोंको नाश करनेवाले सब प्रोषधोपवासोंकी संख्या तिरैसठ होती है ॥ ३५ ॥ इसप्रकार व्रतोंके पूर्ण होनेपर बुद्धिमानोंको अपनी शक्तिके अनुसार भगवानका महाअभिषेक कर और धर्मोपकरण चढ़ाकर उद्यापन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ जिनके पास धन नहीं है अथवा किसी भी कारणसे जिनमें उद्यापन करनेकी शक्ति नहीं है उनको भक्तिपूर्वक अनेक सुख देनेवाले इस उत्तम व्रतका विधान दूना करना चाहिए । और दूने प्रोषधोपवास करने चाहिए ॥ ३७ ॥ राजाने अपनी रानीके साथ एकाम्रचित्त होकर विधिपूर्वक उस व्रतका पालन किया और अपनी शक्तिके अनुसार उसका उद्यापन किया ॥ ३८ ॥ मुनिराजकी बंदना करनेके बाद राजाने मुनिराजको नमस्कार किया, श्रावकके व्रत स्वीकार किए और भक्तिपूर्वक व्रतोंको लेकर प्रसन्न होकर अपने घर गया ॥ ३९ ॥ किसी एक दिन द्वारापेक्षण करते हुए राजाने स्वयं आए हुए और गुणोंके घर ऐसे धृतिषेण मुनिके दर्शन किए, भक्तिपूर्वक उनका प्रतिगाहन किया, और सुखका सागर, तृप्ति करनेवाला, मिष्ट, रसीला, और और सारभूत शुद्ध आहार दिया ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय प्राप्त हुए पुण्य कर्मके उदयसे उसके घर रत्नवृष्टि आदि पंचाशचर्योंकी वर्षा हुई सो ठीक ही है सुदानसे क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ किसी एक दिन राजाको

यह सूर्य है, दशवां सुसम है, यह विद्युत्प्रभ है, यह नीलवाक है यह उत्तर कुल है, यह चन्द्र है, यह ऐरावत है और यह प्रसिद्ध माल्यवान् है ॥ ८-१० ॥ इनमेंसे पहिलेके छह सरोवरोंपर (सरोवरोंमें कमलोंपर बने हुए भवनोंमें) श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ये छह व्यंतरी देयी रहती हैं। ये व्यंतरी सौधर्म और ऐसान इन्द्रकी नियोगिनी हैं। वाकीके सरोवरोंमें उसी नामके नागकुमार देव सदा निवास करते हैं। हे महामित्र ! अब मैं आपको दर्शनीय वजार पर्वत दिखलाता हूँ ॥ ११-१२ ॥ यह चित्रकूट वक्षार पर्वत है, यह पद्मकूट है, यह नलिन है, यह एकशैल है, यह त्रिकूट है, यह वैश्रवणकूट है, यह अंजन है, यह आत्मांजन है, यह शब्दवान् है, यह विष्णुतवान् है, यह आशीविष है, यह सुखावह है, यह चन्द्रमाल है, यह सूर्यमाल है, यह नागमाल है और यह देवमाल है। इसप्रकार ये सोलह वजार पर्वत हैं ॥ १३-१५ ॥ ये वक्षार पर्वत बहुत ऊंचे हैं जेत्रोंकी सीमाको विभक्त करनेवाले हैं एक एक पर्वतपर चार २ कूट हैं उनमेंसे एक एक कूटपर श्रीजिनमन्दिर शोभायमान हैं इसप्रकार ये वजार पर्वत बहुत ही मनोहर हैं ॥ १६ ॥ ये चार गजदंत हैं जो मेरु पर्वतसे विदिशाओंकी ओर चले गए हैं। गंधमादन, माल्यवान, विद्युत्प्रभ, और सौमनस इनका नाम है इनके शिखरपर अकृत्रिम जिनमंदिर शोभायमान हैं और ये बड़े ही अच्छे जान पड़ते हैं ॥ १७-१८ ॥ हृदा, हृदवती, पंकवती, तत्तजला, महोन्मत्तजला, क्षीरोदा, सीतोदा, श्रोतवाहिनी, भीरमालिनी, फेनमालिनी, ऊर्सिमालिनी ये वारह विभंगा नदी हैं ये विदेहके पृथक् पृथक् जेत्रोंकी सीमा- हैं। ऐ सुन्दर नदियां कुंडोंसे निकलकर महानदियोंमें गिरती हैं ॥ १९-२१ ॥ हे राजन् ! ये कच्छा, सुक- 1, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावती, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सका- वती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखनलिनी, कुमूदा, सरिदा, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधावती, गंधमालिनी ये विदेहजेत्रके वत्तीस जेत्र हैं ए सदा बने रहते हैं, धर्मसे विभूषित रहते हैं और स्वर्ग मोक्षके कारण हैं ॥ २२-२६ ॥ हे महाभाग ! इधर देखिए धर्मात्मा लोगोंसे भरी हुई, बहुत ही शोभायमान और चक्रवर्तियोंके निवास करने योग्य ऐसी बत्ती-

स इन देशोंकी राजधानी हैं। चेसा, चेमपुरी, अरिष्ठा, अरिष्ठापुरी, खड्गा, अंजुषा, औपधि, पुण्डरीकशिणी, सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभाकरी, अंकावती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंघपुरी, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या, अवध्या एे इनके नाम हैं। वचार पर्वत विभंगा नदी देश राजधानी आदि जो ऊपर बतलाए गए हैं वे सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वतसे लेकर प्रदक्षिणा रूपसे बतलाए गए हैं। इनके सिवाय राजा भेधरथने भूतारण्य देवारण्य आदि वन देखे, समुद्र देखे तथा मानुषोत्तर पर्वतके भीतर भीतरकी ओर भी सब चीजें उन्हींने स्वयं देखी और देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७-३४ ॥ उन्हींने उस-स सामग्री लेकर अकृत्रिम चैत्यालयोंकी पूजा की, बहुत देरतक भक्तिपूर्वक सैकड़ों स्तुतिओंसे उनकी स्तुति की और उनको नमस्कार किया ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार हृदयमें भक्तिको धारण करनेवाले उन राजा भेधरथने गणधरोंकी तीर्थकरोंकी और मुनियोंकी पूजा स्तुति की और अनेक प्रकारसे पुण्य उपार्जन किया ॥ ३६ ॥ इस प्रकार पैतालीस लाख योजन पूमाण मनुष्य क्षेत्रको देखकर और बहुतसा पुण्य उपार्जन कर राजा भेधरथ अपने नगरको लौट आए ॥ ३७ ॥ उन दोनों व्यंत्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर और सुन्दर मोती भेटकर राजाकी पूजा की और फिर वे अपने स्थानको चले गए ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य प्रत्युपकार उपकाररूपी समुद्रसे पार नहीं होता वह गंधरहित फूलके समान जीता हुआ भी निर्जीवके समान है ॥ ३९ ॥ जब सर्गोंके जीव ही इसप्रकार उपकारको जानते हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें क्यों धृनता रहता है यदि वह उपकार नहीं करसक्ता तो वह अवश्य ही दुष्ट है ॥ ४० ॥ अथानन्तर—किसी एक दिन काल लब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिकके लिये इसप्रकार विचार करने लगे ॥ ४१ ॥ कि देखो, यह जीव इस शरीरको इष्ट गालकर इसमें निवास करता है, यह शरीर विद्याका घर है और अत्यन्त धृणा करने योग्य है इस बातको यह नहीं जानता है। यह कितने बड़े दुखकी बात है ॥ ४२ ॥ देखो, अत्यन्त धृणा करने योग्य, निंध्य, शुक्र शोणितसे उत्पन्न हुआ सप्त धातुओंसे बना हुआ और समस्त अशुद्ध द्रव्यों

थे मानों बेलोंसे ढका हुआ कोई वृक्ष ही है ॥ ३५ ॥ इधर रत्नकंठ और रत्नायुध नामके अश्वघोषके पुत्र थे वे अपने पापकर्मके उदयसे संसारमें परिभ्रमण कर कुछ धर्मके सेवन करनेसे असुर (दयंतर) देव हुये थे अतिबल महाबल उनका नाम और वे बड़े ही दुष्ट थे । वे उन मुनिराजको देखकर पहले जन्मके वैरके संस्कारसे तथा पाप कर्मके उदयसे शरीरसे ममत्व ओड़ देनेवाले उन मुनिराजपर भयंकर उपसर्ग करने लगे ॥ ३६-३८ ॥ संसारमें जो मुनिराजकी निंदा करते हैं उनकी भव भवमें निंदा होती है तथा जो मुनिराजकी दुख देते हैं उन्हें नरकमें अनेक दुख होते हैं ॥ ३९ ॥ इतनेमें रंभा और तिलोत्तमा नामकी दो देवियां वहां आ पहुंची उन्होंने दुष्ट देवोंको समझाया कि इन मुनिराजका तपश्चरणाका बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है यदि अकस्मात् उन्हें भी क्रोध आ जाय तो फिर संसारमें ऐसा कौन है जो इनके सामने क्षणभर भी ठहर सके, इसप्रकार समझानेके बाद उन्होंने उन दोनोंको धमकाया उनकी ताड़नाकी और उन्हें रोका, इसप्रकार मुनिराजमें भक्ति रखनेवालीं उन दोनों दुष्टोंको रोका और दोनों लोकमें दुख देनेवाले पापोंसे डरकर वे दोनों देव कुछ पुण्यकर्मके उदयसे अपने स्थानको चले गये ॥ ४०-४२ ॥ उन दोनों पुण्यवती देवियोंने बड़ी भक्तिसे उन मुनिराजको नमस्कार किया स्वर्गलोकके पुष्य गंध आदि द्रव्योंसे उनकी पूजाकी और फिर वे स्वर्गको चली गईं ॥ ४३ ॥ देखो कहां तो वे देव और कहां वे देवियां ! पुण्यसे क्या नहीं होता है संसारमें जो कुछ कठिन है, सार है और दुर्लभ है वह सब कुछ धर्मात्माओंको प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ अथानन्तर वजायुधके पुत्र सहस्रायुधको राज्य करते ही किसी कारणसे वैराग्य प्राप्त हुआ और वे संयोगुणका चिंतवन करने लगे ॥ ४५ ॥ वे अपने मनमें सरपुरुषोंसे भरे हुए, पवित्र और मोक्ष प्राप्त करने तथा दान देनेमें चतुर ऐसे अपने कुलकर्मका चिंतवन करने लगे ॥ ४६ ॥ वे विचार करने लगे कि देखो मेरे यात्रा तीर्थंकर हैं । उन्होंने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त किया है और देव विधाधर मनुष्य आदि सब उनकी पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ मेरे पिता भी मोक्ष प्राप्त करनेके लिए चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको छोड़कर तथा संयम धारण कर प्रतिदिन कठिन धोर तपश्चरणा करते हैं ॥ ४८ ॥ अनंत सुवकी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग

विद्वानोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा धारणकर मेरे सामने ही बनको चले गए ॥१४॥ परन्तु मोहरूपी पिशा-
चसे धिरा हुआ, विषयोंसे अन्धा और नष्टबुद्धि में अबतक मीनके समान धररूपी जालमें जकड़ा हुआ पड़ा
हूँ ॥ ५० ॥ इस संसारमें इन श्रेष्ठ आत्माओंको जयतक कर्मोंके नाश होनेसे उत्पन्न होनेवाला अनन्त सुख
प्राप्त नहीं होता तबतक उन्हें सांसारिक सुखोंसे कभी तृप्ति नहीं होती ॥ ५१ ॥ मनुष्योंको चूधा रोगके
समय अथवा कामदहके समय अन्न और औषध लेकर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नहीं है किन्तु दुख
है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार कोई उन्मत्त जीव बुद्धिके भ्रमसे माताको भी स्त्री समझ लेता है
उसीप्रकार यह जीव अपनी बुद्धिके भ्रमसे बड़ी कठिनातासे प्राप्त होनेवाले, दुखसे उत्पन्न होनेवाले और आगे
भी दुख देनेवाले कामजन्य सुखको यह जीव सुख मान लेता है ॥ ५२-५३ ॥ जो सुख परार्थीन है, चंचल है
और विषयोंसे उत्पन्न हुआ है वह पशुओंने ही स्वीकार किया है फिर भला जानी लोग उसको इच्छा कैसे
करते हैं ॥ ५४ ॥ जो कामजन्य सुख है वह अनेक जीवोंका नाश करनेवाला है, रागसे परिपूर्ण है और परं-
परारूप नरकके दुखोंका कारण है, विद्वान लोगोंने भी उसे ऐसा ही माना है ॥ ५५ ॥ जो सुख विषयोंसे
रहित है अपने आत्मासे उत्पन्न हुआ है, स्त्री आदिसे रहित है, सदा रहनेवाला है और तपश्चरणसे उत्पन्न
हुआ है वह सुख मुनियोंके द्वारा मान्य गिना जाता है ॥ ५६ ॥ यदि वह अनन्त सुख कठिन तपश्चरणसे
भी मिल जाय तो फिर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो अत्यंत दुख देनेवाले सुखोंसे आत्माको विडंबित करे
॥ ५७ ॥ इसप्रकार चिंतन कर वे राजा सहस्त्राशुध काम्यराज आदि सबका त्यागकर अपने मतमें संयम
लेनेके लिए तैयार हुए ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिनकी इच्छा नष्ट हो गई है और संवेग गुणसे जिनका आत्मा
सुशोभित हो रहा है ऐस्से राजा सहस्त्राशुधने बड़ी विभूतिके साथ अपना राज्य शतबलको दिया ॥ ५९ ॥ इसके
पश्चात् पुराणकर्मके उदयसे वे राजा सहस्त्राशुध सब दोषोंसे रहित, धर्मके स्थान और कर्मोंके आश्रयसे रहित
ऐसे पिहितश्रव मुनिके समीप पहुँचे ॥ ६० ॥ उन्होंने उन मुनिराजको मस्तक भुकाकर नमस्कार किया,
वाह्य अंतरंग परिग्रहका त्याग किया और दुखोंको नाश करनेवाली तथा मोक्ष देनेवाली उत्तम दीक्षा

धारणको ॥ ६१ ॥ वे सहश्रायुध मुनि रात दिन शरीरका क्लेश पहुँचाने वाला असह्य घोर तपश्चरण के लगे और अपने योगके अन्तमें वजायुध मुनिके समीप पहुँचें ॥ ६२ ॥ वे दोनों (वजायुध और सहस्त्रायुध) मुनिराज कातर लोगोको भय उत्पन्न करनेवाला और कठिन तपश्चरणका पालनकर वैभार पर्वतपर पहुँचें ॥ ६३ ॥ उन्होँने अपने ज्ञानसे अपनी आयु थोड़ी बाकी समझकर समस्त आहार और शरीरसे ममत्व छोड़कर सत्यास धारण किया ॥ ६४ ॥ उन दोनों मुनियोंने उत्तम क्षमा संतोष आदिको तलवार पनाकर कर्माँमें रियतिबन्ध करनेवाले कषायरूपी शत्रुओंका निग्रह किया ॥ ६५ ॥ उन्होँने जन्म पर्यंत धारण किए हुए घोर और कठिन प्रोषधोपवासोँसे तथा शीत उष्ण आदिके सब तरहके दुख देनेवाले घोर परीषहोँसे अपने शरीरको रुधिर मोससे रहितकेवल हड्डी और चमड़ेसे ढका हुआ सूका, भयानक, क्रश और इंसलिये बहुल छोटा बना दिया था ॥ ६६-६७ ॥ वे दोनों ही मुनि सब दोषोँसे रहित और मुक्तिरूपी पुत्रीकी माताएँ ऐसी दर्शन ज्ञान आदि चारोँ उत्तम आराधन करते थे ॥ ६८ ॥ वे दोनों ही चतुर मुनि अशुभ ध्यानोंको छोड़कर कभी तो एकप्रय चिन्तसे श्रीजिनेंद्रदेवका ध्यान करते थे और कभी अपने आत्मका ध्यान करते थे ॥ ६९ ॥ उन्होँने शरीर रहित पद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए सब प्रकारके दुखोंका निधान और फिर भी शरीरका कारण ऐसा अपने शरीरका समत्व सर्वथा छोड़ दिया था ॥ ७० ॥ उन्होँने वैराग्यसे भरा हुआ अपना मन श्रेष्ठ धर्म ध्यानके द्वारा मरण पर्यंत अपने आत्मध्यानमें सर्वथा लगाया था ॥ ७१ ॥ इसप्रकार पूर्ण प्रयत्न और पूर्णसमाधिके साथ रत्नराजको शुद्धकर उन्होँने सूक्ष्म जीवोंको अभय देनेवाले अपने प्राण छोड़े थे और धर्मके प्रभावसे ऊर्ध्व यैवैयकके सुखके सागर ऐसे सौमनस नामके अथो विमानमें वे दोनों ही अहमिन्द्र हुए ॥ ७२-७३ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र शुद्ध स्फटिकके समान रत्नोंके बने हुये अनेक ऋद्धियोंसे परिपूर्ण ऐसे उत्पाद यह नामके विमानमें दो शिलाओंके बीच मणियोंसे जड़े हुए सोनेके आसनपर (पलंगपर) उत्पन्न हुए थे, और अन्तर्मुहूर्तमें ही चौवन अवस्थाको प्राप्त हो गए थे ॥ ७४-७५ ॥ उत्पन्न होते समय वे दिव्यमाला और वज्र पहिने हुए थे और सब आभूषणोँसे सुशोभित थे उत्पन्न होते ही वे उठकर

बैठ गये और सब दिशाओं को देखने लगे ॥ ७६ ॥ वे देखने लगे कि सब तरहके रत्नों के बने हुए बड़े ऊंचे चैत्यालय हैं बड़े अच्छे घर हैं और सब ऋतुओं में सुख देनेवाली संसारमें सारभूत बड़ी २ ऋद्धियां हैं ॥७७॥ उन्होंने तेजके समूहके समान अथवा धर्मोदयके समान सब अहिमिन्द्रों को एकसा देखा उसी समय बड़ी ऋद्धिको धारण करनेवाले उन दोनों को अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७८ ॥ उस अवधिज्ञानसे उन्होंने अपने पहले भवके सब समाचार जान लिए तथा तप और ज्ञानका उत्तम फल भी जान लिया, तदनंतर उन दोनों ने जिनालयमें जाकर अनेक प्रकारसे भगवानकी पूजा की ॥ ७९ ॥ इसके परचात् वे दोनों ही अहमिन्द्र धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए प्रवीचाररहित, तृप्ति करनेवाले और आत्मामें अनुभव होनेवाले अनेक प्रकारके सुख भोगने लगे ॥ ८० ॥ स्वर्गों में देवों को देवांगनाओं से जो सुख प्राप्त होता है उससे बहुत ही अधिक है, सबका समान पद रहता है, भोगों प्रभोग आदि सामग्री समान होती है, विमानों की ऋद्धियां समान होती हैं मान सन्मान सब समान होता है, सब परस्पर प्रेम रखते हैं सबके हृदय शुद्ध रहते हैं, होनाधिक पद किसीका नहीं होता और सबके हृदयमें प्रेम रहता है ॥ ८२-८३ ॥ मैं इन्द्र हूँ, मैं ही इन्द्र हूँ मेरे सिवाय और कोई इन्द्र नहीं है इसप्रकार मानकर वे अपने हृदयमें सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं ॥ ८४ ॥ सब अहमिन्द्रों की बेश्या शुद्ध रहती है, वे सब उपमारहित होते हैं, और विषाद तथा मदसे सब रहित होते हैं इसप्रकार वे सब अहमिन्द्र समान ही होते हैं ॥ ८५ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र कभी तो दूसरे अहमिन्द्रों के साथ रत्नजायकी प्रगट करनेवाली धर्मको सूचित करनेवाली और शुभकर्मोंका वंश करनेवाली गोष्ठी वा धर्मचर्चा करते थे कभी अवधिज्ञानसे भगवानके कल्याणों को जानकर उस पदको (तीर्थंकर पदको) प्राप्त करनेके लिए बड़ी भक्तिसे अपने स्थानपर बैठ ही मस्तक भुक्ताकर नमस्कार करते थे ॥८६-८७॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र पूसदा होकर अपने विमानके जिनालयमें सदा श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन करते रहते थे ॥ ८८ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र कामरूपी अग्निके दाहसे रहित थे कही आने जानेकी इच्छा उन्हें थी

ही नहीं और आत्मासे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके मनको प्रसन्न करनेवाले सुख भोगते थे ॥ ८६ ॥ उन्हें सातवीं पृथ्वीतक अथधिज्ञान था, वहींतक विक्रिया कृद्धि थी और वहीं तक प्रताप और गमन करनेकी शक्ति थी ॥ ९० ॥ उनका डेढ़ हाथका शरीर था, उनकी मूर्ति सौम्य थी, वे दोनों ही बड़े बलवान थे उनका सम चतुराजसंस्थान था और वे ऐसे जान पड़ते थे मानों पुण्यकास्यसूह ही हो ॥ ९१ ॥ उनकी उन्तीस सागरकी आयु थी, उन्हें कभी रोग होता था न क्लेश, न अनिष्ट संयोग होता था न इष्टवियोग ॥ ९२ ॥ उन्तीस हजार वर्ष पीत जानेपर वे तृप्त करनेवाला असृतमय मानसिक आहार करते थे ॥ ९३ ॥ उन्तीस पक्ष अर्थात् साढ़े चौदह महीने वीतनेपर सब दिशाओंको सुगंधिन करनेवाला उच्छ्वास लेते थे और इस प्रकार वे सुखके सागरमें डूबे हुए थे ॥ ९४ ॥ इसप्रकार धर्मके प्रभावसे वे दोनों ही अहमिन्द्र आत्मासे उत्पन्न हुए, रागरहित सब दोषोंसे रहित, स्वर्गके सुखोंसे उत्तम, उपसारहित, अत्यन्त सार और स्त्री आदिके समागमसे रहित सुखोंका सदा अनुभव किया करते थे ॥ ९५ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र तिस्रों कित आदि गुणोंसे परिपूर्ण तत्त्वोंका अज्ञान करते थे, भगवान अरहन्तदेवकी भक्ति करते थे, चारित्रधर्मका भावना करते थे, श्रुतज्ञानका पाठ करते थे, मुक्तिरूपी स्त्रोमें आसक्त रहते थे और धर्मके श्रेष्ठ गुणोंकी चर्चा किया करते थे ॥ ९६ ॥ वह चक्रवर्तीका जीव धारण किये हुए चारित्रके फलसे, घोर तपश्चरणासे सभ्यधर्यान ज्ञानके बलसे और शुद्धमनसे जो कुछ पहिले पुण्य संव्यप किया था उसके उदयसे पुत्रके साथ अहमिन्द्र हांकर उस विमानमें अत्यन्त निर्मल और सारभूत सुखका अनुभव करते थे यही समझकर बुद्धिमानोंको चारित्र धारण कर सदा धर्मको पालन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ बहुल कहनेसे क्या लाभ है सज्जनोंको मनुष्य जन्म और श्रेष्ठकुल पाकर बड़े प्रयत्नसे सब प्रकारके कल्याण देनेवाले धर्मका पालन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ संसारमें धर्म ही श्रेष्ठ पिता है, धर्म ही भाई है, धर्म ही परजनमकी माता है धर्म ही धन आदिके सुख देनेवाला है और धर्म ही जीवका हित करनेवाला है, आत्माके गुणोंको बढ़ानेवाला धर्मके सिवाय और कोई नहीं है ॥ ९९ ॥ श्रिजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ धर्म ही तीर्थकर पद देनेके लिये प्रबल कारण है, धर्म ही

चक्रवर्ती और इन्द्रकी विभूतिका हेतु है धर्म ही अनन्त सुख देनेवाला है और धर्म ही सबसे उत्तम है इस-
 लिये उत्तम पुरुष ही उस धर्मका पालन करते हैं ॥ ३०० ॥ संसारमें धर्म ही स्वर्गरूपी धरका आंगन है धर्म
 ही हित करनेवाला है, धर्म ही मोक्ष सुख देनेवाला है धर्म ही अनन्त गुणोंका समुद्र है श्रीजिनेन्द्रदेव भी
 इसका सेवन करते हैं यह धर्म चारित्रिको धारण करनेसे प्रगट होता है और सवतरहके पापोंको नाश कर-
 नेवाला है । जो बुद्धिमान रातदिन इस धर्मका पालन करते हैं मोक्ष भी उनकी रक्षी हो जाती है, फिर भला
 स्वर्गका लक्ष्मीको तो बात ही क्या है ॥ ३०१ ॥ श्री शांतिनाथ भगवान् उत्तमक्षमा आदि शांत गुणोंको
 धारण करनेवालोंको शांति करनेवाले हैं, शांतिके स्थान हैं शांतिको धारण करनेवाले है, एक शांतिरूपी रसमें
 ही डूबे हुए हैं, अत्यन्त निर्मल हैं, अशुभकर्मोंको शांत करनेवाले हैं धीर वीर हैं अशांतिको दूर करनेवाले
 और मोक्ष प्राप्त करनेवालोंको दुष्ट लोगोंके द्वारा प्राप्त हुए धर्मके विघ्नोमें सब तरहकी शांति करनेवाले हैं ।
 ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको मैं नमस्कार करता हूं ।

इसप्रकार शांतिनाथ पुराणमें अहमिन्द्र भवका निरूपण करनेवाला नवमा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

दशवां अधिकार ।

मैं अपने अशुभ कर्मोंको शांत करनेके लिये विघ्नोको दूर करनेवाले, समस्त संसारको शांति देनेवाले,
 कर्मरूप शत्रुओंके समूहको शांति करनेवाले और समस्त संसार जिन्हें नमस्कार करता है ऐसे श्रीशांतिनाथ
 भगवानको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ अथानन्तर—जम्बू वृक्षसे सुशोभित ऐसे जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र
 में एक पुष्कलावती नामका देश है ॥ २ ॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले देव भी मोक्षपद पानेके लिए उस
 देशमें जन्म लेनेके लिये लालायित रहते हैं ॥ ३ ॥ उस देशमें भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिये और
 तीर्थ यात्राके करनेकेलिये धीर वीर दयालु मुनि सदा विहार करते रहते हैं ॥ ४ ॥ उस देशमें बिना जिनालयके
 न ग्राम थे न द्वीप थे न खेट थे न सटवं थे न कर्कट थे और न पत्तन थे ॥ ५ ॥ वहांपर भोगोपभोगोंसे

द्यों से श्रीकनकश्यांति जिनराजकी अनेक प्रकारसे पूजा की, उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दी और उन्हें नमस्कार-
 र किया ॥ ५६-५७ ॥ अपने पोतेको (पुत्रके पुत्रको) केवलज्ञानकी प्राप्ति सुनकर वज्रायुध चक्रवर्तीने आनन्द
 नाभक गंभीर भरी दिल्हाई ॥ ५८ ॥ वे चक्रवर्ती पूसन्नचित्त होकर अपने रणबालके साथ, सेनाके साथ
 और भाई बंधुओंके साथ पूजा करनेकेलिए उन जिनराजके समीप पहुंचे ॥ ५९ ॥ उन्होंने वहां पहुंचकर
 उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दी, मस्तक भुकाकर उन्हें नमस्कार किया, पूजाकी और फिर बड़ी शक्तिसे उन
 जिनराजकी स्तुतिकरना प्रारम्भ किया ॥ ६० ॥ हे देव । हे जिनाधीश । आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं इस-
 लिए आपकी जय हो, आप तीनों लोकोंमें बुद्धिको प्राप्त होनेतक बराबर बहते रहें ॥ ६१ ॥ हे नाथ । आप
 तीनों लोकोंके स्वामी हैं, हे स्वामिन् । आप बुद्धिभावोंमें भी गुरु हैं आप मनुष्योंके विना ही कारणके हित
 करनेवाले भाई हैं और आप ही उनकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ६२ ॥ हे प्रभो । तीनों लोकोंके स्वामी इन्द्रादि
 भ्रा मस्तक भुकाकर आपको नमस्कार करते हैं और अपने आत्मका हित चाहनेवाले मुनिराज भी आपके
 दोनों चरण कमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ६३ ॥ हे देव । यह पापी कामदेव बड़ा ही पहलवान है, इस दुष्टने
 तीनों लोक जीत लिए हैं परन्तु आपने ब्रह्मचर्यरूपी प्रबल शस्त्रसे बालकपनमें ही इसे जीत लिया है ॥ ६४ ॥
 हे भगवान् । सज्जन लोग आपकी सेवा करते हैं भव्य जीवोंको आप शरण देनेवाले हैं मुक्तिरूपी रत्नी आपपर
 आसक्त है और भर्ताय्वर लोग सदा आपकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६५ ॥ हे देवोंके द्वारा पूज्य । आपने बालक-
 पनमें ही चारित्ररूपी तलवार लेकर तीनों लोकोंको जीतनेवाले और अत्यन्त अर्थकर ऐसे नाइरूपी महाशत्रुको
 मारडाला ॥ ६६ ॥ हे जगन्नाथ । आपका गुरुरूपी महासागर अमन्त है उसका इन्द्र अथवा अत्यन्त बृह-
 मान विद्वान् कोई भी पार नहीं कर सकता और न कोई आपकी स्तुति कर सकता है ॥ ६७ ॥ इसलिये हे
 देव आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रसन्न हूजिए और धर्मोपदेश दीजिए, मैं संसारसे डरकर आपके चरणकमलों
 की शरण आया हूं ॥ ६८ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर वे चक्रवर्ती धर्म श्रवण करनेके लिए उनके चरणोंमें दृष्टि
 रखकर उनके चरणोंके समीप बैठ गए ॥ ६९ ॥ तदनन्तर वे जिनराज कृपापूर्वक अपने बाधाका उपकार करने

कर्मके उद्देश्यसे उस मूर्खने उपसर्ग करना प्रारम्भ किया ॥ ४४ ॥ शरीरसे ममत्व न रखनेवाले उन मुनिराज पर उस दुष्टने कातर लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाला अत्यन्त घोर और असह्य उपसर्ग करना प्रारम्भ किया ॥ ४५ ॥ उसने दुःख देनेवाली ताड़नाकी, धर्माच्छेद करनेवाले कड़वे, और विकार उत्पन्न करनेवाले दुर्ब-
 और संकल्प विकल्पोंसे रहित ऐसे अपने चित्तको शरीरसे अलग कर आत्मध्यानमें लगाया ॥ ४६ ॥ परन्तु उन मुनिराजने संवेग गुणसे सुगंधित हुए स्थिर कर उन्होंने तीव्र परीषद्को जीता और मृत्युके भयसे रहित होकर वे मेरु पर्वतके समान निरचल विराजमान हुए ॥ ४८ ॥ उन्होंने उसपर क्रोध न कर उत्तम क्षमा धारण की और वे संवर धारण कर अप्र-
 मत्त गुणस्थानमें चढ़ गए ॥ ४९ ॥ उन्होंने पहिले शुद्धध्यान रूपी तलवारसे मोहरूपी दुर्जय शत्रुको मारा और एकत्व वितर्क शुद्धध्यानरूपी तलवारसे वाकीके घातिया कर्मोंको नाश किया ॥ ५० ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने उसीसमय समस्त संसारको दिखलानेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि क्षमा
 राजोंको किसी दुष्ट शत्रु पर भी कभी क्रोध नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ इसलिये मुनि-
 क्षमा धारण करना चाहिए ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार बिना तृणके रथानमें पड़ी हुई अभिन उष्यर्था हो जाती है उ-
 स्सीप्रकार वह विद्यधर भी उष्यर्था हो गया कुछ न कर सका सो ठीक ही है क्योंकि जिनके कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता उनका दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं ॥ ५३ ॥

मुनिराज कनकशांतिको केवलज्ञान प्राप्त होनेसे उनकी पूजाकेलिये सब देव आए उन्हें देखकर वह पापी डरगया, भयसे उसका स्वयं शरीर कांपने लगा और वह वैरभाव छोड़कर भठ्य जीवोंके रक्षा करनेवाले और तीनों लोकोंके स्वामी ऐसे उन्हीं अरहंतदेवके शरण आया सो ठीक ही है क्योंकि नीचोंकी वृत्ति ही ऐसी होती है ॥ ५४-५५ ॥ तदनन्तर जय जय शब्दोंसे कोलाहल करत हुए बहुतसे बाजि बजाते हुए और पूजाकी सामग्री लिए हुए इन्द्रादि अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ आए, उन्होंने बड़ी भक्तिसे स्वर्ग लोकके द्र-

निश्चय नयसे इस ङ्ग (जिनिधर्म) तथा गणधर केवलज्ञानी और मुनिराज प्रातिदिन विहार करते रहते हैं । परन्तु सप्त और मोक्षमार्ग सदा विराजमान रहता है अंग पूर्वरूप श्रुतज्ञान सदा रहता है जिना- है । इत्यादि सदा रत्नसंचयपुर नामका नगर है ॥ २५ ॥ इत्यादि अनेक गुणों से भरे हुए उस देशमें न आदि चौदह रत्नोंसे, चैत्यालयके शिखरोंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे अनेक गुण रत्नोंसे ब्रान- दरावाजोंपर लगे हुए रत्नोंसे और वाजारोंमें जौहरियोंके द्वारा किए हुए रत्नोंके ढेरोंसे रातदिन शोभाय- न रहता है ॥ २७—२८ ॥ उस नगरमें मनुष्योंके पुण्यकर्मके उदयसे पुत्ररूप रत्न, जवाहरात, और सम्यग्द- र आदि रत्नोंका समूह सदा बना रहता है इसीलिये उस नगरका सार्थक नाम रत्नसंचयपुर है वह नगर- समाने रत्नोंके कुलपहके समान सदा सुशोभित रहता है ॥ ३०—३१ ॥ स्वर्गके समान वह अक्रुत्रिम- उत्सर्गपूजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा सदा शोभायमान रहता है ॥ ३२ ॥ उसके कोटमें जिनसे गार्गी किरणें छूट रही हैं, जिनपर दारपाल (पहरेदार) बैठे हुए हैं ऐसे ऊंचे और मनोहर दरवाजे एक- क लोगोंसे भरे हुए, बड़ी शोभा करनेवाले और सदा एकसे रहनेवाले ऐसे एक हजार चौपाये हैं ॥ ३४ ॥ प्रकार हाथी घोड़े रथ पदाति आदि लोगोंसे भरे हुए बाराह हजार मार्ग हैं ॥ ३६ ॥ उस नगरमें कितने ही लय रत्नमय हैं कितने ही सुवर्णमय हैं, कितने ही शुद्ध स्फटिकके समान हैं और कितने ही वैदूर्यमणि- तान हैं ॥ ३७ ॥ वे चैत्यालय ऊंचे हैं अनेक प्रकारके हैं नृत्य गीतके शब्दोंसे शब्दायमान रहते हैं, लगी हुई ध्वजाओंसे शोभायमान हैं और मनुष्य विधियों से सदा भरे रहते हैं ॥ ३८ ॥ वे जिना- के समूहसे व्याप्त रहते हैं, बाजे गाजेके शब्दोंसे गर्जना करते रहते हैं और सैकड़ों प्रतिमाओंसे नगरके समान जान पड़ते हैं ॥ ३९ ॥ उन चैत्यालयोंमें श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजा होके

यह जीव सर्वव्यापी है अथवा तिलके बारीक छिलकेके समान सूक्ष्म है ? वह जानी है अथवा जड़ है ? आप इन सब बातों का निरूपण कीजिये ॥ ८३ ॥ उस देवकी इन बातोंको सुनकर वह वक्ता राजा वज्र-तु अपने मनको निश्चलकर सुन । मैं जीवादि पदार्थोंका लक्षण पत्रपातरहित कहता हूं ॥ ८५ ॥ यदि जीव को चार्णिक माना जाय तो पुण्य पापका फल चिंता आदिसे उत्पन्न होनेवाला कार्य, चोरी आदि विचार पूर्वक किए हुए कार्य, ज्ञान चारित्र आदिका अनुष्ठान और कठिन तपश्चरण आदि कुछ भी नहीं बन सकेंगे तथा शिष्योंको अन्य जीवोंसे ज्ञानकी प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी ॥ ८६-८७ ॥ यदि जीवको सर्वथा नित्य माना जाय तो कर्मोंका बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं बन सकेगा ॥ ८८ ॥ इत्यादि दोषोंके भयसे बुद्धिमान पुरुषोंको परीक्षाकर एकान्तसे दूषित सब मर्तोंके पक्षोंको दूरसे ही त्याग कर देना चाहिए ॥ ८९ ॥ स्वरूपको सूचित करनेवाला है और नयोंसे कथन करनेवाला है ॥ ९० ॥ व्यवहार नयसे यह जीव अनित्य है क्योंकि जन्म मरण बुढ़ापा रोग आदि सहित है और कर्मोंसे बंधा हुआ है ॥ ९१ ॥ तथा परमार्थनयसे (निश्चय नयसे) यह जीव सदा नित्य है क्योंकि निश्चयसे यह जीव जन्म मरण बुढ़ापा बंध मोक्ष संसार आदि सबसे रहित है ॥ ९२ ॥ त्याग करने योग्य उपचरितासद्भूत (व्यवहार) नयकी अपेक्षासे यह जीव शरीर कर्मोंका कर्ता है तथा घट पट आदि सांसारिक कार्योंका कर्ता है । अशुद्ध निश्चय नयसे यह जीव रागादि भावों का कर्ता है । परन्तु शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे न तो यह कर्मोंका कर्ता है न रागादि भावोंका कर्ता है ॥ ९३-९४ ॥ व्यवहार नयसे यह जीव सुख दुख देनेवाले कर्मोंके फलको सदा भोगता है परन्तु निश्चय नयसे किसीका भोक्ता नहीं है ॥ ९५ ॥ पर्यायार्थिक नयसे जो जीव कर्मोंको करता है वह उसके फलको नहीं भोगता किंतु दूसरे जन्म में उसकी दूसरी पर्याय ही उसके फलको भोगती है परन्तु निश्चय नयसे जो जीव कर्मोंको करता वही उसके सुख दुख फलको भोगता है अन्य कोई नहीं भोगता ॥ ९६-९७ ॥

स्त्री स्त्री श्रीतीर्थकर ऐसे मनुष्य रत्नों को उपन्न करती है वह स्त्री सर्वोत्तम है अन्य नहीं ॥ २४ ॥ फिर देवियों ने पूछा कि हे देवी ! आपके समान और स्त्री कौन है माताने उत्तर दिया कि जो स्त्री संसारके समस्त जीवों का उपकार करनेवाले तीर्थ करको उपन्न करती है वह स्त्री मेरे समान है ॥ २५ ॥ इसप्रकार देवियों ने जो कुछ पूछा वही गर्भमें विराजमान भगवान तीर्थ करके माहत्म्यसे उस महादेवीने तुरंत ही बतला दिया ॥ २६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि जो नित्यस्त्रीमें आसक्त है और इसीलिए जो कामी है विरक्त बुद्धिवाला नहीं है जो लोभरहित होकर भी अत्यन्त लोभी है, और कभी स्नान न करनेपर भी पवित्र रहता है वह कौन है ! (यह प्रहेलिका वा पहेली है इसका अर्थ कहीं मिला तो है नहीं परन्तु जो इस समय सूझ रहा है वह यद् है—जो नित्यस्त्री अर्थात् मोक्षस्त्रीमें आसक्त है इसलिए जो कामी अर्थात् काम—अभीष्ट पदार्थ, उसको सिद्ध करनेवाला है और विरक्त अर्थात् विशेष रक्त-रगद्रव्युक्त बुद्धिवाला नहीं है जो लोभरहित होनेपर भी मोक्षकी इच्छा रखता है और कभी स्नान न करनेपर भी सदा पवित्र रहता है वह मुनि है) ॥ २७ ॥ हे देवी ! तू अपना चित्त हरिहर आदिसे अलग रख क्यों कि तीन पदको धारण करनेवाले भगवान् शांतिनाथमें ही तेरा हृदय व्याप्त हो रहा है और वे भगवान् आपके गर्भमें आये हैं इसीलिए लोग आपको परमपवित्र कहते हैं (यह क्रियागुप्त श्लोक है) हे जननी संसारके अखिल जन तेरे लङ्केंकी ही जय कहते हैं ॥ २८ ॥ क्योंकि तेरा लङ्का अत्यन्त सुकृती है गुणों का सागर है इंद्र नरेंद्र आदि निखिला जन उसकी स्तुति करते हैं और तीनों लोकोंके लोग उसकी आराधना करते हैं (यह निरोष्ठ्य-जिसमें ओठ न लगे, श्लोक है और अर्थ भी निरोष्ठ्य अक्षरों में ही लिखा गया है) ॥ २९ ॥ हे जननी ! तेरा लङ्का अखिल शत्रुओं का नाशक है, सब्जनों का रक्षक है ऋषि सरोजोंके लिये सूर्य है और तीर्थका कर्ता है ॥ ३० ॥ (यह निरोष्ठ्य है और अर्थ केअक्षर भी निरोष्ठ्य हैं) हे देवी भगवान् जिनेंद्र देव तीनों लोकोंके स्वामी हैं और तीनों लोकोंका हित करनेवाले हैं इसलिये सब इंद्र देवोंके साथ उनकी सेवा करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥ (यह विन्दुमान श्लोक है) हे देवी तेरा पुत्र वैदीप्यमान लक्ष्णोंके समूहसे शोभायमान है समस्त देवोंके द्वारा

पूज्य है और तीनों लोकों को पालन करनेमें तत्पर है ॥ ३३ ॥ (यह विन्दुच्युतक श्लोक है) इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा कहे हुए कठिन श्लोकों को भी विशेष रीतिसे जानती हुई वह महा देवी बहुत ही सुखसे समय व्यतीत करती थी ॥ ३३ ॥ वह महादेवी अपने उदरमें तीन ज्ञानको धारण करनेवाले तीर्थकरको धारण कर रही थी इसलिये समस्त ज्ञानमें वह स्वभावसे ही धीरता धारण कर रही थी ॥ ३४ ॥ जिसप्रकार प्रातःकालके समय गर्भमें देदीप्यमान सूर्यको धारण करती हुई पूर्व दिशा शोभायमान होती है उसीप्रकार अपने गर्भमें कांतिसे अत्यंत देदीप्यमान अद्भुत तीर्थकर बालकको धारण करती हुई महादेवी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार गर्भमें (मध्यभागमें) रत्न रहनेसे पृथ्वी शोभायमान होती है उसीप्रकार तीनों पदोंसे सुशोभित होनेवाले तीर्थकरके गर्भमें आनसे उस महादेवीकी शोभा बहुत ही बढ़ गई थी ॥ ३६ ॥ वे भगवान तीर्थकर शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल थे, देवोंके द्वारा पूज्य थे और दयाकी मूर्ति थे इसीलिये उदरमें रहते हुए भी माताको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं हुई थी ॥ ३७ ॥ माताके कृश उदरमें कोई किसी प्रकारका प्रगट विकार नहीं हुआ था तथापि गर्भकी वृद्धि तो हुई थी यह केवल भगवानके तेजका ही प्रभाव था ॥ ३८ ॥ शची इन्द्रानी भी अपने पाप नाश करनेकेलिये देवियोंके साथ बड़े आदरसे द्विपकर पूज्य माताकी सेवा करती थी ॥ ३८ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ हैं थोड़ेसेमें इतना ही समझ लेना चाहिये कि वह माता तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय थी और तीनों लोकोंकी माता थी क्योंकि धर्म तीर्थको प्रगट करनेवाले तीर्थकरकी भी वह जननी थी ॥ ४० ॥ कुवेरने नौ महीने तक महाराज विरसेनके घर प्रतिदिन आकाशसे सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षाकी थी ॥ ४१ ॥ अथानन्तर—ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रातः कालके भरणी नक्षत्रमें शुभ सुहूर्त और शुभ लग्नमें जिसप्रकार पूर्व दिशा किरणोंको फैलाते हुए सूर्यको प्रगट करती है उसीप्रकार उस महासती ऐरादेवीने सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र तीनों लोकोंमें भरे हुए महा आनन्दके समूहके समान सुन्दर था, निर्मल तीनों श्रेष्ठ ज्ञान ही उसके निर्दोष नेत्र थे, वह पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान था, अपनी कांतिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था, भव्यरूपी कमलोंको प्रफु-

हो ॥ ६२ ॥ इस प्रकार वे दिक्कुमारियां बड़ी शीघ्रताके साथ माताकी सेवा कर रही थीं और गर्भमें आये भगवानके प्रभावसे माताकी शोभा और विभूति बहुतही बढ़ गई थी ॥ ६३ ॥ अधानन्तर-नौवां महीना समीप आनेपर वे देवियां विशेष काव्योंकी चर्चासे गर्भके भारको धारण करनेवाली उस महादेवीको प्रसन्न करती थीं ॥ ६४ ॥ निगूढ़ अथ (छिपा हुआ अर्थ) क्रियालुप्त (जिसमें क्रिया छिपी हो) विंदुच्युतक, मात्राच्युत, अक्षरच्युत, (जिनमें विंदुमाता अक्षर कम किया गया हो) आदि श्लोकोसे तथा अन्य भी कई प्रकारके श्लोकोसे वे देवियां माताको प्रसन्न करने लगीं ॥ ६५ ॥ देवियोंने पूछा कि इस संसारमें सत्पुरुष कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थोंको सिद्धकर मोक्षमें जा विराजमान हुआ है वही सत्पुरुष वा सज्जन है। उसके सिवाय अन्य कोई सज्जन नहीं है ॥ ६६ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि इस संसारमें कायर पुरुष कौन है ? माताने कहा कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थोंको सिद्ध नहीं करता वही कायर है अन्य कोई नहीं ॥ ६७ ॥ देवियोंने पूछा कि कौनसे मनुष्य सिंहके समान समझे जाते हैं उत्तरमें माताने कहा कि जो इन्द्रियोंके साथ साथ कामदेवरूपी दुर्हर हाथीको मार भगते हैं वे ही मनुष्य सिंह कहलाते हैं। अन्य नहीं ॥ ६८ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें नीच पुरुष कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो मनुष्य सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र धर्म और तपको पाकर भी उन्हें छोड़ देते हैं वे विद्वानोंके द्वारा नीच कहलाते हैं ॥ ६९ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि विद्वान कौन हैं ? माताने कहा कि जो शास्त्रोंको जानकर पाप, मोह और बुरे काम नहीं करते हैं और विषयोंमें आसक्त नहीं होते हैं वे ही व्रती विद्वान कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ १०० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें मूर्ख कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो शास्त्रोंको जानते और मनन करते हुए भी पाप, मोह, इन्द्रियोंकी आसक्ति और कुमार्गको नहीं छोड़ते हैं वे ही संसारमें मूर्ख हैं ॥ १ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें जन्मके अन्ध कौन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो तीर्थकर परमद्वेष, धर्मकाषय गुरु और शास्त्रोंके दर्शन नहीं करते वे जन्मांध हैं तथा जो कामांध हैं वे विशेषकर जन्मांध हैं ॥ २ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस

उन्हें रेशमी वस्त्र समर्पण करती थीं और कितनी ही देवियां उन्हें दिव्य मालाएं पहनाती थीं ॥ ७६ ॥ कितनी ही देवियां हाथको तलवार लेकर उठाये हुए बड़े प्रयत्नके साथ भगवानकी माताके शरीरकी रक्षा करनेमें लगी हुई थीं ॥ ८० ॥ कितनी ही देवियां सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए तथा अनेक लोगोंसे भरे हुए महाराजके आंगनमें पुष्पोंकी पागसे भरी हुई पृथ्वीको झाड़ रही थीं ॥ ८१ ॥ कितनी ही देवियां पृथिवीपर घिसे हुए चन्दनके छोटे दे रही थीं और कितनी ही देवियां सावधान होकर गीले कपड़ेसे उसे, पोंछ रही थीं ॥ ८२ ॥ कितनी ही देवियां माताके सामने रत्नोंके चूर्णसे स्वारितक रचना कर रही थीं (सांथिया निकाल रही थीं) और कितनी ही देवियां कल्पवृक्षोंके सुगंधित पुष्पोंकी उसे भेट दे रही थीं ॥ ८३ ॥ कितनी ही देवियां अपने शरीरको छिपाकर: आकाशमें खड़ी थीं और जोरसे कह रही थीं कि महादेवीकी रत्ना बड़े प्रयत्नसे करो ॥ ८४ ॥ कितनी ही देवियां चलते समय साथ चलती थीं, कितनी ही देवियां खड़े होनेपर आसन देती थीं और माताके बैठ जानेपर उसके चारों ओर बैठ जाती थीं ॥ ८५ ॥ इसप्रकार वे देवांगनायें पुराय संपादन करनेके लिये तीर्थंकरके गुणोंकी आश्रासे उस गर्भवती भगवानकी माताकी सेवा करती थीं ॥ ८६ ॥ चारों ओरके अन्धकारको दूर करती हुई कितनी ही देवांगनायें रात्रिमें अपने भवनोंमें दैदीप्यमान ज्योतिवाले उज्ज्वल मणियोंका प्रकाश करती थीं ॥ ८७ ॥ कितनी ही देवियां जलक्रीडा कराकर माताको सुख पहुंचाती थीं दूसरे दिन वनक्रीडा कराकर सुख पहुंचाती थीं और फिर किसी दिन कथा गोष्ठी कहकर माताको सुख पहुंचाती थीं ॥ ८८ ॥ कितनी ही देवियां उसके पुत्रके गुणोंको प्रगट करनेवाले और मनको प्रसन्न करनेवाले अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मधुर गीतोंसे माताको प्रसन्न करती थीं ॥ ८९ ॥ कितनी ही देवियां श्रेष्ठ गीतोंसे भिले हुए वीणा, शृङ्ग, वंशी आदि वाजोंसे तथा अनेक प्रकारकी तुरहियोंसे माताके मनको संतुष्ट करती थीं ॥ ९० ॥ कितनी ही देव गनाएं विक्रिया ऋद्धिसे होनेवाले तथा हाव भावोंसे भरे हुए रसीले और मनोहर नृत्योंसे माताको परम सुखी करती थीं ॥ ९१ ॥ इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेवासे वह माता ऐसी शोभायमान थी मानों संसार भरकी लक्ष्मी किसी तरह एक जगह ही आकर इकट्ठी हो गई

गुणी कौन हैं ? माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, और तपसे विभूषित है तथा मुक्तिरूपी स्त्रीके प्यारे हैं और आत्मका हित करनेवाले हैं वे गुणी कहलाते हैं ॥ १४ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निर्गुणी कौन हैं माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, दान, शील, तप और जितपूजासे रहित हैं वे अशुभ कार्य करनेवाले निर्गुणी कहलाते हैं ॥ १५ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि जन्म किनका सफल है माताने कहा कि जिन धीर पुरुषों ने राजत्रयादिके द्वारा मोक्षको अपने हाथमें कर लिया है उन्हींका जन्म सफल है ॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निष्कल जन्म किनका है माताने कहा कि जो तप चारित्र्य व्रत दान पूजा आदि नहीं करते उन्हींका जन्म इस संसारमें निष्कल समझना चाहिये ॥ १७ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि शीघ्र करने योग्य कार्य कौनसा है माताने कहा कि कर्मोंको नाश करनेवाले और संसारको पूर्ण करनेवाले तप, धर्म, व्रत, दान, पूजा, उपकार आदि कार्योंको बहुत शीघ्र कर डालना चाहिये ॥ १८ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि मनुष्यों के लिए कठिन शल्य क्या है माताने कहा कि जो जीव हिंसादिक पाप व अनाचारका सेवन स्वयं छिपकर करते हैं वही उनके लिये कठिन शल्यके समान चुभता रहता है ॥ १९ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि संसारमें अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य कौनसे हैं माताने उत्तर दिया कि जो कभी दूसरेकी निन्दा नहीं करते और आत्मध्यान अध्ययन आदि आत्मके कार्योंमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे ही मनुष्य संसारमें दुर्लभ हैं ॥ २० ॥ फिर देवियों ने पूछा कि पक्षपात कहां करना चाहिये माताने कहा कि धर्ममें, साधर्मि पुरुषोंमें शास्त्रमें जिन-प्रतिमामें जिनचैत्यालयमें और भगवान् जितेंद्रदेवके कहे हुए सत्यमार्गोंमें पक्षपात अवश्य करना चाहिये ॥ २१ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि मध्यस्थभाव कहां रखने चाहिये माताने कहा कि संसारमें जो पुरुष रागी है द्वेषी है, तीव्र मिथ्यात्वरूपी पिसाचसे जकड़ा हुआ है और दुष्ट है सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिये ॥ २२ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि दिन रात क्या चिंतन करना चाहिये। माताने कहा कि रात दिन धर्मध्यान का चिंतन करना चाहिये। संसारकी असुरता, शास्त्रोंकी आज्ञा, मोक्ष, तप और रागको घटानेका सदा चिंतन करते रहना चाहिये ॥ २३ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि इस संसारमें उत्तम स्त्री कौनसी है माताने कहा कि जो शीलवती

संसारमें बहिरे कौन हैं ? माताने कहा कि जो अरहंत देवके कहे हुए शास्त्रोंको तथा धर्मोपदेशके हितकारक वाक्योंको नहीं सुनते हैं वे ही बहिरे कहलाते हैं ॥ ३ ॥ इस संसारमें लंगड़े कौन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो आलसी न तो तीर्थयात्राको जाते हैं न किसी धर्मकार्यमें जाते हैं और न मुनियोंको नमस्कार करने जाते हैं वे ही लंगड़े गिने जाते हैं ॥ ४ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि गूंगे कौन हैं ? माताने कहा कि जो शास्त्रोंको जानते हुए भी समय पाकर हित मित और प्रिय बचन नहीं कहते हैं वे गूंगे कहलाते हैं देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें विवेकी कौन हैं ? माताने कहा कि जो देव, कुर्देव, धर्म, अधर्म, पात्र, अपात्र और शास्त्र कुशास्त्रका विचार करते हैं वे ही विवेकी हैं ॥ ६ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें अविवेकी कौन हैं ? माताने उत्तर दिया कि जो गुरु, कुगुरु, बंध, मोक्ष और पुण्यपापका विचार नहीं करते वे ही अविवेकी हैं ॥ ७ ॥ इस संसारमें धीर वीर कौन हैं माताने कहा कि जो काम इन्द्रिय मन तथा परीषह कषाय आदिसे जीते नहीं जाते वे ही धीर वीर कहलाते हैं ॥ ८ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि अधीर कौन हैं ? माताने कहा कि जो कामदेवरूपी योद्धाओंके द्वारा ताड़ना किण् जानेपर चारित्ररूपी युद्धसे शीघ्र ही भाग जाते हैं वे ही अधीर कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ ९ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें पूज्य और प्रशंसनीय कौन कहलाते हैं ? माताने कहा कि जो धीर परीषह और उपसर्गोंके आनेपर भी स्वीकार किण् हुए शुभ चारित्रको नहीं छोड़ते वे ही प्रशंसनीय हैं ॥ १० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें निच्य कौन हैं माताने कहा कि जो कामदेवरूपी आकाशी चोरोसे पीडित होकर स्वीकार किण् हुए तप चारित्र और संयम आदिको छोड़देते हैं वे निच्य हैं ॥ ११ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि रात्रिमें जगनेवाले कौन हैं । माताने कहा कि जो ज्ञानरूपी सूर्यको हृदयमें धारणकर और मोहरूपी रात्रिको नाशकर आत्माका ध्यान करते हैं वे ही रात्रिमें जगनेवाले कहलाते हैं ॥ १२ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि सोनेवाले कौन कहलाते हैं माताने कहा कि जो मोहरूपी नौदके वर्षाभूत हुए मनुष्य हृदयमें विराजमान ज्ञानरूपी सूर्यको नहीं जानते हैं और न आत्माके ध्यानको ही जानते हैं वे ही सोनेवाले कहलाते हैं ॥ १३ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें

और समस्त अशुभ कर्मरूपी हाथियोंका सद दूर करनेके लिए तथा उनका नाश करनेके लिये वे सिंहेके समान समर्थ होंगे ॥ ३५ ॥ दो मालाओंके देखनेसे अनेक प्रकारके सुख देनेवाले वे धर्मतीर्थके कर्ता होंगे ॥ ३६ ॥ लक्ष्मीके देखनेसे सब इन्द्रोंके द्वारा क्षीर सागर जलसे मेरु पर्वतके ऊपर उनका महा ऋद्धियोंको सूचित करनेवाला महाभिषेक होगा ॥ ३७ ॥ पूर्ण चंद्रमाके देखनेसे वे लोगोंको प्रसन्न करनेवाले और समस्त संसारको आनन्द देनेवाले होंगे और धर्मरूपी अमृतकी महावृष्टिसे भव्यरूपी धान्योंको वे सींचनेवाले होंगे ॥ ३८ ॥ सूर्यके देखनेसे संसारके समस्त रूपोंको वे जीतनेवाले होंगे । सूर्यकोसी उनकी कांति होगी, वे कामदेव, अत्यन्त रूपवान और तीर्थकर होंगे तथा दिव्य परमाणुओंसे उनका शरीर बना हुआ होगा ॥ ३९ ॥ दो कलशोंके देखनेसे उन्हें निधियां प्राप्त होंगी, वे धर्मरूपी अमृतसे भरपूर होंगे तीर्थकर होंगे, अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित होंगे और समवसरणकी विभूति उन्हें प्राप्त होगी ॥ ४० ॥ दो मछलियोंके देखनेसे मनुष्य लोक और स्वर्गलोकके सब सुख उन्हें प्राप्त होंगे और उनका मन सब जीवोंपर दया करनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ सरोवरके देखनेसे उनके शरीरपर एकसौ आठ लक्षण और नौसौ व्यंजनहोंगे । वे कलाविज्ञानमें चतुर होंगे और बुद्धिमान होंगे ॥ ४२ ॥ समुद्रके देखनेसे वे तीर्थकर अनन्त दर्शन नञ्चता ज्ञान अनन्त सुख और अनन्त वीर्यके समुद्र होंगे और रत्नत्रय आदि रत्नोंकी खानि होंगे ॥ ४३ च सिंहासनके देखनेसे वे जगत गुरु भगवान इन्दू नरेद्र आदिके द्वारा मान्य और समस्त भोगोंको एक स्थान ऐसा साम्राज्य प्राप्त करेंगे ॥ ४४ ॥ स्वर्गसे आते हुए विमानके देखनेसे देवोंके द्वारा पूज्य वे तीर्थकर भगवान धर्मतीर्थके प्रवृत्ति करनेके लिये स्वर्गसे आकर अवतार लेंगे ॥ ४५ ॥ नागेन्द्रका भवन देखनेसे समस्त संसारको प्रगट करनेवाला अबधिज्ञान उनके होगा और इसलोक परलोक दोनों लोक संबंधी हित अहित जाननेमें वे निपुण होंगे ॥ ४६ ॥ रत्नराशिके देखनेसे वे तीर्थकर अनन्त गुणोंकी खानि होंगे और संसारमें महान नररत्न होंगे ॥ ४७ ॥ निर्धूम अग्निके देखनेसे वे तीर्थकर भगवान अपने शुक्लध्यान रूपी अग्निसे कर्मरूपी ईधनके महासमूहको अवश्य जलावेंगे इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ४८ ॥ अंतमें जो गजराजको

थोड़ेसे समीप रहनेवाले लोगोंसे धिरी हुई उस रानीने महाराजकी सभामें प्रवेश किया ॥ १८—२० ॥ महाराजने रानीको देखकर अपने योग्य विनय की और अपने स्नेहको सूचित करनेवाला आधा आसन स्वयं उसे दिया ॥ २१ ॥ वह महादेवी सुखसे विराजमान हुई और अपना मुख कमल प्रसन्न-कर तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले अपने पतिसे कहने लगी कि हे देव ! मैं रात्रि के पिछिले पहर सुखसे सो रही थी उस समय मैंने महा अश्रुदयको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ २२-२३ ॥ हे देव ! वे स्वप्न अत्यन्त अद्भुत साहास्यको प्रकट करनेवाले फल संपादन करनेमें समर्थ हैं इसलिए मैं उन्हें कहती हूं, आप मन लगाकर सुनिए ॥ २४ ॥ १ पर्वतके समान गजराज, २ महा शब्द करता हुआ ऊंचा बेल ३ पर्वतकी शिखरको उल्लंघन करता हुआ सिंह, ४ ऐरावत हाथियोंके द्वारा स्नान करती हुई लक्ष्मी ५ लटकती हुई दो मालाएं, ६ आकाशको प्रकाशित करता हुआ चंद्रमा, ७ उदय होता हुआ सूर्य, ८ सुन्दर दो मछलियां, ९ अश्रुत से भरे हुए दो कुंभ, १० स्वच्छ जलसे भरा हुआ और कमलोंसे शोभायमान सरोवर, ११ रत्नोंसे भरा हुआ समुद्र, १२ सुवर्णका बना हुआ सिंहासन, १३ स्वर्गसे आता हुआ विमान, १४ पृथिवीको फोड़कर निकलता हुआ नागेन्द्र भवन, १५ जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं ऐसी रत्नराशि और १६ कनकके समान निर्मल (धूमरहित) अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे थे । हे स्वामिनि ! मुझपर दयाकर इन का सच्चा फल मुझसे कहिए क्योंकि मेरे मनमें इनके फल सुननेकी इच्छा बहुत कुछ बढ़ रही है ॥ ३० ॥ तदनंतर महाराजने अपने अविज्ञानसे उनका फल जाना और अपने प्रफुल्लित होते हुए मुख कमलसे वे महादेवीके लिए उनका फल कहने लगे ॥ ३१ ॥ कि हे देवी ! हे देवोंके द्वारा पूज्य ! महा अश्रुदयको प्रकट करनेवाले तेरे स्वर्णोंका फल पुत्रकी प्राप्ति है उसीको मैं कहता हूं तू मन लगाकर सुन तीनों लोकोंके देखनेसे तेरे तीर्थंकर महापुत्र होंगे, वे राज्य करेंगे, समस्त संसार उनकी पूजा करेगा और और संसारमें धर्मरूपी रथको चलानेमें वे ही समर्थ होंगे ॥ ३३ ॥ महा वृषभ (बेल) के देखनेसे वे तीनों लोकोंमें सर्व श्रेष्ठ होंगे और संसारमें धर्मरूपी रथको चलानेमें वे ही समर्थ होंगे ॥ ३४ ॥ सिंह देखनेसे उनमें अनन्त शक्ति होगी

धारण करनेवाले भवनवासी देवोंके इन्द्र भी अपने निकाय (भवनवासी देवों) के साथ धर्म साधन करनेकी इच्छासे पृथ्वीपर आए ॥ ६४ ॥ इसप्रकार देवोंसे, सेनासे, विमानोंसे और वाहनोंसे भरा हुआ महाराज विश्वसेनका सब घर आकाश और वन नगरके समान :दिखाई देता था ॥ ६५ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे धिरे हुये और परमानन्दमें दूबे हुये सौधर्म :इन्द्रने अपनी इन्द्राणिके साथ केवल धर्म साधन करनेके लिये बड़ी भक्तिसे गभमें विराजमान भगवान जिनेंद्रदेवकी तीन प्रदक्षिणाएं दी और देदीप्यमान सुकुटसे सुशोभित अपना उत्तम मस्तक भुकाकर उनको नमस्कार किया ॥ ६६-६७ ॥ फिर उसने बहुमूल्य और दिव्यवस्त्राभरणोंसे माता पिताकी पूजा की और फिर उनके नामने मनोहर हाव भावोंसे नाटय शास्त्रके क्रमसे उत्पन्न हुआ और रथोरसव करनेवाला उत्तम आनन्द नामका नाटक किया ॥ ६८-६९ ॥ तदनन्तर अपना कार्य समाप्तकर सौधर्म इन्द्रने पुण्य संपादन करनेके लिये भगवानकी माताकी सेवामें दिक्कुमारियोंको नियुक्त किया और उत्तम श्रेष्ठाचरणोंके द्वारा महा धर्मका उपार्जनकर वह सब देवोंके साथ अपने स्थानको चला गया ॥ ७०-७१ ॥ तदनन्तर चारों निकयोंके चतुर देव अपना अपना कार्य कर परम आनन्द मनाते हुये और प्रसन्न होते हुए अपने अपने इन्द्र और देवांगनाओंके साथ अनेक प्रकारके भावोंसे महा पुण्य संपादन कर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ ७२-७३ ॥ सब देवोंके चले जानेके पश्चात् उसी समय यसे भगवानकी माताकी आज्ञा पालन करनेवाली वे दिक्कुमारी देवियां केवल पुण्य संपादन करनेके लिए अपने अपने योग्य कार्योंसे माताकी सेवा करने लगी कितनी ही उसे तांबूल देने लगी और कितनी ही देवियां उसे स्नान करानेके कामपर नियुक्त हुईं ॥ ७५ ॥ कितनी ही देवियां भोजन बनानेके काममें लग गईं, कितनी ही शय्या बनानेमें लग गईं, और कितनी ही देवियां पुण्य संपादन करनेकेलिए उसके पेर दावनेमें लग गईं ॥ ७६ ॥ कोई देवी प्रसन्न होकर स्वयं दिव्य सुगंधित द्रव्योंसे तथा कुंकुम और कज्जलसे माताका शृंगार करनेलगीं ॥ ७७ ॥ हार कंकण केशुर आदि बहुतसे आभरणोंको प्रसन्नताके साथ पहनाती हुईं, कोई देवी ठीक कल्पलताके समान सुशोभित होती थी ॥ ७८ ॥ कल्पलताके समान कितनी ही देवियां

मुखाने प्रवेश करते हुए देखा है उसका फल यह है कि तेरे निर्मल गर्भमें श्रीशांतिनाथ तीर्थकरने अवतार लेलिया है ॥ ४६ ॥ सुन्दर आकारको धारण करनेवाली वह महादेवी इसप्रकार अपने स्वप्नोका फल मनुकर वहूत सन्तुष्ट हुई उसका शरीर रोमांचित हो गया और उसे वहूत ही आनन्द हुआ ॥ ५० ॥ उसी समय स्वर्गमें अपने आप घंटोंका महान शब्द होने लगा और बिना ही वजाए देवोंके वड़े नगारे (अनहद वाजे) बजने लगे ॥ ५१ ॥ उसी समय कल्पवृक्षोंसे बहूतसे पुष्पोकी पुष्प वर्षा होने लगी और शीतल मंद सुगन्धित तथा कोमल और प्रिय वायु बहने लगी ॥ ५२ ॥ तथा भगवानके गर्भावतरणके प्रभावसे इन्द्रोंके आसन कपने लगे और उनके मुकुट कुछ नव गए ॥ ५३ ॥ उन सब आश्चर्योंको देखकर अवधिज्ञानसे उन्होंने भगवानका गर्भावतरण जाना और फिर गर्भकल्याण करनेके लिए वे तैयार हुए ॥ ५४ ॥ भगवानके गर्भावतरणके प्रभावसे ज्योतिर्लोकमें भी महा सिंहनाद हुआ तथा पहिले कहे हुए सब आश्चर्य हुए ॥ ५५ ॥ तथा व्यंतरोंके स्थानोंमें भी अपने आप भेरी नाद होने लगा और स्वर्गमें जो जो आश्चर्य हुए थे वे आश्चर्य सब होने लगे ॥ ५६ ॥ भववासियोंके भवनोंमें भी अपने आप शंखध्वनि होने लगी और पहिले कहे हुए सब आश्चर्य अपने अल्प होने लगे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर सौधर्म इन्द्रको आदि लेकर सब इन्द्र आए, सबके साथ अलग अलग सातों प्रकारकी सेना थी, अपनी अपनी सवारियोंपर वे आ रहे थे, उनके साथ बड़ी भारी विभूति थी, वे अपनी कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे, अनेक प्रकारके उनके लुरई आदि बाजोंके शब्दोंसे सब स्त्रिशाएँ बहिरी सी हो रही थीं, नृत्य गीतोंमें वे लगे हुए थे, भगवानका गर्भकल्याण करनेकी उनकी इच्छा थी, उत्सवमें वे लगे हुए थे अपनी अपनी देवांगनाएँ उनके साथ थी और सब देव भी उनके साथ थे । इसप्रकार गर्भ कल्याणकी पूजा करनेके लिये वे सब क्षण भरमें ही महाराज विश्वसेनके मन्दिरमें आ पहुँचे ॥ ५८-६१ ॥ उसीप्रकार सब ज्योतिपीदेवोंके साथ तथा अपने परिवारके साथ सब सूर्य चन्द्रमा भगवानकी माताके घर आए ॥ ६२ ॥ इसीप्रकार सब व्यंतर देव अपनी विभूति और देवियोंके साथ प्रसन्न होकर पुराय संपादन करने लिये भगवानके गर्भकल्याणमें आए ॥ ६३ ॥ उसीप्रकार बड़ी ऋद्धिको

धारण करनेवाले मूनियोंके साथ और अधिक प्रेम करते थे ॥ ८१ ॥ महाधीर वीर उन मूनिने इसप्रकार तीर्थ-
 भावनाओंका भावन क्रिया था ॥ ८२ ॥ इसप्रकार इन भाव-
 कर नाम कर्मकाबंध करनेवाली सालह कारण मूनिराजके उसके फल स्वरूप तीर्थकर है, मनुष्य देव विद्या-
 नाओंकी अच्छी तरह भावना करते हुए, उन मूनिराजके क्षोभित करनेका कारण है ॥ ८३ ॥ उन मूनिराजको
 था ॥ ८४ ॥ इस तीर्थकर नाम कर्मको अमूल्य महिमा है, यह महान पुण्यका कारण है, मनुष्य देव विद्या-
 धर सब इसे नमस्कार करते हैं और यह तीनों लोकोंको क्षोभित करनेका कारण है ॥ ८५ ॥ उन मूनिराजको धार-
 निर्माल कोष्ठबुद्धि, वीजबुद्धि, पादानुसारिणी बुद्धि और संभि-... बुद्धि ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं । जिस-
 प्रकार राजर्षि अप्सरी राजावद्याओंके द्वारा सब धर्म अधर्मको जान लेते हैं उसीप्रकार पूज्य ऋद्धियोंको धार-
 ण करनेवाले उन मूनिराजने उन बुद्धि ऋद्धियोंको धारण करनेवाले और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेमें
 ॥ ८६-८७ ॥ परमार्थको जाननेवाले, महा ऋद्धियोंको धारण करनेवाले उन मूनिराजके बिना
 तत्पर ऐसे वे मूनिराज दीप्ततपसे दीप्यमान थे, उच्छुल्ल तप्ततप, महातप, धोरतप, धोरपराक्रम तप और
 उग्रतपका सदा पालन करते थे ॥ ८८-८९ ॥ मोक्षरूप महा इच्छाको धारण करनेवाले उन मूनिराजके बिना
 इच्छाके ही केवल आत्म शुद्धिसे ही अणिमा महिमा आदि आठों विक्रिया नामकी ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं
 ॥ ९० ॥ मामर्ष रिद्धि, क्षेत्ररिद्धि, जल, विट्, सर्वौषधि आदि समस्त योगोंको नाश करनेवाली और संसार
 भरका उपकार करनेवाली रिद्धियां, मधुखात्री, वीरखात्री और सपिखात्री नामकी रिद्धियां प्राप्त
 तपके प्रभावसे अमृतखात्री रिद्धियां, परीपहोंको जीतनेसे हो असंख्य बल प्राप्त करनेवाली
 हुई थीं ॥ ९१ ॥ उन धीर वीर मूनिराजको परीपहोंको जीतनेसे हो असंख्य बल प्राप्त करनेवाली
 मनोबल वचनबल और कायबल नामकी रिद्धियां प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है क्योंकि किए हुए आहा-
 से उनके अक्षीण अन्न और अक्षीण आलाय ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है क्योंकि किए हुए आहा-
 तपस्वराणका फल अक्षय होता ही है ॥ ९२ ॥ वे मूनिराज अनुक्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए आहा-
 रके लिये श्रापुर नगरके राजा श्रीषण्णके घर पधारे ॥ ९३ ॥ राजा श्रीषण्णने भी दुर्लभ निधानके समान उन्हें

कर भ र पूवक तिष्ठ तिष्ठ गहकर उन्हें स्थापन किया ॥ ६५ ॥ उनने बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उन
 मुनिराजको प्राप्तक और मिष्ट आहार दिया जिससे उसके घर पंचाश्वर्योंकी वर्षा हुई ॥ ६६ ॥ फिर किसी
 दिन वे मुनि आहारके लिए ईर्ष्यापथ शुद्धिपूर्वक दत्तपुर नगरके राजा नंदनके घर पधारे ॥ ६७ ॥ राजा नंदनने
 भी भक्तिपूर्वक उनको स्थापन किया और विधिपूर्वक उत्तम शुभ रसीला मधुर आहार उनको दिया ॥ ६८ ॥
 शुभकर्मके उदयसे उसके घर भी परलोक फलको सूचित करनेवाली और देवोंके द्वाराकी हुई रत्नवृष्टि
 आदि पंचाश्वर्योंकी वर्षा हुई ॥ ६९ ॥ तदनंतर किसी एक दिन इच्छारहित वे मुनिराज संयमकी वृद्धिके
 लिए पुंडरीकिणी नगरीके राजा सिंहसेनके घर पधारे ॥ ७० ॥ उस राजा सिंहसेनने भी उनके चरण
 कमलोंका नमस्कारकर उन्हें स्थापन किया और उन्हें मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक चारित्र्य बढ़ानेवाला
 उत्तम मधुर आहार दिया ॥ ७१ ॥ उसी समय प्राप्त हुये पुण्यके प्रभावसे उनके घर बहुतेसे द्रव्यसे भरी हुई
 रत्नवृष्टि आदि पंचाश्वर्योंकी वर्षा हुई थी सो ठीक है क्योंकि मनुष्योंको दानसे क्या क्या प्राप्त नहीं
 होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥ २ ॥ वे मुनिराज तपश्चरणके द्वारा समयकी परम कोटिपर पहुँच
 गये थे और दृढ़रथके साथ साथ नभस्त्रिलकपर्वतपर जा विराजमान हुये थे ॥ ३ ॥ शुद्ध बुद्धिवाले उन
 मुनिराजने अपनी एक महीनेकी आयु जानकर प्रायोपगमन नामका सन्यास धारण किया था ॥ जिसमें
 प्रायः चारो आराधनाओंका और तीनों रत्नत्रयोंका आराधन प्राप्त हो उसको प्रायोपगमन कहते हैं अथवा
 जिस शुभ प्रायोपगमनमें पहिलेके हिंसा आदिसे उत्पन्न हुये समस्त पापोंके समूह पायः नष्ट हो जाय
 उसको प्रायोपगमन कहते हैं । अथवा जिसमें मनुष्योंके निवासस्थान हटकर वनमें जाना पड़े उसको बुद्धि-
 मानोने तथा श्रोजितेन्द्रदेवने प्रायोपगमन कहा है ॥ ५-७ ॥ वे मुनिराज अपने शरीरका न नो स्वयं कुछ
 प्रतिकार करते थे और न कभी दूसरेसे करानेकी इच्छा करते थे इस प्रकार शरीरसे समस्त छोड़कर वे
 निश्चल विराजमान थे ॥ ८ ॥ वे मुनिराज अपनी शक्तिके अद्भुतसार बलका आश्रय लेकर ध्यान और अध्या-
 यनके साथ साथ अनशन तप करते थे ॥ ९ ॥ तपश्चरणसे उनके सब शरीरपर केवल हड्डी चमड़ा रह गया था

परिपूर्ण पुण्यशाली जिन्हें देव मनुष्य सब नमस्कार करें ऐसे असंख्यात शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥६॥
हंस आदि उत्तम पक्षियोंसे शोभायमान और निर्मल जलसे भरे हुए मनोहर तलाव, बावड़ी नदी और कू-
आ सब और शोभायमान हैं ॥ ७ ॥ वहाँके वित प्राणियोंको तृप्त करनेवाले मुनियोंके तपस्वरणके समान
सदा सफल बने रहते हैं ॥ ८ ॥ वहाँके ऊंचे वन बृक्ष पुष्पफलोंसे शोभायमान बड़े अच्छे जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
सदा सफल बने रहते हैं ॥ ९ ॥ वहाँके ऊंचे वन बृक्ष पुष्पफलोंसे शोभायमान बड़े अच्छे जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
नके नीचे ध्यान धारण किये मुनिराज विराजमान हैं और जो दूसरे कल्पवृक्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
वहाँपर स्थान स्थानपर देव विद्याधर और मनुष्योंके द्वारा पूज्य ऐसी तीर्थ कर और गणधरोकी उत्तम निर्वाण
भूमियां विद्यमान हैं ॥ १० ॥ वहाँपर आदि अंत रहित, श्रीजिनेंद्र देवका कहा हुआ हिंसासे रहित, सब
जीवोंका हितकरनेवाला और सदा रहनेवाला धर्म सदा विद्यमान रहता है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार शरीरके मध्य-
भागमें नाभि रहती है उसी प्रकार ऊपर लिखे गुणोंसे परिपूर्ण देशके मध्यभागहै पुंड्रिकिणी नापकी शुभ
नगरी है ॥ १२ ॥ वह नगरी सोने व रत्नोंके बने हुए सदा रहनेवाले कोटसे और उसके ऊंचे दरवाजेसे
सदा शोभायमान रहती है ॥ १३ ॥ वहाँके अद्भुतम जिनालय धर्मके सागरके समान शोभायमान हैं वह
जिनालय सुमेरु पर्वतके शिखरके समान ऊंचे हैं, अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान हैं, उनमें मणियोंके
संडप बने हुए हैं, उनके चारों ओर कोट लिखे हुये हैं उनपर बहुतसी ध्वजारों फहरा रही हैं धर्मात्मा श्री-
पुरुषोत्तम वे भरे हुए हैं धर्मके उपकरण तथा सोने वा माणिक्यकी शोभासे वे शोभायमान हैं
देवकी प्रतिमाओंसे सुशोभित हैं देव भी उनको सेवा करते हैं अनेक प्रकारकी शोभासे वे शोभायमान हैं
और गीत, दृश्य, वाज और स्तुतिके सैकड़ों शब्दोंसे सदा शोभायमान रहते हैं ॥ १४-१७ ॥ ऊंचे मकानों
की शिखरोंपर लगी हुई ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती है मानो मोक्षसुख प्राप्त करनेके
लिखे देवोंको ही बुला रही हो ॥ १८ ॥ वहाँपर पुण्यवान मनुष्य ही केवल अपने इकट्ठे किये हुये पुण्यका
फल भोगनेके लिये ही श्रेष्ठ कुलोंसे उत्पन्न होते हैं पापी लोग वहाँपर कभी उत्पन्न नहीं होते ॥ १९ ॥ कि-
तने ही पुण्यवान लोग अनेक प्रकारके भोग भोगते हुये भी दान पूजा तप और ब्रतोंको पालनकर महापुण्य

उपाजन करते हैं ॥ २० ॥ जिसप्रकार धर्मके प्राणवसे मनुष्य द्रव्यसे ही उद्य कमाते हैं उसीप्रकार वहाँके मनुष्य धर्मसे ही धर्मकी वृद्धि करते हैं ॥ २१ ॥ उस नगरीमें जो उत्तम मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे अपने पूर्व भवके पुण्य कर्मके उदयसे त्यागी, भोगी, धीरवीर अनेक शास्त्रोंमें निपुण, सुन्दर मधुरभाषी, बली, शील-दान, सन्महदृष्टि बुद्धिसालू, विद्वान अत्यन्त चतुर, विवेकी, सदाचारी अनेक प्रकारकी लज्मीसे सुशोभित, दयाचार और पापोंसे रहित, न्यायमार्गमें चलनेवाले, श्रीजिनोद्देवके चरणकमलोंके भक्त, नीच देवोंसे विमुख निरर्थ गुरुओंकी सेवा करनेमें आसक्त, कुरुश्रुओंकी सेवा रहित, विनयवान् अच्छी भावनावाले और धर्म-ध्यानमें लतपर पुरुष उत्पन्न होते हैं तथा ऊपर लिखे सब गुणोंसे सुशोभित और सुख देनेवाली खियां उत्पन्न होती हैं ॥ २२-२६ ॥ उस नगरीमें उत्पन्न हुए कितने ही चरमशरीरी चतुर पुरुष संयमरूपी तीक्ष्ण शस्त्रसे कर्मरूपी शत्रुओंको जवर्दस्ती नाश कर मुक्त होते हैं ॥ २७ ॥ कितने ही पुरुष चारित्र धारणकर स्वर्ग जाते हैं कितने ही इन्द्रकी विभूति प्राप्त करते हैं और कितने ही धर्मात्मा वैश्वदेवके सुख भोगते हैं ॥ २८ ॥ कितने ही उत्तम मुनि पुण्यकर्मके उदयसे रत्नत्रयका आराधनकर सर्वार्थसिद्धि आदि पंचोत्तर विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ उस नगरीके कितने ही भद्र पुरुष अपने शुद्ध भावोंसे उत्तमपात्रोंको दान देकर तीर्थकर गणधर केवलज्ञानी और धीरवीर अनेक प्रकारके भोग भोगते हैं ॥ ३० ॥ उस नगरीमें असंख्यत दिव्याधर पूजा करते हैं वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं फिर भला उस नगरीका वर्णन करनेसे क्या लाभ है ॥ ३१-३२ ॥ इस प्रकार अनेक गुणोंसे भरी हुई उस नगरीमें सब राजाओंके शिरोमणि ऐसे धनरथ नाम के तीर्थकर राजप करते थे ॥ ३३ ॥ उनके उत्पन्न होनेके पहिले ही पिताके घरके आंगनमें कुबेरने ब्रह्म महीने तक रत्नोंकी वर्षा की थी ॥ ३४ ॥ उनके गर्भावतारके समय इंद्रने देव देवियोंके साथ आकर वड़ी भक्तिसे साता पिताको पूजा की थी और स्तुति की थी ॥ ३५ ॥ उनके उत्पन्न होते ही सब देवोंके साथ इंद्र उन्हें मेरुपर्वतपर ले गए थे और वड़ी भक्तिसे धीर सागरके जलसे उनका अभिषेक किया था ॥ ३६ ॥ उसी वालक

अत्रस्थानं इन्द्राणीने स्वयं स्वर्गमें उत्यन्त ह्यु वल्ल माला आभूषण आदि उत्तम पदार्थोंसे उनको विभूषित
 किया था ॥ ३७ ॥ उनकी बालक अत्रस्थाने ही इंद्र पुण्य उपाजन करनेकेलिये अपनी इंद्रनीके साथ उनकी
 सेवा करते थे ॥ ३८ ॥ उनके रूपको देखकर इन्द्रके मनमें भी आश्चर्य हुआ था और अतस्त होकर उसने
 उस रूपको देखनेके लिये एक हजार नेत्र बनाए थे ॥ ३९ ॥ उनका रूप महादिव्य था दिव्य गुणोंसे विभू-
 था, उपमारहित था और कलाओंसे सुशोभित था उसका वर्ण भला कौन बुद्धिमान कर सकता है ॥ ४० ॥
 उनके शरीरमें पसीना नहीं आता था दूधके समान उनका रश्मि था, प्रथम समचतुरत्रसंस्थान था कि
 उनके शरीरमें पसीना नहीं आता था, अर्थात् वज्रमय हृदियोंसे बना हुआ वज्रमय शरीर था, उस शरीरमें सम्पूर्ण पुण्य-
 हृषभ नाराच संहनन था, अर्थात् वज्रमय सौरूप्य (सुन्दरता) गुण था उनके श्वासमें इतनी सुगन्धता थी कि
 रूप परमाणुओं से बना हुआ उत्तम सौरूप्य (सुन्दरता) गुण था उनके वाणी शुभाप्रिय और सब जीवोंका हित
 सब दिशाओंमें उसकी सुगन्धित फेब जाती थी, वह शरीर महादिव्य लक्षणों और उपजनोसे सुललित था
 शुक्रध्यानके योग्य अप्रमाण महावीर्य (शक्ति) था और उनकी वाणी साथ प्रगट हुए थे फिर गल्ला उनके
 करनेवाली थी । प्र दश दिव्य अतिशय भगवान्के शरीरके साथ प्रगट हुए थे फिर गल्ला उनके
 गुणोंका अलग वर्णन करनेसे क्या लाभ है ॥ ४१-४५ ॥ जन वे धीर वीर राजगद्दीपर विराजमान थे तभी देव
 विद्याधर सब उनकी सेवा करते थे फिर भला राजाओंनी तो बातही क्या है ॥ ४६ ॥ वे भगवान स्वर्गमें उत्पन्न
 होनेवाले गीत नृत्य आभूषण वल्ल आदि उत्तमसे उत्तम भोगोंके द्वारा प्रतिदिन सुखका अनुभव किया करते
 थे ॥ ४७ ॥ इस संसारसे समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले उन धनरथ तीर्थकरके सुखका प्रमाण भला कौन
 जान सकता है ॥ ४८ ॥ उनके मनोहरा नामकी रानी थी जो गुणवता सौभाग्यवती पुण्यवती और अनेक
 लक्षणोंसे सुशोभित थी ॥ ४९ ॥ उन दोनोंके वह वज्रायुधके जीव प्रवैयकसे चपकर पुण्यकर्मके उदयसे मेघ-
 रथ नामका पुत्र हुआ था ॥ ५० ॥ उन्ही धनरथ तीर्थकरकी मनोरमा रानीसे सहस्रायुधका जीव प्रवैयकसे
 चपकर पुण्यकर्मके उदयसे दृढरथ नामका पुत्र हुआ था ॥ ५१ ॥ पिता धनरथने प्रसन्न होकर सब भाई वंध-
 नोंके साथ वड़े उत्सवसे उन दोनोंकी आधानादि सब क्रियाएं की थी ॥ ५२ ॥ उन दोनोंके जन्मके समय

अपने कुटुम्बके साथ जिनालयमें जाकर बड़ी विभूतिके साथ भगवानका महामिषेक किया और उनकी बुद्धिके लिए भगवानकी पूजा की थी ॥ ५३ ॥ उन दोनोंके जन्म समयके उत्सवमें भाई वन्धुओंने मांगनेवाले दोन अनाथ और याचक सब संतुष्ट किए थे ॥ ५४ ॥ वे दोनोंही भाई उनके योग्य वस्त्र आभूषण और अष्टलके समान दूध मिथी आदि पदार्थोंके द्वारा पालन पोषण किए जाते थे और इसलिये वे चन्द्रमाके समान बढ़ने लगे थे ॥ ५५ ॥ वे दोनों ही भाई मुग्धावस्थाको विलाकर साला पिताको आनंदित करते थे और कुमार अवस्थको पाकर सब कुटुंबियोंके धारे सालूम होते थे ॥ ५६ ॥ उन दोनों भाइयोंने थोड़े ही समयमें राजनीति, शास्त्रविद्या और जैन सिद्धान्तका रहस्य अध्ययन कर लिया था ॥ ५७ ॥ वे दोनों ही भाई पुरुषकर्मीके उदयसे अनुक्रमसे यौवना और गुणोंके साथ साथ लक्ष्मी कला बुद्धि और कांतिसे भी विभूषित हो गए थे ॥ ५८ ॥ उन दोनोंका परस्पर रत्नोंके जड़े हुए सुकुटसे शोभायमान था, हृदय माला और दिव्य हारसे शोभायमान था और काल कुंडलोंसे शोभायमान थे ॥ ५९ ॥ वे दोनों ही भाई केयूर, अङ्गद श्रेष्ठ आभूषण और सुन्दर दिव्य वस्त्रोंसे शोभायमान थे और नागकुमार देवोंके समान जान पड़ते थे ॥ ६० ॥ वे दोनों ही भाई धीर वीर थे शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थे कलाओंसे परिपूर्ण सुन्दर विद्वान् थे, लोगोंको धिय और मान्य थे प्रसिद्ध थे और शुद्ध हृदयवाले थे ॥ ६१ ॥ उनका यश संसारमें व्याप्त था, वे राजनीतिकी प्रवृत्ति करनेवाले थे, प्रतापी थे, चतुर थे और उनका शरीर कांतिसे सुशोभित था ॥ ६२ ॥ वे दोनों ही भाई न्यायधर्ममें लीन थे, पूज्य थे, दानी थे, गुणी थे, श्रीजिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंके भक्त थे और निर्धन शुरुओंके सेवक थे ॥ ६३ ॥ वे दोनों ही भाई सुशील थे, धर्मात्मा थे, विद्या और विनयके परगामी थे अनेक राजा उनकी सेवा करते थे इसलिये वे इन्द्र प्रतीदिके समान सुशोभित होते थे ॥ ६४ ॥ पहिले भवोंको निरूपण करनेवाला और तत्त्वोंका प्रलय प्रगट करनेवाला अनुभासा अग्निज्ञान (अवेयकसे साथ आया हुआ) केवल सेवकही था (हठरथके नहीं था) ॥ ६५ ॥ वे दोनों ही भाई यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गए थे और सब ऐश्वर्योंको प्राप्त हो गए थे इसलिये हाथोंके समान उनको देखकर घनरथ तीर्थकरको

दिन वे दोनों निर्दयी भाई लोभमें पड़कर एक बैलके लिए लड़ने लगे ॥ ८२-८३ ॥ वे दोनों ही पापी श्रीन-
दीके किनारे लड़ने लगे परस्पर एक दूसरेको बड़ी भारी चोट पहुँचाने लगे । परस्पर एक दूसरेकी असह्य
चोटसे वे बहुत दुखी हुए और दोनों ही मर गये ॥ ८४ ॥ वे दोनों भाई आर्तिध्यानरूपी महापापको करते
हुए मरे थे, इसलिये वे कांचन नदीके किनारे रेतकर्ण और ताम्रकर्ण नामके हाथी हुए थे । वे दोनों ही
हाथी क्रोधी थे, मदीनमत थे, बलवान थे और पहिले जन्मकी शत्रुता उनके हृदयमें भरी हुई थी। देखो ! जो
महाक्रोध करते हैं उनकी क्या क्या दुर्गति नहीं होती है ॥ ८५-८६ ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके वैरके संस्का-
रसे वे दोनों क्रोधित होकर लड़ने लगे और अपने अपने मजबूत दाँतोंसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे
तथा परस्पर एक दूसरेकी चोटसे दुखी होकर दोनोंही मर गए ॥ ८७ ॥ अयोध्या नगरके रहनेवाले नंदिमित्र
नामके ब्वालिको भैंसोंसे वे दोनों ही मरकर पापकर्मके उदयसे भँसा हुए ॥ ८८ ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके
वैरके संस्कारसे उन दोनोंने परस्पर दुख देनेवाला युद्ध किया बहुत देरतक परस्पर एकमे दूसरेको सींगोंकी
चोट पहुँचाई और दोनों ही लड़ते २ मर गए ॥ ८९ ॥ वे दोनों ही मरकर उसी नगरके राजपुत्र शक्तिसेन
और वरसेनके यहाँ वज्र सरीखे मजबूत मस्तकवाले भेड़ा हुए ॥ ९० ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके क्रोधके
कारण बहुत देरतक परस्पर लड़े और मरकर पापकर्मके उदयसे ये दोनों मुर्गे हुए हैं ॥ ९१ ॥ इसलिये हे राजन
यह निश्चित है कि पहिले जन्मके संस्कारसे मनुष्योंका वैर और मित्रता दोनों ही अनेक भवों तक चराचर
साथ चली आती हैं ॥ ९२ ॥ इसलिये हे राजन् ! बुद्धिमान लोगोंको प्राण नाश होनेपर भी किसी
भी हीन वा दीनके साथ अनेक दुख देनेवाला वैर कभी नहीं करना चाहिये ॥ ९३ ॥ इसप्रकार उन विद्वान
मेघरथने उन दोनों मुर्गोंके पहिले जन्मकी कथा कहकर सब सभासदोंको आश्चर्य उत्पन्न किया और सब-
को संतुष्ट किया ॥ ९४ ॥ इसके बाद वे मेघरथ कहने लगे कि इन दोनों मुर्गोंके लड़ते समय अनेक विद्या-
ओंमें निपुण ऐसे दो विद्याधर आपके स्नेहसे प्रसन्न होकर यहाँ आकर बैठे हैं । वे विद्याधर कौन हैं और
क्यों आए हैं ? यह सब सुनना चाहें तो हे राजन् ! सुनिष्ठ, मैं उन दोनोंकी कथा कहता हूँ ॥ ९५-९६ ॥ इ-

उनके विवाह करने की चिंता हुई थी ॥ ६६ ॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमके साथ कर दिया था और छोटे पुत्र हृदयका विवाह सुमतिके साथ कर दिया था ॥ ६७ ॥ नेवरथके रूप आदि गुणोंसे सुशोभित प्रियमित्रा रानीसे सुभ लक्षणोंवाला नंदिवर्धन नामका पुत्र हुआ था और हृदयके अनेक सौभाग्योंसे भरपूर ऐसी सुमति रानीसे अनेक गुणोंसे सुशोभित वरसेन नामका पुत्र हुआ था ॥ ६८-६९ ॥ इसप्रकार वे धनरथ तीर्थंकर पुत्र पौत्रआदि सब प्रकारकी सुखः साधनियोंका अनुभव करते हुए सिंहासनपर विराजमान होकर इन्द्रकीसी लोला करते थे ॥ ७० ॥ किसी एक दिन प्रियमित्राकी दासी सुप्रेणा एक धन-कुण्ड नामके मुर्गेको लेकर आई और सबको दिखाकर कहने लगी कि जिस किसीका मुर्गा जीत लेगा उसको एक हजार दीनार दूंगी ॥ ७१-७२ ॥ सुप्रेणाकी यह बात सुनकर छोटी रानीकी दासी कांचना उससे लड़नेके लिए दज्जुंड नामके मुर्गेको ले आई ॥ ७३ ॥ ऐसे जीर्गेके सुद्ध करने वा लड़नेसे परस्पर दोनोंको दुख होता है और देखनेवालोंको भी हिंसासे आनन्द माननेसे रौद्र ध्यान होता है । रौद्रध्यानसे महापाप होता है, पापसे नरक मिलता है और नरकमें दुख सहना पड़ता है । इरालिये धर्मात्या लोगोंको ऐसा सुद्ध देखना भी अयोग्य है ॥ ७५ ॥ इसी बातको स्मरण करते हुए वे धनरथ तीर्थंकर बहुतरंगे भयजीवोंको समझानेके लिये तथा अपने पुत्रकी महिमा प्रगट करनेके लिए अपने पुत्र पौत्रादिकोंके साथ बिना मनके उन दोनोंके सुद्धको देख रहे थे ॥ ७६, ७७ ॥ वे दोनों ही दुष्ट मुर्गे पूर्वाजन्मकी शत्रुताके कारण परस्पर क्रोध करते हुए आश्रय उत्पन्न करनेवाला और दुख देनेवाला महासुद्ध करने लगे ॥ ७८ ॥ इसी बीचमें धनरथ तीर्थंकरने अपने पुत्र नेवरथसे पूछा कि इन दोनोंका सुद्ध क्यों हो रहा है ? क्या इसमें कोई पहिले जन्मकी शत्रुता कारण है ? ॥ ७९ ॥ पिताकी यह बात सुनकर अर्वाविज्ञानी नेवरथ सब जीवोंको हित करनेवाली और कानोंको सुख देनेवाली अच्छी वाणी कहने लगे ॥ ८० ॥ कि हे छुटुबी लोगो ! अपने मनको स्थिरकर सुनो, मैं इन दोनोंके पहिले जन्मकी शत्रुताकी कथा कहता हूँ ॥ ८१ ॥ इसी जन्मद्वीपके घेरावत क्षेत्रके रत्नपुर नगरमें दो भाई थे, वे वैश्य थे परन्तु पूर्ण थे गाडोवानका काम करते थे भद्र और धन उनका नाम था । किसी एक

पराक्रमी थी ॥ ११ ॥ उसी देशके विजयाद्वि पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें मंदार नामका एक नगर है उसमें शंख नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी रानीका नाम जया था ॥ १२ ॥ उन दोनोंके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री हुई थी । वह बड़ी रूपवती थी, पुण्यकर्म करनेवाली थी और अनेक लक्षणांसे सुशोभित थी ॥ १३ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे वह सुन्दर विद्याधरी विधिपूर्वक अशयघोषने विवाही थी ॥ १४ ॥ वह राजा अभयघोष एक वर्षतक बराबर उसमें आसक्त रहा इसलिए पुण्यकर्मके उदयसे सुवर्णतिलका (पहिली रानी) बहुत दुखी हुई ॥ १५ ॥ किरली एक दिन वसन्त ऋतुके समय सुवर्णतिलकाकी दूती चंचलिकाने राजासे आकर कहा कि हे देव ! सुवर्णतिलकाका बाग बहुत ही सुन्दर और मनोहर है पुण्यके फलके समान उसमें बहुत-से फल फले हुए हैं इसलिये आप उसे देखनेके लिये चलिye ॥ १६-१७ ॥ उस दासीकी यह बात सुनकर पहिली रानीके स्नेहसे जय राजा उस बागमें चलनेके लिये तैयार हुआ उसी समय पृथिवीतिलकाने अपनी द्रिप्यासे बहीपर सब ऋतुओंके फल पुष्पोंसे भरा हुआ बाग बनाकर दिखला दिया और राजासे कहा कि हे देव । आप इस अच्छे बागको देखिए आप कहीं दूसरी जगह मत जाइए । इसप्रकार कहकर उसे जानसे रोका । परन्तु उसकी बातका उल्लंघनकर वह राजा उस वनको देखनेके लिये चला ही गया । मानभंग होनेके कारण विद्याधरीको बहुत दुख हुआ ॥ १८-२१ ॥ वह विचार करने लगी कि इस पराधीन रहनेवाली स्त्री जातिको धिक्कार है । यह स्त्रीपर्याय दुखका कारण है मोक्ष इस पर्यायसे मिलती नहीं, यह पर्याय निन्द्य अपवित्र और सदा अशुभ है ॥२२॥ जो भोग विना सन्मानके भोगे जाते हैं और दुखके सागर है तथा चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले हैं वे भोग आज भरे पूरे हों अर्थात् अब मैं उनको भोगना नहीं चाहती ॥२३॥ इसप्रकार चिंतनकर वह वैराग्यको प्राप्त हुई और घर भोग तथा पतिघ्नो छोड़कर सुमति नायकी गणित्नीके सलीप पहुंची ॥ २४ ॥ उस सतीने वहां जाकर उसको नसरकार किया, एक साड़ीके बिना अन्य स्वप परिभ्र-होका त्याग किया और सब तरहके सुख देनेवाली उत्तम दीक्षा धारण की ॥ २५ ॥ देखो ! संयम धारण करनेके लिये कभी मान करना भी अच्छा है क्या कि निकट भन्व्य जीवांका वह साग आत्माकी हित सिद्धि-

शान्ति०

१४६

सी जम्बूद्वीपके भारतक्षेत्रके विजयाह्वं की शुभ उत्तर श्रेणीमें एक कनकपुर नगर है उसमें पुराणकर्मके उदयस्तेरके गरड्वेग नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी सुन्दरमुखी रानीका नाम धृतिषेणा था ॥ ६७-६८ ॥ दोनोंके देवतिलक और चंद्रतिलक नामके दो पुत्र थे जो दोनों ही प्रतापी थे, धीर वीर थे और मोक्षगार्भ थे ॥ ६९ ॥ किसी एक दिन वे दोनों ही भाई अपने अशुभ कर्मोंको दूर करनेके लिए भगवान् जिनेंद्रदेवके प्रतिभाओंकी वंदनाके लिपित सिद्धकूट चैत्यालयमें गये थे ॥ १०० ॥ वहांपर उन्होंने भगवानकी पूजा की स्तुति की, नमस्कार किया और फिर धर्मश्रवण करनेके लिये वहांपर विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप पहुंचे ॥ १ ॥ वे दोनों ही मुनि अविद्याज्ञानी थे, चतुर थे और देव भी उनकी पूजा करते थे उन दोनों विद्याधरो ने बड़ी भक्तिसे उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, मस्तक भुक्काकर नमस्कार किया और उनके समीप जाकर बैठ गए ॥ २ ॥ उनमेंसे बड़े मुनिने स्वर्ण देनेवाले गृहस्थ धर्मका तथा मोक्षके कारण मुनिधर्मका दोनोंका निरूपण किया और कृपापूर्वक वतलाया कि यह धर्म ही सुखोंकी खानि है मनुष्योंको परलोकके लिए यही पाथेय (साथ ले जाने योग्य) है और यही पापोंकी नाश करनेवाला तथा उत्तम है ॥ ३-४ ॥ मुनिके द्वारा कहे हुये और संसारसे पारकर देनेवाले उस धर्मको सुनकर उन दोनोंने मुनिको नमस्कारकर अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ ५ ॥ उन्होंने पूछा कि हे भगवन् ! हम दोनोंने पहिले जन्ममें ऐसा कौनसा तप किया था, अथवा दान दिया था, अथवा व्रत पालन किया था अथवा भगवानका पूजन किया था जिससे हम दोनोंको विद्याधरोंकी विभूति प्राप्त हुई है । हे देव । हमें सुखी करनेके लिये यह सब कृपापूर्वक निरूपण कीजिए ॥ ६-७ ॥ उन दोनोंपर अच्युतह करनेके लिये ही वे मुनिराज कहने लगे कि हे विद्याधरो ! मैं पहिली कथा कहता हूं तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ८ ॥ धातकी खण्ड द्वीपके पूर्व भेरुके उत्तर दिशाकी ओर ऐरावत क्षेत्रमें तिलकपुर नामका नगर है ॥ ९ ॥ उसमें धर्मात्मा अभयघोष नामका राजा राज्य करता था और उसके शुभहृदयवाली सुवर्णतिलका नामकी रानी थी ॥ १० ॥ उन दोनोंके दो पुत्र हुए थे विजय और जयंत उनका नाम था वे दोनों ही भाई धीर वीर थे, शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थे और नीतिमान् तथा

का कारण ही जाता है ॥ २६ ॥ अधानन्तर — किसी एक दिन राजा अभयघोषने मध्याह्नके समय श्रेष्ठ धर्म-को उत्पादन करनेवाली परम प्रसन्नताके साथ दमयर नामके श्रेष्ठपुत्र मुनिराजका पढ़गाहन किया । जिनधर्मका विचार करनेवाले उस राजाने अशुभ कर्मोंको नाश करनेके लिये दाताके साते गुणोंसे विभूषित होकर बड़ी भक्तिसे नौ प्रकारकी विधिपूर्वक उन मुनिराजको प्राप्तक, सिष्ट सरस और उत्तम आहार दिया । उसी समय प्राप्त हुए पुरयसे राजा अभयघोषके घर रत्नवृष्टि आदि उत्तम पंचारचर्य हुआ ॥ २७-३० ॥ पात्रदानके फलसे जिसप्रकार इसलोकमें भारी विभूति प्राप्त होती है उसी प्रकार स्वर्ण मोक्ष देनेवाली अनेक प्रकारकी लक्ष्मी परलोकमें भी प्राप्त होती है ॥ ३१ ॥ वह राजा अभयघोष दातके प्रभावसे प्राप्त हुए पंचारचर्योंको देखकर तथा काल लविके प्राप्त हो जानेसे उसी समय संवेगको प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ वह विचार करने लगा कि देखो ! जिन मुनियोंको दान देनेसे यह मनुष्य क्षणमात्रमें ही देवोंके द्वारा प्रकट हुई बहुमूल्य उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है फिर भला उन उत्तम मुनियोंको तपश्चरणके प्रभावसे स्वर्ण मोक्ष आदि परलोक में कौनसी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती होगी उसको मैं नहीं जान सकता ॥ ३३-३४ ॥ पापरूप समुद्रके मध्यमें रहनेवाली इस शहस्थीसे क्या निष्कर्ष हो सकता है क्योंकि इस शहस्थीके द्वारा मनुष्योंको मोक्षरूपी खीका मुखकमल कभी दिखाई ही नहीं दे सकता ॥ ३५ ॥ इसका भी कारण यह है कि शहस्थ कभी कभी दान पूजा आदिके द्वारा थोड़ासा पुरय संप्राप्त करता है परन्तु फिर हिंसा आदि पाप कार्योंके द्वारा बहुतरापाप संचय कर लेता है ॥ ३६ ॥ यह शहस्थ घरके व्यापाररूपी कार्योंके समुद्रमें सदा डूबा रहता है और बहुतरासी चिंताओंमें विरग रहता है इसलिये वह कभी सुखी नहीं हो सकता उसे सदा दुख ही भोगने पड़ते हैं ॥ ३७ ॥ यदि शहस्थधर्म कल्याण करनेवाला ही होता तो तीर्थंकर ही इसे क्यों छोड़ते और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको छोड़कर क्यों दीक्षा धारण करते ? ॥ ३८ ॥ इस संसारमें केवल मुनियोंको ही अनेक प्रकारका सुख प्राप्त होता है क्यों कि वही सुख सब तरहकी चिंताओंसे रहित है आत्मासे उत्पन्न हुआ है और ध्यानसे प्राट हुआ है ॥ ३९ ॥ संसारमें वे मुनिराज ही धन्य हैं जो

आत्मानन्द रूपी अंजुलिके पात्रसे हृदयरूपी धरसे निकालकर ध्यानरूपी उत्तम अष्टतको सदा पीते रहते ॥ ४० ॥ यह संसार अनेक दुःखोंसे भरा हुआ है यदि इसमें कहीं सुख है तो वह केवल मुनियोंका ; केवल आत्मासे प्रगट होता है । इस संसारमें और किसी प्राणीको सुख नहीं है ॥ ४१ ॥ यदि मुनियोंका ई संसारमें त्रिषयोंसे रहित उत्तम सुख न हो तो फिर चक्रवर्ती लोग अपनी इतनी भारी विभूतिको ब्राह्म तपश्चरण कथां धारण करते हैं ॥ ४२ ॥ इसलिये मैं जानता हूँ कि आत्मासे प्रगट हुआ उपमा रहित प सुख है तो वीतराग मुनियोंको ही है अन्य रागा द्वेषी जीवोंको वह सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ इस प्रकार विचारकर उस राजा अभयघोषने शीघ्र ही तृणके समान राज्यका त्याग किया और वह अपने दो पुत्रोंके साथ अनङ्गसेन गुरुके समीप पहुँचा ॥ ४४ ॥ वहाँ जाकर उस राजाने तीनों लोकोंका हिन कर बाले उन मुनिराजको नमस्कार किया उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दी, बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह त्याग किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने दोनों पुत्रोंके साथ एकाग्रचित्तसे समस्त कर्माँ रूपी अग्नि को जलानेके लिए अग्निके समान संयम धारण किया ॥ ४२-४६ ॥ तदनन्तर वे तीनों ही मुनिराज र मोक्षकी लक्ष्मीके चित्तको मोहित करनेवाला वारह प्रकारका घोर और असह्य तपश्चरण करने लगे ॥ ४७ ॥ मुनिराज अभयघोषने सन्म्यदर्शनकी विशुद्धिधारणकी और तीर्थकर पदको देनेवाली सोलह कारण भा नाएँ भावन कीं ॥ ४८ ॥ पहिली भावना सन्म्यदर्शनकी विशुद्धि है, दूसरी मन वचन कायसे मुनियों विनय है, द्रत और शीलोंको अतिचार रहित पालन करनेकी भावना तीसरी है, अपना उपयोग सदा ज्ञान वनापे रखनेकी भावना चौथी है, संसार शरीर आदिसे भ्रान्ति प्रगट करनेवाली संवेग रूप भावना पाँच है, छठी शक्तिके अनुसार चारों प्रकारके दान देनेकी भावना है, सातवीं शक्तिके अनुसार वारह प्रकार तपश्चरण करनेकी भावना है, आठवीं भावना धर्माधान और शुक्लव्यान को प्रकट करनेवाली साधु समा है । दशप्रकारके मुनियोंकी सेवा चाकरो कर दैयावृत्य करना नौवी भावना है । स्वर्गमोक्ष देनेवाली अरह देवकी भक्ति करना दशवीं भावना है । आचार्यकी भक्ति करना ग्यारहवीं भावना है मोक्षका मार्ग दिखाने

वाले उपाध्यायकी भक्ति करना बारहवीं भावना है, शास्त्रोंमें सदा भक्ति रखना तेरहवीं भावना है, छहों आध्यायकोंको पूर्ण रीतिसे पालन करना चौदहवीं भावना है जैन धर्मके माहात्म्यको प्रगट करनेवाली मार्ग-प्रभावना पंद्रहवीं भावना है और सब गुणोंकी खानिके समान धर्मात्माओंमें प्रेम करना सोलहवीं भावना है ॥ ४६-५३ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे बुद्धिमान पुरुषोंको तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करनेवाली ये ही ऊपर लिखी हुई सोलह कारण भावनायें हैं ॥ ५४ ॥ तीर्थंकर अबतक हुए हैं अथवा आगे होंगे अथवा जो हैं वे सब इन भावनाओं को चितवनकर ही हुए हैं और इसी प्रकार होंगे ॥ ५५ ॥ यदि केवल सम्यग्दर्शनकी ही विशुद्धि प्राप्त होजाय तो बलवती भावना तीर्थंकर नामकर्मका बंध करती है सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके विना, मनुष्योंको कभी तीर्थंकर नामकर्मका बंध नहीं होता ॥ ५६ ॥ अल्पशक्तियाला भी जोव सम्यग्दर्शनसे सुशो-भित होकर इन भावनाओंके प्रभावसे तीर्थंकर हो जाता है और सब कर्मोंसे रहित होकर सिद्ध पद प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५७ ॥ इसलिये चारों प्रकारके सब संघको मोक्षरूपी स्त्री प्राप्त करनेके लिये मोक्षरूपी लज्मीको उत्तम सर्वािके समान इन भावनाओंका चितवन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ५८ ॥ उन अभयघोष मुनिराजने एकाग्र चित्तसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके साथ २ सब भावनाओंका चितवनकर तीर्थंकर नाम कर्मका बंध किया ॥ ५९ ॥ उन्होंने अपनी शक्तिको प्रगटकर जीवन पर्यंत विधिपूर्वक द्रव्य-भाव दोनो प्रकारसे उत्तम संघमका पालन किया ॥ ६० ॥ आधुिके अन्त समयमें चारों प्रकारके आहा-रका त्याग किया, सन्यास धारण किया, पवित्र चारों आराधनाओंका आराधन किया, बिना किसी संकल्प विकल्पके अपना मन परमेष्ठीके चरण कमलोंमें लगाया और सब तरहके प्रयत्नोंके साथ समाधि पूर्वक प्राणोंको छोड़कर असांख्यात सुखोंके सागर ऐसे अच्युत नामके सोलहवें शुभस्वर्गमें वे तीनों ही तप-श्चरणके उदयसे बड़ी ऋद्धिके धारी देव हुए ॥ ६१-६३ ॥ वहांपर उन्होंने अपनी अपनी देवियोंके साथ वाइंस सागर तक धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए, उपमारहित अत्यन्त सुख देनेवाले रत्नके उत्तम भोग भागे और फिर वाकी वच्चे पुण्यकर्मके उदयसे आधुिके अन्तमें वहांसे च्युत होकर तुम दोनों राजपुत्र हुए हो ॥ ६४-६५ ॥

इसप्रकार उन मुनिराजके वचनोंको सुनकर उन दोनोंको बहुत संतोष हुआ और देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवान मुनिराजको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे फिर पढ़ने लगे कि हे प्रभो । हमारे पहिले जन्मके पिता रामें शांत परिणामोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज अनुग्रह करनेके लिए उन दोनोंके सामने सब संदेहोंको दूर करनेवाले वचन कहने लगे ॥ ६८ ॥ कि हे विद्याधरो ! मैं तुम्हारे पिताके तीर्थंकर होनेवाली कथा कहता हूँ । तुम मन लगाकर सुनो ॥ ६९ ॥ मनुष्योंसे भरे हुए जम्बूद्वीपमें धर्माका स्थानभूत पूर्व विदेहचेत्र है उसके पुष्कलवती देशमें पुंडरीकिया नगरी है ॥ ७० ॥ उसमें पुराणकर्ताके उदयसे हेमांगद नामका राजा राज्य करता था और उसकी रूपवती सुन्दर रानीका नाम मेघमालिनी था ॥ ७१ ॥ अभयघोषका जीव सोलहवें स्वर्गमें वचनोंके अगोचर सुखोंका अनुभवकर आयुके अन्तमें वहंसि चथकर उन दोनोंके तीनों लोकोंका हित करनेवाले धनरथ नामके तीर्थंकरकी पर्यायसे आया है ॥ ७२ ॥ इस समय वे श्रीमान् राजा धनरथ अपनी रानी और पुत्रोंके साथ दो मुर्गोंका युद्ध देखते हुए विराजमान हैं ॥ ७३ ॥ इन सब बातोंको सुनकर उन दोनों विद्याधरोने उन मुनिराजको नमस्कार किया और पहिले जन्मके प्रेमके कारण वे दोनों ही विद्याधर आपको देखनेकेलिए बड़ी शीघ्रतासे यहां आए हैं ॥ ७४ ॥ इसप्रकार मेघरथसे उस सब कथाको सुनकर उन दोनों विद्याधरोने अपना स्वरूप प्रगट किया और सबके प्रत्यक्ष हुए ॥ ७५ ॥ उन दोनों विद्याधरोने तीर्थंकर भगवान धनरथको और राजकुमार मेघरथको नमस्कार किया, पहिले जन्मके स्नेहके कारण भक्तिपूर्वक दिव्यबल आभूषणोंसे वार वार उनकी पूजाकी और स्तुति की । तदनन्तर वे दोनों ही विद्याधर शरीर भोग और संसारसे विरक्त हुए तथा संयम धारण करनेके लिए गोवर्द्धन मुनिराजके समीप पहुँचे ॥ ७६-७७ ॥ मन बचन कायसे उन मुनिराजको नमस्कारकर और परिग्रहोंका त्यागकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सदा रहनेवाली कोशरूपालक्ष्मीकी श्रेष्ठ माताके समान दीक्षा धारण की ॥ ७८ ॥ उन दोनोंने अनिष्ट, घोर और असह्य तपस्चरण किया, शुबलध्यानरूपी तलवारसे घातिया कर्मरूपी अनादिके शत्रुओंको नाश किया और

अनन्त गुणोंका समुद्र तथा लोकालोक सबको प्रकट करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया । इन्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजाकी ॥ ७६-८० ॥ उन्होंने अन्तमें अन्तके शुक्लध्यानरूपी अग्निसे वाकोके कर्मरूपी ई धनको जलाया और एक समयमें ही अनन्त सुखके स्थानभूत लोकके शिखर पर जा विराजमान हुए ॥ ८१ ॥ इधर दोनों मुर्गे भी पापकर्मके उदयसे प्राप्त हुए अनेक प्रकारके दुख देनेवाले पहिले भवके सब वैरको सुनकर अपने मनमें ही अपनी निंदा करने लगे ॥ ८२ ॥ उन दोनोंने सुख देनेवाला वैराग्य धारण किया परस्परका वैर छोड़ा और जीवनपर्यंत शुभ अनशन व्रत (उपवास) धारण किया ॥ ८३ ॥ उन दोनोंने अपनी शक्तिके अनुसार भूख प्यास आदि परीपहोंको सहन किया और वे दोनों ही हृदयमें श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण करने हुए धर्मको धारणकर रहने लगे ॥ ८४ ॥ उन्होंने प्रतिदिनके काय क्लेशसे शरीरको दुर्बल किया और शुभ ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक प्राणोंका त्याग किया वे दोनों ही मुर्गे मरकर धर्मके प्रभावसे भूतारण्य और देवारण्य वनमें तांत्रचूल और कनकचूल नामके भूत जातिके देव हुए ॥ ८५-८६ ॥ दिव्य गुणोत्सुशोभित उन दोनों देवोंने अपने अधिज्ञानसे उसी समय अपने पहिले भवके सब समाचार जान लिए और परस्परका अपना सम्बन्ध भी जान लिया ॥ ८७ ॥ वे दोनों ही विचार करने लगे कि कहां तो हम सांस भक्षी, निंब और हीन पक्षी थे और कहां हमें राजकुमार मेघरथने जीवोंकी दयापालन करनेवाले धर्मका उपदेश दिया ॥ ८८ ॥ यदि हम वहां जाकर उन धर्मात्माका प्रत्युपकार न करें तो फिर इस संसारमें हमारे समान अन्य नीच कौन होगा ॥ ८९ ॥ इसप्रकार कहकर वे दोनों ही देव आए, आकर उन्होंने बड़े प्रेमसे मेघरथको प्रणाम किया और वस्त्र माला आभूषण आदिसे उनकी पूजाकी ॥ ९० ॥ उन्होंने उनकी वार वार प्रशंसाकी स्तुतिकी और भक्तिपूर्वक कहा कि हे नराधीश ! आप धन्य हैं, और ज्ञान गुणसे शोभायमान हैं ॥ ९१ ॥ हे देव ! हम आपके ही प्रसादसे तिर्थच योनिको नष्टकर अत्यन्त सुखी और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए हैं ॥ ९२ ॥ अब हम आपका केवल यही उपकार करना चाहते हैं कि आप मानुषोत्तर पर्वतके भीतरका सब संसार देख लें ॥ ९३ ॥ इसप्रकार कहकर वे दोनों ही देव भक्तिपूर्वक खड़े रहे, तब कुमार मेघरथने उन दोनोंसे

कहा कि अचक्षा गुरुहारा कहा स्वीकार है ॥ ९४ ॥ यह सुनकर उन दोनों देवों ने अनेक प्रकारकी ऋद्धि-
 यों से शोभायमान एक विमान बनाया और उसमें गुरुजनों के साथ देवके समान उल मेघरथ राजकुमारको
 बिठाया ॥ ९५ ॥ उन्होंने वह विमान ज्योतिषी देवोंसे विभूषित आकाश मार्गमें पहुंचाया और फिर वे दोनों
 देव वहांसे सुन्दर और मनोहर देशोंको दिखाने लगे ॥ ९६ ॥ वे दिखाने लगे कि हे देव ! देखिए ब्रह्म
 कालोंसे शोभायमान यह पहिला भरतक्षेत्र है और यह जघन्य भोगभूमिक सुख देनेवाला हिमवत क्षेत्र है
 ॥ ९७ ॥ उसके बाद मध्यम भोगभूमिक सुख देनेवाला यह हरि वर्ष क्षेत्र है और धर्म, तीर्थंकर गणधर
 आदिसे भरा हुआ यह त्रिदेह क्षेत्र है ॥ ९८ ॥ यह जीवोंको पात्र दानका फल भोगोपभोग सामग्रीको देने-
 भरतके समान घेरावत क्षेत्र है और दशप्रकारके कल्पवृक्षोंसे सुशोभित यह हैरण्यवत क्षेत्र है ॥ ९९ ॥ यह
 ॥ १०० ॥ श्रीजिनालयसे सुशोभित यह हिमवान पर्वत है । यह ऊंचा महाहिमवान पर्वत है और यह सुंदर
 निषिध पर्वत है ॥ १ ॥ यह दिव्य सुमेरु पर्वत है जो चारों वनोंसे शोभायमान है देव भी जिसकी
 सेवा करते हैं जो सोलह चैत्यालयोंसे विभूषित है और भगवानके स्नान करनेसे पवित्र है
 ॥ २ ॥ यह नील पर्वत है यह त्र्यम्बी है और यह शिखरो है ये ब्रह्म प्रसिद्ध कुल पर्वत हैं इनके पूर्व कूटपर
 भगवान श्रीजिनेन्द्रदेवके चैत्यालय हैं और अपनी कांतिसे ये सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ इधर देखिये, ये सप्तद्रुमें
 गमन करनेवाली चौदह सुन्दर महा नदियां हैं दरवाजा और वेदिकासे शोभायमान हैं, नित्य हैं, जलसे भरी
 हैं, बहुत चौड़ी हैं, शीतल हैं, दिव्य हैं, इनके दोनों किनारोंपर वन हैं ये पद्म महापद्म आदि सरोवरोंसे नि-
 कली हैं और अनेक नदियां आकर इनमें मिली हैं । गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सीता
 आठवीं सीतोदा, नारी, नरकान्ता, महानदी सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता, रकोदा ये इन नदियोंके नाम
 हैं ॥ ४-७ ॥ देखिये ये सोलह सरोवर हैं जो कमल और कमलोंपर बने हुए भवनोंसे शोभायमान हैं । यह
 पद्म है, महापद्म है, यह तिर्गच्छ है, केशरी है, महापुण्डरीक है, पुण्डरीक है, यह निपथ है, यह देवकुरु है

नेके लिये पृथ्वीपर आया ॥ ८६ ॥ उस देवने आते ही मुनिराज अजितसेन (जो विद्याधर शांतिमतीकी विद्या-
सिद्धिमें विघ्न कर रहा था) और वायुवेग (शांतिमतीका पिता) के दर्शन किए अतिशय वैराग्यके सम्बन्धसे
घरका त्याग कर संयम धारण करनेसे तथा तपश्चरण और ध्यानसे उन दोनोंको केवलज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त
हुए थे और वह केवलज्ञान उन दोनोंको उसी समय प्राप्त हुआ था । वे दोनों ही सिंह्रासनपर विराजमान थे,
उनपर चमर डुल रहे थे, अनेक प्रकारकी विभूति प्राप्त हो रही थी, प्रातिहार्योंके वीचमें वे विराजमान थे,
असंख्य देवगण उनकी सेवा कर रहे थे, चारों संधोंसे वे सुशोभित थे, अनंत गुण सहित विराजमान थे,
समस्त जीवोंका हितकरनेके लिए वे तत्पर थे, उनकी अनेक प्रकारकी महिमा फैल रही थी, सब इन्द्र मिलकर
उनकी पूजा कर रहे थे, अनन्त सुख उन्हें प्राप्त हो चुका था, और अनेक मुनिराज उन्हें नमस्कार कर रहे
थे ॥ ८७-९१ ॥ उन दोनोंके दर्शनकर वह देव विचार करने लगा कि आश्चर्य, कि कहां तो भयसे व्याकुल
हुआ विध्यांध विद्याधर और कहां देवोंके द्वारा पूज्य तीनों लोकोंके एक सर्वज्ञ देव । कहां तो मेरा बुद्ध पिता
और कहां सब पदार्थोंके एक साथ देखनेवाले केवली भगवान् । संसारमें बड़े पुरुषोंको भी अत्यन्त आश्चर्य
करनेवाली बात है ॥ ९२-९३ ॥ पहिले मुनियोंने वतलाया था कि जीवोंमें अनंत शक्ति है वह भूट कैसे हो
सकती है क्योंकि इससमय वह शक्ति मैंने साक्षात् देख ली ॥ ९४ ॥ इस प्रकार मनमें चिन्तनकर उसने
उन केवलीकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, मस्तक भुकाकर उनको नमस्कार किया और गुण वणन कर उनकी
स्तुति की ॥ ९५ ॥ स्वर्गलोकके द्रव्योंसे बड़ी भक्तिपूर्वक उनकी पूजाकी और आश्चर्य करनेवाले धर्मसे प्रसन्न
होकर वह स्वर्गको चला गया ॥ ९६ ॥ चक्रवर्ती अपने मनमें जिनधर्मको स्थापनकर पुण्यकर्मके उदयसे छहों
शुद्धिओंसे उत्पन्न होनेवाले भोगोंका सदा भोगने लगा ॥ अधानन्तर—चैत्यालयासे सुशोभित स्वेतवर्ण
रुपाचल पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें सुन्दर शिवमन्दिर नामका नगर है ॥ ९८ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे उसमें
मेघवाहन नामका राजा राज्य करता था । उसके विमला नामकी रूपवती और निर्मल स्त्री थी ॥ ९९ ॥ उन
दोनोंके सुवर्णभरणोंसे विभूषित, सती शीलवती और शुभ लक्षणोंवाली कनकमाला नामकी पुत्री थी

॥ १०० ॥ वह सहस्रायुधके पुत्र कनकशांतिने विधिपूर्वक विवाही थी और शुभोदयसे वह उसे स्वयं तरहके सुख देती थी ॥१०१॥ तथा पुण्यकर्माके उदयसे स्वयंकेसार नामके नगरमें जयसेन नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम जयसेना था । उनके बसन्तसेना नामकी पुत्री थी वह भी रूपयान कनकशांतिने विधिपूर्वक विवाही थी और वह उसकी छोटी स्त्री थी ॥ १०२-३ ॥ जिसप्रकार काष्ण रतिसि संतुष्ट होता है उसीप्रकार वह कनकशांति उसके कटाक्षोंसे, हास्यसे, कामसेवासे, दौयलके समान मधुर शब्दोंसे संतुष्ट होता था । शुभकर्माके उदयसे किसी एक दिन वह कनकशांति अपनी स्त्रियोंके साथ कौतूहलसे बुलाए हुएके समान विहार करनेके लिये वनमें गया ॥ ४-५ ॥ जिस प्रकार कन्द मूल फल ढंढनेवालेको निधि मिल जाय उसी प्रकार पुण्यकर्माके उदयसे कुमारने उस वनमें विमलप्रभ नामके मुनिके दर्शन किए । वे मुनिराज ज्ञानकी प्रभासे घिरे हुए थे, पापकर्मारूपी मलसे रहित थे, और सब जीवोंका हित करनेवाले थे, वह बुद्धिमान उनको नमस्कार कर और उनको तीन प्रदक्षिणा देकर उनके समीप बैठ गया ॥ ६-७ ॥ उन मुनिराजने धर्मबुद्धि देकर आशीर्वाद दिया और फिर कृपापूर्वक श्रेष्ठ धर्मका निरूपण करना प्रारम्भ किया ॥ ८ ॥ श्रावकोंका धर्म एक देश है परन्तु वह जीवोंकी दयासे भरपूर और अशुभव्रत शिखाव्रतोंको धारणकर सिद्ध किया जाता है ॥९॥ इसी प्रकार दान पूजा आदिसे भी वह सिद्ध किया जाता है वह धर्म स्वर्ग लोकका देनेवाला है और सन्म्यदर्शन सहित होनेके अनुक्रमसे निर्वाणको सिद्ध करता है ॥ १० ॥ पापरहित श्रेष्ठ संपूर्ण धर्म अत्यन्त कठिन है, उपमा रहित है और मोक्ष प्राप्त होने पर्यन्त कल्याण करनेवाला है उस घर आदि परिग्रहोंका त्याग करनेवाले, और परीषदोंको जीतनेवाले धीरवीर मुनिराज ही तपश्चरण, सन्म्यदर्शन, ज्ञान चारित्र और विनयके द्वारा पालन कर सकते हैं ॥ ११-१२ ॥ जो दीन मनुष्य विषयासक्त हैं और स्त्री आदिसे घिरे हुए हैं वे कभी स्वप्नमें भी श्रेष्ठ मुनिधर्मको धारण नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ इसलिये हे राजन् यहस्था धर्मको छोड़कर तीर्थंकर और गणधरोंके द्वारा सेवनीय तथा सुख देनेवाले मुनिधर्मको शीघ्र धारण कर ॥ १४ ॥ यहस्थ कभी सामायिक आदिके द्वारा धर्म करता है तो कभी घरमें रहनेवाले बहुतसे आरंभ आदिसेकेवल पाप ही करता है तथा कभी चैत्यालय आदि वनाकर पुण्य पाप दोनों करता है । इस प्रकार

श्रावक सदा कर्मोंको बांधता और नष्ट करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ इसलिए बुद्धिमान पुरुषोंको धर छोड़कर अत्यन्त निर्माल, सारभूत, सब चिन्ताओंसे रहित और सब तरहके पाप योगोंसे रहित ऐसा मुनिधर्म धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ सुनिर्धर्मको धारण करनेसे यह जीव इस लोकमें भी देव और चक्रवर्ति योंद्वारा पूज्य हो जाता है फिर भला परलोककी तो बात हो क्या है ॥ कुमार कनकशान्ति भी उन मुनिराजके वचन सुनकर तथा शरीर भोग और संसारसे बिरक्त होकर मुनिराजके धर्मको देनेवाले परम संन्यासीको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ वह विचार करने लगा कि जिनके हृदय विषयोंमें आसक्त हैं ऐसे भजुर्थोंके बहुतरसे दुर्लभ दिन बिना धर्मके व्यर्थ ही चले जाते हैं ॥ २० ॥ जो दिन निकल जाते हैं वे सैकड़ों सुवर्णके खंड देनेपर भी फिर कभी नहीं लौट सकते । इस लिए जबतक वे दिन कुछ बाकी रहें तबतक ही बुद्धिमानोंको अपना हित कर लेना चाहिए ॥ २१ ॥ जिसप्रकार निकके नष्ट होनेपर दरिद्रोंको हाथ ही मलना पड़ता है उसीप्रकार देवसे आयु पूरी हो जानेपर सृष्टिके समय सज्जन लोगोंको हाथ ही मलना पड़ता है ॥ २२ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको बालकपनमें भी धर्म सेवन करना चाहिये क्योंकि यमराज लेनेके लिए कब आजायगा यह किसीको मालूम नहीं है ॥ २३ ॥ जो जीव बालकपनमें कठिन तपश्चरण और चारित्र्य पालन नहीं करता वह पीछे उसका पालन नहीं कर सकता जैसे वृद्धावस्थामें बेल कुछ नहीं कर सका ॥ २४ ॥ इसप्रकार विचारकर दोनों त्रिवर्णोंका और भोग लक्ष्मीका त्याग किया और स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वैराग्य धारणकर दीक्षालक्ष्मी स्वीकार की ॥ २५ ॥ कनकशान्तिके तपश्चरण धारण कर लेनेपर विवेकरूप निर्माल नेत्रोंको धारण करनेवाली उन्न रानियोंने भी शीघ्र ही शरीर भोग और संसारसे वैराग्य धारण किया ॥ २६ ॥ वे दोनों ही अपना कुलकी आई हुई स्त्रियोंके साथ विमलमती नामकी गणिके समीप पहुँची और उनको लप्स्यारकर सबके साथ उहाँने दाँवा धारण की ॥ २७ ॥ इंधर वे कनकशान्ति नामके मुनिराज सदा श्रुत ज्ञानका अभ्यास करने लगे, ध्यानका अभ्यास करने लगे, दोनों प्रकारका कठिन तथा घोर तपश्चरण करने लगे और परिषद्द्वारा जीतने लगे ॥ २८ ॥ वे मुनिराज बलभे, पर्वतपर, किसी पर्वतकी गुफा आदि शून्यस्थानमें और भयंकरसंशान्तोंमें सिंहके समा-

न सदा निर्भय होकर रहते थे ॥ २९ ॥ वे धीर वीर मुनिराज कर्मोंको नाश करनेकेलिये विना किसी प्रमाद-
के जंगल गांव और वन आदिकोंमें अकेले विहार किया करते थे ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपने शरीरसे समस्त
आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हैं और जिनकी बुद्धि विशुद्ध है ऐसे वे धीर वीर मुनिराज किसी एक दिन
सिद्धाचल पर्वतपर कायोत्सर्ग धारण कर विराजमान हुए ॥ ३१ ॥ वहांपर उन निरग्रह मुनिराजको वस्तंतसेना-
के भाई चित्रचूलने देखा । पहिले बंधे हुए वैरके कारण और पाप कर्मके उद्वयसे उन्हें देखते ही क्रोधसे उस-
के नेत्र लाल होगए और उस मौखने उन मुनिराजपर उपसर्ग करनेका विचार किया ॥ ३२-३३ ॥ परन्तु
उसी समय उन मुनिराजके तपश्चरणके प्रभावसे पुण्यवान विद्याधर राजाओंने उसे बलकारा इसलिये वह
पापी असमर्थ होनेके कारण वहांसे भाग गया ॥ ३४ ॥ किसी दूसरे दिन वे मुनिराज अपने योथ्य समयपर
आहारके लिए ईर्ष्यापथ शुद्धिसे रत्नपुर नामके नगरमें पहुंचे ॥ ३५ ॥ वहांपर जिसका शरीर श्रेष्ठधर्मसे वि-
भूषित होरहा है ऐसे राजा रत्नसेनने उनका पङ्गाहन किया उन्हें नमस्कार किया और निधि पानेके समान
वह प्रसन्न हुआ ॥ ३६ ॥ उन कनकशांति मुनिराजके लिए उस राजाने दाताके सातों गुणोंसे परिपूर्ण होकर
नवधा भक्तिसे विधिपूर्वक मन वचन कायका शुद्धकर बड़ी भक्तिसे प्रासुक नूर, चिकना, रसीला, धर्मको
बढ़ानेवाला और कृतादि दोषोंसे रहित शुद्ध आहार दिया ॥ ३७-३८ ॥ उसी समय उपार्जन किए हुए
पुण्यके प्रभावंसे राजाके घर देवोंने रत्नबुद्धि आदि उत्तम पंचाश्वर्य किए ॥ ३९ ॥ देखो ! मुनियोंके दान
देनेसे जब इस लोकमें ही अनेक तरहकी संपत्ति मिल जाती है फिर भला परलोकमें भोगकाय और देवोंकी
संपदा क्यों नहीं मिल सकती ॥ ४० ॥ जिसप्रकार बुद्धिमान लोग सोने और रत्नोंके थोड़ेसे व्यापारसे बहुत-
तसी लक्ष्मी कमा लेते हैं उसीप्रकार सत्याश्रितोंको थोड़ासा दान देकर भी यह मनुष्य इस लोक और परलोक
दोनों लोकोंमें सुखोंसे भरे हुए समुद्रके समान श्रेष्ठ पुण्य उपार्जन करता है ॥ ४१-४२ ॥ किसी एक दिन
वे मुनिराज यात्रिया कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेके लिए सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायाग धारण कर
विराजमान हुए ॥ ४३ ॥ उनका देखकर वही चित्रचूल क्रोधरूपी अग्निसे जाडवल्यमान होगया और पाप

॥ ६५ ॥ वहाँके सुनिगण निर्ममत्वकी प्राप्ति करनेके लिए और भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए प्रत्येक गांव खेट और नगरमें बिहार किया करते हैं ॥ ६६ ॥ वहाँपर पुण्यवान, दानी जिनपूजा करनेमें तत्पर और सदा श्रावकोंके विभूषित करनेवाले गृहस्थ ही निवास करते हैं ॥ ६७ ॥ देवांगनाओंके समान वहाँकी चतुर स्त्रियां दान देनेवाली हैं, शील पालन करनेवाली हैं, धर्म धारण करनेवाली हैं तथा रूपवती और लावण्यवती हैं ॥ ६८ ॥ उत्तम नरेशका शासन होनेसे वहाँकी प्रजाको चोर आदिका कुछ भय नहीं है अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए बहुतसे सुखको सदा भोगती रहती है ॥ ६९ ॥ कर्मके प्रभावसे वहाँके लोगोंके पास अनेक प्रकारकी लक्ष्मी है वे दान पुण्यमें सदा तत्पर रहते हैं और सदा उत्सव मनाते रहते हैं ॥ ७० ॥ वहाँपर उत्पन्न हुए कितने ही लोग दानके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं और कितने ही तपश्चरणके प्रभावसे स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ तथा कितने ही भव्य जीव चारित्र्य धारण कर और कर्मसमूहको नाश कर वन्धनरहित हो जानेके कारण मोक्षमें ही जा बिराजमान होते हैं ॥ २ ॥ वहाँपर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसी निर्वाण भूमियां हैं जो पुण्य कर्मोंकी जननी हैं और मुनियोंकेलिये वसतिकेके समान हैं ॥ ३ ॥ उस देशमें केवलज्ञानी भी धर्म वृद्धिकेलिये चारों संघोंके साथ, देवों सहित लोगोंकी इच्छानुसार विचार करते हैं ॥ ४ ॥ इत्यादि वर्णन करने योग्य उस देशमें मध्यभागमें नाभिके समान हस्तिनापुरी नामकी एक नगरी है जो कि स्वर्गपुरीके समान शोभायमान है ॥ ५ ॥ ऊंचे को, ५, और ऊंचे दरवाजोंसे तथा खाई और आटारियोंकी पंक्तियोंसे वह नगरी शोभायमान है और उसे शत्रु भी कभी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ राज-भवनोंकी शिखर पर फहराती हुई ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती है मानों पुण्यवान देवोंको धर्म साधन करनेके लिये ही बुला रही है ॥ ७ ॥ उत्तम पदार्थोंसे भरे हुए राजमार्ग ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो सुन्दर चारित्र्यवालोंसे चलता हुआ स्वर्ग मोक्षका मार्ग ही हो ॥ ८ ॥ उस नगरीमें मुनि और गृहस्थोंके द्वारा श्राजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ अहिंसारूप धर्म ही प्रतिदिन धारण किया जाता है ॥ ९ ॥ वहाँपर इस लोक तथा परलोक संबंधी कार्योंमें मंगल कार्योंमें तथा भोजन प्राप्त करनेके लिए गृहस्थोंके द्वारा श्रौतीर्थंकर ही माने

जाते हैं और वे ही पूजे जाते हैं ॥१०॥ उस नगरीके जन्तुरहित वनोंमें ध्यानादिक की सिद्धिके लिए इच्छा-रहित योगी चतुर श्रुति निवाल्न किया करते हैं ॥ ११ ॥ कोटसे, तोरणोंसे, मनोहर धर्मोपकरणोंसे, शिखरों-पर लगी हुई ध्वजाओंके समूहसे, गीत नृत्य बाजे, सैकड़ों स्तोत्रोंके शब्द, और धर्मार्त्ता स्त्री पुरुषोंके द्वारा वहंके जिनमन्दिर धर्मके सागरके समान उत्तम जान पड़ते हैं ॥ १२-१३ ॥ धुले हुए वस्त्र पहने, हाथमें पूजा-की सामग्री लिए जिनमन्दिरोंकी ओर जाती हुई वहां की स्त्रियां देवांगनाओंके समान जान पड़ती हैं ॥ १४ ॥ कितनी ही रूपवती स्त्रियां भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर घरकी आती हुई अप्सराओंके समान शोभायमान होती हैं ॥ १५ ॥ रूप लावण्यसे सुन्दर दिखनेवाली कितनी ही स्त्रियां जिन मन्दिरमें गीत नृत्य करती हुई किन्नरियोंके समान अच्छी जान पड़ती हैं ॥ १६ ॥ वहांके रहनेवाले शहरथ सवेरे ही चारपाईंसे उठ कर सदा जप सामायिक आदि धर्म ध्यान किया करते हैं ॥ १७ ॥ पात्रदान देनेमें तत्पर रहनेवाले सब दानी शहरथ, मुनियोंको दान देनेके लिये द्रो पहरके समय द्वारापेक्षा किया करते हैं ॥ १८ ॥ दृढ़वती वे पुरुष संन्यायके समय प्रतिदिन पंच नमस्कार मंत्रका जप किया करते हैं रामायिक किया करते हैं और कायोत्सर्ग किया करते हैं ॥ १९ ॥ धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले वहांके पुरुष सोच प्राप्त करनेके लिये अष्टमी और चतुर्दशीके दिन वरसंन्यधी सब आरम्भ छोड़कर प्रोषधोपवास किया करते हैं ॥ २० ॥ वहांके स्त्री पुरुष सब धर्म पालन करनेकेलिये शहरथोंके योग्य सब वतोंका पालन करते हैं और सब शीलवतोंको पालन करते हैं ॥ २१ ॥ वहांके रहनेवाले धर्मार्त्ता हैं, दानी हैं, सुन्दर हैं, धीर वीर हैं शीलवतोंको पालन करनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं और सम्यग्दृष्टी हैं ॥ २२ ॥ पुण्य कर्मके उदयसे वहांकी स्त्रियां रूपवती हाव भाव आदिमें चतुर लावण्यरूपी समुद्रकी बेलके समान जान पड़ती हैं ॥ २३ ॥ उस शहरके मध्यभागके उत्तरी ओर उत्तम राजमन्दिर है वह राजमन्दिर पर्वतके शिखरके समान बहुत ऊंचा है, कोट दरवाजे आदिसे शोभायमान है, बहुत बड़ा है, परिवार और सेवकोंसे भरा है, सुन्दर है, अनेक सिद्धियोंसे सुशोभित है, आवाज और बाजोंके सैकड़ों शब्दोंसे व्याप्त है, और उसमें सब आवश्यक पदार्थ

यथा स्थानपर रखवे हुए हैं। उसके चारों ओर और भी छोटे छोटे सफेद भवन हैं जो ऐसे जान पड़ते हैं मनों चन्द्रमाके चारों ओर तारे ही हों ॥ २४-२६ ॥ उस राजधानीमें समस्त शत्रुओंको जीतनेवाले और काश्यप गोत्रमें उत्पन्न हुए महाराज अजितसेन राज करते थे ॥ २७ ॥ उनकी रानीका नाम प्रियदर्शना था वह बड़ी ही सुन्दरी थी, अनेक गुणोंसे सुशोभित थी और बाल चन्द्रमा आदि शुभ स्वप्नोंको देखनेवाली थी ॥ २८ ॥ उन दोनोंके पुराण कर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गसे आकर अनेक श्रेष्ठ गुणोंके सागर ऐसे विश्वसेन नामके पुत्र हुये थे ॥ २९ ॥ वे महाराज विश्वसेन तीन ज्ञानधारी थे, अनेक राजा उनके चरण कमलोंकी सेवा करते थे, और धर्मात्मा तथा ज्ञानी गुरुओंकी वे विनय करते थे ॥ ३० ॥ भगवान तीर्थंकरके वे भक्त थे, लोगोको प्रिय दाता थे, और कुटुम्बी लोगोको सुख देते थे ॥ ३१ ॥ वे राज्यका सब भार धारण करते थे, बड़े सुन्दर थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानो विज्ञान सहित थे, बुद्धिमान थे, और विद्वान थे ॥ ३२ ॥ उन्हें अनेक ऋद्धियां प्राप्त थीं वे बड़े वक्ता थे उनको कीर्ति तीनों लोकोंमें फैली हुई थी तीनों लोकोंमें वे प्रसिद्ध थे और देव मनुष्य विद्याधर सब उनकी सेवा करते थे ॥ ३३ ॥ सुकुट कुंडल हार अंगद केशूर कंकण आभूषणोंसे तथा दिव्य माला और वस्त्रोंसे वे महाराज इन्द्रके समान शोभायमान थे ॥ ३४ ॥ अथानन्तर गांधार देशके गांधार नगरमें धर्मके प्रभावसे श्रीमान् महाराज अजितंजय राज्य करते थे ॥ ३५ ॥ उनकी सौभाग्यशालिनी रानीका नाम अजिता था। उन दोनोंके सनत्कुमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी ॥ ३६ ॥ यौवन अग्रस्थामें उस रूपवती सुन्दरका विवाह विवाहविधिसे महाराज विश्वसेनके साथ हुआ था ॥ ३७ ॥ वह महादेवी महाराज विश्वसेनकी पहरानी थी, उनकी बहुत प्यारी थी, सब लोग उसे मानते थे और लावण्यरसकी वह कुई थी ॥ ३८ ॥ समस्त सुन्दर अंग प्रयगोंको धारण करनेवाली वह रानी रूप लावण्य, कांति, लक्ष्मी, बुद्धि, दीप्ति और विभूतिसे प्रतिदिन इन्द्रानीके समान शोभायमान थी ॥ ३९ ॥ वह अपनी कांतिसे चन्द्रमाकी कलाके समान लोगोंको आनन्द देती थी और ऐसी जान पड़ती थी यानों देवांगनाओंके रूपका सार लेकर ही बनाई हो ॥ ४० ॥ वह मनोहर थी, मनोज्ञ थी, सरस्वतीके समान

लोगों को प्यारी थी, विज्ञानमें कुशल थी, चतुर थी, कलाओं की जानकार थी, उसका मुख सदा प्रसन्न रहता था और स्वर उनका बहुत ही मीठा था ॥ ४१ ॥ धर्मके कामोंमें चलते समय सुन्दर लक्षणों से सुशोभित हुए उसके दोनों चरण ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों अशोक वृक्षके पत्ते ही हों ॥ ४२ ॥ वे चरण मणियोंके बने हुए विछुओंके भंकारोंसे शब्दापमान थे, देव उनकी सेवा करते थे वे बड़े कोमल थे और नखरूपी चन्द्रमासे प्रणट हुईं सैकड़ों किरणोंसे वे व्याप्त थे ॥ ४३ ॥ केलेके खंभेके समान उसके जंघा बहुत ही अच्छे जान पड़ते थे और कांची देशके बने हुए शालसे ढका हुआ उसका कटिभंडल बहुत ही सुन्दर जान पड़ता था ॥ ४४ ॥ उसका हृदय यौवनकी लक्ष्मीके घरके दो स्तन कुम्भोंसे शोभायमान था और उसपर पड़ा हुआ दिव्य हार बहुत ही सुशोभित होता था ॥ ४५ ॥ उसके दोनों हाथ कंकणोंसे शोभाव्यमान थे भगवानकी सेवा करनेमें तत्पर थे कमलोंकी जीतते थे और बड़े ही मनोहर थे ॥ ४६ ॥ उसका कंठ गीत स्वर, और कंठाभरणसे सुशोभित था, कोमल था, मनोहर था और पुत्रके आलिंगन करनेमें तत्पर था ॥ ४७ ॥ उसके मुखकी कांति चन्द्रमंडलके समान तथा सरस्वतीके घरके समान वह संसारमें शोभायमान था ॥ ४८ ॥ उसके दोनों कान श्रुतज्ञानसे सुशोभित थे और श्रुतदेवताकी पूजन सामग्रीके समान कानोंमें पहने हुए आभरणोंकी रचनासे बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४९ ॥ उसके नेत्र स्निग्ध थे, मनोहर थे, किञ्चन विलाससहित थे, भगवानका मुख देखनेकेलिये लाजायित थे और कज्जलसे शोभायमान थे ॥ ५० ॥ उसका मस्तक भौराके समान काले बालोंसे सुशोभित था, पुष्पगंध आदिसे सुगंधित था और देव शुकको ही नमस्कार करता था ॥ ५१ ॥ पुण्य संपत्ति ही उसकी जननी थी लज्जा ही उसकी सखी थी और गुण ही उसके परिजन थे ॥ ५२ ॥ वह दिव्य वस्त्र पहने हुए थी उसमें शृङ्गार रचनासे सुशोभित थी और ऐसी जान पड़ती थी मानों ब्रह्माने (नाम कर्मने) कोमल और मनोहर परमाणुओंसे ही बनाई ही ॥ ५३ ॥ इस संसारमें कविश्योंके जो कुछ उत्तम लक्षण वर्णन किए हैं वे उसके शुभ शरीरमें सब विद्यमान थे ॥ ५४ ॥ हमलोग वीतराग हैं इसलिए हमने वे सब लक्षण नहीं कहे हैं क्योंकि शृङ्गारकी पुष्टि

पालन करनेसे, पौषधोपवास करनेसे और परोपकार करनेसे प्रकट होता है ॥ ३ ॥ जो जीव मन वचन कायसे सुखके सागर एक धर्मका ही पालन करते हैं वे श्रीशांतिनाथ भगवानके समान स्वर्ग और मनुष्योंके महासुख भोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें धर्म ही स्वर्गके सुख देनेवाला है और गुण प्रकट करनेवाला है, इस धर्मका आश्रय मुनिराज ही लेते हैं क्योंकि धर्मसे ही यह पुरुष संसार समुद्रमें पार होता है इसीलिये मैं धर्मके लिए ही सदा नमस्कार करता हूँ । धर्मके सिवाय अन्य कोई मोक्षका कारण नहीं है । धर्मकी जड़ सम्यग्दर्शन है, इसलिये मैं अपने मन वचन काय धर्ममें ही धारण करता हूँ । हे धर्म इस संसारमें अशुभ मोहसे भरो रक्षा कर ॥ ५ ॥ भगवान शांतिनाथ समस्त पापोंकी शांति करनेवाले हैं, धर्मात्मा जीवोंके शरण हैं और संसार काम आदिके संतापसे संतप्त हुए जीवोंके समस्त दुख दूर करनेवाले हैं ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको मैं समस्त दुख और पाप नष्ट करनेके लिये तथा समस्त व्यसन शांति करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

इसप्रकार श्रीशांतिनाथ पुराणमें अहमिन्द्रके गर्भावतरणको करनेका वारहवार अधिकार समाप्त ॥ १२ ॥

अथ तेरहवां अधिकार ।

अथानन्तर—वह मंगल करनेवालो ऐसा महादेवी जगानेके लिये वज्रते हुए तुरई आदि बाजे सुनकर जगी और बंदी लोगोंके मंगल, गीत सुनने लगी ॥ २ ॥ बंदीजन कहने लगे कि हे देवी ! आपके सामने यह जगनेका समय आ गया है क्योंकि यह प्रातःकालका समय धर्म ध्यानके योग्य है ॥ ३ ॥ इस योग्य समयमें कितने ही जैती मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चंचल योगोंका निरोध कर सुख देनेवाला उत्तम सामायिक करते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही लोग धर्म साधन करनेके लिये एकाग्रचित्तसे समस्त विघ्नोंको दूर करनेवाले पंच परमेषियोंके वाचक उत्तम नमस्कार मंत्रोंका जप करते हैं ॥ ५ ॥ मोक्षरूपी स्त्रीमें आसक्त हुए कितने ही लोग चारपाईसे उठकर मनको रोककर कर्मोंका नाश करनेवाला अरहंतोंका ध्यान करते हैं ॥६॥ इस समय

कितने ही धीर वीर मुनि केवल मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए शरीरसे ममत्त्व छोड़कर संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये जहाजके समान कायोलसर्ग धारण करते हैं ॥ ७ ॥ इस प्रातःकालके समय कितने ही लोभ कामप्रिय यह संसार अनिष्ट है इसी बातको लोगोंके सामने बतलाता हुआ चन्द्रमा अस्ताचलके सरभुज हो गया उसकी किरणें भी मन्द पड़ गई हैं और कांति भी मन्द पड़ गई है ॥ ८ ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके शुभ कर्मल प्रफुलित हो रहे हैं ॥ १० ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके वचनोंसे अभव्य जीवोंका हृदय कमल संकुचित हो जाता है उसीप्रकार इस प्रातः कालके समय सूर्यके संबंधसे ऋषुदितियोंका समूह संकुचित हो गया है ॥ ११ ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके वचनोंसे अज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार प्रातः कालके सूर्योदय होनेसे रात्रिका अन्धकार सब नष्ट हो गया है ॥ १२ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? पापोंको शांत करनेके लिये रात्रि व्यतीत हो गई है और रात्रिके व्यतीत होनेसे बहुतसे लोभ धर्मध्यातमें लग गये हैं ॥ १३ ॥ इसलिये हे देवि अब श्रीप्रही शय्या छोड़िये और इस प्रातः कालके समय स्तोत्र स्मरण कर धर्मका सेवन कीजिये ॥ १४ ॥ हे सुमङ्गले ! इसी धर्मके सेवन करनेसे तू इसलोकमें इंद्राणी आदिसे उत्पन्न हुए और परलोकमें स्वर्गादि-कोसे उत्पन्न हुए मंगलोंको (कल्याणोंको) प्राप्त होगी ॥ १५ ॥ वह सती महादेवी पहिलेसे ही जग रही थी तो भी बन्दीजनोंने उसे ऊपर लिये अनुसार प्रबोधित किया उस समय महादेवीका मुख कमलिनिके समान स्वर्णोंके देखनेसे प्रफुलित हो रहा था ॥ १६ ॥ वह शय्यासे उठी और समस्त मङ्गल कार्योंकी सिद्धि-केलिये धर्मका कारणभूत भगवानका स्मरण करने लगी ॥ १७ ॥ उसने समस्त पुण्यकर्मके लिये, स्वानादिक-नित्य कर्म किया ब्रह्माभरण पहने और फिर वह चलती हुई कल्पवेलके समान निकली, उस समय सफेद-छत्रसे वह शोभायमान हो रही थी जिनवाणीके समान लोगोंको प्रिय थी, चारों ओर परदा आदि ढालकर अपना महोदय प्रगट कर रही थी, और जिसप्रकार चन्द्रमाकी रेखा रात्रिमें प्रवेश करती है उसी प्रकार

की कामाग्नि स्त्रियोंपर प्रेम करनेसे और अधिक बढ़ती है ॥ ७२ ॥ जिसप्रकार अग्नि जलसे ही शान्त होती है उसी प्रकार अनेक अनर्थोंको उत्पन्न करनेवाली मनुष्योंकी कामरूपी अग्नि ब्रह्मचर्यरूपी जलसे ही शान्त हो सकती है ॥ ७३ ॥ मनुष्योंके हृदयमें जबतक कामरूपी अग्नि जलतो रहती है तबतक उस हृदयमें चारित्र्य तप ध्यानरूपी वृद्ध किस प्रकार जम सकते हैं ? ॥ ७४ ॥ मनुष्योंको विषयोंसे उत्पन्न हुए सुख विषसे भी घोरतर विष हैं क्योंकि विष तो एक ही जन्ममें मनुष्योंके प्राण लेता है दूसरे भवमें नहीं परन्तु विषयोंसे उत्पन्न हुआ महा निध्न सुखरूपी विष मनुष्योंको जन्म जन्ममें नरक तिर्यचके अनेक दुख देता है ॥ ७५-७६ ॥ पापकी ओर ले जानेवाले ये सब भोग सर्पसे भी महादुष्ट हैं क्योंकि सर्प तो इसी भवमें प्राणोंका हरण करता है परलोकमें नहीं परन्तु अनन्त दुख और क्लेश देनेवाले ये भोग नरकादि दुर्गतियोंमें अनन्त भवोंतक प्राणियोंके प्राणोंका हरण किया करते हैं ॥ ७७-७८ ॥ जबतक मनुष्योंकी आशा सांसारिक सुखोंसे बनी हुई है तबतक उनको मोक्षसुख किस प्रकार मिल सकता है ? ॥ ७९ ॥ समस्त दुखोंके कारण ये भोग रोगोंसे भी अधिक शत्रु हैं क्योंकि रोग तो मनुष्योंको थोड़े दिन तक ही दुख देते हैं परन्तु ये दुष्ट और नीच भोग प्राणियोंको चारों गतियोंमें बहुतसे दुख, शोक, भय, क्लेश, अपयश और पाप दिया करते हैं ॥ ८०-८१ ॥ जिनका हृदय भोगोंमें आसक्त है वे अशुभ कर्मोंसे ठगे हुए जीव अकेले ही सब प्रकारके दुख देनेवाले अनादि संसाररूपी मार्गमें सदा परित्रसण किया करते हैं ॥ ८२ ॥ जो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पहिले मोक्षमें जा चुके हैं वे केवल तपश्चरणसे ही गये हैं और भोगादिकोंको छोड़कर ही गए हैं ॥ ८३ ॥ जो सत्पुरुष इस संसारमें अब मोक्ष जायेंगे भोगोंको त्यागकर चारित्र्यका पालन करनेसे ही जायेंगे ॥ ८४ ॥ यही समझ कर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको कर्मोंका नाश करने और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये रोग सर्प और शत्रुके समान सबसे पहिले इन सब भोगोंका त्याग करना चाहिये ॥ ८५ ॥ बिना दीक्षा धारण किये तीर्थंकरोंको भी सदा रहनेवाली मोक्ष कभी नहीं होती है यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही वह दीक्षा धारण कर लेनी चाहिये ॥ ८६ ॥ इस प्रकार बहुत

तरहसे चिंतनकर महाराज मेघरथ वैराग्यको प्राप्त हुए और दीक्षा लेनेकी इच्छा रखते हुए उन्होंने अपने
 पूज्य पिता तीर्थंकरको नमस्कार किया ॥ ८७ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वे अपने हृदयमें अनित्य अश्रुण
 आदि बारह अनुप्रेक्षाओंका चिंतन करने लगे और अनेक राजाओंके साथ अपने घर पहुंचे ॥ ८८ ॥
 स्वयं संयम धारण करनेके लिये वे महाराज मेघरथ अपने छोटे भाई दृढरथसे कहने लगे कि हे भाई !
 आज तू समस्त विभूतिके साथ इस राज्यको स्वीकार कर ॥ ८९ ॥ इसके उत्तरमें मोक्षकी इच्छा रखनेवाला
 वह दृढरथ कहने लगा कि हे भाई ! मेरी बात सुनिये, यदि राज्य अच्छा है तो फिर आप ही इसे क्यों
 छोड़ते हैं ॥ ९० ॥ पापोंको उत्पन्न करनेवाला राज्यका जो दोष आपने देखा है वही दोष बुद्धिके बलसे
 मैंने भी विशेष रीतिसे देख लिया है ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार वड़े पुरुष इस संसारमें वसन क्रिये हुए आहार
 को इच्छा नहीं करते हैं उसीप्रकार आपके द्वारा छोड़े हुए राज्यको मैं भी कभी नहीं भोग सकता ॥ ९२ ॥
 दीक्षा धारण करनेके लिये वह राज्य ग्रहण करके भी तो फिर छोड़ना पड़ेगा इसलिये तपश्चरण करने वा-
 लोंको पहिलेसे ही इसका ग्रहण न करना सबसे अच्छा है ॥ ९३ ॥ क्या आपसे डरनेवाले बुद्धिमान विवेकी
 पुरुष पहिले अपने शरीरको कीचड़में लपेटकर फिर स्वयं स्नान करते हैं ॥ ९४ ॥ इसलिये मैं मोक्ष प्राप्त
 करनेके लिए चिरकालसे आए हुए मोहको नाशकर आज आपके साथ ही पापोंको नाश करनेवाले उत्तम
 संयमको धारण करूंगा ॥ ९५ ॥ तब महाराज मेघरथने अपने छोटे भाईको राज्यसे परदुःख जानकर
 अपने पुत्र मेघनादको विधिपूर्वक राज्य दिया ॥ ९६ ॥ फिर शीघ्र ही वे मोक्ष प्राप्त करनेके लिए बड़ी विभूति,
 सहित अनेक राजा और छोटे भाईके साथ प्रसन्न होकर अपने पिता घनरथ तीर्थंकरके समीप पहुंचे ॥ ९७ ॥
 वहां जाकर उन्होंने बड़ी भक्तिसे मस्तक झुकाकर तीर्थंकरको नमस्कार किया और जिनवाणीके अनुसार
 मन बचन कायसे बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग किया ॥ ९८ ॥ इसप्रकार महाराज मेघरथने मोक्ष प्राप्त
 करनेके लिए सात हजार राजाओंके साथ और छोटे भाईके साथ देवोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा धार-
 ण की ॥ ९९ ॥ इसप्रकार महाराज मेघरथने पुण्य कर्मके उदयसे तीर्थंकरकी कही हुई जिनमुद्रा धारण की

थी और वे सबको बांटकर (सबको धर्मोपदेश देते हुए वा दूसरोंसे चारित्र पालन कराते हुए) निर्मल चारित्रसे उत्पन्न हुये धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंके सारभूत सुराज्यका (मुनि अवस्थाका) प्रतिदिन अनुभव करते थे ॥ ३०० ॥ महाराज मेघरथको धर्मके प्रभावसे ही अमुक राजा जिसकी सेवा करते हैं और जो सुखका घर है ऐसा राज्य प्राप्त हुआ था, धर्मके ही प्रभावसे चंद्रमाके समान निर्मल रागरहित चारित्र धारण किया था और धर्मके ही प्रभावसे उन्हें ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त हुआ था यही समझकर विद्वान् लोगोंको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए पापोंको नाश कर परंपरासे सुख देनेवाले धर्मको ही सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ३०१ ॥ यह धर्म संसारमें सब जीवोंका हित करनेवाला है, विद्वान् लोग धर्मका ही पालन करते हैं, धर्मसे ही सब प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं, उसी धर्मको मैं सिद्धपद प्राप्त करनेकेलिए नमस्कार करता हूं धर्मके सिवाय असंख्यात गुण देनेवाला मित्र इस संसारमें और कोई नहीं है, धर्मकी जड़ दिया है इसलिये मैं अपना चित्त धर्ममें ही लगाता हूं, हे धर्म ! संसारके भयसे मेरी रक्षा कर ॥ ३०२ ॥ भगवान् शान्तिनाथ इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं, ज्ञानी पुरुष शान्तिनाथका ही आश्रय लेते हैं, संसारी जीवोंको मोक्ष को प्राप्ति श्रीशान्तिनाथ भगवानसे ही होती है, इसलिये मैं शान्ति प्राप्त करनेके लिये भगवान् शान्तिनाथको ही नमस्कार करता हूं । भगवान् शान्तिनाथसे हो यह मोक्ष मार्ग सदा वृद्धिको प्राप्त होता रहता है, श्रीशान्तिनाथके अनंत गुण हैं, इस संसारमें मेरी आत्मा श्रीशान्तिनाथमें ही निवास करती है, हे शान्तिनाथ भगवान् आप मेरे समस्त पापोंके समूहको शांत कीजिये ॥ ३०३ ॥

इसप्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराणमें महापान मेघरथके वैराग्य प्रगट होने कीक्षा धारण करनेवाला यह प्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ॥११॥

बारहवां अधिकार ।

मैं अपने अशुभ कर्मोंको शांत करनेकेलिये संसारमात्रको शांत करनेवाले, समस्त पापोंको शांत करनेवाले और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव इन तीनों पदोंसे सुशोभित श्रीशान्तिनाथको नमस्कार करता हूं

॥ १ ॥ अथानन्तर—मुनिराज मेघरथ छह प्रकारके बाह्य तपश्चरण करने लगे और लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाला छह प्रकारका उत्कृष्ट अभ्यंतर तपश्चरण सदा पालन करने लगे ॥ २ ॥ यह बारह प्रकार तपश्चरण जो मुनिराज मेघरथने पालन किया था उसे मैं अपनी शक्तिके अनुसार संक्षेपसे वर्णन करता हूँ ॥३॥ अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्षशय्यासन. कायकेश, यह छह प्रकारका बाह्य तपश्चरण कहलाता है यह तपश्चरण अभ्यंतर तपश्चरणका कारण है ॥ ४-५ ॥ अनन, पान, खाद्य, स्वाद्य, इन चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन (उपवास) तप कहलाता है ॥ ६ ॥ तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी भूलसे कुछ कम आहार लेना अवमोदय तप है, यह अवमोदय तप अनेक प्रकारसे होता है ॥७॥ मैं आहार लेनेके लिए एकही घर जाऊंगा अथवा एक ही गलीमें जाऊंगा अथवा चौराये तक जाऊंगा, इसप्रकार विलक्षण नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है यह तप आशाका सर्वथा नाश करता है ॥ ८ ॥ इन्द्रियोंको वश करनेके लिए दूध, दही, घी, तेल, सीठा आदि रसोंका त्याग करना रस परित्याग तप है ॥ ९ ॥ पशु, पक्षी, स्त्री आदिसे रहित गुफा आदि एकांत स्थानमें शयन आसन करना विविक्षशय्यासन तप है ॥ १० ॥ व्युत्सर्गके द्वारा अथवा वृक्षके नीचे आतापन योग धारण कर विद्वानोंके द्वारा जो दुख सहन किया जाता है उसे कायकेश तप कहते हैं ॥ ११ ॥ अब अतरंग तपका वर्णन करते हैं—प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान यह छह प्रकारका अन्तरंग तप कहलाता है ॥ १२ ॥ पापोंका नाश करनेवाला आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, कायोत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, और श्रद्धान यह दश प्रकारका शुद्ध करनेवाला प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ १३-१४ ॥ बुद्धिमानोंको ज्ञान दर्शन चरित्र तप मुनि आदि गणधरोंकी मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक विनय करनी चाहिये ॥ १५ ॥ कर्मोंको नष्ट करनेके लिए सज्जनोंको आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैच्य, ग्लान, गण, कुल, संघ साधु और मनोह इन दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा सुश्रुषा कर वैयावृत्य करना चाहिये । यह वैयावृत्य ही गुणोंका समूह है ॥ १६-१७ ॥ इन्द्रियोंको दमन करनेके लिए मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक वाचना, पृच्छना, अनुपूर्वा,

था, उनका उदर अत्यन्त कृश हो गया था, शरीरके अंग उपांग सूख गए थे और नेत्ररूपी कमल अत्यन्त गहरे हो गए थे ॥ १० ॥ महाक्षमाको धारण करनेवाले वे मुनिराज महा वैर्य धारणकर और प्रसन्न चित्त होकर लुधा तुषा आदि सब परिपर्णोंको जीतते हुए विराजमान थे ॥ ११ ॥ उन्होने क्रोधका नाशकर महा-
लमा धारण की थी, कठिनताको छोड़कर मार्दव धारण किया था, मायाका नाशकर आर्जव धारण किया था और अधिक बोलनेका त्यागकर सत्यधर्म धारण किया ॥ १२ ॥ लोभको छोड़कर शौच धर्म धारण किया था, प्रमादका त्यागकर संयम तप त्याग धारण किया था, शरीरसे ममत्व छोड़कर आर्किचन्य धर्म धारण किया था और ब्रह्मचर्यके सब दोषोंको नष्टकर दृढ ब्रह्मचर्य धारण किया था । इसप्रकार वे मुनिराज अपने मनमें शरीर, सवारो, लक्ष्मी, धर, राज्य, भोग आदि पदार्थोंमें तथा संसारमें सदा अनित्यता का चिंतवन किया करते थे ॥ १५ ॥ इस जीवकों सिवाय धर्मके और कोई भी व्याधि, जन्म, जरा, मरण, दुख, शोक आदिसे वचनेवाला नहीं है इसप्रकार वे सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अनादि संसाररूपी वन महाभयानक है, घोर है और अनेक दुखोंसे भरा हुआ है इसमें यह प्राणी पंच परावर्तनोंके द्वारा सदा परिभ्रमण किया करता है इसप्रकार वे अपने मनमें सदा चितवन किया करते थे ॥ १७ ॥ यह जीव संसाररूपी समुद्रमें पुरापपापके फल सुख दुखको अकेला ही अनेक प्रकारसे भोगा करता है सुख दुखके वादनेमें कोई साथी वा मित्र नहीं है इसप्रकार भी वे चितवन किया करते थे ॥ १८ ॥ यह आत्मा शरीरसे सर्वथा भिन्न है फिर भला वह अन्य पदार्थमें मिलकर एक कैसे हो सका है इसप्रकार वे मुनिराज अपने हृदयमें सदा स्मरण किया करते थे ॥ १९ ॥ यह अपना शरीर सब दुखोंकी खानि है, अपवित्र है और अशुद्ध पदार्थोंका मन्दिर है ऐसा यह शरीर कर्माशुद्ध नहीं हो सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा इसप्रकार भी वे मुनिराज विचार करते थे ॥ २० ॥ जिसप्रकार जलके आनेसे समुद्रमें नाव डूब जाती है उसीप्रकार कर्मोंके आनेसे यह प्राणी संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है इसप्रकार भी वे अपने हृदयमें चितवन करते

थे ॥ २१ ॥ जिसप्रकार उस आते हुए पानीके रोक देनेसे वह नाव अपने द्विपको अच्छी तरह पहुँच जाती है उसीप्रकार कर्मोंके संवर होनेसे यह जीव मोक्षमें जा विराजमान होता है । इसप्रकार भी वे अपने हृदयमें धारण करते थे ॥ २२ ॥ जिसप्रकार अजीर्ण रोगसे दुखी मनुष्य मलके निकल जानेसे सुखी होता है इस-
 और सदा दुखसे भरा हुआ है और नित्य तथा अनित्य दोनों स्वरूप है इसप्रकार वे हृदयमें धारण करते थे ॥ २४ ॥ इस जीवको मनुष्य जन्म अच्छा कुल, निरोग शरीर पूरी आयु और उत्तम धर्मकी प्राप्ति उत्त-
 रोत्तर दुर्लभ है इस प्रकार भी वे हृदयमें चिंतवन करते थे ॥ २५ ॥ धर्म हिसासे रहित है, सबतरहके सुख देनेवाला है, मुक्तिका कारण है और तूमा मादंव आदिके भेदसे दश प्रकारका है इसप्रकार भी वे मुनिराज अपने हृदयमें धारण करते थे ॥ २६ ॥ इसप्रकार अनुपेक्षाओंका चिंतवन करनेसे उनका वैराग्य दूना हा गया था और परलोकमें समस्त कार्य करनेवाला निवेक उनके हृदयमें जाडवलयमान होगया था ॥ २७ ॥ वे मुनि-
 राज मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक आज्ञाविचय अप्रायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय, यह चारों प्रकार का धर्मध्यान धारण करते थे ॥ २८ ॥ उन मुनिराजने वैराग्यसे सुगंधित हुए अपने मनसे सब संकल्प वि-
 कल्प छोड़ दिये थे, और प्रमादको छोड़कर कर्मोंको नाश करनेवाली श्रेणी आरोहण की थी ॥ २९ ॥ वे धीरवीर मुनिराज सुखके सागर, कर्मरूपी ईंधनको जलानेके लिये अग्नि और दुखरूपी दावानलके लिये भेष के समान प्रथम शुद्धध्यानका चिंतवन करते थे ॥ ३० ॥ उन मुनिराज नेधरथने अपने भाईके साथ उस प्रथम शुक्लध्यानसे अशुभ कर्मोंका नाशकर उत्तम धर्मका संपादन किया था ॥ ३१ ॥ उन मुनिराजने अति-
 चार रहित स्वर्ग मोक्ष देनेवाली चारों आराधनाओंका विधिपूर्वक आराधन किया था ॥ ३२ ॥ तथा वे उस आराधयानसे प्रयत्नपूर्वक प्राणोंका त्यागकर रत्नत्रयके फलसे स्वार्थान्द्रिमें जा विराजमान हुये थे ॥ ३३ ॥ यह स्वार्थान्द्रि विमान मुक्तिशिलासे बारह योजन नीचा है तथा अन्य सब विमानोंसे ऊपर है यह स्वयसे उत्तम है इसलिये इसको अनुत्तर विमान कहते हैं ॥ ३४ ॥ यह विमान एक लाव योजन चौड़ा है, सूर्य-

मंडलके समान है और समस्त पटलोंके अन्तमें चूड़ारत्नके समान शोभायमान है ॥ ३५ ॥ उस सर्वार्थ-
 सिद्धिमें उत्पन्न होनेवाले पुण्यवान लोगोंके सुख और धर्मादिक विना प्रयत्नके सिद्ध हो जाते हैं इसीलिये
 उसका सर्वार्थसिद्धि यह सार्थक नाम है । यह विमान सब विमानोंके मस्तकपर विराजमान होता हुआ
 बहुत ही अच्छा जान पड़ता है ॥ ३६-३७ ॥ इस संसारमे इस विमानसे और कोई उत्तम विमान नहीं है,
 यह विमान दिव्य है, सब ऋद्धियोंसे भरपूर है, और असंख्य सुखोंका सागर है, इसीलिये संसारमें यह
 विमान अनुत्तर कहलाता है, यह इसका नाम सार्थक है क्योंकि संसारमें इसकी कोई उपमा नहीं है ॥ ३८-
 ३९ ॥ यह विमान बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है तथा जो मुनि रत्नत्रय सहित हैं, मुक्तिरूपा स्त्रीमें आ-
 शक्त हैं, महा तपस्वी हैं, धीर हैं, और संसारके पार पहुँचानेवाले है उन मुनियोंको महा सुख देनेकी इच्छा
 से अपनी शिखरपर फहराती हुई ध्वजाओंसे बुला रहा ही सा जान पड़ता है ॥ ४०-४१ ॥ देवोंके प्रतिविम्बों
 को धारण करता हुई उसकी मणियोंकी दीवालें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों कोई दूसरा अपूर्व स्वर्ग
 ही बनाना चाहती हो ॥ ४२ ॥ यह विमान रत्नोंकी किरणोंसे भरा हुआ है इसलिये उसमें दिन रातका
 संकल्प कभी नहीं होता वहांपर मणियोंकी किरणोंसे सदा दिनकी शोभा बनी रहती है ॥ ४३ ॥ वह विमान
 सब प्रकारके सुख देनेवाला है इसलिये उसमें कभी भी चतुर्भुजा परिवर्तन नहीं होता उसमें समस्त सुख
 देनेवाला समान काल ही सदा बना रहता है ॥ ४४ ॥ वहांकी अत्यन्त कोमल और सुगन्धित लटकती हुई
 पुष्पमालायें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों इन्द्रोंकी सज्जनतानों ही बतला रही हों ॥ ४५ ॥ वहांपर स्थान
 स्थानपर मोतियोंकी मालायें शोभायमान है और ऐसी जान पड़ती हैं मानों अपनी शोभासे उत्तम दांतों
 की किरणोंकी आंर हंस ही रही हों ॥ ४६ ॥ इसप्रकार जिसमें स्वाभाविक सर्वोत्तम रचना हो रही है जो
 समस्त सुन्दरताकी खानि है और सब जगह सुख देनेवाला है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमानकी अत्यन्त कोमल
 उपपाद् शय्यामें वे दोनों ही अहमिंद्र क्षणभरमें ही छहों प्रकारकी पर्याप्तिको प्राप्त करते हो गए ॥ ४७-४८ ॥
 वे दोनों ही अहमिंद्र अन्तर्मूर्तियों ही समस्त अवयवों सहित पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ॥ ४९ ॥

उन दोनोंके शरीर सप्त धातु सब नख केश आदिसे रहित थे, पसीना खेद आदिसे रहित थे, सुन्दर, लक्ष-
णोंसे सुशोभित थे स्वाभाविक सुन्दर थे, व्याधि नित्रसपद (आंखोंकी टिमिकार) आदिसे रहित थे, नेत्रों
का आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे, मनोहर उपमा रहित, और सुखकी खानि थे । समस्त शुभ और चिकने
परमाणुओंसे बने हुए थे, अत्यन्त कोमल थे और शय्यापर चंद्रकुण्डलके समान मनोहर जान पड़ते थे
॥ ५०-५२ ॥ अपने शरीरकी कांतिसे ठके हुए सिंहसतपर विराजमान हुए वे दोनों ही इन्द्र सूर्य चंद्रमाके
समान शोभायमान होते थे ॥ ५३ ॥ उनके गलेमें दिव्य हार था मस्तकपर सुन्दर मुकुट था, कानोंमें कुण्डल
थे, भुजाओंमें केयूर थे और किरणोंकी मूर्तिके समान वे शोभायमान थे ॥ ५४ ॥ स्वाभाविक वस्त्र माला,
थे ॥ ५५ ॥ उन दोनोंका वैकिक्यक शरीर आण्णमादि गुणोंसे पृथर्सनीय था, सब दिशाओंको सुगंधित करता
था और स्वाभाविक सुन्दर था ॥ ५६ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र असंख्यात ऋद्धियोंके सागरके समान रत्न
सुवर्णमयी अक्रुत्रिम जिनभवनोंमें समस्त अभ्युदयोंकी सिद्धिके लिए संकल्पमात्रसे ही उत्पन्न हुए दिव्य
गंध अचल आदि द्रव्योंसे भक्तिपूर्वक श्रीजिनप्रतिमाओंका सुख देनेवाला पूजन किया करते थे ॥५७-५८॥
वे दोनों ही अहमिन्द्र माल प्राप्त करनेके लिए वहां बैठे ही बैठे अपने अवधिज्ञानसे तीनों लोकोंमें विराज-
मान सब प्रतिमाओंका देखकर सदा नमस्कार किया करते थे ॥ ५९ ॥ अपने अवधिज्ञानसे भगवानके पंच
कल्याणकोंका जानकर बड़ी भक्तिसे मस्तक भुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे ॥ ६० ॥ भगवानके गुण समू-
होंमें अनुरक्त हुए वे दोनों ही अहमिन्द्र भगवानके पथाप्य गुणसमूहोंका वर्णनकर वचनोंके द्वारा सदा
उनकी स्तुति किया करते थे ॥ ६१ ॥ वे दोनों ही विद्वान अहमिन्द्र श्रीजिनेन्द्रदेवका पद प्राप्त करनेके लिये
अथवा पापोंके नाश करनेके लिये अपने मनमें प्रतिदिन अनन्त गुणोंसे सुशोभित श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण
किया करते थे ॥ ६२ ॥ जो अहमिन्द्र विना बुलाए स्वाभाविक रीतिसे आ जाते थे उनके साथ वे दोनों
अहमिन्द्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य देनेवाला धर्मगोष्ठी परस्पर किया करते थे ॥ ६४ ॥ बड़ी ऋद्धिको

चीतनेपर वे दोनो' ही अहमिन्द्र समस्त दिशाओं'को सुगंधित करनेवाला थोड़ासा उच्छ्वास लेते थे ॥ ८० ॥
 वे दोनों' ही अहमिन्द्र अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकसे लोकनाड़ी तकके मूर्त योग्य द्रव्यों'को पर्याय सहित
 देखते थे ॥ ८१ ॥ उनकी श्रेष्ठ विक्रिया ऋद्धि भी लोकनाडी तक समस्त कार्य करने और अनेक रूप धारण
 करनेमें समर्थ थी ॥ ८२ ॥ परन्तु वे दोनों' ही अहमिन्द्र नीतराग थे इस लोकमें मुनिराजके समान इच्छा-
 रहित थे इसलिए वे कभी विक्रिया नहीं करते थे ॥ ८३ ॥ मुनियों'का जिसप्रकार ऋद्धिसे उत्पन्न हुआ आभ-
 रणरहित दैदीप्यमान आहारक शरीर होता है उसीके समान उनदोनो'का शरीर था ॥ ८४ ॥ भगवान जिने-
 न्द्रदेवने जो अत्यन्त शांत और उत्तम सुख बतलाया है वह सब मिलकर उन दोनों'के शुभकर्मके उदयसे
 प्रगट हुआ था ॥ ८५ ॥ इसप्रकार पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए सुवामृतरूपी सागरके मध्यमें वे
 दोनों' ही अहमिन्द्र डूब रहे थे ॥ ८६ ॥ अथानन्तर—ब्रह्म खंडों'से शोभायमान नदी और विजयाङ्ग पर्वतसे
 विभूषित इसी मनोहर भारतवर्षमें आर्यखण्ड शोभायमान है ॥ ८७ ॥ उसके मध्यभागमें सत्र धान्यों'की खानि
 और अनेक धर्मात्मा पुरुषों'से भरा हुआ कुछ जांगल नामका देश है ॥ ८८ ॥ वहां'के मनोहर वनों'में वृजों'के
 नोचे वज्रासनसे विराजमान हुए कितने ही मुनि अनेक प्रकारका ध्यान करते हैं और कितने ही सिद्धांतका पाठ
 करते हैं कितने ही शरीरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सर्ग धारण करते हैं और कितनेही धर्मोपदेश करते हैं
 ॥ ८९-९० ॥ वहां'की नदियों'के मनोहर और शीतल किनारों'पर ध्यान अध्ययनमें तत्पर रहनेवाले और आर-
 णरहित कितने ही मुनि सदा विराजमान रहते हैं ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार चारित्र मुनियों'को फल देता है उसी
 प्रकार वहां'के आम आदिके ऊंचे वृक्ष चाहनेवालों'को अपने अपने अच्छे फल देते हैं ॥ ९२ ॥ जिसप्रकार
 मुनियों'का चारित्र सब प्रकारकी तृप्ति करनेवाला होता है उसी प्रकार वहां'के चावलों'के पके खेत मनुष्यों'को
 बहुतसे फल देते हैं ॥ ९३ ॥ वहां'के गाँवों'से जिनके सफेद शिखरों'पर धजाएं' फहरा रही हैं ऐसे ऊंचे जिना-
 लय धर्मकी खानिके समान शोभायमान होते हैं ॥ ९४ ॥ वहां'पर धर्मात्मा लोग ही समस्त कर्मों'को नाश
 करनेके लिए स्वर्गसे आकर, जन्म लेते हैं क्योंकि वहां'पर प्रतिदिन कोई न कोई मोक्ष जाता ही रहता है

धारण करनेवाले वे अहमिन्द्र केवल मोक्षकी इच्छासे पुण्य प्राप्त करनेवाली, तत्त्वज्ञानसे भरी हुई और सार-
 भूत श्रीजिनेन्द्रदेवकी कथा सदा किया करते हैं ॥ ६४ ॥ यदि वे अहमिन्द्र अपनी इच्छानुसार चले गए तो
 अपने रहनेके समीपके उद्यानमें सुन्दर सरोवरोंके किनारेकी भूमिपर क्रीड़ा किया करते हैं ॥ ६५ ॥ परजेत्रसे
 उनका विहार कभी नहीं होता क्यों कि शुक्ललेश्याके प्रभावसे उन्हें अपने भोगोंमें ही संतोष होता है ॥ ६६ ॥
 उनका स्थान अनेक प्रकारकी विभूतिसे भरा हुआ है और कभी न नाश होनेवाले सुखकी खानि है इसलिये
 उन्हें अपने स्थानमें जो प्रेम है वह दूसरी किसी जगह नहीं है ॥ ६७ ॥ इस जगहमें ही इन्द्र हं मोरे सिवाय
 और कोई इन्द्र नहीं है इस प्रकारके सुखको प्राप्त हैं इसीलिये वे वहाँके उत्तम देव अहमिन्द्रके नामसे प्रसिद्ध
 हैं ॥ ६८ ॥ उनमें ईर्ष्या, मत्सर, आत्मप्ररांसा, आठ प्रकारका मद्द, दीनता, चोर, द्वेष, शोक, भय, झरति,
 मानसिक, दुःख, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दुर्भगता और कामाग्नि आदि दोष सर्वथा नहीं हैं ॥ ६९-७० ॥
 वे अहमिन्द्र सब मन्द कषायी होते हैं और धर्म-ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं इसलिये उनमें परस्पर स्वाभाविक
 उपमा रहित प्रेम सदा बना रहता है ॥ ७१ ॥ वे प्रेमसे केवल अरहंतोंकी पूजा किया करते हैं और सब तरह
 आनन्दित और सुखी होते हुए क्रीड़ा किया करते हैं ॥ ७२ ॥ उनके चिंतारहित, प्रमाणरहित, आत्मासे
 तथा परमानन्दसे उत्पन्न हुआ और मुनियोंके द्वारा जानने योग्य सुख सदा बना रहता है ॥ ७३ ॥ प्रवीचार
 रहित (कामवेदनासे रहित) रागरहित और स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला सुख उन्हें सदा बना रहता है ॥ ७४ ॥
 अहमिन्द्रोंके कामवेदनासे रहित जो स्वाभाविक सुख होता है वह प्रवीचार से होनेवाले सुखसे भी असंख्या-
 तयुगा है ॥ ७५ ॥ इस संसारमें समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाला जो उत्कृष्ट सुख है वह सब पुण्यकर्मके
 उदयसे उन विरागी देवोंको होता है ॥ ७६ ॥ एक हाथ ऊंचा, महा वैदीप्यमान उनका उत्तम शरीर समच-
 तुरल संस्थानसे बहुत ही सुन्दर जान पड़ता है ॥ ७७ ॥ उन दोनों अहमिन्द्रोंकी तेतीस सागरकी आयु थी
 और धर्म-ध्यानकी कारणभूत उत्कृष्ट शुक्ललेश्या थी ॥ ७८ ॥ तेतीस हजार वर्ष वीतनेपर वे दोनों तृप्ति कर-
 नेवाला, अमृतमय, मानसिक दिव्य आहार ग्रहण करते थे ॥ ७९ ॥ तीस पक्ष अर्थात् साडे सोलह महीने

करते थे ॥ १६ ॥ -

जिनपर आत्मदत्तदेवकी प्रतिमाएं विराजमान हैं और जो धर्मके कल्पवृक्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ६३ ॥ परमनोहर कीड़ा पर्वत हैं जो सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहे हैं । पूं जलसे भरी हुई बावड़ियां हैं जिनमें रत्नोंकी सीडियां लगी हुई हैं ॥ ६४ ॥ पूं निर्मल जलसे भरे हुए तालाव हैं और पूं मनोहर बड़े २ वन हैं जिसमें सब ऋतुओंके फूल फूल फूल रहे हैं ॥ ६५ ॥ मुझे देखकर पूं लोग बहुत ही आनन्द मना रहे हैं । पूं लोग पृथ्वीकी मूर्ति, बड़े प्यारे, प्रशंसनीय विनीत और अत्यन्त प्रेम करनेवाले जान पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ यह महान् देश सुखकी खानिके समान है तीन लोकके नाथ भी इसकी सेवा करते हैं यह अनेक महिमाओंसे शोभायमान है और ऐसा जान पड़ता है मानों समस्त संसार इसकी वंदना करता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार

नवन करते हुए उस इंद्रके मनमें जबतक पहिले और इस भवकी शुभ बात मालूम नहीं होती तब तक निश्चय नहीं होता है ॥ ६८ ॥ उसी समय ज्ञानरूप नेत्रोंको धारण करनेवाले उसके मंत्री उसके मनकी बात जानकर आते हैं और उसे नमस्कार कर उस समयके योग्य वचन कहते हैं ॥ ६९ ॥ वेकहते हैं कि हे देव ! नमस्कार करते हुए हम लोगोंपर निर्मल दृष्टि डालकर प्रसन्नकीजिए और आगिली पहिली सब बातोंको बतलानेवाले हमारे वचन सुनिए ॥ २०० ॥ हे स्वामिन ! आज हम लोग धन्य हैं और हम लोगोंका जीवन आज सफल हुआ क्योंकि इस स्वर्गमें आपके जन्म लेनेसे हम लोग पवित्र हो गए हैं ॥ १ ॥ हे देव ! आप प्रसन्न हूजिये आपकी सदा जय हो, आप सदा जीते रहें और लक्ष्मीसे सदा बढ़ते रहें । इस समय आप इस समस्त स्वर्गके राज्यके स्वामी वनं ॥ २ ॥ हे देव आपके पुराणोदयसे ही इस स्वर्गमें यह देवोंके द्वारा पूज्य भोग उपभोगोंसे भरपूर और सुखकी खानि ऐसी यह विभूति प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ यह अच्युत नामका सबसे बड़ा स्वर्ग है जो कि सबके मस्तकपर विराजमान है और आनन्द ऋद्धि और कल्याणरूपी समुद्रको सदा बढ़ानेके लिये चंद्रमाके समान है ॥ ४ ॥ जब यहां इन्द्र उत्पन्न होता है तब प्रतींद्र आदि दश प्रकारके सभी देव उस उत्पन्न होनेवाले इन्द्रका महोत्सव मनाते हैं ॥ ५ ॥ यहांपर कल्पना करने मात्रसे ही भागोंकी प्राप्ति हो जाती है, यौवन सदा नवीन बना रहता है, लक्ष्मी सबसे उत्तम है और सदा एक सी बनी रहती है

१० ऋद्धियोंके समूहके धर हैं और यह आपके चरण कमलोंको नमस्कार करती हुई देवोंकी मंडली है ॥ ७ ॥ ये रत्नोंके बने हुए राजभवन हैं जो दिव्य देवांगनाओंसे भरे हुए हैं जिनकी कांति चंद्रमाके समान है और जो बड़े ही मनोहर हैं तथा ये कीड़ा करनेकी नदियां हैं तथा ये कीड़ा करनेके पर्वत हैं ॥ ८ ॥ प्रा० अनेक प्रकारके रूपको धारण करनेवाली कामदेवके समान रूपवती और अनेक प्रकार की लीला और रस प्रकट करनेमें तत्पर ऐसी सुन्दर देवियां हैं जो कि आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ ९ ॥ यह देदिप्यमान क्षत्र है, यह सिंहासन है, यह चमरोका समूह है और ये विजय ध्वजाएं हैं ॥ १० ॥ अनेक सुन्दर देवियां जिनकी सेवा करती हैं ऐसी पु० अथ महा देवियां हैं जो कि लावण्यरूपी सागरकी लहरोंके समान हैं और आपके लिए समर्पण की हुई हैं ॥ ११ ॥ यह मन्दोमत्त हाथियोंकी सेना है यह मनके समान शीघ्र जानेवाले घोड़ोंकी सेना है, ये ऊंचे सोनेके रथ हैं और यह पौदल चलनेवाली सेना चल रही है ॥ १२ ॥ यह सात प्रकारकी सेना सात जगह बटकर आपसे प्रार्थना करती हुई आपके चरण कमलोंको धूमस्कार कर रही है ॥ १३ ॥ जिसे सप्त देव नमस्कार कर रहे हैं जो समस्त लक्ष्मीका मंदिर हैं और उत्तम हैं ऐसा यह समस्त स्वर्गका साम्राज्य आपके पुरोधयसे आपके सामने है आप इसे ग्रहण कीजिए ॥ १४ ॥ मंत्रियोंके ये वचन सुनते ही उस इन्द्रको आगली पीछली सब बातोंको सूचित करनेवाला अबधिज्ञान प्रगट होगया था ॥ १५ ॥ उस अबधिज्ञानसे उस इन्द्रने पहिले भवको सब बातें जानली थी और वह पहिले भवमें उपार्जन किए हुए धर्मको चिंतवन करनेलगा था ॥ १६ ॥ वह विचार करने लगा था कि देखो मैंने पहिले जन्ममें अपनी शक्ति प्रगटकर बहुत दिवसक कातर जीवोंको अत्यन्त कठिन ऐसा धोर तपश्चरण किया था ॥ १७ ॥ मैंने पहिले स्वर्ग निर्वाण आदि अग्निसे विषयरूपी वन जलाया था और ब्रह्मचर्यके प्रहारसे कामदेवरूपी शत्रु मारा था ॥ १८ ॥ उत्तम लक्ष्मा, मादर्व आदि कुठारसे मैंने मायारूपी बेलके साथ साथ जिनपर ऋक्सादिक फल लगते हैं ऐसे कषायरूपी वृक्ष काटडाले थे ॥ १९ ॥ राग द्वेष महाशत्रुओंको ध्यान-

करते थे ॥ १६ ॥ इसप्रकार चक्राशुष आदि अनेक मुनियोंके साथ बहुतसे देशोंमें विहार करते हुए वे भगवान सहस्राव्रतनमें जा पहुँचे ॥ १७ ॥ वे श्रेष्ठ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करनेके लिए ब्रह्म उपवास धारणकर विराजमान हुए, बाह्य सामग्र्यका पाकर उन्होने समस्त चिंताओंका निरोध किया और सिद्धोंके गुण प्राप्त करनेके लिए सबसे पहिले सिद्धोंके आठों गुणोंका ध्यान करने लगे ॥ १६ ॥ अनंतदर्शन अनंतज्ञान अनन्त करनेकी इच्छा करनेवाले तीर्थंकरोंकी तथा अन्य मुनियोंकी इन गुणोंका ध्यान करना चाहिए ॥ २०-२१ ॥ लगे तथा सब द्रव्य तद्रथ और पदार्थोंका चिन्तन करने लगे ॥ २२ ॥ तथा मनको शुद्ध करनेके लिए आज्ञाविचय, अप्रायविचय, विपाकाविचय और संपथानविचय इन चारो धर्मध्यानोको धारण करने लगे ॥ २३ ॥ उन्होने चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी एक जगह नरकाशु त्रिपंचायु और देवाशु इन तीन प्रकृतियोंको बिना ही प्रयत्नके नष्ट करदिया था ॥ २४ ॥ अनन्तनुबन्धी काथ मान माया लोभ और मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियां धर्म ध्यानसे पहिलेसे ही नष्ट होगई थीं ॥ २५ ॥ फिर वे उत्तम आत्म शुद्धियोंका चिन्तन करते हुए सातवें गुणस्थानमें जा पहुँचे और मोक्षरूपी परकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणियों विराजमान हुए ॥ २६ ॥ वे भगवान प्रमादरहित होकर अनुक्रमसे अध्याप्रवृत्ति करण अपूर्वकरण, और अनिशुक्तिकरण गुणस्थानें जा विराजमान हुए ॥ २७ ॥ साधरण, आलप, एक इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरद्वीन्द्रिय जाति, निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानशुद्धि, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, त्रिभंगति, त्रिभंगत्त्यानुपूर्वी, उद्योत वे सोलह प्रकृतियां उन्होंने अनिशुद्धित गुणस्थानके पहिले भागमें ही नष्ट कर दी थीं ॥ २८-२९ ॥ वे महा योद्धा भगवान पृथक्प्रवितर्कवीचारनामके पहिले शुक्ल ध्यानरूपी तलवारको हाथमें लेकर और मुक्तिरूपी कवच पहनकर कर्मोंसे मुक्त कर रहे थे ।

ऊपर लिखी सोलह प्रकृतियों को नाश करनेके बाद उन्होंने उसी नौवें गुणस्थानके दूसरे भागमें उसी शुक्लध्यानसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ये आठ कथानष्ट कर दिये थे ॥ ३०-३१ ॥ तदनन्तर उन्होंने ध्यानके योगसे तीसरे भागमें नृपंसकवेद चौथे भागमें क्रोध, आठवें भागमें संज्वलन मान, नौवें भागमें संज्वलन माया नष्ट की ॥ ३२-३३ ॥ कर्मरूपी शत्रुओंके नाश करनेमें उद्यत हुए उन भगवानने फिर विजयभूमि पाकर दशवें गुणस्थानमें सूत्रमसांपराय नामके चारिप्ररूपों तीव्रण तलवारसे सूत्रम लोभ नष्ट किया और इसप्रकार कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाले उन भगवानने सब कथायोगी नष्ट कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ इसप्रकार उन्होंने अनन्त गुणोंको बढ़ानेवाले बारहवां गुणस्थान प्राप्त कर लिया और फिर वे वाक्यके घातिया कर्मरूपी पापोंको नाश करनेकेलिये उद्यम करने लगे ॥ ३६ ॥ उस बारहवें गुणस्थानके पहिले क्षणमें उन्होंने एकत्रवितर्क अविचार नामके दूसरे शुक्लध्यानसे त्रिद्रा और प्रचला दो प्रकृतियां नष्ट कीं और फिर चथाख्यात चारित्र धारण करनेवाले उन भगवानने उसी दूसरे निमल शुक्लध्यानसे उसी बारहवें गुण स्थानक अन्तिम क्षणमें चार दर्शानावरणकी प्रकृतियां पांच ज्ञानावरणको प्रकृतियां और पांच अन्तरायकी प्रकृतियां नष्ट कीं ॥ ३७-३९ ॥ इसप्रकार उन्होंने कर्मो-की त्रिसदष्ट प्रकृतियोंको नष्टकर उर्मानमय लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला अनन्त केवलज्ञान अनन्त-दर्शन क्षाधिक दान, जायिक लाभ, जायिक भाग, जायिक उपभाग, जायिक वीर्य, जायिक सम्यग्दर्शन और जायिक सम्यक्चारित्र्य ये अथवा और दूसरेका हित करनेवालों को केवललक्षिण्यां प्राप्त की इसप्रकार भगवान शान्तिनाथने छत्रार्थ अथवायक सालह वर्ष द्यतीतकर पाँच शुक्ला एकादशीके दिन सायंकालके समय स्नातक वनकर देवोंके द्वारा महापूजा प्राप्त की थी ॥ ४०-४३ ॥ भगवान शान्तिनाथके घातिया कर्म नष्ट होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर देवोंके समूह आकाशमें जय जय शब्द कर रहे थे, देवोंके द्वारा वज्रत हुए नगाडोंके शब्दोंसे सब दिशाएँ और आकाश भरगया था और आकाशसे कल्पवृक्षोंके पुष्पोंकी

वर्धा ह्रां रही थी ॥ ४४ ॥ भगवानके समस्त गुणरूपी समुद्रकी ज्ञानरूपी लहरके बढ़नेपर (पूर्णज्ञान होनेपर) शीलिल और सुगंधित वायु :मन्द मन्द रीतिसे बह रहा था, आकाश सब दिशाओंके साथ निर्मल और मनोहर होगया था और सम्पन्नानियोंको आनन्द हो रहा था ॥ ४५ ॥ भगवानके माहात्म्यसे स्वर्गमें उसी-स्तव्य इंद्रोंके आसन कंपयमान होगये थे उनके मस्तकके सुकृत नम्रीभूत होगये थे और क्षण चण करनेवाले धंटा आदि बाजोंके समूहोंका अद्भुत शब्द होने लगा था ॥ ४६ ॥ जिन भगवानको केवल ज्ञान प्रगट होते हां देवोंके सब इन्द्रोंने अपने अपने निकायोंके सब देवोंके साथ अपने सिंहासनसे उठकर और थोड़ेसे पंड चलकर नमस्कार किया था तथा जो समस्त पापोंसे रहित हैं, जिनेंद्र हैं, अनन्त गुणोंके समुद्र हैं और समस्त संसारके स्वामी हैं, उनको मैं भी मस्तक भुक्काकर भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं और सदा उनकी स्तुति करता हूं ॥ ४७ ॥ जिन भगवान शान्तिनाथके लिये कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे भक्तिपूर्वक सब देवोंके साथ आकर अनेक प्रकारकी रचनाके द्वारा संसारके समस्त उत्तम लोगोंके द्वारा सेवा करने योग्य ऐसी समवसरण की विभूतिकी रचनाकी थी वे भगवान शान्तिनाथ इस संसारमें सदा जयशील हों ॥ ४८ ॥ जिन भगवान शान्तिनाथको देवोंके इन्द्रका आदि लेकर सब देव और सब मुनिराज भक्तिपूर्वक दिव्य मस्तक भुक्काकर नमस्कार करते हैं, जां सर्वज्ञ हैं, जिनेन्द्र हैं, संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाले हैं, विजयी हैं, धर्मो-पदेश देनेमें सदा तत्पर हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हैं और गुणोंके निधि हैं ऐसे भगवान शान्तिनाथको मैं उनको शक्ति प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूं ॥ ४९ ॥ जो सर्वज्ञ हैं, दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं, सब देवगण जिनकी पूजा करते हैं, जो भव्य जीवोंके लिये एक अद्वितीय वंधु हैं, कल्याणमय हैं, कल्याणार्क कारण हैं, समस्त शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, अन्तरहित हैं, अत्यन्त धीर वीर हैं, सर्वोत्तम मुनियोंके भी स्वामी हैं, निखिल गुणोंके समुद्र हैं, प्रपंच रहित हैं, जिनेन्द्र हैं, और समस्त संसार जिन्हें बंदना करता है ऐसे श्रोशान्तिनाथ भगवानको मैं उनके अतिशय प्राप्त करनेके लिए मस्तक भुक्काकर सदा नमस्कार करता हूं ।

इसप्रकार शान्तिनाथ पुराणमें दीक्षा कल्याणक और केवलज्ञान कल्याणको वर्णन करनेवाला पन्द्रहवा अधिकार समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

अथ सोलहवां अधिकार ।

जो देवों के देव हैं, तीनों जगतके स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व दर्शी हैं और तीनों लोकों का हिंस्र करनेवाले हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवानको मैं अपने पाप शान्त करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अथानन्तर— करनेवाले चारों निकायों के सब देव अपने अपने इन्द्रों के साथ तथा अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ हथी आदि अपने २ बाहनो पर चढ़े हुए पहिले जन्म कल्याणके समय वर्णान्तिष्पे अनुसार भगवानकी पूजा करनेके लिये अपने २ रथानो से निकले ॥ ३ ॥ वे सब असांख्यात देव गोल नृत्य करते हुए बड़ी विभूतिके साथ अपने शरीर और आभरणों की कांतिसे आकाशको प्रकाशित करते हुए जा रहे थे ॥ ४ ॥ देवों-इन्द्रों ने दूसरे ही देवों द्वारा बहुमूल्य रत्नों से बनाये हुए समवसरण स्थानको देखा । वह समवसरण समस्त विभूतिका एक स्थान था ॥ ५-६ ॥ यद्यपि इन्द्रादिकोंके द्वारा बने हुए उस समवसरणका वर्णान्तिष्पे कोई नहीं कर सकता तथापि भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेके लिये आचार्य कुछ थोड़ासा वर्णान्तिष्पे करते हैं ॥ ७ ॥ चार योजन और दो कोस लंबा चौड़ा गोल आकारका इंद्रनील महा रत्नोंका बना हुआ पीठ था ॥ ८ ॥ उसके पश्मान किरणों से भरपूर था, इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगों से भरपूर था, और उस पीठके चारों ओर बहुत ऊंचा और बहुत ही सुन्दर शोभायमान था ॥ ९-१० ॥ इस धूलिशालके चारों दिशाओंमें रत्नोंकी मालाओं से सुशोभित और सुवर्णके खंभों पर विराजमान तोरण अपनी अलग शोभा दिखा रहे थे ॥ ११ ॥ उन तोरणों से कुछ दूर आगे चलकर सब दिशाओंमें मार्गके मध्यभागमें दिव्य भूतिको धारणा करनेवाली जगती थीं । इन जगतियों पर सुवर्णकी सोलह सोलह सीड़ियां बनी हुई थीं, भगवानके

अभिषेकसे वे पवित्र थीं और चार चार गोपुरोंसे सुशोभित तीन तीन कोटोंसे घिरी हुई थीं ॥ १२-१३ ॥ उन जगत्तियोंके बीचमें दिव्य पीठिकाणं बनी हुई थीं और उनपर देवोंके द्वारा पूज्य और अत्यन्त रूपवान तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ १४ ॥ उन पीठिकाणोंके ऊपर तीन २ कदनीदार पीठ थीं और उन पीठोंके ऊपर आकाशको छूनेवाले मानसस्तम्भ विराजमान थे ॥ १५ ॥ वे मानसस्तम्भ बहुते ऊंचे थे और घंटा चमर धजाणं और शिरपर फिरते हुए कजोंसे सुशोभित थे ऐसे मानसस्तम्भ चारों दिशाओंमें थे ॥ २६ ॥ उनको दूरसे देखते ही मिथ्यादृष्टियोंका मान खंडित हो जाता था इसलिये 'मानसस्तम्भ' यह उनका सार्थक नाम प्रसिद्ध था । १७ ॥ उन मानसस्तम्भोंके मध्यभागमें जो भगवानकी अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित प्रतिमाएं विराजमान थीं उनको इंद्र भी चौर सागरके जलसे तथा और भी अनेक द्रव्योंसे पूजा करते थे ॥ १८ ॥ उन मानसस्तम्भोंके चारों ओर चारों दिशाओंमें मनोहर चार बावड़ियां थी जो कि स्वच्छ जल और कमलोंसे सुशोभित थी ॥ १९ ॥ उन बावड़ियोंमें मणियोंकी सीढ़ियां बनी हुई थीं, नंदोत्तरा आदि उनका नाम था, उनके किनारेपर पादप्रक्षालनके कुँड बने हुए थे तथा भ्रमर और पक्षियोंसे वे शोभायमान थीं ॥ २० ॥ उन बावड़ियोंसे कुछ ही आगे चलकर प्रत्येक मार्गको छोड़कर बाकीके भागमें कमलोंसे ढकी हुई, पक्षियोंसे सुशोभित और स्वच्छ जलसे भरी हुई खाइयां शोभायमान थीं ॥ २१ ॥ इसके भीतरी भागमें उत्तम लतावन था जो कि अनेक प्रकारके वृक्ष और लताओंके सब ऋतुओंके फूलोंसे सुशोभित था । उस लतावनमें इन्द्रोंके विश्रामके लिये मनोहर क्रीड़ा पर्वत थे, लताभवन थे, जिनके भीतर शय्याएं विछी हुई थीं और जगह २ चन्द्रकांतमणियोंकी श्रिलाणं पड़ी हुई थी ॥ २२-२३ ॥ उस लतावनसे आते मार्गको छोड़कर पहिला कोट था, जो कि बहुत ऊंचा था, दैदीप्यमान था और सुवर्णमय था ॥ २४ ॥ वह कोट ऊपरसे नीचे तक कहीं तो मोतियोंकी पंक्तियोंसे शोभायमान था, कहीं विद्रुमोंसे सुशोभित था, कहींपर नील मणियोंसे नए बादलोंके समान जान पड़ता था, कहीं लाल मणियोंसे इंद्रगोपके समान (वर्षा ऋतुमें होनेवाला लाल जानवर) सुन्दर जान पड़ता था, कहीं विजलीसे पीला दिखाई

देता था और कहीं अनेक तरहके रत्नोंकी किरणोंसे इंद्रधनुषके समान जान पड़ता था ॥ २५-२६ ॥ उसपर कहीं मनुष्य और पक्षियोंके चित्रमय जोड़े बैठे थे और कहीं वह लतावोंसे ढका हुआ था, इसप्रकार निषिध पर्वतको स्पर्श करता हुआ वह कोट बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥ २७ ॥ उस कोटके चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे थे जो निर्माजिले बने हुए थे और पद्मराग मणियोंकी शिखरोंसे वे शोभायमान थे ॥ २८ ॥ कहींपर गानेवाले देव कहींपर भगवानके गुण गा रहे थे, कहींपर सुन रहे थे और कहींपर नृत्य कर रहे थे तथा कहींपर वर्षासे व्याकुल हुई स्त्रियां बैठी थीं ॥ २९ ॥ प्रत्येक दरवाजेपर भुंगार, कलश, झारी आदि एकसौ आठ नगल द्रव्य सुशोभित थे ॥ ३० ॥ उन प्रत्येक दरवाजोंपर सौ सौ तोरण थे जो कि मणियोंके आभरणोंकी कांतिके समूहसे आकाश को भी कुछ कुछ पीला कर रहे थे ॥ ३१ ॥ शंख आदि नों निषिधों उन दरवाजोंके पास ही रखी हुई थीं और भगवानका तीनों लोकोंको उल्लंघन करनेवाला माहात्म्य प्रकट कर रहीं थीं ॥ ३२ ॥ चारों दिशाओंके चारों दरवाजोंमें उन दरवाजोंके भीतर मार्गके दानों और दो दो (मार्गके एक इधर एक उधर) नाट्यशालयं शोभायमान थीं ॥ ३३ ॥ उन नाट्यशालाओंके स्तंभ सुवर्णके थे, दीवारें स्फटिक मणियोंकी थीं और शिखर मणिकय मणियोंके बने हुए थे, वे नाट्यशालाये बहुत ही जंचा और बहुत ही दिव्य थीं ॥ ३४ ॥ उन दरवाजोंकी तीनों मंजिलें शरद-चतुर्के वादलोंके समान शोभायमान थीं और गाने बजानके शब्दोंसे वे वादलोंके गर्जनोंको शोभाका धारण करती थीं इसप्रकार वे सदा उत्तमसे ही भरपूर रहती थीं ॥ ३५ ॥ उन नाट्यशालोंमें कहीं तो देव भगवानको विजय गा रहे थे और कहीं किन्नरो देवियां प्रसन्न होकर वीणा आदि वाजोंके मधुर स्वरसे गा रही थीं ॥ ३६ ॥ तथा कहींपर देवांगनाएं मृदंग आदि वाजोंके साथ अपने मनोहर शरीरोंको हिला झुलाकर देवनेवालोंका अत्यन्त प्रिय लगनेवाला परम नृत्य कर रही थीं ॥ ३७ ॥ उन दरवाजोंसे कुछ आगे चलकर मार्गके दोनों ओर दो रथपथट रखे हुए थे जो कि निकलते हुए धूपकी धूमसे आकाशको भी सुगंधित कर रहे थे ॥ ३८ ॥ मार्गके इधर उधर और दों मार्गोंके बीचमें चार वन थे जो ऐसे जान पड़ते

निधि थी उससे लौकिक शब्द प्रगट करनेवाली चीजें निकला करती थीं । यहनिधि विशेषकर वीणा वंशी मृदङ्ग आदि इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयों को विशेष रीति से दिया करती थीं ॥ ६७-६८ ॥ श्रीतीर्थकरके उप देशके अनुसार असि मसि आदि छह कर्मोंके योग्य सर्व साधना महा काल नामकी निधिसे उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ६९ ॥ शय्या आसन मकान आदि नसणं निधिसे और धान्य तथा छहों रसोंकी उत्पत्ति पांडुक निधिसे उत्पन्न होती है ॥ ७० ॥ लक्ष्मी को प्रगट करनेवाले चक्रवर्तीके पुण्य कर्मके उदयसे रेशमी वस्त्र दुपह् आदि वस्त्रों को पद्म निधि देती है ॥ ७१ ॥ चक्रवर्तीके लिए सवतरहके दिव्य आभरण पिंगल निधिसे प्रगट होते हैं और नोति शास्त्र माणव निधिसे मिलते हैं ॥ ७२ ॥ शास्त्रोंकी उत्पत्ति शंख निधिसे होती है और सुवर्ण आदि भी शंख निधिसे प्रगट होते हैं ॥ ७३ ॥ चक्रवर्ती और धर्म चक्रीके सर्वल नामकी निधिसे महा नील तथा और भी बहुमूल्य रत्नोंके ढेर प्रगट होते हैं ॥ ७४ ॥ इन निधियोंकी देव रक्षा करते हैं चक्रवर्तीके भोगोप भोगों का वर्णन कौन करसकता है ॥ ७५ ॥ उन चक्रवर्ती के पहिले कहे हुए चौदह रत्न थे जो आरच्य कारक जो शस्त्र लेकर नौ निधि चौदह रत्न और चक्रवर्तीकी रक्षा करते थे ॥ ७७ ॥ घर हो घरे हुए चित्तसार नामका मनोहर कोट था और मणियोंके तोरणोंसे शोभायमान सर्वतोभद्र नामका गोपुर था ॥ ७८ ॥ सेनाके लिये नंदावत नामका बहुत बड़ा शिविर था, और सब जगह सुख देनेवाला वैजयंत नामका राजमहल था ॥ ७९ ॥ दिक्स्वस्तिका नामकी सभा थी बहु मूल्य रत्नकुट्टिमा पृथ्वी थी मणियोंकी बनी हुई सुविधि नामकी चमचमाती हुई छड़ी थी ॥ ८० ॥ दिशाओंको देखनेके लिए गिरिकूटक नामका ऊंचा भवन था और वर्द्धमान नामका मनोहर प्रदर्शनीय भवन था ॥ ८१ ॥ उन भगवानके घर्पांतक [गर्मीको दूर करनेवाली] नामका धाराग्रह और वर्षामें रहनेके लिए गृहकूटक नामका वर्षामवन था ॥ ८२ ॥ पुष्करवर्त नामका सफेद चनासे पुता हुआ मनोहर शुभ भवन और सदा अक्षय रहनेवाला कुवेरकांत नामका भांडागार था ॥ ८३ ॥ जिसमें भेई चीज कभी न निवटे ऐसा वसुधारक नामका कोठार और जीमूत नामका बहुत मनोहर स्नान भवन था

झर रहा है ऐसे चौरासी लाख हाथी थे ॥४६॥ सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए चौरासी लाख रथ थे और बायुके
 समान तेज चलनेवाले अठारह करोड़ शुभ घोड़े थे ॥४७॥ तेज चलनेवाले पयादे भी चौरासी करोड़ थे और
 बत्तीस हजार सुकुटबद्ध राजा उनको नमस्कार करते थे ॥ ४८ ॥ उनके अन्तःपरमं कुल जाति आदिसे
 परिपूर्ण बत्तीस हजार राजाओंकी कन्याएं विवाही हुईं आई थीं और भक्तिपूर्वक मलेच्छ राजाओंके द्वारा दी
 हुईं राजपुत्रियां भी बत्तीस हजार थीं । इसीप्रकार विद्या विनयसे सुशोभित कोमल शरीर को धारण करने
 वाली बत्तीस हजार ही विद्याधर राजाओंकी कन्याएं थीं ॥ ४९-५० ॥ गीत बाजोंसे भरपूर और अस्यन्त सुख
 देनेवाले बत्तीस हजार ही नाटक थे ॥ ५१ ॥ अच्छे स्थानोंसे सुशोभित बत्तीस हजार देश थ और कंटसे
 घिरे हुए बहत्तर हजारि नगर थे ॥ ५२ ॥ इसीतरह जिनमंदिरोंसे विभूषित और कुटुम्बी लोगोंसे भरे
 हुए छ्यानवे करोड़ गांव थे ॥ ५३ ॥ निन्यानवे हजार समुद्रको बेलसे घिरे हुए शुभ द्राणसुख थे ॥ ५४ ॥ उन
 भगवान के अधिकारमें अच्छे रत्नोंके निकलनेके स्थान ऐसे अड़नालीस हजार पत्तन थे ॥ ५५ ॥ जिनमें
 धार्मिक लोग रहते हैं और जो नदी समुद्र दोनोंसे घिरे हैं ऐसे सांलह हजार खेत थे ॥ ५६ ॥ मनुष्योंसे
 भरे हुए और समुद्रके भीतर बसे हुए छप्पन अंतर्द्वीप थे ॥ ५७ ॥ धर्माल्वा लोगोंसे भरे हुए और पर्वतके
 ऊपर बसे हुए ऐसे चौदह हजार संवाहन थे ॥ ५८ ॥ भगवानके पुण्यकर्म के उदयसे वन पर्वत नदी और
 धान्य आदिसे भरे हुए अट्टाईस हजार दुर्ग वा किले थे ॥ ५९ ॥ उनकी सेवा में अठारह हजार मलेच्छ राजा
 थे जो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों को नमस्कार करते थे ॥ ६० ॥ एक करोड़ हंडेथे जो
 रसोईघरमें चावल बनानेके काम आते थे ॥ ६१ ॥ एक लाख करोड़ हल थे जो सदा खेत जोतनेके काम आते
 थे ॥ ६२ ॥ उनके तीन करोड़ गाय थीं जिनके दूध चलानेका शब्द सुनकर रास्तागीर भी थोड़ी देरके लिए ठहर
 जाते थे ॥ ६३ ॥ विद्वानोंने सातसौ कुक्षवास बताये हैं जिनमें मलेच्छ देशके लोग आकर ठहरते थे ॥ ६४ ॥
 काल, महाकाल, नैसर्प, पांडक, पद्म, माणव, पिंग, शंख, और सब रत्न ये प्रसिद्ध नामकी नां निधियां थीं
 जिनसे वे चक्रवर्ती घरकी चिन्तासे सर्वथा रहिन थे ॥ ६५-६६ ॥ पुण्यके निधि उल चक्रवर्तीके काल नामकी

वनकर बुद्धिमानोंको घोर तपस्वरणके द्वारा इसे सफल करना चाहिये ॥ ७४ ॥ इति अशुचि अनुप्रेक्षा ॥६॥
 जिसप्रकार छेदवाली नाव पानी भर जानेके कारण समुद्रमें डूब जाती है उसीप्रकार यह प्राणी कर्मोंके
 आखव होनेके कारण इस दुस्तर संसार समुद्रमें डूब जाता है ॥ ७५ ॥ जिसप्रकार जहाजसे छूटा हुआ
 मनुष्य समुद्रमें असह्य दुख भोगता है उसीप्रकार धर्मसे छूटा हुआ यह मूल्व इस भयानक संसाररूपी समुद्रमें
 अनेक कष्ट भोगता है ॥ ७६ ॥ मिथ्यात्व अचिरति कपाय प्रगाढ ये सब कर्म अनिके कारण हैं ये ही मनु-
 ष्योंको संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाले हैं ॥ ७७ ॥ जबतक मनुष्योंके चारों गतियोंमें परिश्रमण करनेवाले
 और अनेक दुख देनेवाले अशुभ कर्मोंका आखव होता रहता है तबतक उन्हें नित्य मोक्ष सुख कभी नहीं
 मिल सकता ॥ ७८ ॥ जिसप्रकार अपराधी पुरुष गलेमें सांकल डालकर कारागारमें पहुंचाया जाता है उसी
 प्रकार कर्मोंके द्वारा यह जीव चारों गतियोंमें परिश्रमण करता है ॥७९॥ जिसप्रकार ऋणी (कर्जदार) मनुष्य
 परवश होकर रातदिन महा दुख भोगता रहता है उसीप्रकार कर्मोंके आधीन हुआ यह जीव नरकादि दुर्ग-
 तियोंमें घोर दुख सहन किया करता है ॥ ८० ॥ जिस महापुरुषने सम्यग्दर्शन सम्यक् चारित्र्य संयम, कर्षा-
 यनिग्रह और ध्यान आदिके द्वारा कर्मोंका आखव रोक लिया है उसीका मनोरथ पूर्ण हुआ है ॥ ८१ ॥ जो
 पुरुष यम, तप चारित्र्य आदिके द्वारा कर्मोंके आखवको रोक नहीं सकते उनका शरीर धारण करना सब
 व्यर्थ है ॥ ८२ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको शुभ ध्यानसे पापाखवको रोकना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करनेके
 लिए आत्मव्यानसे दोनों प्रकारका कर्माखव रोकना चाहिए ॥ ८३ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोग मुक्ति-
 रूपी स्त्रीको प्राप्त करनेके लिए अपने मनको नियहकर तथा चारित्र्य आदि धारणकर सदा कर्मोंके आखवको
 रोकते रहते हैं ॥ ८४ ॥ इन्द्रिय और मनसे होनेवाला आखव संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाला है, मोक्षसे दूर
 करनेवाला है, समस्त दुखोंका निधि है, नरकका स्थान है, कुमार्गमें रुलानेवाला है और पाप उत्पन्न करने-
 का यही समझकर गुणी पुरुष तप, व्रत, ध्यान आदिके द्वारा समस्त आखवको रोककर और कर्मोंको
 रोककर यही मोक्षमार्गीको प्राप्त होते हैं ॥ ८५ ॥ इति आखवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

लिए अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा सदा अपने ही आत्माका ध्यान करते रहना चाहिए ॥ ६३ ॥
 इति अन्यत्वानुप्रेक्षा । यह शरीर शुक्र श्रोणितसे बना है, सतधातुमय है, अपवित्र है, विष्ठा आदिसे भरपूर है,
 निंद्य है, राग रूपी सर्पके बिलके समान है, दुर्गंधमय है अत्यन्त घृणित है, सेकड़ों कीड़ोंसे भरा हुआ है अनित्य
 है ऐसे शरीरमें ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो धर्मको छोड़कर प्रेम करे ॥ ६५ ॥ इसशरीरके सुख आदि मनोहर
 स्थानोंमें भी जो पदार्थ रख दिया जाता है वही स्थान अपने स्वभावके अनुसार मनुष्योंको घृणा उत्पन्न कर
 देता है ॥ ६६ ॥ जिसप्रकार चांडाल के घर में हड्डी चमड़ा आदिको छोड़कर और कोई सुन्दर पदार्थ नहीं
 मिल सकता उसीप्रकार इस घृणित शरीरमें भी कोई पदार्थ सुन्दर नहीं मिल सकता ॥ ६७ ॥ यद्यपि ये प्राणी
 इस शरीरका पालन पोषण करते हैं तथापि यह उनको इसी जन्ममें अनेक रोगोंसे दुखी करता है और पर
 लोकमें नरकादि दुर्गति देता है इससे बढ़कर भला और कौनसा आश्चर्य हो सकता है ॥ ६८ ॥ यदि तपश्चरण
 के द्वारा इस शरीरको कृश किया जाय तो यह इस जन्ममें शम ध्यान आदि आत्मासे उत्पन्न हुए सुखोंको
 देता है और परलोकमें स्वर्ग मोक्षादिके सुख देता है । इससंसार में इस से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो
 सकता है ? ॥ ६९ ॥ यह शरीर नरकके समान असार है, दुर्गंधमय है, नवद्वारोंसे सदा झरता रहता है, पापोंका
 कारण है और दुखोंका पात्र है । यह विजलीके समान अनित्य है, और मानों यमके मुखमें ही ठहरा हुआ है ।
 यही सत्यभूकर बुद्धिमानोंको धर्मकार्य करनेमें कोई किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ ७०-७१ ॥
 जिन उत्तम बुद्धिमानोंने अपने आत्माकी सिद्धिके लिए तप यम आदि कष्टोंके द्वारा इस शरीरको
 कृश किया है उन्हीका शरीर पाना सफल हुआ है ॥ ७२ ॥ इसप्रकार शरीरको अपवित्र समझ
 कर स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्ति करनेके लिए बुद्धिमानोंको सदा तप, चरित्र, धर्म आदि पवित्र
 कार्य करते रहना चाहिये ॥ ७३ ॥ यह शरीर शुक्र श्रोणितसे बना है, घृणा उत्पन्न करनेवाला है, रोगरूपी
 सर्पोंका घर है, भूख, प्यास, काम, कषायरूपी अग्निसे संतप्त है, तमस्त अशुद्ध पदार्थोंका सुख है और अन्न
 वख आदि सभस्त पवित्र पदार्थोंको भी बहुत शीघ्र अपवित्र बना देता है इस शरीरका ऐसा स्वभाव चित्त-

मय समझकर बुद्धिमानों को चारित्र्य आदिके द्वारा अनंत सुखका सागर ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ ४० ॥ इकट्टे किए हुए पापकमरूपी सांकलसे बंधे हुए प्राणी संसाररूपी शत्रुको नाश करनेवाले सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सायक चारित्रिके न मिलनेसे पाप दुख भय देनेवाले निःसार असह्य संसारबंध परिश्रमण किया करते हैं यही समझकर संवेग आदि गुणों से सुशोभित होनेवाले पुरुषों को प्रयत्न और शीघ्रतापूर्वक रत्नत्रय धारण करना चाहिये ॥ ४१ ॥ इति संतारानुष्ठेया ।

यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेलाही मरता है, अकेला ही सुख भोगता है अकेला ही दुर्खा होता है, अकेला ही रोग सहन करता है, अकेला ही नीरोग रहता है और अकेला ही चारों गतियों में परिश्रमण करता है ॥ ४२ ॥ विषयों में अन्धा हुआ यह अकेला ही जोब हिंसा आदिके द्वारा ऐसा पाप कर्म उधार्यन करता है जिससे नरकमें जाकर जो बचनसे कहा भी न जा सके ऐसा महा दुख भोगता है ॥ ४३ ॥ यह अकेला ही मूर्ख बल कपट कर ऐसा पाप करता है जिससे तिर्यच गतिमें जाकर छेदन भेदन आदिके दुःखसहन करता हुआ स्थावर योनिमें परिश्रमण करता है ॥ ४४ ॥ अकेला ही अलपारंभादिक द्वारा मनुष्य भव पाता है और अनेक जातियों में पाप पुण्यसे उत्पन्न हुए सुख दुख भोगता रहता है ॥ ४५ ॥ तथा अकेला ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, सद्धर्म, दान पूजा आदिके द्वारा धर्म उपाजर्जनकर स्वर्गमें सदा रहित और अनन्त सुखका स्थान ऐसा मोक्षपद प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ जो कुटुम्बके लिए इन्द्रिय और धनादिकके द्वारा पाप कमाता है वह अकेला ही दुर्गतियों में जाकर उस पापका फल भोगता है । उस दुखका भोगनेके लिये और कोई नहीं आता ॥ ४८ ॥ अन्न पान आदिसे पालन पाषण किया हुआ यह शरीर भी परलोकमें जीवके साथ नहीं जाता फिर भला शत्रुके समान कुटुम्बी लाग कैसे जा सकते हैं ॥ ४९ ॥ जो मूर्ख मोहकर्मके उदयसे धन कुटु वियोंके लिये 'यह मेरा है' करते रहते हैं वे भी उनका छोड़कर अकेले ही परिश्रमण किया करते हैं ॥ ५० ॥ इसप्रकार आत्माको अकेला ही समझकर बुद्धिमान लोग मरण आदिमें

अनंत गुणों का कारण ऐसा निर्मलत्व ही धारण करते हैं ॥ ५१ ॥ यह जीव अकेला ही चारित्रतप दान पूजन आदिके द्वारा प्रतिदिन धर्मसेवनकर और देवों की विभूति पाकर सुख भोगता है तथा अकेला ही प्रतिदिन हिंसा आदिके द्वारा पाप उपार्जनकर नरक तिथंच गतिमें अनेक प्रकारके दुख भोगता है और अकेला ही महाव्रतादिकों के द्वारा कर्म नष्टकर उपमारहित मोक्षपद प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ।

इस संसारमें माता भी अन्य है पिता भी अन्य है पुत्र वांधव आदि भी अन्य हैं और स्त्री

पुत्री आदि सब पृथक् पृथक् उत्पन्न होती हैं ॥ ५३ ॥ जहांपर आत्माके प्रदेशोंमें मिला हुआ और आत्माके साथ उत्पन्न हुआ यह शरीर ही आत्मासे भिन्न निरिचत है फिर भला कुटुम्बी लोण आत्माके कैसे हो सकते हैं ॥ ५४ ॥ लक्ष्मी, धर, भार्ग, सेवक आदि सब कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं इसलिए सब भिन्न हैं पाप के उदयसे पहिले शरीरको छोड़ता रहता है और नए शरीरको ग्रहण करता रहता है इसप्रकार संसारमें अनेक प्रकारके शरीर धारण करता रहता है ॥ ५६ ॥ शरीर धन धर आदि जो कुछ कर्मोंके उदयसे प्राप्त होता है वह सब आत्मासे भिन्न है और सब विनश्वर में ॥ ५७ ॥ मूख लोण शरीरादि पदार्थोंको आत्मासे भिन्न क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि जन्म मरणके समय वे ता इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ५८ ॥ यह आत्मा कर्मोंसे सर्वथा भिन्न है, फिर भला वह शरीर धर धन आदि से मिलकर एक कैसे हो सकता है ॥ ५९ ॥ यह आत्मा एक है, नित्य है, ज्ञानमय है, गुणी है और सबसे भिन्न है योगी लोण सदा इसीप्रकार ध्यान करते रहते हैं ॥ ६० ॥ जो जीव अपने आत्माको प्रतिदिन शरीरादिकसे भिन्न मानते हैं वे ही समस्त कर्मों से रहित परमात्मपदका प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार ज्ञानी पुरुष आत्माका स्वसे भिन्न समझकर सबसे भिन्न लोण मात्माके कारण ऐसे अपने अकेले आत्माका ही सेवन करते हैं ॥ ६२ ॥ यह शरीर और धर सब आत्मासे भिन्न है तथा कुटुम्ब धन आदि भी भिन्न है और कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए संसार के जितने पदार्थ हैं वे भी सब आत्मासे भिन्न हैं यही समझकर बृद्धिमानोंका अपने आत्माको तथा मोक्षको प्राप्त करनेके

आयु सदा निकलती रहती है ॥ १६ ॥ इन सब बातोंको समझता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मोक्ष-मार्गरूपी सुख सागरका छोड़कर खो कुटुंब आदि अनित्य पदार्थोंमें अपनी बुद्धिको निरचल समझे ॥ १७ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको काम भोगोंसे चिरक होकर तप चारित्र आदिके द्वारा अनित्य शरीरसे नित्य मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १८ ॥ इस समस्त संसारको अनित्य समझकर और मोक्षको उत्तम तथा नित्य समझकर बुद्धिमानोंको शीघ्र ही अनंत गुणोंका सागर ऐसा मोक्षपद सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१९॥ संसारमें धन सब पर धूलके समान है और अनेक पापोंका कारण है, यह शरीर यमराजके समान है विषयोंसे उत्पन्न हुआ सुख दुःख पूर्वक होता है, जीवन वादलोकें समान चंचल है पुत्र खो आदि सब कुटुंबी लोग इंद्रजालके समान है । इसप्रकार समस्त पदार्थोंको अनित्य वा चंचल समझकर बुद्धिमानोंको शीघ्र ही मोक्षके लिए प्रयत्न करना चाहिये ॥ २० ॥ इति अनित्यानुष्ठेक्षा ।

जिसप्रकार वनमें बाघके द्वारा पकड़े हुए हिरणको कोई नहीं बचा सकता उसीप्रकार इस संसारमें रोग मृत्यु आदिके द्वारा पकड़े हुए मनुष्योंको ही कोई शरण नहीं है ॥ २१ ॥ जिसप्रकार किसी जहाजसे छूटे हुए पत्तीको उस समुद्रमें उसे कोई नहीं बचा सकता उसीप्रकार संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २२ ॥ यमराजके द्वारा ले जाते हुए इस प्राणीको समस्त देव मनुष्य मंत्र तंत्र और उत्तम औषधियें आदि कोई नहीं बचा सकती ॥ २३ ॥ जो भूर्व औषधि चंडिका मंत्र आदिको शरण मान लेते हैं वे भी शीघ्र मर जाते हैं वयां कि वे देव आदि उन्हें कभी नहीं बचा सकते ॥ २४ ॥ यदि इंद्रादिक देव ही मनुष्योंके शरण हो जाय तो फिर वे अपनी आयु पूरी हो जानेपर अनेक पदसे पृथ्वीपर वधों आ पड़ते हैं ॥ २५ ॥ इसलिये मनुष्योंको श्रीजिनेंद्र देवका कहा हुआ अहिंसाधर्म ही शरण है वही पापोंको नाश करनेवाला है और इसलोक तथा परलोकमें साथ जानेवाला है इसलिये उसीका पालन करना चाहिये ॥ २६ ॥ इसके सिवाय मुनिराजने अरहंत आदि पंच परमेष्ठी शरण वतलाए हैं क्योंकि इस संसार समुद्रमें भव्य जीवोंको वे ही पार करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अथवा इस असार संसारमें अनंत गुणोंका समुद्र, सदा

निश्चल रहनेवाला, और अनंत सुख देनेवाला मोक्षपद ही मनुष्यों को शरण है ॥ २८ ॥ इसप्रकार इस
समस्त संसारको अशरण और सुखसे अत्यंत दूर समझकर बुद्धिमानों को तप और रत्नत्रय आदिके द्वारा
पूर्ण होती है) उस समय तीनों लोकोंमें इंद्र चक्रवर्ती मंत्र तंत्र औषधि आदि कोई भी इस जीवको रोग
कलेश विषाद दुःखभय सृष्टु आदिसे नहीं बचा सकता, सब व्यर्थ जाते हैं यही समझकर सब उत्तम
अशरणाजुषेता ।

दुःखरूपी सिंह बाघ आदिसे भरे हुए इस पांच प्रकारके अनादि संसाररूपी वनमें दुःखसे पीड़ित हुए ये
प्राणी अपने अपने कर्मोंके अनुसार परिश्रमण किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्यास आदिसे दुखी हुए जीवों ने
कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अपने पाप कर्मोंके उदयसे अनंत बार न जन्म लिया हो न मरण
किया हो ॥ ३३ ॥ उत्सर्पिणी अक्सर्पिणी कालका कोई ऐसा समय बाकी नहीं है जहांपर कर्मोंके वर्शोभूत
यक तक कोई ऐसी योनि बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अनेक बार न जन्म लिया हो, न मरण किया हो
॥ ३५ ॥ यह जीव मिथ्यात्व अबूत कषाय आदि भावोंसे प्रतिदिन संसारके कारण और अत्यंत दुःख देने-
वाले कर्मोंका बंध करता रहता है ॥ ३६ ॥ इसप्रकार कर्मोंसे बंध हुए कुसार्थात्मी प्राणी धर्मरूपी जहाजके
न मिलनेसे इस अनादि संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते रहते हैं ॥ ३७ ॥ यह अत्यंत कामी मूर्ख संसारमें
दुखको ही सुख मानते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष कामको जलन आदिसे उत्पन्न हुए सब सुखोंको भी दुखरूप
ही समझते हैं ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार विषसे भरे हुए घड़ोंमें कभी अमृत नहीं हो सकता उसीप्रकार सैकड़ों
दुखोंसे भरे हुए निरुण संसारमें कभी सुख नहीं मिल सकता ॥ ३९ ॥ इसप्रकार इस संसारको दुःख-

पदसे उत्पन्न हुए, उपमारहित, अपार और क्षणक्षणमें उत्पन्न होनेवाले उत्तम सुखोंका अनुभव करते थे ॥ १६ ॥ इस संसारमें बिना धर्मके न तो तीर्थकरकी लक्ष्मी प्राप्त होती है, न चक्रवर्तीकी पूर्ण संपत्ति प्राप्त होती है न तीनों लोकोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है और न अत्यन्त सुख प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ धर्मके बिना न तो निधि रत्न आदि प्राप्त होते हैं न तीनों लोकोंमें फैलनेवाला यश प्राप्त होता है, न इन्द्र नरेंद्रों-द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और न लोकोत्तर सुख प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ धर्मके बिना न तो धर्मसाधनमें बुद्धि लगती है न समस्त शास्त्रोंकी जानकारी प्राप्त होती है, धर्मके बिना न तो जीवोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है और न धर्मके बिना इष्ट पदार्थोंकी सिद्धि होती है ॥ १९ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोगोंको परलोककी सिद्धिके लिये मन बचन कायकी शुद्धतापूर्वक बड़े प्रयत्नसे व्रत, दान पूजा, दीक्षा, तप, जप, यम आदि पालनकर भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुये धर्मका पालन करना चाहिये ॥ २० ॥ तीनों लोक जिनके चरण कमलोंकी पूजा करते हैं जो पापरहित हैं और पुण्यके स्थान हैं ऐसे वे भगवान् शान्तिनाथ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानको फैलाते थे, पापोंका नाश करनेवाला धर्मध्यान धारण करते थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिये पर्वके दिनोंमें सदा प्रोषधोपवास धारण करते थे सदा न्याय और विवेकसे काम लेते थे तथा श्रावक धर्मके योग्य उत्तम व्रत पालन करते थे ॥ २१ ॥ स्तुति और बंदना किये हुए वे पूज्य श्रीशान्तिनाथ भगवान् संसारकी अशान्तिको दूर करें, धर्मात्मा लोगोंके तथा भेरे अशुभ कर्मोंका नाश करें और धर्मध्यान पापोंसे रहित पूर्ण शुक्लध्यान, रत्नत्रय समाधि और समाधिमरण प्रदान करें ॥ २२ ॥

इस प्रकार शान्तिनाथ पुराणमें जन्माभियेक और राजलक्ष्मीको वर्णन करनेवाला चोदहवा अधिकार समाप्त ॥ १४ ॥

अथ पन्द्रहवां अधिकार ।

में अपने समस्त पाप शान्त करनेके लिये अनंत महिमाओंसे विराजमान और समस्त सोभाग्यके समुद्र ऐसे भगवान् शान्तिनाथको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ अथानन्तर—इसप्रकार राज्य करते हुये भगवान्को

पचीस हजार वर्ष व्यतीत हो गये तब किसी एक दिन वे अपने अलंकृत भगनसे विराजमान थे। वहाँपर
 उन्होंने किसी दूपागमें अपनी दो छाया देखी। उन्हें देगकर वे आश्चर्यके साथ विचार करने लगे कि यह
 इसके भीतर क्या है ॥ २३ ॥ उन्होंने अपने अन्विज्ञानसे जान लिया कि यह तब तब अपने ही शरीरमें उत्पन्न
 हुआ है और अपने पहिले जन्मको दो पर्याय है। वे उसको उनके प्रकृतसे विचार करने लगे ॥ २ ॥ वे
 भगवान् चारित्र्य मार्गीय कर्मके जगदगमने और कानलब्धिते उसी समय वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ वे
 विचार करने लगे कि जिन प्रकार यह आधा चंचल है उसी प्रकार यह शरीर, राज्य, पद, संपत्ति आशु स्त्री
 आदि सब चंचल है ॥ ६ ॥ तदन्तर वे भगवान् सोच प्राप्त करनेके लिये अपने मनमें वैराग्य उत्पन्न कर-
 नेके लिये सातके समान चार अनुभवाओंका चिन्तन करने लगे ॥ ७ ॥ अतिस, अग्रण, नानार, परार
 अन्यत्, अशुचि, आक्षत्र, संवर, निर्वाग, लोह, बोधितुल्य और धर्म वे चार अनुभवाये कल्पानी है।
 इनको वे भगवान् अज्ञ २ चिन्तन करने लगे ॥ ८-९ ॥ वे विचार करने लगे कि देता यह मनुष्योंका
 शरीर विजलीके समान चंचल है, मृष्टुके द्वारा यह अरस्य मन्ट होनेवाला है बुद्धाकारपी राक्षसीसे घिरा
 हुआ है और विम अग्नि मर्ष शत्रु आदिसे मन्ट होनेवाला है ॥ १० ॥ पुत्र, मित्र, स्त्री, भाईवन्तु, मेवरू,
 माता पिता, आदि सब अतिस है अणभरमें जलके बुद्धुद्राके समान मन्ट दो जाते हैं ॥ ११ ॥ यह राज्य
 पापके समान है, पापकी म्पानि है, दायके समान चंचल है, अनेक शत्रुओंसे घिरा हुआ है, और शत्रुओंके
 द्वारा अनेक प्रकारकी शत्रुता उत्पन्न करनेवाला है ॥ १२ ॥ यह लज्जा वैरागके समान चंचल है, इसके
 लिये चार, शत्रु, राजा आदिसे भी प्राधना करनी पड़ती है, सब लोग इसका उपयोग करने लें, बड़ी कठि-
 नतासे प्राप्त होती है और दुन देनेवाली है ॥ १३ ॥ घर वाहन, गृहस्थके सब पदार्थ, राज्य प्रलंकार और
 चक्रवर्तीकी पदवी आदि सब कालरूपो अग्निसे भस्म हो जाते हैं ॥ १४ ॥ पूर्ण पुण्यको प्राप्त हुये इन्द्रादिक
 देव भी अपने समयानुसार स्वर्गसे पड़ने हैं फिर भला पुण्यहीन मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ॥ १५ ॥ तिस-
 प्रकार घटीयंत्रके द्वारा कृणसे पानी निकाला जाता है उसी प्रकार घड़ी दिन आदिके द्वारा प्राणियोंकी दुर्लभ

उड सुदंगके आकारका है, और चारों कोनों तक जीवोंसे भरा हुआ है ॥ ८ ॥ उत्याद ध्रौव्य सहित और अपने २ गुणोंसे भरपूर ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल और जीवराशिसे वह लोक भरा हुआ है ॥ ९ ॥ उस के अधोभागके सात नरकोंमें चौरासी लाख बिल हैं जो समस्त दुखोंके निधान हैं ॥ १० ॥ उनमें पापी नारकी अन्य नारकियोंके द्वारा दिये हुए परस्परके छेदन भेदन आदि अनेक प्रकारके घोर दुखोंके द्वारा सदा दुख भोगते रहते हैं ॥ ११ ॥ वे नरक समस्त दुखोंके समुद्र हैं उनमें यह जीव पहिले उपाजर्ज किये हुए पापकर्मके उदयसे जो वचनोंसे भी न कहे जा सकें ऐसे दुख भोगता रहता है वहांपर जीवोंको लेश्मानत्र भी सुख नहीं मिलता ॥ १२ ॥ केवल ढाई द्वीप ही ऐसा है जिसमें कुछ जीव पुण्योपाजर्ज करते हैं कुछ चारित्र धारणकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कुछ हिंसाकर पाप कमाते हैं ॥ १३ ॥ ज्योतिष्क और व्यंत्तर देवोंसे भरे हुए असंख्यात द्वीपोंमें ये जीव पुण्य पापके वश होकर सदा परिश्रमण किया करते हैं ॥ १४ ॥ पूर्वोपाजित शुभ कर्मोंके उदयसे कुछ धर्मात्मा जीव सोलह स्वर्गोंमें और नव प्रवैयक आदि कल्यातीत विलानोंमें अनेक प्रकारके सुख भोगते रहते हैं ॥ १५ ॥ उसके आगे सदा एकसा रहनेवाला नित्य स्थान है जहांपर अनेक सुखमें लीन हुये और तीनों लोकोंके द्वारा बंदनीय ऐसे सिद्धात्मा निवास करते हैं उनको मैं भी नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ इसप्रकार लोकका विचित्र स्वरूप जानकर विद्वान लोग रागादिकको छोड़-कर मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय करते हैं ॥ १७ ॥ यह अनेक प्रकारका समस्त लोक द्रव्योंसे भरपूर है, उत्याद ध्रौव्य स्वरूप है, सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है, सुख दुखसे भरा हुआ है, अनादि है और सदा रहनेवाला अविनाशी है लोकका ऐसा स्वरूप जानकर बुद्धिमान लोग रत्नत्रयके द्वारा सिद्ध होकर उसके ऊपर जा विराजमान होते हैं ॥ १८ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥

जन्म मरणसे पीडित हुआ यह जीव अनंत कालतक निगोदमें परिश्रमण किया करता है और फिर अन्य स्थावरोंमें श्रमण करता है त्रस पर्याय नहीं पाता ॥ १९ ॥ कदाचित्त बड़ी कठिनातासे त्रस पर्याय मिल भी जाय तो बहुत दिनतक लट कुंथ आदि कीड़े मकोड़ोंकी योनियोंमें ही घूमा करता है पंचेन्द्रिय

पर्याय नहीं पाता ॥ २० ॥ कदाचित् पंचेन्द्रिय भी हो जाय तो बहुत दिनतक अरसेनी ही बना रहता है, धर्माबुद्धिसे रहित होनेके कारण सेनी नहीं होता ॥ २१ ॥ कदाचित् सेनी भी हो जाय तो सिंह बाघ आदि क्रूर जातियोंमें उत्पन्न होकर हिंसादिके द्वारा महापाप उत्पन्न करता है जिससे नरकादिकोंमें जाकर अनेक दुख भोगता है ॥ २२ ॥ नरकोंमें जाकर अनेक सागरतक दुख भोगता है और ऐसे दुख भोगता है जा वचनसे भी न कहे जा सकें । पाप कर्मके उदयसे यह जीव दुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं पा सकता ॥ २३ ॥ कदाचित् समुद्रमें गिरे हुए रत्नके समान दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ले तो फिर म्लेच्छ जाण्डोंमें हो भ्रमण किया जाता है आर्यखण्डमें जन्म नहीं लेता ॥ २४ ॥ कदाचित् भाग्यवशसे आर्यखण्डमें भी जन्म ले नहीं ले सकता ॥ २५ ॥ कदाचित् श्रेष्ठ कुलमें भी जन्म ले ले तो आयु, रंगरहित शरीर, इन्द्रियोंकी पूर्णता रत्नत्रयकी प्राप्ति, कर्पायोंकी मंदता, अरहंतदेवके कहे हुए शास्त्र, निर्णय गुरु, सम्यग्दर्शन, तप, ज्ञान, चारिष्य आदिकी प्राप्ति उत्तरोत्तर दुर्लभ है, कदाचित् बड़े भाग्यसे ये सब मिल भी जाय तो चिंतामणि रत्नके समान ध्यानकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ॥ २६-२७ ॥ इन सबका पाकर भी यह मनुष्य यदि धर्म साधन करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें प्रमाद करे तो फिर यह दीन संसाररूपी वनमें भ्रमण किया ही करता है ॥ २८ ॥ फिर यह जीव समुद्रमें गिरे हुए साणिकके समान करोड़ों सागरतक भी मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठकुल और धर्मके साधन नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ २९ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोग रत्नत्रयकी स्थापना पाकर धर्म साधनमें महा प्रयत्न करते हैं उस धर्मके सेवकसे माश्रफें जा विराजमान होते हैं ॥ ३० ॥ इन व्यंसारमें मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, फिर सुदेश, सुकुल श्रेष्ठबुद्धि, आराधयता, इन्द्रियोंकी पूर्णता, श्रेष्ठगुरु, सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप, उत्तरोत्तर दुर्लभ है इसलिये धार्मिक पुरुष इनका पाकर समस्त प्रयत्नसे चारित्र्य धारण कर माक्ष सिद्ध किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इनि बोधितुल्यानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आक्रिन्त्य आर व्रतचर्य यह दश प्रकारका उत्तम

जिसप्रकार बिना छिद्रका जहाज समुद्रके पार पहुंच जाता है उसीप्रकार धीर वीर पुरुष संवरके द्वारा कर्मोंका नाशकर संसारके पार हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ चतुर पुरुष समिति, व्रत, युक्ति, परीपहजय, धर्मध्यान, शुद्धध्यान, अध्ययन, संयम आदिके द्वारा संवर धारण करते हैं ॥ ८७ ॥ संवरके साथ यदि थोड़ा भी तप, चरित्र, संयम आदि किया जाय तो वह भी सब प्रकारके कल्याण देनेवाला और मोक्षरूपी वृक्षका बीज हो जाता है ॥ ८८ ॥ यद् संवर जीवका परम सिद्ध है, संवर ही परम तप है, संवर ही स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेवाला है, संवर ही धर्मका कारण है और संवर ही अनन्त सुख देनेवाला है ॥ ८९ ॥ जिसने कर्मोंका आस्रव रोककर संवर धारण किया है वही संसारके पार होता है और वही अपने हाथमें मोक्षको ले सक्ता है फिर भला और सुखोंकी तो बात ही क्या है ॥ ९० ॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले योगी पुरुष संवर धारण करनेके लिये सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्वको नाश करते हैं, व्रतोंसे अचिरतिको, यत्नपूर्वक धर्म धारणकर प्रसादोंको, क्षमासे क्रोधरूपी शत्रुको, मार्दवसे मानको, आर्जवसे मायाको, संतपरो लोभको, कायोत्सर्गसे शरीरके ममत्वका, मौनसे वचनयोगको और ध्यान तथा शास्त्रज्ञानके अभ्याससे मनोयोगको नष्ट करते हैं इसप्रकार आस्रवके सब कारणोंको नष्ट कर डालते हैं ॥ ९१-९२ ॥ जो जीव चारों गतियोंके कारणरूप कर्मोंका रोककर संवर धारण करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है बिना संवरके मोक्षके लिए परिश्रम करना सब व्यर्थ है ॥ ९३ ॥ यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनियोंको सब इन्द्रियोंको तथा योगोंको निग्रहकर और तपश्चरण धारणकर सदा संवर धारण करना चाहिए ॥ ९४ ॥ यह संवर सर्वधर्मका निर्मल समुद्र है सुखका निधि है, मुक्तिरूपी स्त्रीका भाई है, नरकरूपी घरका किवाड़ है, तीर्थकर भी सदा इसकी सेवा करते हैं, यह अनन्त गुणोंकी खानि है और निर्मल है इसलिए बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अनेक प्रकारके संयम अदिके द्वारा सदा सब कर्मोंको रोककर संवर धारण करना चाहिये ॥ ९६ ॥ इति संवरानुश्रवा ॥ ८ ॥

सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी होती है, जो कर्म अपना फल देकर जो खिर जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है यह संसारमें सब जीवोंके होती है ॥ ९७ ॥ तथा तपश्चरण, संयम, ध्यान, परीप-

हजय और श्रुतज्ञानसे विना फल दिए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं वह अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा पापकर्मों का संवर करनेवाले मुनियोंके ही होती है ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोगवाला प्राणी मलके निकल जानेसे सुखी हो जाता है उसी प्रकार तप चारित्ररूपी औषधिके द्वारा कर्मरूपी मलके निकल जानेसे (नष्ट-इसलिए वह त्याग करने योग्य है और अविपाक निर्जरासे अन्य कर्मों का आश्रय होता रहता है ग्रहण करने योग्य है ॥ १०० ॥ जिस प्रकार अधिक गर्मी देनेसे कच्चे आम भी पक जाते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान लोग तपश्चर्यारूपी गर्मीसे असंख्यात कर्मों को पकाकर नष्ट कर डालते हैं ॥ १ ॥ जो पुरुष इस संसारमें पहिले उपार्जन किए हुए कर्मों की निर्जरा करते हैं उनके साथ मुक्ति स्त्री भी होती है फिर भला देवानगनाओंकी तो बात ही क्या है ॥ २ ॥ यह कर्मोंकी निर्जरा मुक्तिरूपी कच्चाकी माता है, नरकरूपी घरकी अग्रला (बैंड़ा) है, स्वर्गके लिए सीढ़ियोंकी पंक्ति है और सुखकी खानि है ॥ ३ ॥ मुनि लोग पहिले तो पापरूप अशुभ कर्मोंका संवरकर उनकी निर्जना करते हैं, और फिर अशुभ कर्मोंका संवरकर उनकी निर्जरा करते हैं ॥ ४ ॥ अपने आत्माका हित चाहनेवाले प्राणियोंके लिए यह निर्जरा परम माता है, यह सब दुखोंको दूर करनेवाली है, सारभूत है और अनंत सुख उत्पन्न करनेके लिए पृथ्वीके समान है ॥ ५ ॥ यही समझकर उत्तम बुद्धिमानोंको मन तथा इंद्रियोंका निरोधकर और तप चारित्र संयमादि धारणकर प्रतिदिन कर्मोंकी निर्जरा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ यह कर्मोंकी (अविपाक) निर्जरा संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाली है, मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी है, नरकके दरवाजेकी मजबूत अग्रला है, स्वर्गके लिये निर्मल सीढ़ियोंकी पंक्ति है, अनंत सुखोंकी खानि है और श्रीतार्थकर भी इसकी सेवा करते हैं इसलिये बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कायक्लेश, तप जप आदि गुणोंके द्वारा यह कर्मोंकी निर्जरा सदा करते रहना चाहिये ॥ १७ ॥ इति निर्जरानुष्ठेचा ॥ ६ ॥

यह लोक अकृत्रिम है, नित्य है, उर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे तीन प्रकारका है, वह ज्ञान गोचर है, २६२

होनेसे आज रत्नत्रयरूप महान मोक्षका मार्ग प्रगट होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५७ ॥ हे नाथ । आज आपके चारित्ररूपी तलवारके हाथमें लेनेसे यह तीनों लोकोंको जीतनेवाला मोहरूपी शत्रु अपने आप ही 'हा में मरा, हा में मरा' इसप्रकार कहता हुआ कांप रहा है ॥ ५८ ॥ हे स्वामिन् । आज आपके ज्ञानका उदय होनेसे इस संसारमें मनुष्योंके स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेवाला और सुखका सागर ऐसा महान् धर्मका उदय होगा ॥ ५९ ॥ हे प्रभो ! सूर्यके समान आपका उदय होनेसे खद्योतके समान पाखंडी लोग प्रभारहित हो जायेंगे इससे कोई संदेह नहीं है ॥ ६० ॥ हे देव । आपका दीक्षाकल्याणक सुनकर धर्मरूपी महासागर को वृद्धि होनेसे आज, हम स्वर्ग निवासियों तथा मनुष्योंको बहुत ही आनन्द हुआ है ॥ ६१ ॥ हे जिनन्द, आज आपका धर्मोपदेश सुनकर बहुतेसे मोहि मनुष्य मोह नाश करेंगे, कामो लोग कामको नष्ट करेंगे, और धार्मी लोग धार्मीको छोड़ देंगे ॥ ६२ ॥ हे स्वामिन् । आपके केवलज्ञानसे सज्जन लोगोंका उपकार होगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हे प्रभो । आप केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिए उद्यम कीजिए ॥ ६३ ॥ हे नाथ । वैराघ्यरूपी तीक्ष्ण तलवारसे जगतके जीतनेवाले मोहरूपी दुष्ट योद्धाको मारकर आज शीघ्र ही संयम धारण कीजिये ॥ ६४ ॥ हे देव । आज राज्यके कठिन भारको छोड़कर अपने ज्ञानके द्वारा तीनों जगत्के राज्यका कारण और सुगम ऐसा तपश्चरण का भार स्वीकार कीजिये ॥ ६५ ॥ हे देव । आप विद्वान और मूर्ख दोनोंको उपदेश देनेवाले हैं फिर क्या हम लोगोंके द्वारा प्रबुद्ध किये जा सकते हैं ? क्या प्रकाश करनेके लिये सूर्यको दीपक दिखाया जाता है ॥ ६६ ॥ इसलिये हे नाथ । तपश्चरण कर आप स्वसत्त संसार को पवित्र कीजिये और केवल ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र ही मनुष्योंका उपकार कीजिए ॥ ६७ ॥ हे देव आप धर्म अर्थ काय इन तीनों पुरुषार्थोंके पारणामी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीर्थंकर हैं और तीनों लोकोंके स्वामी हैं ॥ ६८ ॥ हे नाथ । आप चौथे मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध करनेके लिए चारित्र धारण कीजिए क्योंकि चारित्र धारण कर ही आप संसारसे भव्य जीवोंका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥ ६९ ॥ जिसप्रकार संसारमें आकाशसे कोई बड़ा नहीं है, और परमाणुसे कोई छोटा नहीं है उसीप्रकार हे देव । तीनों कालमें आपसे कोई

वडा देव नहीं है ॥ ७० ॥ इसलिये हे जिनेन्द्र दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले, जगतको आनन्द देनेवाले
 परंपेष्टी आपका नगरकार है वार वार नमस्कार है ॥ ७१ ॥ आपका ज्ञान समस्त संसारको जालता है इस-
 लिये आपको नमस्कार है, आप सज्जनोंके गुरु है इसलिये आपको नमस्कार है, आप शुक्तिर्षिक पति है
 इसलिये आपका नमस्कार है और आप कल्याणकसागर है इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ७२ ॥ हे देव !
 इस स्तुतिके द्वारा हम आपसे संसारको लक्ष्मी नहीं मांगते है किन्तु हम आप अपने गुणोंका समूह ही दे-
 डालिए ॥ ७३ ॥ हे भगवान शीतिनाथ इन्द्र भी आपके चरण कमलोंकी पूजा करते है, आप संसारके सब
 ननोंको उल्लस देनेवाले है, आप ही तानों कालोंके जीवोंके भावोंको कटनेवाले है, आप ही समस्त कबलूप
 ही सबल है, और आप ही तीर्थंकर चक्रवर्ती कापदेव पदको धारण करनेवाले है इसलिये हे देव ! मरे लिये
 तो आप ही शरण है ॥ ७४ ॥ इसप्रकार उन लौकिक देवाने भगवानकी स्तुति की, प्रशंसा की और वार
 वार उन्हें प्रणाम किया तथा अपना नियोग साधनकर वे प्रसन्नचित्त होकर अपने रयातको चले गये ॥ ७५ ॥
 जितप्रकार दीपस चक्रुके द्वारा पदार्थोंके देवनेसे सहायक होता है उसीप्रकार लौकिक देवाने बचन भग-
 वानको दांजामें नवावक हींगये थे ॥ ७६ ॥ भगवान जबतक अपना राज्य छोड़ने और वनमें जानेके लिए
 तैयार हुए, तबतक चारों निकायके देव और इन्द्र अपने अपने चिन्होंसे तथा आसनोंके कंपवमान होनेसे
 भगवानका दांजा कल्याणक जानकर पहिले कहे अनुचार अपने अपने वाहन और देवांगनाओंके साथ
 अपनी कानिते आकाशका प्रनाशित करने हुए गीत नृत्य करते हुए आपे और आते ही उन्होंने जगतगुरु
 भगवानको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया ॥ ७७-७८ ॥ उस समय देवानों सेना, देवांगनाएँ और देव सब
 आकाश, नगरको गलियां, राज्यभवन नगर वन सबको रोककर वड़े हींगये थे ॥ ८० ॥ तदनन्तर इन्द्रादिक
 देवाने वड़े उल्लसके साथ दांजा कल्याणका उल्लस मनानके लिए वड़ी विभूति पूर्वक मोतियोंकी माला-
 आसे सुशोभित, धीरसागरके जलसे भरे हुए, सुवर्णके, उच्च, गहरे उत्तम कलशांसे भगवानका सर्वोत्तम

महाधर्म कहलाता है यही धर्म मोक्षका कारण है इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको मन वचन कायसे क्षमा आदि धर्मोंको धारण करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ बुद्धिमान लोग धर्मसे ही तीर्थंकर पद पाते हैं, धर्मसे ही चक्रवर्ती की विभूति, इंद्रके सुख, स्वर्ग, राड्य, कीर्ति और दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥ तीनों लोकोंमें जो पदार्थ दुर्लभ है, जो दूर है और जो बड़ी कठिनातासे प्राप्त हो सकता है वह भी धर्मार्थमा जीवोंको धर्मके प्रभावसे लालाभाजमें प्राप्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ धर्मसे ही पुत्र पौत्र आदि कुटुंब मिलता है धर्मसे ही सुखकी सामर्थी मिलती है धर्मसे हा रूपवती स्त्री मिलती है और धर्मसे ही सेवक आदि प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥ जिसके धर्मका उदय होता है उसके पास सुख देनेवाली तीनों लोकोंकी लक्ष्मी धरकी दासीके समान स्वयं आ जाती है ॥ ३७ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल कारण धर्म ही है धर्मके विना ये कुछ नहीं प्राप्त होते इसलिये बुद्धिमानोंको सबसे पहिले धर्म ही सेवन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको बहुमूल्य मनुष्य रत्न पाकर धर्मके विना कभी एक समय भी नहीं विताना चाहिये ॥ ३९ ॥ जो निर्मल धर्म पालन करते हैं उनके चरणकमलोंको इन्द्र भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं औरोंकी तो बात ही क्या है ॥ ४० ॥ यही समझकर सज्जनोंका मोक्ष प्राप्त करनेके लिए प्रतिदिन श्रीजिनेंद्रदेवके कहे हुए दयालय धर्मका पालन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ यह उत्तम क्षमा आदि दश प्रकारका धर्म सुखका सागर है, मोक्षका कारण है, समस्त गुणोंका निधि है, स्वर्गके लिये सोढीके समान है, इन्द्रोंके लिए अनेक कृधियां देनेवाला है, तीर्थंकर पद देनेवाला है, समस्त कर्मोंका नाश करनेवाला है, संसारको समस्त लक्ष्मी और शोभाको देनेमें चतुर है और रत्न निधि आदिका धर है इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको आत्माकी सिद्धि करनेके लिए भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए सद्धर्मका सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ इति धर्मानुपेक्षा ॥ १२ ॥

ये वारह अनुप्रेक्षाएं शास्त्रोंमें कही हैं ये सब अनुप्रेक्षाएं मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी हैं, गार भूत हैं तथा वीरग्य और धर्माचरणकी माता हैं, जो मनुष्य अपने हृदयमें इनको धारण करते हैं वे तीनों लोकोंके स्वामी होते हैं उनके सबप्रकारकी लक्ष्मी स्वयं आजाती है सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और मुक्ति, स्त्री, ज्ञान, चारित्र

क गुण अत्यन्त वैराग्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ इसप्रकार अनुप्रेक्षाओंके चिंतन करनेसे भगवानके हृदयमें अनंत सुखका कारण और कर्मरूप शत्रुओंका नाश करनेवाला वैराग्य दूना होगया ॥ ४४ ॥ उन्होंने विरक्त होकर कहीं खंड पृथ्वी नौ निधि चौदह रत्न भोग काय स्त्री आदिका मोह छोड़ दिया और वे घरसे निकलनेकी तैयारी करने लगे ॥ ४५ ॥ इतनेमें ही ब्रह्मलोकमें रहनेवाले अत्यन्त शांत दीक्षा कल्याणको सूचित करनेवाले देवषि ब्रह्मचारी निर्मल हृदयको धारण करनेवाले एकावतारी चतुर और भारह अंग चौदह पूर्वके पारगामी और दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले सारस्वत आदित्य बन्धि, आरुण, गर्दतीय, लुषित, अव्यावाध, अरिष्ट ये आठ प्रकारके विचक्षण लौकांतिक देव अपने अर्वाधि-ज्ञानसे तथा अकभ्यात होनेवाले चिन्होंसे भगवानका वैराग्य उत्पन्न होना जानकर आये और आते ही उन्होंने बड़ी प्रारम्भालसे मस्तक भुंकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४६-४९ ॥ तदनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ श्रेष्ठ द्रव्योंसे भगवानकी पूजा की और फिर भक्तिपूर्वक मस्तक भुंकाकर उत्तम गुणोंके द्वारा वे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ५० ॥ हे देव ! आप संसारको जाननेवाले हैं और ज्ञानियोंमें भी ब्रह्मज्ञानी हैं इस संसारमें ऐसा कौन है जो आपको समझावे क्योंकि आप महापुरुषोंके भी गुरु हैं ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार लोग फूलसे वनरूपतिकी पूजा करते हैं जलकी अंजलि देकर समुद्रकी पूजा करते हैं और केवल भक्तिपूर्वक दीपकसे सूर्यकी पूजा करते हैं उसीप्रकार हे जिनराज ! केवल सन्तोषनके बहानेसे भक्ति करनेवाले हम लोग आपको स्तुति करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं विद्वानोंके गुरु हैं आपही संसारसे अयभीत होनेवाले लोगोंके रक्षक हैं और इस संसारसे बचानेके लिये आप ही मनुष्योंके शरण ह ॥ ५४ ॥ हे देव ! आपके धर्मोपदेशसे श्रेष्ठ व्रतोंको धारण करनेवाले कितने ही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं कितने ही पुण्यवान स्वर्गको जाते हैं और कितने ही कल्याणतित विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ हे स्वामिन् ! आज सन्ध्यदर्शन और सन्ध्यज्ञानको रोकनेवाला मनुष्योंका मिथ्याज्ञान रूपी अन्धकार आपके बचनरूपी किरणोंसे नष्ट होकर दूर भाग जायगा ॥ ५६ ॥ हे देव ! आपके तीर्थकी (दिव्य ध्वनिकी) प्रवृत्ति

महाभिषेक किया ॥ ८१-८२ ॥ फिर उन इन्द्रो'ने आद्रपूर्वक दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र और चंदनकी बनी हुई सुगंधित मालाओं'से भगवानको विभूषित किया ॥ ८३ ॥ भगवानने वड़े उत्सव और विभूतिके साथ अपने पुत्र नारायणका राज्याभिषेक किया और सब राज्य संपदा उसे दी ॥ ८४ ॥ भगवानने मोहरूपी शत्रुको मारकर आद्रपूर्वक सब कुटुंबी लोगों'से पूछा और फिर वे इन्द्रके हाथका सहारा लेकर इन्द्रो'के द्वारा बनाई हुई, रत्नमयी, दीजा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीपर सवार हुए ॥ ८५-८६ ॥ उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर सात पेंडतक ले चले फिर सात पेंडतक प्रसन्न चित्तवाले विधाधर आकाशमें ले चले और फिर अत्यन्त प्रसन्न हुए सब देव उस पालकीको कंधेपर रखकर शीघ्र ही आकाशमार्गसे चले ॥ ८७-८८ ॥ भगवानके माहात्म्यकी प्रशंसा वस इतनेमें ही समाप्त समझनी चाहिये कि इन्द्र भी प्रसन्न चित्त होकर उनकी पालकीको ले जा रहे थे ॥ ८९ ॥ उस समय देव पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे, जय जय शब्द कर रहे थे और गंधोदककी वर्षाके साथ शीतल पवन बह रहा था ॥ ९० ॥ देव वंदीजन गसन समयके मङ्गल गीत गा रहे थे और देवों'के द्वारा वजाये हुए गसन समयके वाजे वजा रहे थे ॥ ९१ ॥ उस समय इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग "यह सज्जनों'के गुरु भगवानके मोहरूपी शत्रु के जीतनेका समय है" । इस प्रकार ऊंचे शब्दों'से घोषणा कर रहे थे ॥ ९२ ॥ उस समय देव प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण सब आकाशको घेरकर भगवान शान्तिनाथके आगे आये वड़ी प्रसन्नतासे जय जय शब्दों'का कोलाहल कर रहे थे ॥ ९३ ॥ उस समय भगवानके नामने समस्त दिव्य देवांगनाएं प्रसन्न होकर अपने शरीरकी कृत्रबंध आदिकी लघुता दिखला कर तथा और भी अनेक तरहके चित्र दिखलाकर नृत्य कर रही थीं ॥ ९४ ॥ किन्नर जातिकी देवियां मोहरूपी शत्रु के विजयकी प्रशंसासे गुथे हुए गीत गाती हुई भगवानके सामने मार्गमें हो सधुर स्वरसे गा रही थीं ॥ ९५ ॥ उस समय इन्द्रो'के शरीरकी कांति आकाशके अन्त तक फेले रही थी और दु'दुभिषियों'के शब्द सब दिशाओं'को रोककर सब जगह भर गए थे ॥ ९६ ॥ इन्द्र लोग भगवानके इधर उधर चमर हुला रहे थे और सब दिक्कुमारियां हाथों'में मंगल द्रव्य लेकर सामने

चल रही थीं ॥६७॥ उस समय बाजोंके शब्दोंसे, नृत्योंसे, जपजपकारोंके शब्दोंसे और गंधर्वोंके द्वारा होनेवाले गालोंसे संसार भरको आनन्द हो रहा था ॥६८॥ वेभगवान उस समय रत्नोंकी बनी हुई बहुमूल्य दिव्य पालकीमें विराजमान थे और दिव्यनाला आभरण चन्द्र आदि पहने हुए थे इसलिये वे मुक्ति कल्पार्क वरक समान सुशोभित होते थे ॥ ६९ ॥ अथवा वे भगवान असंख्यात देवोंसे घिरे हुए बड़ी विभूतिके साथ आकाशमार्गसे जा रहे थे इसलिये वे ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों संयमरूपी लक्ष्मीके साथ विवाह करकेके लिए क्रिया या तथा नगरसे निकलते नगर निवासियों' ने इसप्रकार उन्हें आशीर्वाद दिया था ॥ १ ॥ कि है नृपाधीन ? आप जाइए आपका मोक्षमार्ग कल्याणकारी हो, हे देव आपकी जय हो, आपकी वृद्धि हो और आपको समस्त कल्याण प्राप्त हो' ॥ २ ॥ उन्हें जाते हुए देखकर कितने ही लोग परस्पर कह रहे थे कि संसारमें यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि ये भगवान रत्न, निधि, स्त्रियां आदि सबको छोड़कर वनको जा रहे हैं ॥३॥ इस बातको सुनकर अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि यह ऐसा वैराग्यका ही माहात्म्य है । कि जिससे ये लोग ऐसी लक्ष्मीका भी छोड़ सकते हैं ॥ ४ ॥ यह सुनकर अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि संसार में ऐसे थोड़े उत्तम मनुष्य होते हैं जो इस लक्ष्मीको भोग सकते हैं और क्षणभरमें ही उसे छोड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि ये भगवान तीर्थंकर हैं चक्रवर्ती हैं और कामदेव हैं इसलिये ये इस लोक और परलोकके सब कामोंमें समर्थ हैं अन्य कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ यह सुनकर अन्य कितने ही चतुर लोग कहने लगे कि यह तुम्हारी बात विरकुल ठीक है, इन भगवानकी ही ऐसी शक्ति है औरोंमें ऐसी शक्ति कभी नहीं हो सकती ॥७ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि भगवान के धर्मका प्रभाव देखो जो इन्द्र भी सब देवोंके साथ इनकी सेवा कर रहा है ॥ ८ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि संसारमें जो कुछ आश्चर्यकारी पद है वह सब पुण्यका ही माहात्म्य है ॥ ९ ॥ इसप्रकार उत्कृष्ट वचनोंसे जिनकी प्रशंसा होरही है ऐसे वे भगवान अनुक्रमसे इन्द्रके साथ साथ नगरके बाहर जा पहुंचे

चतुर्थीके दिन सायंकालके समय भरणी नक्षत्रमें भगवान शान्तिनाथने प्रसन्न होकर दीक्षा धारणकी ॥३७॥ भगवानने जिन केशोंका लोच किया था उनको भगवानके मस्तकपर निवास करनेके कारण अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने वड़े आदरसे उनको रत्नकी पेटोमें रखवा तथा भगवानके मस्तकका स्पर्श करनेसे उनको अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने बड़ी विभूतिके साथ लेजाकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेपण किया ॥ ३८-३९ ॥ वरुण आभूषण माला आदि जो जो चीजें भगवानने उतारी थीं उन्हें भी देव असाधारण उत्तम समझकर अपने साथ ले गए थे ॥ ४० ॥ आरच्य है कि उत्तम पुरुषोंके सम्बन्धसे निर्गुण पदार्थ भी उत्तम होजाते हैं जैसे श्रीजिनेन्द्रदेवके आश्रय होनेसे यत्न भी पूजे जाते हैं ॥ ४१ ॥ भगवानके साथ साथ चक्राशुध आदि एक हजार राजाओंने दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर संयम धारण किया ॥ ४२ ॥ उन नवदीक्षित मुनियोंसे धिरे हुए वे शान्तिनाथ भगवान ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों एक बड़ा कल्पवृक्ष अन्य कल्पवृक्षोंसे धिरे ही हा ॥ ४३ ॥ अत्यन्त शान्त और आभूषण आदिसे रहित उन भगवानकी दिगम्बर अवस्था को धारण करने वाला शरीर अपने तेज और कांति आदि गुणोंसे अच्छा जान पड़ता था मानों चन्द्रमाका अद्भुत पूर्ण विंब ही हो ॥ ४४ ॥ उस समय भगवानके देदीप्यमान और उपमारहित रूपको इन्द्र सब देवोंके साथ हजारों नेत्रोंसे देखता हुआ भी तृप्त नहीं होता था ॥४५॥ तदनन्तर सन्तुष्ट हुए इन्द्र तीनों लोकोंके स्वामी और परम पदमें रहनेवाले भगवानके यथार्थ उच्चम गुणोंको वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगे ॥४६॥ हे देव ! गुणोंके प्रमाणको उल्लङ्घनकर उनको अधिकताके साथ वर्णन करना स्तुति कहलाती है परन्तु आपमें तो गुण ही अनन्त हैं हम तो उनका भी कहनेमें समर्थ नहीं ॥ ४७ ॥ तथापि हम मन्दबुद्धिवाले लोग केवल भक्तिके वश होकर आपकी स्तुति करनेको तैयार हुए हैं इसमें केवल भक्ति ही कारण है और कुछ नहीं ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! इस संसार में चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले गणधरदेव भी आपके गुणरूपी समुद्रका पार नहीं पा सकते फिर भला हम लोग उनका पार कैसे पा सकते हैं ॥ ४९ ॥ नदी, बृक्ष, मेघ और निधि आदि केवल दूसरोंका उपकार करते हैं परन्तु आप संसार भरका हित करनेवाला अपना और दूसरोंका दोनोंका उपकार करते हैं । हे देव ! हे धीर

॥ १० ॥ अथान्तर-भगवानके चले जानेपर उनकी रानियां भी शोकसे व्याकुल हुईं और माग में मंत्रियोंको साथ लेकर भगवानके पीछे पीछे चलीं ॥ ११ ॥ भगवानके वियोगरूपी अग्निसे उनका शरीर झुलसासा हा गया था उन्होंने आभूषण उतार दिये थे, शोभा उनकी जाती रही थी और गिरती पड़ती वे भगवानके पीछे पीछे जा रही थीं ॥ १२ ॥ कितनी ही द्वावानलसे जली हुई लताके समान जान पड़ती थी, उनकी झरिररूपी लकड़ी कंप रही थी, मूर्छा आनेसे उनके नेत्र बन्द होगए थे और वे पृथ्वीपर गिर पड़ी थीं ॥ १३ ॥ हे नाथ आज आप कहाँ चले गए ? अब आपका मिलाप कहाँ होगा ? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी ? इसप्रकार दुखसे व्याकुल हुईं कितनी रानियां रोरोकर करुणा उत्पन्न करनेवाले शब्दोंसे विलाप कर रही थीं और केशों की चोटी खोले हुए प्रभाहीन कितनी ही रानियां अपनी छाती ही कूट रही थीं ॥ १४-१५ ॥ कितनी ही रानियोंके केशपाण्डू छूट गए थे, मालाएं टूट गई थीं, चोली ढीली हो गई थीं, आँवोंसे आंसू बह रहे थे और उनकी अवरथा शोचनीय हो गई थीं ॥ १६ ॥ कितनी रानियां अपने थोड़ेसे पुण्यसे उत्पन्न हुए सौभाग्यको निंदा करती थीं जिनसे कि असमयमें ही संसार के द्वारा निंदनीय दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था ॥ १७ ॥ कोई कोई चतुर रानियां कह रही थीं कि तुम लोग रोओ मत, हम सब लोग स्वामीके साथ निर्दोष तपश्चरण करेंगे, जिससे हमें भी स्वामीका पद प्राप्त होगा । इसप्रकार आश्वासन देनेवाले वचनोंसे और शास्त्रज्ञानसे कितनी ही रानियोंने अपना शोक दूर कर दिया था ॥ १८-१९ ॥ इतनेमें महापुरुषोंने आकर श्मभ वचनोंसे समझाकर अन्तःपुरके साथ साथ उन खियोंको राका और कहा कि आगे मत जाओ, आगे जानेके लिए प्रभुकी आज्ञा नहीं है ॥ २० ॥ इस आज्ञाको सुनकर उन्हेंनि लफ्फो गर्भ सांसली और चिन्तमें यह धारण कर कि हम अवश्य ही निर्दोष तपश्चरण करेंगे, बड़े कष्टसे धरको लौट गईं ॥ २१ ॥ संयमरूपी लक्ष्मीके रसके लिए उत्सुक हुए वे भगवान चक्राद्युध आदि भाइयोंके नगर निवासी और राजा महाराजाओंके साथ तथा इन्द्रके साथ आर देवोंके द्वारा किए हुए महा उत्सवके साथ जहांतक लोगोंकी दृष्टि पहुंच सके इतनी दूर आकाशमागसे चलकर सहलाप्रा नामके वनमें जा पहुंचे ॥ २२-२३ ॥ उस वनमें एक शीतल छायावाला

हाथीके समान जा रहे । वे मुनिराज दानियोंको संतुष्ट करते हुए केवल शरीरको स्थिर रखनेके लिये अनु-
क्रमसे विहार करते हुए मंदरपुर नामके नगरमें पहुँचे ॥७०-७३॥ किसी घरमें जाकर शीघ्रतासे निकल जाना ही
जिनका आभूषण है ऐसे वे दिग्भ्रम्र अवरथाको धारण करनेवाले भगवान अपनी कांतिसे सब लोगोंको
मोहित करते हुए राजभवनमें जा पहुँचे ॥ ७४ ॥ वहाँके महाराज सुमित्रवड़ी कठिन्तासे प्राप्त होने योग्य
निधानके समान उन अद्भुत पात्रको देखकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ७५ ॥ पुरयकर्मको जाननेवाले उन
महाराजने भगवानको अपने हाथ जोड़े उनके चरण कमलोंको नमस्कार किया और तिष्ठ २ कहकर उन्हें
स्थापन किया ॥ ७६ ॥ श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, चमा और त्याग ये सात दानियोंके गुण
कहे गए हैं ॥ ७७ ॥ प्रतिग्रह, उच्चस्थान, पादप्रक्षालन, पूजा, प्रसाण, वचन शुद्धि, मनशुद्धि, काय शुद्धि
और आहार शुद्धि यह नव प्रकारकी भक्ति कहलाती है, दानी लोग पुरय संपादन करनेके लिये इनको
करते हैं ॥ ७८-७९ ॥ पुरयात्मा महाराज सुमित्रने सातों गुणोंसे सुशोभित हांकर वड़ी भक्तिसे उन भगवा-
नको प्राप्तक, मधुर, मनोहर, रसीला, तृप्ति करनेवाला सुख देनेवाला, चूषाको दूर करनेवाला और चारित्र्यको
पढ़ानेवाला आहार दिया ॥ ८०-८१ ॥ उस दानके आनन्दसे सतुष्ट हुए देवोंने महाराज सुमित्रके घर बहुत-
मुल्य मणियोंकी किरणोंसे व्याप्त ऐसे रत्नोंकी वर्षा की ॥८२॥ समस्त आश्चर्योंको करनेवाली वह आकाशसे
पड़ती हुई स्थूल रत्नोंकी धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो मनुष्योंको दानका अद्भुत फल ही वतला रही हो
॥ ८३ ॥ उस समय आकाशसे देवोंके हाथसे पड़ती हुई और अमरोंसे व्याप्त ऐसी पुष्पोंकी वर्षा हो रही
थी और ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो वह दाता और पात्र दोनोंकी पूजा करनेके लिये ही आ रही हो
॥ ८४ ॥ उस समय समस्त संसारको बहरे करनेवाले देवोंके गंभीर वाजे बज रहे थे और गंगा नदीकी
बूदोंकी बरसाता हुआ शीतल वायु वह रहा था ॥ ८५ ॥ देव उस दानसे संतुष्ट होकर “अहा यह कैसा
अच्छा दान है, ये कैसे उत्तम पात्र हैं और सब गुणोंका स्थान कैसा अच्छा दाता है” इसप्रकार आकाशमें
महाशब्द कर रहे थे ॥ ८६ ॥ उस दानसे महाराज सुमित्र अपनेको कृतार्थ मानते हुये घरको सफल मानने

लगे थे, गृहस्थाश्रमको सफल मानने लगे थे और अपने हाथोंको सार्थक मानने लगे थे ॥ ८७ ॥ आचार्य
 कहते हैं कि मैं तो घर उसीको मानता हूँ जहां मुनिराज अपने शरीरको रक्षाके लिये आते हैं । जिस घरमें
 मुनिराज आहारके लिए नहीं आते वह मनुष्योंका घर व्यर्थ है ॥ ८८ ॥ इस संसारमें वे ही गृहस्थ धन्य हैं
 जो पात्रोंको सदा अनेक प्रकारका दान देते रहते हैं । जो गृहस्थ मुनियोंको कभी दान नहीं देते वे पापी ही
 हैं ॥ ८९ ॥ दानसे जिस प्रकार इस लोकमें लक्ष्मी बढ़ाएष्य और कीर्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार परलोकमें
 भी स्वर्ग माक्षके महासुख प्राप्त होते हैं ॥ ९० ॥ अपने आरमत्त्वमें तल्लीन रहनेवाले जितेन्द्रिय और निरा-
 श्रय रहनेवाले वे मुनिराज आहार लेकर ध्यान करनेके लिये वनको चले गये ॥ ९१ ॥ वे भगवान् ब्रतोंको
 पालन करनेके लिये पृथ्वी अथ तेज वायु वनस्पति इन पांचों स्थावरोंको तथा शस जीवांको मन वचन काय
 और कृत कारित अनुमोदनासे दया पालन करते थे ॥ ९२ ॥ मौन धारण किए हुए वे भगवान् संवर धारण
 करनेके लिये सदा सत्यव्रतमें अर्चोपव्रतमें और ब्रह्मचर्यव्रतमें मन वचन कायसे तल्लीन रहते थे ॥ ९३ ॥ वे
 स्वधर्मों भो कभी किसी परिग्रहमें इच्छा नहीं रखते थे, इसीप्रकार गुप्ति समिति आदि सब व्रतोंसे परिपूर्ण
 थे तथा और भी अनेकव्रतोंको पालन करते थे ॥ ९४ ॥ वे पंच महाव्रतोंको बड़े प्रयत्नसे पालन करते थे और
 उनको पूर्ण सिद्धिके लिये वे उनको पच्चीस भावनाओंको सदा चिंतवन करते रहते थे ॥ ९५ ॥ वे भगवान् अहिंसा
 महाव्रतकी विशुद्धताके लिए मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, ईर्ष्यासमिति, आदानतिक्षेपण समिति, और आलोकितपाप
 भोजन इन पांच भावनाओंका चिंतवन करते थे ॥ ९६-९७ ॥ वे भगवान् सत्यमहाव्रतके लिये क्रोधका त्याग,
 लोभका त्याग भयका त्याग, हास्यका त्याग और सूत्रोंके अनुसार वचन बोलना इन पांचों भावनाओंका
 चिंतवन करते थे ॥ ९८ ॥ नित्त उचित और आज्ञानुसार ग्रहण करना अन्यथा ग्रहण न करना तथा भोजन
 और पानमें संतोष धारण करना अर्चोव्रतकी भावना है इनको भी वे चिंतवन करते थे ॥ ९९ ॥ स्त्रियोंकी
 शृंगाररूप कथाओंका त्याग, स्त्रियोंके रूप देखनेका त्याग, पहिले भोगे हुए भोगोंके स्मरण करनेका त्याग
 पौष्टिक रसीले भोजनका त्याग और शरीरके संस्कार करनेका त्याग इन ब्रह्मचर्यकी पांचों भावनाओंका भी

वं चिंतवन करते थे ॥ ३००-१ ॥ चेतन अचेतन रूपवाह्य अभ्यंतर परिग्रह रूप इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होना परिग्रह त्याग महाव्रतकी भावनाएँ हैं, इनको भी वे चिंतन करते थे ॥ २ ॥ महाव्रतोंको स्थिर रखनेके लिये ए महाव्रतोंकी पञ्चास भावनाएँ हैं । भगवान् श्रुतिनाथ इनका प्रतिदिन भावना करते थे ॥ ३ ॥ साधा करते हे ॥ ४ ॥ वे जितेन्द्रिय भगवान् समता धारणकर तथा प्रसाद रहित होकर एक सामायिक संयमको धारण करते हैं, उनके वलोंमें दोष न लगनेके कारण छेदोपरथापना आदिसे वे अलग ही रहते थे । वे भगवान् चौरासी लाख उत्तरगुणरूपी आभूषणोंसे विभूषित थे और अठारह हजार शीलरूपी वस्त्रोंसे अलंकृत थे ॥ ६ ॥ वे भगवान् पहिले कहे हुए अट्टईस मूलगुणोंसे सुशोभित थे और कर्मोंको भय उत्पन्न करनैवाले वारह तपरूपी श्राद्धोंसे विभूषित थे ॥ ७ ॥ वे भगवान् जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था वहींपर ध्यान अभ्ययनमें तल्लीन होकर मौन धारणकर और निर्भय होकर निवास करते थे ॥८॥ वे भगवान् ममत्व नष्ट करनेके लिए ईर्ष्यापथ शुद्धिपूर्वक गांव, खेड, नगर, द्रोणमुख, पुर, पत्तन, मटंघ, वन, कर्बट और अनेक देशोंमें वायुके समान विहार करते थे तथा वनोंमें भी सिंहके समान विहार करते थे ॥ ९-१० ॥ वे भगवान् प्रसादरहित हाकर नदोंके किनारे, युक्तमें, भयानक वनमें, वृक्षोंके, कोटरोंमें, शिलापर, पर्वतपर और कंदराओंमें निवास करते थे ॥ ११ ॥ ध्यान धारण करने और कर्मोंको नाश करनेके लिए शरीरसे सत्त्व छोड़कर कहींपर कायोत्सर्ग धारण करते थे और कहींपर वजासन धारण करते थे ॥ १२ ॥ तथा नुधा तथा आदि समस्त परीषहोंको और आर्तध्यान रौद्रध्यानरूपी अशुभ शत्रुओंको शांतपरिणामरूपी वाणोंसे नष्ट कर देते थे ॥ १३ ॥ वे धीर वीर भगवान् जाड़के दिनोंमें मोच प्राप्त करनेके लिए चौराएँमें ध्यान धारण कर और काष्ठके समान निरिचल हांकर शीतकी वाशकों सहन करते थे ॥ १४ ॥ गर्मीके दिनोंमें पर्वतके ऊपर शिलापर सूर्यके सामने कायोत्सर्ग धारणकर गर्मीकी वाधाको सहन करते थे ॥ १५ ॥ वर्षाचतुर्में भंड्रा वायु वहनके समय केवल पापोंको नाश करनेके लिए, वृक्षके नीचे ध्यान धारणकर वर्षाजन्य कष्टको सहन

प्रदक्षिणाएं दी और मस्तक भुक्काकर नमस्कार किया ॥ ४७ ॥ उस समय आकाशसे जलकणों के साथ पुष्पोंकी वर्षा हुई और सुगंधित केशरसे कुछ कुछ पीला हुआ पायु मंद मंद बहने लगा ॥ ४८ ॥ इसप्रकार इन्द्रने प्रसन्न होकर जिनका अद्भुत स्नानोत्सव किया ऐसे वे पवित्र भगवान तीनों लोकोंको शीघ्र ही पवित्र करें ॥ ४९ ॥ अथ र-अभिषेक समाप्त होनेपर इंद्रानीने कुतुहल चित्तसे तीनों जगतके गुरु भगवानका शृंगार करना प्रारंभ किया ॥ ५० ॥ जिनका अभिषेक हो चुका है और अपने तेजसे सूर्यको जीत रहे हैं ऐसे भगवानके शरीरपर लगे हुए जलकणोंको उसने स्वच्छ निर्मल वस्त्रसे पोछा ॥ ५१ ॥ भगवानका शरीर अत्यंत सुगंधित था तथापि भक्तिमें तरफ रहनेवाली इंद्रानीने सुगंधित गाढ़े चंदनसे उसपर अनुलेपन किया ॥ ५२ ॥ यदापि भगवान तीनों लोकोंके तिलक थे तथापि इंद्रानीने उनके ललाटपर तिलक किया और उनके मस्तकपर कल्पवृक्षोंके पुष्पोंकी मालासे सुशोभित रहनेवाला मुकुट धारण किया ॥ ५३ ॥ यदापि भगवान तीनों लोकोंके चूड़ामणि थे तथापि इंद्रानीने चूड़ामणि पहनाया और प्रसन्न होकर नेत्रोंमें काजल लगाया ॥ ५४ ॥ भगवानके कानोंमें स्वाभाविक खिद्र थे इसलिये इंद्रानीने उनमें भक्तिपूर्वक सूर्य चंद्रमाके समान कांतिवाले मनोहर कुंडल पहिनाये ॥ ५५ ॥ उनके हृदयमें मणियोंका हार पहिनाया कण्ठमें कंठी और माला पहनाई और इसप्रकार अत्यंत रूपवान भगवानकी शोभा सर्वोत्तम बनाई ॥ ५६ ॥ उनके दोनों हाथ कैचूर कटक अङ्गद और दिव्य अंगूठीसे सुशोभित थे और इसलिये वे कल्पवृक्षके समान जान पड़ते थे ॥ ५७ ॥ इंद्रानीने प्रसन्न होकर भगवानकी कमरमें किंकिणियोंके साथ २ बहुमूल्य और बहुत सुशोभित मणियोंकी करधनी पहिनाई ॥ ५८ ॥ पैरोंमें मणियोंके नूपुर शोभायमान थे जो बजनेवाले थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों सरस्वती ही उन अद्भुत पैरोंको सेना कर रही हो ॥ ५९ ॥ भगवान तीर्थंकर देवतीनों लोकोंके शृंगार भूत थे, अत्यंत रूपवान थे और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले थे यदापि उनके शरीरका शृंगार करनेसे कोई लाभ नहीं था तथापि इंद्रानीने अपना कस्तूर्य पालन करनेके लिये और पुण्य संपादन करनेके लिये उसी समय भगवानका शृंगार किया था ॥ ६०-६१ ॥ उस समय सिंहासनपर विराजमान हुए भगवान

ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों यशोरात्रि ही एक जगह इकट्ठी हुई हो अथवा लक्ष्मीका निर्मल पुंज ही अथवा शुभ परमाणुओंका समूह हो वा तेजका ही समूह हो अथवा संपूर्ण कलाओंसे सुशोभित चंद्रमा ही हो वा सौभाग्यका खजाना ही हो वा सुन्दरका समूह हो अथवा गुणोंका सागर हो अथवा भाग्यका समूह हो अथवा ऋद्धियोंसे सुशोभित मुनिराज ही हों ॥ ६२ ६४ ॥ सुवर्णोंका कांतिका धारण करनेवाला भगवानका शरीर स्वभावसे ही सुन्दरथा तथा अनेक प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित किया गया था और फिर इन्द्रानी ने तिलक आदि देकर उसका शृंगार किया था इसलिए उस उपमारहित शोभाका वर्णन भला कौन विद्वान कर सकता है ॥६५-६६॥ इसप्रकार परम आनन्द देनेवाले भगवानको शृंगारकर वह इन्द्रानी उनको रूपसंपत्ति को देखकर स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्य करने लगी ॥ ६७ ॥ इन्द्रने भी आश्चर्य और कौतुकके साथ अपने दोनों नेत्रोंसे भगवानके रूपकी उस समयकी अद्भुत शोभा देखी परन्तु फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए असंतुष्ट होकर अधिक देखनेकी इच्छासे उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सहस्र नेत्र बनाए ॥ ६८-६९ ॥ उस समय सब देव निमेष वा टिमिकार रहित लोचनोंसे पुण्यराशिके समूह के समान भगवानके निर्मल रूपको देखते थे ॥ ७० ॥ देवियां भी सब टिमिकाररहित नेत्रोंसे माणियोंकी खानिके समाप्त उनका रूप देख रही थी और बहुत देरतक देखते हुए भी तृप्त नहीं होती थीं ॥ ७१ ॥ तदन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवानका बड़ा भारी माहात्म्य प्रगटकर उनकी स्तुति करनी आरंभ की ॥७२ ॥ जिसप्रकार द्वीतीयाका चंद्रमा लोगों को आनन्द देता हुआ प्रगट होता है उसी प्रकार हे देव ! आप ही हम लोगोंको परम आनंद देनेके लिए प्रकट हुए हैं, हे देव ? आपका पुण्योदय सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप मिथ्यात्व और अज्ञानरूपी कृष्णमें पड़ते हुए प्राणियोंको स्वयं धर्मरूपी हाथका सहारा देकर कृपापूर्वक उनका उद्धार करेंगे ॥७४॥ हे प्रभो, जिसप्रकार आपके शरीर की किरणोंसे बाह्य अन्धकार नष्ट हो गया है उसी प्रकार मनुष्योंका अंतरंग अंधकार भी आपके वचनोंसे नष्ट हो जायगा ॥ ७५ ॥ हे देव ? आप सोलहवें तीर्थंकर हैं, आप ही पांचवें चक्रवर्ती हैं आप ही कामदेव हैं और आप ही मुक्तिके पति हैं ॥ ७६ ॥ हे नाथ ? आप जगतके स्वामी हैं गुरुओं के

महागुरु हैं, धर्मतीर्थ को उत्पन्न करनेवाले हैं और सद्धर्मके मुख्य नेता हैं ॥ ७७ ॥ जिसप्रकार चंद्रमा स्वयं स्वच्छ है इसलिये वह समस्त पृथ्वीको धवलित वा सफेद कर देता है उसीप्रकार आप भी पवित्र हैं इसलिये आप अपने परम गुणोंसे समस्त संसारको पवित्र करेंगे ॥ ७८ ॥ हे प्रभो ? आपके वचनामृतरूपी रोगसे घिरे हुए बहुतेसे जीव कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ७९ ॥ हे देव ? आप शिरसे पैरतक सम्यग्ज्ञानादि, समस्त गुणोंसे परिपूर्ण हैं इसीलिये जगह न पानिके कारण ही मर्तों दोष आपमें से भाग गये हैं ॥ ८० ॥ हे देव ? आप बिना ही स्नान किये पवित्र हैं तथापि आज इस मेरुपर्वातपर आपका स्नान किया गया है इसलिये हे प्रभो ? समस्त लोकोंको और पापसे मलिन होनेवाले हम लोगोंको आप पवित्र कीजिये ॥ ८१ ॥ हे देव आप तीनों ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं तथापि संसार में बुद्धिमान लोग आपको केवल ज्ञानरूपी सूर्य का उदयाचल मानते हैं ॥ ८२ ॥ जिसप्रकार शूद्र खानिसे निकली हुई मणि भी संस्कारके सम्बन्धसे और अधिक दैदीप्यमान होने लगती है उसी प्रकार अभिषेक और आभारणोंके संस्कारसे आप भी और अधिक दैदीप्यमान होने लगे हैं ॥ ८३ ॥ मुनि लोग आपको पुराणपुरुष कहते हैं, पुराण ऋषि बतलाते हैं विना कारण ही वन्द्यु कहते हैं तीनों लोकोंके पिता बतलाते हैं, सब जीवोंके हितकारक, पूज्य, समस्त विद्याओंमें निपुण, और धर्मारमा भव्योंको मोक्षतक पहुँचानेकेलिये सार्थी बतलाते हैं ॥ ८४-८५ ॥ आपकी आत्मा पवित्र है, आप गुण शाली हैं और संसारसे डरे हुए प्राणियोंको शरण हैं इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ८६ ॥ आप जगतके स्वामी हैं दश धर्मोंको उत्पन्न करनेकेलिये विशाल क्षेत्र हैं, सज्जनोंको प्रसन्न करनेवाले हैं और दिव्य मूर्ति को धारण करनेवाले हैं, इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८७ ॥ हे प्रभो ? आपकी प्रवृत्ति परिग्रह रहित है, आप सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं आप अत्यंत बलवान हैं और सज्जनोंके गुरु हैं इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८८ ॥ आपका निर्मल शरीर पसीना रहित है, मूठ रहित है, शरीरका रुधिर दूधके समान सफेद है, आपका संहनन वज्रदृवभ नाराच है, संस्थान समचतुरस्र है, आपका शरीर अत्यंत रूपवान है, अत्यंत सुगंधित है, सब सुलक्षणांसे सुशोभित है, अनंत शक्तिको धारण करता है और

आपके वचन प्रिय और समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं ये सुन्दर दश अतिशय आपके शरीर के साथ प्राट हुए हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो ॥८६-९३ ॥ इनके सिवाय और भी आपमें अनेक गुण हैं आप शान्ति करनेवाले हैं शीमान् हैं और ज्ञानके समुद्र हैं इसलिए आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ९३ ॥ हे संसार के स्वामी ? आप उपमारहित हैं और अनेक महिमाओं से भरे हुए लक्षणों से शोभायमान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥ ९४ ॥ हे देव ! इस प्रकारकी स्तुति हमें उसका लोभ नहीं है ॥ ९५ ॥ हे स्वामिन् ! आप हमें निर्मल रत्नत्रय दीजिये, समाधि दीजिये, समधि मरण दीजिये हमारे अशुभ कर्मोंका नाश कीजिये और अपने शुभ गुण हमें दीजिये ॥ ९६ ॥ अथवा हे जिनराज ! बहुत बड़ी प्रार्थनासे क्या लाभ है, आप भव भवमें केवल आपमें होनेवाली गाढ भक्ति दीजिये ॥ ९७ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर इन्द्रादि देवोंने भगवानके गुण प्राप्त करनेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वस्तक नवाकर भगवानके चरण कमलोंको बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ९८ ॥ वे भगवान संसार-रमात्रको शान्ति देनेवाले थे, उनके पाप सब शान्त हो गए थे और वे स्वयं शान्ति थे यही समझकर इन्द्रोंने उनका 'शान्ति' यह सार्थक नाम रखया ॥ ९९ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानको ऐरावत हाथीपर विराजमान किया और फिर इन्द्रादिक सब देव पहिलेके समान दुंदुभी आदि बाजे, गीत, नृत्य, जय जय शब्द और बड़ी विभूतिके साथ आकाशको उलंघन कर बहुत शीघ्र हरिथनापुरी नगरीमें आ गए ॥ १००-१०१ ॥ वह नगरी भवनोंपर लगी हुई अनेक प्रकारकी मनोहर ध्वजाओंसे तथा गीत नृत्य आदि महोत्सवोंसे प्रसन्न भ्रमरपुरीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ २ ॥ देवोंकी सेना उस नगरीकी घेरकर चारों ओर ठहर गई थी उड़ से देवोंके साथ बहुत सी शोभासे सुशोभित महाराज विश्वसेनके आंगनमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ वहांपर देवोंके द्वारा की हुई अनेक शोभासे सुशोभित ऐसे महाराजके आंगनमें सौधर्म इन्द्रने सिंहासनपर भगवानको

विराजमान किया ॥ ५ ॥ उस समय महाराज विश्वसेनका शरीर रोमांचित हो गया था और वे बड़े आश्च-
 र्यके साथ आंखें फाड़ फाड़कर भगवानको देख रहे थे उस समय भगवान अपनी कांतिसे चन्द्रमाके समान
 सुन्दर जान पड़ते थे, देखनेमें बहुत ही प्रिय लगते थे, तेजमें सूर्यके समान थे और समस्त आभरणोंसे
 सुशोभित थे, ऐसे भगवानको महाराज देख रहे थे ॥ ६-७ ॥ इन्द्रानीने माताकी मायानिद्रा दूर की और उसे
 जगाया तब वह सती प्रसन्न होकर परिवारके साथ अपने पुत्रको देखने लगी ॥ ८ ॥ उस समय वे भगवान
 अपनी कांतिसे सूर्यको जीत रहे थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजका समूह ही एक जगह आकर
 प्रगट हो गया हो तथा आभूषणोंसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष ही हों ॥ ९ ॥
 उस समय भगवानके माता पिता इंद्रानीके साथ इन्द्रको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनके समस्त
 मनोरथ पूर्ण हो चुके थे ॥ १० ॥ तदनंतर श्रीशान्तिनाथका पुण्य प्रकट करनेके लिए इन्द्रने देवोंके साथ प्रसन्न
 होकर उत्तम गुणोंसे माता पिताकी प्रशंसा की ॥ ११ ॥ वह कहने लगा कि संसारमें आप धन्य हैं, आप
 जगतपूज्य हैं, तीनों लोक आपकी वंदना करता है, देव भी आपकी वंदना करते हैं, आप चतुर हैं, महाभाग्य
 शाली हैं और कल्याणभागी हैं ॥ १२ ॥ संसारमें आप ही दोनों सौभाग्यका भोग करनेवाले हैं आप ही श्रेष्ठ कुलमें
 उत्पन्न हुए हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही लोक मान्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ लक्ष्मीसे सुशोभित हैं
 और समस्त राजाओंके मुख्य हैं ॥ १३ ॥ आपके अमृत पुण्यकर्मके उदयसे ही समस्त गुणोंकी खानि, गुरु-
 ओके गुरु तीनों लोकोंके चूड़ामणि और सर्वोत्तम भगवान तीर्थकरने आपके घर आवतार लिया है ॥ १४ ॥
 जीवोंको समस्त तत्व प्रकट करनेवाले वे महान तीर्थकरूपी सूर्य प्रेरारूपी पूर्व दिशामें विश्वसेनरूपी उदया-
 चल पर्वतसे प्रकट हुए हैं ॥ १५ ॥ ये भगवान अज्ञानरूपी अंधकारको नारा करनेवाले हैं भव्य जीवोंके
 हृदय कमलको प्रफुल्लित करनेवाले हैं और तीनों जगतके गुरु हैं आप उनके माता पिता हैं इसलिये आप
 तीनों जगतके गुरुके भी गुरु हैं ॥ १६ ॥ यह आपका राज भवन आज जिनालयके समान आराधना करने
 योग्य है और आप हम लोगोंके द्वारा सदा पूज्य और मान्य है क्योंकि आप हमारे गुरुके भी गुरु हैं ॥ १७ ॥

इसप्रकार इन्द्रने माता पिताकी स्तुति की, दिव्य और उत्तम-वस्त्र माला और आभरणोंसे उनकी पूजा की और सब तरह उन्हें प्रसन्न किया ॥ १८ ॥ तदनंतर इंद्रने भगवानको मेरुपर्वतपर ले जानेकी वहांपर अभिषेक करनेकी और फिर आनेकी सब बात ज्योंकी त्यों कह सुनाई ॥ १९ ॥ पूत्रकी उस बातको सुनकर माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए उन्हें परम सीमातक पहुंचानेवाला सुख प्राप्त हुआ और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे ॥ २० ॥ तदनंतर माता पिताने इंद्रके उपदेशानुसार बड़ी विभूति और उत्सवके साथ फिर दुबारा भगवानका जन्मोत्सव मनाया ॥ २१ ॥ उस समय अनेकः वयोंकी महाव्रजा, माला, मोतियोंकी माला और मनोहर तोरणोंसे सजाई गई वह नगरी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ २२ ॥ उस समय रत्नोंके चूर्णसे पूरे हुए चौकोंसे नगरकी गलियां बहुत अच्छी जान पड़ती थीं और वह नगरो भी रत्न गीत बाजोंसे स्वर्गके स्थान जान पड़ती थी ॥ २३ ॥ जिसप्रकार राजा और सज्जन लोग अपनी २ स्त्रियोंके साथ समस्त विद्वोंको नाश करनेके लिये और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जिनालयोंमें बड़ी विभूतिके साथ समस्त कल्याणोंको सिद्ध करनेवाली भगवानकी अभिषेक पूर्वक पूजा कर रहे थे उसी प्रकार हृदयमें आनन्दित होकर सब नगरनिवासी भी भगवानको पूजा कर रहे थे ॥ २४-२५ ॥ जिसप्रकार महाराज विश्वसेनने दीन और अनाथ लोगोंको अनेक प्रकारका दान दिया उसी प्रकार नगर निवासियोंने भी बड़ी प्रसन्नतासे दान दिया ॥ २६ ॥ जिसप्रकार अन्तःपुरमें स्त्री-पुरुष सब नृत्य बाजे आदिसे महाउत्सव मना रहे थे उसी प्रकार नगर निवासी भी प्रकार २ आनन्द मनाते लगे ॥ २७ ॥ जिसप्रकार मेरुपर्वतपर बड़ी विभूतिके साथ परम उत्सव हुआ उसी अन्तःपुरमें और नगर निवासी लोगोंके साथ समस्त संसारको आनंदित देखकर इन्द्र भी अपना अन्तःप्रकट करता चाहा और इसलिये उसने उन सबके सामने बड़ी विभूतिसे सब परिवारके साथ उसी समय मनको बहुत अच्छा लगानेवाला आनन्द नामका नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ २९-३० ॥ इंद्रका वह नाटक प्रारम्भ होते ही महाराज विश्वसेन आदि सब राजा अपनी स्त्री और पुत्रोंके साथ उसे देखनेके लिए बैठ गये ।

गाए ॥ ३१ ॥ तारा रागाय उस नाटककी विधिकी जाननेवाले गंधर्वपत्रोंके द्वारा श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंको प्रगट करनेवाला रागांतर राजने लगा ॥ २२ ॥ वीणाके साथ स्वर मिलनेवाली किन्नरी देवियोंके द्वारा गंधीर स्वरसे तीर्थस्वको यगोंको प्रगट करनेवाला मनोहर संगीत गाया जा रहा था ॥ ३३ ॥ उस उत्सवमें देवोंके हाथोंसे नाचने हुए नृत्य नृत्य नृत्य शब्द कर रहे थे और देवोंके मुखसे बजनेवाली वंशियां भी उसी लयमें नाच रही थीं ॥ ३४ ॥ इंद्रने सबसे पहिले धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाला गर्भकल्याणक और जगत्कल्याणक संकल्पी नाटक दिखलाया ॥ ३५ ॥ फिर उन्होंने भगवानकी पिछली ग्यारह धर्यायोंको दिखानेवाले नाचोंको अनेक प्रकारके रूप दिखलाये ॥ ३६ ॥ अथवा उसने सबसे पहिले शुद्ध पूर्व रंग दिखलाया और तब शरीरको अन्ते लगनेवाले साधनोंके द्वारा अनेक प्रकारका नाटक दिखलाया ॥ ३७ ॥ इंद्रने निच, रेषक, पादुका, और कंठाश्रित आदिके द्वारा अज्ज्ञा रस दिखलाते हुए तांडव नृत्य किया ॥ ३८ ॥ उस समय इंद्र हजार सुभाषोंको पवाकर नृत्य कर रहा था उस समय ऐसा मालूम होता था मानों उसके पेर खनेसे पत्थरी हो फटकर चल रही हो ॥ ३९ ॥ बल और आभूषणोंसे देदीप्यमान होनेवाला और ऊंचे शरीरको धारण करने वाला यह इंद्र आभूषणोंसे सुशोभित अपनी बहुत सी भुजाओंको फेंकाकर नृत्य कर रहा था और ऐसा मालूम होता था मानों कश्यपुस ही नृत्य कर रहा हो ॥ ४० ॥ वह इंद्र क्षणभरमें एक दिखलाई देता था, क्षणभरमें अनेकरूप धारण करता था, क्षणभरमें स्थूल, क्षणभरमें लघु, क्षणभरमें नमोद, क्षणभरमें ई, क्षणभरमें आ हाशमें, क्षणभरमें पुं-पिर क्षणभरमें अनेक हाथोंवाला क्षणभरमें दो हाथोंका, क्षणभरमें दोहरे क्षणभरमें त्रोटक, क्षणभरमें बहुत, तन्मा चौड़ा और क्षणभरमें अरूप दिखलाई देता था । इत पधार इंद्रने अपनी विधियारा साहाय्य दिखला रहा था, और वह स्वयं इंद्रजालके समान प्रकृत होता था ॥ ४१ ॥ इंद्रने अपने हाथोंपर भी बहुतसे अस्त्रास्त्रों से लालचूंक अपना मनोहर रूप, चक्र, त्र, गदा आदि दिखानेवाले नृत्य कर रही थीं ॥ ४२ ॥ कोई बड़ते हुए सबके साथ नृत्य कर रही थीं और कोई कोई तांडव नृत्य कर रहे थे और कोई अस्त्रास्त्र अनेक प्रकारके अस्त्रास्त्र दिखानेवाले नृत्य कर रहे थे ॥ ४३ ॥ कोई इंद्रके हाथों

की उंगलियों पर फिरकी ले रहीं थीं, कोई उंगलियों के पर्वापर फिरकी ले रहीं थी, और कोई उसकी ओर
 नाभिकर बांसके समान खड़ी थी ॥ ४६ ॥ इन्द्रकी प्रत्येक भुजापर नृत्य करनी हुई और कड़े वेगसे फिरकी
 लेती हुई देवांगनाएं विजलीके समान जान पड़ती थी ॥ ४७ ॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक शरीरकी जो
 चेष्टा होती थी वह सब उन नृत्य करनेवाले पात्रों में बंट जाती हुईके समान सुन्दर जान पड़ती थी ॥ ४८ ॥
 उन देवियोंके साथ नृत्य करता हुआ सौधर्म इन्द्र अपनी विभूतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों
 कल्पलताओंके साथ नृत्य करता हुआ जंगम कल्पवृक्ष ही हो ॥ ४९ ॥ उस नाटकमें दर्शक तो विश्वसेन
 आदि महाराज तथा ऐरा आदि महादेवियां थीं, उससे तीनों जगतके गुरु भगवान शंतिनाथकी आरा-
 धनाकी जा रही थी, सौधर्म स्वर्गका इंद्र नट था, देवांगनाएं नृत्यकारिणीं थीं, देवोंके दुंदुभी बाजे थे, गंध-
 र्वादिक गानेवाले थे, वह रस, वह नृत्य, वह विज्ञान, वह विक्रिया, वह गीत, वह वाजा और वह देवोंके
 द्वारा किया हुआ अद्भुत महोत्सव यह सब महा मनोहर था और बड़ा ही विचित्र था । वह वचनोंके अंगो-
 चर था इसलिये कोई भी विद्वान उसका वर्णन नहीं कर सकता ॥ ५०-५३ ॥ महाराज विश्वसेन ऐरा देवी
 के साथ उसे अद्भुत नृत्यको देखकर बहुत ही आश्चर्य करने लगे । उस समय अनेक इन्द्रादिक देव उनकी
 उत्तम प्रशंसा कर रहे थे ॥ ५४ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकी सेवा करनेके लिए बहुत क्रीड़ा करनेवाले
 देव छोड़ दिए जो कि भगवानके समान ही आयु रूप भेष आदिको धारण किए हुए थे ॥ ५५ ॥ इसप्र-
 कार धर्म साधनकर प्रसन्न हुए चारों निकायोंके देव अपना २ नियोग पालनकर तथा अनेक प्रकारका
 पुण्योपार्जनकर अपने २ स्थानको चले गए ॥ ५६ ॥ दृढ़रथका जीव भी पुण्यकर्मके उदयसे बहुत दिनतक
 सुखोंका अनुभव कर सर्वार्थसिद्धिसे चयकर महाराज विश्वसेनकी वशस्वती रानीसे चक्रायुध नामका पुत्र
 हुआ वह चक्रायुध दिव्य लक्षणोंसे सुशोभित था, मोक्षगामी था, महा धीर वीर था, महापुरुष था और
 ज्ञान त्याग आदि गुणोंका स्थान था ॥ ५७-५८ ॥ भगवान शंतिनाथको स्नान कराने बलाभरण पहनाने,
 संस्कार करने और खिलानेके लिए इन्द्रने अनेक देवांगनाओंको धायरूपमें रख छोड़ा था ॥ ५९ ॥ वे सब

देवांगनायें भक्तिपूर्वक दिव्य द्रव्योंसे भगवानका स्नान मंडन क्रीडन और अद्भुत संस्कार आदि सब करती थी ॥ तदनन्तर भगवानके सुन्दर शरीरके अथवा द्वितीयाके चंद्रमाके समान धीरे २ अनुक्रमसे बढ़ने लगे ॥ ६१ ॥ वे भगवान शान्तिनाथ थोड़ासा हंसते थे और मणियोंके बने आंगनमें रिंगते थे, इसप्रकार वाल्य अथवाथामें अद्भुत चेष्रयें करते हुए वे माता पिताको आनन्दित करते थे ॥ ६२ ॥ भगवानके सुखरूपी चंद्रमा में उगका थोड़ासा हंसना निर्मल चांदनीके समान था उससे माता पिताके मनका संतोषरूपी समुद्र बहुत ही बढ जाता था ॥ ६३ ॥ तदनन्तर उनके मुखरूपी कमलमें सरस्वतीने (वाणीने) प्रवेश किया । वह वाणी बड़ी ही मधुर थी, बड़ी ही मनोहर थी और संसार भरको आनन्द देनेवाली थी ॥ ६४ ॥ वे भगवान मणियोंकी पृथ्वीपर डगमगतै पैरोंसे चलते हुए पहने हुए आभूषणोंसे ऐसे अच्छे जान पड़ते थे सानों चलता हुआ कल्पवृक्ष ही हो ॥ ६५ ॥ वे कुमार कभी तो हाथी घोड़ा वन्दर आदिका सुन्दर रूप धारणकर बड़ी प्रसन्नतासे भगवानको क्रीडा कराते थे ॥ ६६ ॥ कभी भगवानकी आयुके समान ही बालकका मनोहर रूप बनाकर रत्नोंकी पूल्लिसे क्रीडा कराकर उनको प्रसन्न करते थे ॥ ६७ ॥ भगवानके शरीरके अवयव जैसे जैसे बढते जाते थे वैसे २ ही देव पहिले आभूषणोंको लेकर नए आभूषण पहना देते थे ॥ ६८ ॥ भगवान का वह बालकपन चंद्रमाके समान संसारमें वंदनीय था, लोगोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था और मनोहर तथा निर्मल था ॥ ६९ ॥ इसप्रकार वे भगवान अद्भुतसय अन्नपाकसँ तथा अपनी आयुके योग्य आभूषणों से चंद्रमाकी मनोहरताके समान अनुक्रमसे कुमार अवस्थाको प्राप्त हो गए थे ॥ ७० ॥ शरीरके साथ २ ही उगूकी कांति, दीप्ति ढला विद्या और तीनों ज्ञानोंसे उत्पन्न होनेवाले गुण सब अपने आप बढते चले गए थे ॥ ७१ ॥ उनका शरीर मनोहर था, वाणी प्रिय, सज्जनोंको मान्य और प्रेम उत्पन्न करनेवाली थी, नेत्र साध्य अवस्थाका धारण करते थे और उनका अंग उपंग सब शुभ था ॥ ७२ ॥ मतिज्ञान श्रुतिज्ञान अविधिज्ञान ये तीनों ज्ञान तो साथ ही प्रगट हुए थे तथा और भी सब महाविद्याएं अपने आप आगई थीं ॥ ७३ ॥ वे तीर्थकर भगवान हित, अहितको, तीनोंको और मुनि गृहस्थके धर्मको अपने ज्ञानसे अपने अपने

ही जानते थे ॥ ७४ ॥ इसलिए वे भगवान समस्त विद्वानोंके गुरु थे और महा समस्त विद्याओंको प्रकट करनेवाले थे संसारमें उनका अन्य गुरु कोई नहीं था ॥ ७५ ॥ तदनन्तर जायिक सम्पददर्शनसे सुशोभित होनेवाले बुद्धिमान भगवानने आठवें वर्षमें यहस्य धर्मकी इच्छासे परम शुद्धतापूर्वक अपने योग्य पांच अणु-व्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत ये सब स्वयं धारण किए ॥ ७६-७७ ॥ वे भगवान माता पिताका आनन्द बढ़ाते हुए, भाइयोंका सुख बढ़ाते हुए और संसारके लोगोंमें प्रेम बढ़ाते हुए अनुक्रमसे बढने लगे ॥ ७८ ॥ तदनन्तर वे भगवान अपनी कांतिसे कामदेवको तथा चन्द्रमाको और दीप्तिसे सूर्यादिकको जीतते हुए उपमा रहित यौवन अवस्थाको पाकर बहुत सुशोभित होने लगे ॥ ७९ ॥ वे भगवान शान्तिनाथ दिव्य रूप-वान थे, तपाए हुये सोनेके समान उनको कांति थी. एक लाख वर्षकी आयु थी और चालीस धनुष ऊंचा उनका शरीर था ॥ ८० ॥ वे भगवान निःस्वेद (पसीना न आना आदि) आदि गुणोंसे, यौवनकी शोभासे और देवोंके द्वारा लाए हुए उत्तम वस्त्राभूषणोंसे समस्त उपमाओंको जीतते हुए बहुत ही सुशोभित होते थे ॥ ८१ ॥ अमररूपी बालोंसे सुशोभित उनका मस्तक माला और मुकुटसे ऐसी अच्छी शोभा देता था मानों अद्भुत शोभाको धारण करनेवाली चूलिकासे मेरु-तका शिखर ही शोभायमान हो रहा हो ॥ ८२ ॥ चन्द्रमाको जीतनेवाले विस्तीर्ण ललाट पर ऐसी अच्छी २ शोभा थी, मानो वह सरस्वती देवीको महाक्रीड़ा करनेके स्थानकी लीलाको ही धारण करता हो ॥ ८३ ॥ काली पुतलीयोंसे शोभायमान ऐसे भग-वानके सुन्दर भौंहवाले दोनों नेत्रोंकी शोभा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों समस्त शत्रुओंको जीतकर वे नेत्र शांत हो गये हों ॥ ८४ ॥ सूर्य चन्द्रमाके समान दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान और श्रुतज्ञानसे परिपूर्ण ऐसे भगवानके दोनों कर्ण ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों वे गीत आदिके सुननेकी चरम सीमा-को पहुँच गये हों ॥ ८५ ॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमाकी शोभाका तो भला कौन वर्णन कर सकता है क्यों कि उससे तो जगतका हित करनेवाला और स्वर्ग मोक्षके मार्गका उपदेश देनेवाली मनोहर दिव्यध्व-नि निकली है ॥ ८६ ॥ भगवानकी नासिका भी ऊंची थी बड़ी अच्छी शोभाको धारण करता थी और

ऐसी जान पड़ती थी मानो सरस्वतीके अवतारके लिये एक प्रणालिका ही बनाई गई हो ॥ ८७ ॥ भगवानका वक्षःस्थल भी बहुत बड़ा था, लक्ष्मी और कांतिसे सुशोभित था उसपर दिव्य हार पड़ा हुआ था जिससे उसकी शोभा और भी बहुत बढ़ गई थी ॥ ८८ ॥ भगवानकी दोनों 'भुजाएं' केयूर आदिसे सुशोभित थीं लक्ष्मीरूपी लतासे विभूषित थीं और ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो 'इच्छानुसार फल देनेवाले दो कल्पवृक्ष ही हों' ॥ ८९ ॥ भगवानके हाथकी उंगलियोंमें लगे हुये मनोहर नख ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो दश लाक्षणिक धर्मको प्रकट करनेके लिये ही तत्पर हुये हैं ॥ ९० ॥ भगवानके शरीरके मध्यभागमें नाभि ऐसी अच्छी शोभा देती थी मानों जिसमें भ्रमर पड़ रहे हैं और लक्ष्मी तथा हंसनी जिसकी सेवा कर रही हैं ऐसी छोटी सरोवरी (तलेया) ही हो ॥ ९१ ॥ करधनी और वल्लोसे ढका हुआ उनका कटि-भाग (कमर) ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों वेदिकासे घिरा हुआ सुन्दर जम्बूद्वीप ही हो ॥ ९२ ॥ केलेके खम्भेके समान कोसल परन्तु कायोत्सर्ग करनेमें समर्थ ऐसे भगवानके दोनों मजबूत जंघ ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों जगतरूपी घरके ही खंभे हों ॥ ९३ ॥ नखरूपी चन्द्रमाओंकी किरणोंसे व्याप्त और मनुष्य देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवानके दोनों चरण, कमल और अशोककी शोभाको जीतते हुए सदा सुशोभित रहते थे ॥ ९४ ॥ नखसे लेकर चोटीतक भगवानकी जो महाकांति शोभायमान थी उस सब कांति वा शोभाको संसार भरमें कोई भी चतुर पुरुष वर्णन नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥ भगवानका शरीर वज्र-मय हड्डियोंसे घना हुआ था और अन्तही चमड़ा आदि सब वज्रमय था फिर भला उनके बलका प्रमाण इस संसारमें कौन जान सकता है ॥ ९६ ॥ उनके शरीरका संस्थान पहिला समचतुरस्र संस्थान था और वह शरीर दूसरे धर्मस्थानके समान दिव्यपरमाणुओंसे बना हुआ था ॥ ९७ ॥ भगवानका शरीर वात पित्त कफ आदि दोषोंसे सब रोगोंसे मल मूत्रसे रहित वह शरीर लोकोत्तर था ॥ ९८ ॥ श्रीवृक्ष, शंख, कमल, स्वतिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद, छत्र, सिंहासन, ध्वजा, मछली, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, नाग, मनुष्य, स्त्री, सिंह, बाण, तूणीर, [तरकस] मेरु, इन्द्र, गंगानदी, पुर, गोपुर, देवी-

प्यमान दो सूर्य, घोड़ा, पंखा, वेणु, वीणा, मृदङ्ग, दो मालाएं, रेशमी वस्त्र, बाजार, दैदीप्यमान कुण्डल
 आदि अनेक प्रकारके आभरण. उद्यान, कलमी चावलोंका पका और फला हुआ खेत, रत्नोंका द्वीप, वज्र,
 पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, गाय, बैला, चूडारत्न, महानिधि, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड, नक्षत्र, तारे,
 चन्द्रमा, ग्रह, सिद्धार्थद्वीप, मनोग्य प्रातिहार्य तथा और भी मंगल द्रव्योंको आदि लेकर भगवानके शरीरपर
 एकसौ आठ लक्षण थे और नौसौ दूसरे व्यंजन थे ॥ ६६-२०६ ॥ इसप्रकार गुणोंके सागर भगवान शान्ति-
 नाथ जगत्कुमार अवस्थाको अथवा यौवन अवस्थाको प्राप्त हुए थे उस समयके उनके गुणोंकी संख्या कौन
 जान सकता था ॥ ७ ॥ यौवन अवस्था प्राप्त हो जानेपर पिताने संद रागको धारण करनेवाले तोर्थकर पुत्रके
 लिये बड़े उत्सवके साथ कुल, रूप, आयु, शील, कला, कांति, आदिसे सुशोभित लावण्यरूपी समुद्रकी वेलाके
 समान पुण्यवती दिव्य कन्याएं विधिपूर्वक विवाह दी थीं ॥ ८-६ ॥ तदनंतर वे भगवान पुण्यकर्मके उदयसे
 उन स्त्रियोंके साथ नवीन स्नेहसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके दिव्य महा सुख भोगते थे ॥ १० ॥ सौधर्म
 स्वर्गका इन्द्र अपना कल्याण करनेके लिए कभी गंधर्वोंके द्वारा गाये हुए गीतोंसे, कभी देवियोंके नृत्योंसे,
 कभी अगल बगलमें रहनेवालीं किन्नरी देवियोंके द्वारा वजनेवाले वीणा आदि मनोहर बाजोंसे, कभी धर्म-
 कथासे और कभी गोष्ठियोंसे भगवानको सदा सुख पहुंचाता रहता था ॥ ११-१२ ॥ इस प्रकार भगवान
 शान्तिनाथने पच्चीस हजार वर्षतक मनुष्यों और देवोंके द्वारा प्राप्त हुए तथा कुमार अवस्थासे प्रकट हुए बहु-
 तसे उत्तम सुख भोगे थे ॥ १३ ॥ तदनंतर इंद्रादिक देवोंने पिताकी सलाहसे भगवानको सिंहासनपर विरा-
 जमानकर वड़े आनंद और विभूतिके साथ गीत नृत्य तुरही आदिके शब्दोंके साथ मोतियोंकी माला,
 चंदन आदिसे सुशोभित गंगा आदि तीर्थ जलसे भरे हुए सुवर्णमय उत्तम कलसोंसे भगवानका राज्याभि-
 षेक किया और फिर स्वर्गसे आये हुए वस्त्राभूषणोंसे उनका उत्तम शृंगार किया ॥ १४-१६ ॥ उस समय
 मनुष्य देवोंके द्वारा ध्वजा तोरण माला आदिसे सजाई हुई वह मनोहर नगरी साक्षात् इन्द्रपुरीके समान
 सुशोभित होती थी ॥ १७ ॥ राज्याभिषेकके बाद महाराज विश्वसेनने सब राजाओंके सम्मुख बड़ी विभूतिके

साथ भगवानके मस्तक पर राज्यपट्ट बांधा ॥ १८ ॥ उस राज्योत्सवमें महाराज विश्वसेनने सब भाइयोंको प्रसन्न किया था और इच्छानुसार धन देकर सब बंटीजन, दीन, और अनाथ लोगोंको प्रसन्न किया था सब लोगोंको आनन्द देनेवाले उस उत्सवमें ग तो कोई दीन दिखाई देता था, न अनाथ दिखाई देता था, न दुखी वा शोक करनेवाला दिखाई देता था और न कोई निर्धन ही दिखाई देता था ॥ २० ॥ इस प्रकार इन्द्रादि देव पुराय उपार्जन करनेके लिये बड़ी विभूतिके साथ भगवानशान्तिनाथका राज्य कल्याण कर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ २१ ॥ अथानन्तर-राज्य नीतिमें चतुर वे भगवान न्यायसांगसे योग और जेमका स्थापन कर प्रजाका पालन करने लगे ॥ २२ ॥ समस्त देशके राजा सामंत विधाधर और देव भगवानकी आज्ञा मानते थे और मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलोंको नमस्कार करते थे ॥ २३ ॥ भगवान शान्तिनाथके राज्यमें सौधर्म स्वर्गका इंद्र काम करता था (उस राज्यको चलाता था) फिर भला ऐसा कौन था जो भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन करे ॥ २४ ॥ उस समय घनीभूत मनोहर पृथ्वी सुन्दर स्त्रीके समान प्राप्त हुए नये स्वामिके लिए धन धान्य आदि कोशमें आनेवाली अनेक संपदाओंको उत्पन्न करती थी ॥ २५ ॥ मंदरागको धारण करनेवाले वे भगवान अपने पुण्यकर्मके उदयसे अपनी रानियोंके साथ मध्य लोक और स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुए और जो वाणीसे भी कहे नहीं जा सकें ऐसे भोगोंका अनुभव करते थे ॥ २६ ॥ देव विधाधर और भूमिगोचरी सब जिनकी सेवा करते हैं ऐसे उन शान्तिनाथ भगवानने पच्चीस हजार वर्ष तक महा मंडलेखर राज्यकी बद्धमीका अनुभव किया था ॥ २७ ॥ तदनंतर पुण्यकर्मके उदयसे उनके छहो खंडोंको वश करनेवाले चक्र आदि चौदह रत्न अपने आप उत्पन्न हो गए थे ॥ २८ ॥ इसीप्रकार महाप्रतापी उन भगवानके नौ निधियां प्रगट हुई थी । उन रत्नोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दंड ए चार रत्न आयुधशालामें प्रगट हुए थे, काकिणी, चम, और बूळामणि ए तीन रत्न श्रीशुभमें उत्पन्न हुए थे । पुरोहित, शिवावट सेनापति और शहपति ए चार रत्न हस्तिनापुरी नगरीमें ही उत्पन्न हुए थे और उनके पुण्यकर्मके उदयसे कन्या, हाथी घोड़ा ए तीन रत्न विजयाई पर्वतपर उत्पन्न हुए थे जो किं विधाधरोंने लाकर भगवानको समर्पण कर

दिए थे । इसी प्रकार नौ निधियां नदी और समुद्रके संगमपर पूगट हुई थीं जो कि भगवानके पुण्यकर्मके वशीभूत हुए गणवद्ध जातिके व्यंतर देवोंने भक्तिपूर्वक भगवानको लाकर अर्पण करदीं थीं ॥ २६-३३ ॥ यद्यपि भगवान मंद लोभी थे तथापि पुण्यकर्मकी प्रेरणासे वे देव, विद्याधर और राजाओंके साथ द्विद्विजय करनेके लिए निकले ॥ ३४ ॥ भगवानने छोहो खंड पृथ्वीका उपभोग करनेवाले राजा, सब विद्याधरोंके स्वामी और समुद्रमें निवास करनेवाले मगध आदि व्यंतर देव बिना किसी परिश्रमके लोला पूर्वक ही वश कर लिए और कन्यारत्न आदि उत्तम पदार्थ उनके दिये हुए सब स्वीकार किए ॥ ३५-३६ ॥ भगवानने आठ सौ वर्षमें ही सब पृथ्वी पर परिभ्रमणकर छोहों खंडमें रहनेवाले सब राजा देव और विद्याधर वश कर लिए ॥ ३७ ॥ तदनंतर छोहों प्रकारकी सेनाके साथ वे चक्रवर्ती लौटे और बड़ी विभूतिके साथ तथा देवादिकोंके साथ उन्होंने अपना नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ तदनंतर विद्याधर और भूमिगोचरो राजाओंने तथा देवोंने बड़ी विभूतिके साथ सुवर्णके कलशोंसे भगवानका अभिषेक किया ॥ ३९ ॥ जब भगवानका अभिषेक हो चुका और वे सिंहासनपर आ विराजमान हुए तब गणवद्ध देव मागध आदि व्यंतर देवोंके इन्द्र, हिमवान पर्वतके स्वामी विजयाह्व पर्वतके स्वामी, विजयाह्व पर्वतकी श्रेणियोंके स्वामी सुकुट वद्ध राजा और कल्पवासी देवोंने आकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४०-४१ ॥ उससमय उनपर चमर डुलाई जा रहे थे और भाई बन्धु, रानियां और छोहों खंडोंके राजाओंके साथ विराजमान हुए वे भगवान बहुत ही सुखी हो रहे थें ॥ ४२ ॥ वे भगवान अपने पुण्यकर्मके उदयसे अपने भाई बन्धुओंके साथ, सब तरहकी वाधासे रहित उपमारहित, तृप्त करनेवाले मनोहर मध्यलोक तथा स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुए दश प्रकारके चक्रवर्तियोंके दिव्य भोग सदा भोगते रहते थे उनका प्रमाण भला कौन बुद्धिमान जान सकता है ॥ ४३-४४ ॥ भगवान शान्तिनाथके राज्यमें न कोई कंटक (उपद्रवी) था, न आज्ञाका उल्लंघन जाननेवाला था न कोई दीन था और न कोई अभागा था । संसारके सब राजा प्रजा आनन्दसे रहते थे ॥ ४५ ॥

॥ ८४ ॥ खलाला नामकी चमकती हुई माला और देवरम्या नामका मनोहर कपड़ेका तंबू था ॥ ८५ ॥
 अयानक सिंहोंके द्वारा धारणकी हुई सिंहवाहिनी नामकी शय्या और अतुत्तर नामका ऊंचा सिंहासन था
 ॥ ८६ ॥ इसी तरह उपमा नामके शुभ चमर और देदीप्यमान रत्नोसे बना हुआ सूर्य प्रेम नामका छत्र था
 ॥ ८७ ॥ जो युद्धमें शत्रुओंके वाणोंसे कभी न भिद सके और जिसकी कांति देदीप्यमान है ऐसा अभेद
 नामका सुन्दर कवच था ॥ ८८ ॥ उनके अत्यन्त सुन्दरताको धारण करनेवाला अजितंजय नामका मनोहर
 रथ और सुर असुर सबको जीतनेवाला वज्रकांड नामका धनुष था ॥ ८९ ॥ कभी व्यर्थ न जानेवाले असौघ
 नामके वाण और शत्रुओंको नाश करनेवाली वज्रगुंडा नामकी प्रचंड शक्ति थी ॥ ९० ॥ सिंहारक नामका
 भाला सिंहांनख रत्नदंड और मणियोंकी मूठ लगी हुई लोहवाहिनी छुरी थी ॥ ९१ ॥ जयश्रीके साथ प्रेम
 रखनेवाला और मनके समान शीघ्र चलनेवाला कण्ठ और भूतमुखके चिन्हवाला भूतमुख नामका खेट था
 ॥ ९२ ॥ देदीप्यमान कांतिवाली सौनंद नामकी तलवार थी और सब दिशाओंको सिद्ध करनेवाला सुदर्शन
 नामका चक्र था ॥ ९३ ॥ उन महाराजके चंडवेग नामका प्रचंड दंड और जिसमें जल कभी न आ सके ऐसा
 वज्रमय नामका दिव्य चर्मरत्न था ॥ ९४ ॥ सबसे उत्तम चूड़ामणि नामका मणिरत्न और अन्धकारको नाश
 करनेवाली चिताजननी नामकी कांकिणी थी ॥ ९५ ॥ उन शान्तिनाथ भगवानके अयोध्य नामका सेनापति
 था और अत्यन्त बुद्धिमान बुद्धिसागर नामका पुरोहित था ॥ ९६ ॥ कायबुद्धि नामका बुद्धिमान यहपति
 था जोकि इच्छानुसार लामान देनेवाला था और जिसे महाराजने लेने देनेके काममें नियुक्त किया था
 ॥ ९७ ॥ भद्रमुख नामका स्थपति रत्न था जो वास्तुविद्यामें अत्यंत चतुर था और अनेक भवन बलानेमें
 निपुण था ॥ ९८ ॥ विजय पर्वत नामका बहुत बड़ा और सफेद पट्टहाथी था और पवनंजय नामका ऊंचा
 और शीघ्र चलनेवाला घाड़ा था ॥ ९९ ॥ उन महाराजके सुभद्रा नामका खीरल था जिसकी उपमा संसार
 में कोई नहीं थी, जो अत्यन्त रसीला था, स्वभावसे मधुर था, मनोहर था और दिव्य रूपवान था ॥ १०० ॥
 उन भगवानके आनंदिनी नामकी वारह भेरी थीं जिनकी मीठी आवाज वारह योजनतक जाती

थी और समुद्रकी गजनाके समान जिनकी आवाज थी ॥ ३०१ ॥ विजयघोष नामके बारह पटहा थे
 और गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख थे ॥ २ ॥ इसीतरह अड़तालीस करोड़ पताकाएं थी औरसहस्रा-
 कल्याणक नामका ऊंचा शुभ दिव्यासन था ॥ ३ ॥ विद्युत्प्रभ नामके सुन्दर मणिकुण्डल थे, जो कि
 सूर्य चन्द्रमाके समान थे और पुण्य कर्मके उदयसे भगवानको ज्ञात हुए थे ॥ ४ ॥ रत्नोंको किरणोंसे
 व्याप्त ऐसी विष्वोचिका नामकी पादुकायें थीं जो दूसरेके पैरका स्पर्श होते ही मिथ उगलती
 थीं ॥ ५ ॥ उन अगयानके वीरांगद नामके रत्नोंके बने हुए कड़े थे जो विजलीके बलयके समान हाथोंमें
 शोभायमान थे ॥ ६ ॥ अमृतगर्भ नामका उनका भोजन था जो स्वादिष्ट सुगन्धित और अत्यन्त रसीला
 था और जिसे चक्रवर्तीके सिवाय अन्य कोई नहीं पचा सकता था ॥ ७ ॥ अमृतकल्प नामका हृदयको
 प्रसन्न करनेवाला संस्कृत स्वाद्य था और अमृत नामका रसायनके समान रसीला दिव्य पानक था ॥ ८ ॥
 रत्न, निधि, रानियां, पुर, शय्या आसन, सेना, नाव्य, भाजन भोज्य और वाहन ये दश प्रकारके भोगोप-
 भोग कहलाते हैं इनको भोगते हुए और सुखसागरमें मग्न रहते हुए भगवानको व्यतीत होगोवाला समय
 मालूम भी नहीं हुआ था ॥ ९-१० ॥ वे भगवान शान्तिनाथ कभी तो तीर्थकर नामकर्मके शुभ उदयसे
 इन्द्रादिके द्वारा संपादन किए हुये सुखरूपी अमृतको भोगते थे और कभी चारित्रि पालन कर सुखी होते
 थे ॥ ११ ॥ कभी अपने पुण्यकर्मके उदयसे स्त्रीरत्न, निधि आदि वस्तुओंके साथ अनेक प्रकारका सुख
 भोगते थे ॥ १२ ॥ तथा कभी कामदेव पदसे उत्पन्न हुये अपने दिव्य निरासय (रोगरहित) रूपको देख-
 कर मनमें संतुष्ट होते थे ॥ १३ ॥ इसप्रकार सुखरूपी समुद्रमें डूबे हुये वे भगवान पुण्यरूपी कल्पवृक्षसे
 उपपन्न हुये सुखका अनुभव करते थे और इस तरह व्यतीत हुआ समय भी उन्हें मालूम नहीं होता था
 ॥ १४ तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेव इन तीनों पदोंसे सुशोभित उन भगवानको जो सुख था उसका
 प्रमाण केवल ज्ञानीके बिना और कोई क्षी चतुर नहीं जान सकता ॥ १५ ॥ इसप्रकार देवोंके द्वारा पूज्य वे
 भगवान शान्तिनाथ अपने पुण्यकर्मके उदयसे रत्न निधि आदिसे प्रकट हुए, तीर्थकर, चक्रवर्ती, कामदेव-

मुनि, लोकपाल और इन्द्रोंके गुण और उन गुणोंसे प्रगट हुए चरित्र दिखलाती हुई नृत्य कर रही थी ॥ १०० ॥ छठी रेखामें वे देव अत्यन्त निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले, महर्षि गणधर देवोंके गुणोंसे गुथे हुए चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ १ ॥ और सातवीं अन्तिम कक्षामें महा नृत्य करनेमें तत्पर मनोहर देव अपनी देवियोंके साथ भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें प्रातिहार्यसहित अनंतवीर्यके स्वामी, चौतीस अतिशयोक्तिसे सुशोभित और पंच कल्याणकोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्रदेवके गुण और महाचरित्र वर्णन करते हुए अत्यन्त रसीला नृत्य करते हुए जा रहे थे ॥ २-४ ॥ नृत्य करनेवालोंके पीछे गन्धर्वोंकी सेना थी । वे देव दिव्य शरीरको धारण किए हुए महारूपवान, वज्र आभूषणोंसे विभूषित, कलावान, उनको ध्वनि मधुर, उत्सव मना रहे थे और मालाएं पहिने थे ॥ ५ ॥ भगवानके जन्म कल्याणमें महासप्त स्वरसे शोभायमान गंधर्व जातिकी सेनाके देव मनोहर गान गाते हुए जा रहे थे ॥ ६ ॥ पहिली रेखामें षड्ज नामके मनोहर स्वरसे भगवानके गुणोंको गाते हुए सुन्दर कंठवाले देव चले जा रहे थे ॥ ७ ॥ उनके पीछे षष्ठम स्वर गाते हुए उनके बाद गांधार स्वर गाते हुए, उनके बाद मध्यम स्वरसे भगवानके गुण गाते हुए देव थे ॥ ८ ॥ पांचवीं रेखामें पंचम स्वरसे, छठी रेखामें धैवत स्वरसे और सातवीं रेखामें निषाद स्वरसे गाते हुए देव अपनी देवियोंके साथ चले जा रहे थे ॥ ९ ॥ वे देव वीणा, मृदंग, तुरहा, झल्लरी आदि वाजे बजाते थे, उनके स्वर मनोहर, दिव्य वज्र, माला, भूषण आदि सुशोभित न क आकार अत्यन्त सुन्दर अनेक प्रकारके गानके रसमें लीन, गीत नृत्य कलाओंमें चतुर, उनका मुख मनोहर, मूर्ति दिव्य, ज्ञानी, धीरवीर, तीर्थंकरोंके गुण वर्णन करनेमें लगे हुए थे और उनका स्वर गन्भीर था । वे देव भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें पुण्य संपादन करनेके लिए अपनी २ देवियोंके साथ भगवान जिनेन्द्रदेवके अनंत गुणोंको प्रगट करनेवाले तथा पुण्य संपादन करनेवाले अनेक प्रकारके मनोहर गीत गाते हुए चले जा रहे थे ॥ १०-१३ ॥ उनके बाद नृत्योंकी सेना, पहिली रेखामें वज्राभरणोंसे सुशोभित काली ध्वजाएं लिए हुये भौरके समान काले रंगके देव जा रहे थे ॥ १४ ॥ उनके पीछे सुवर्णके दंडपर नीली ध्वजा

फहरते हुए हाथों चमर लिए हुये देव, तीसरी रेखा में वैदूर्यमणियों के दराडों पर सफेद ध्वजाएं लिये हुए देव चौथा रेखा में हाथी, सिंह, बैल, दण्ड, मार, चक्रवा, गरुड़, चक्र, सूर्य आदिकी अलग २ चिन्होंवाला मरकत मणियोंके दंडोंमें सोनेकी सुन्दर ध्वजाएं हाथों लिये हुए देव, पांचवीं रेखा में विद्रुमके दराडमें कमलके समान कमलके चिन्हवाली ध्वजाये लिये हुये देव । छठी रेखा में सुवर्णके दराड लगी हुई कुंद पुष्प के समान सफेद ध्वजाएं लिये हुये देव ॥ १८ ॥ सातवीं कक्षामें मणियोंके दराडोंमें लगे हुये और मोतियों की मालाओंसे सुशोभित ऐसे सफेद छत्रोंको हाथोंमें लिये हुये देव ॥ १९ ॥ भगवानके जन्म कल्याणोत्सव में दिव्य वस्त्र और मालाओंसे मनोहर, आभूषणोंसे सुशोभित आकाशको प्रकाशित करते हुये और हाथों में ध्वजाएं लिए भृत्य जातिकी सेना जा रही थी ॥ २० ॥ इसप्रकार अद्भुत विभूतिसे सुशोभित और धर्म के रसमें लीन हुई सौधर्मा इन्द्रकी सातों प्रकारकी सेना स्वर्गसे निकली ॥ २१ ॥ उसीसमय नागदत्त नामके अभियोग्य जातिके स्वामीने ऐरावत हाथीको बनाया । उस हाथीका वंश (पीठकी हड्डी) बहूत ऊंचा, जंबूद्वीपके समान उसका बहुत बड़ा शरीर, गोल शरीर, अनेक प्रकारकी लीला करता हुआ उसका मरतक गाल और ऊंचा, संगठन एकसा, वह हाथियोंमें मुख्य, इच्छानुसार चलनेवाला, बहुत रूपवान, उसका तालु चिकना और लाल, सूद बहुत लम्बी, उसका चलना सात्विक, वह बलवान सुन्दर और मनोहर, उसकी सांससे सुगंध निकलती, ओठ उसके लम्बे, शब्द गंभीर, मदके झरनेसे उसका शरीर व्याप्त हो रहा था, अनेक लक्ष्णोंसे वह सुशोभित, चलते हुये पर्वतके समान, उसका कंठ हार मालासे सुशोभित होनेसे उसपर स्वर्णकी भूल पड़ी हुई थी, दो बटे उसपर लटक रहे थे उससे मदका निर्झरना भर रहा था, वह कैलाश पर्वतके समान, अथवा शरद ऋतुके बादलके समान सुन्दर और अपनी सफ़ेदीसे उसने सब दिशाओं सफेद कर दी थीं ॥ २२-२७ ॥ इसप्रकार विक्रियासे बनाये हुए उस दिव्य हाथीपर चढ़ा हुआ तथा नम्री-भूत हुआ तेजकी मूर्ति और महा उन्नत वह इन्द्र स्वर्गसे निकला ॥ २८ ॥ उस ऐरावत हाथीपर चढ़ा हुआ वह सौधर्माइन्द्र अपनी कांतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो उदयाचल पर्वतपर तेजका पुंज सूर्य

ही हो ॥ २६ ॥ उस घेरावत हाथीके बत्तीस मुंह थे, वे सब मुंह समान थे, और सबकी कांति समान थी ।
 प्रत्येक मुखमें मूसलके समान मनोहर आठ २ दांत थे ॥३०॥ प्रत्येक दांतपर निर्मल जलसे भराहुआ एक एक
 मनोहर सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें एक २ मनोहर कमलिनी थी, और एक २ कमलिनीपर फूलेहुये बत्तीस
 २ कमल थे । एक २ कमलपर कमलके दलोंके समान बत्तीस २ दल थे और प्रत्येक दलपर जिनके मुख
 कमल कुछ हंस रहे हैं और जिनकी भोंहे सुन्दर है ऐसी बत्तीस २ देवोंकी अप्सराएं लयके साथ नृत्य कर
 रही थीं ॥ ३०-३३ ॥ उनके हास्य श्रंगार हाव भाव लय आदिसे भरे हुए अत्यंत रसीले नृत्यको देखते हुये
 देव बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे ॥ ३४ ॥ सौधमइन्द्रके साथ दिव्य रूपको धारण करनेवाला प्रतींद्र भी बड़ी
 विभूतिके साथ अपने बाहनपर चढ़ा हुआ युवराजके समान निकला ॥ ३५ ॥ आज्ञा केशवर्षके बिना जिनके गुण
 विभूति सब इन्द्रके समान हैं और इन्द्र भी जिन्हें मानता है ऐसे सामानिक देव भी इन्द्रके साथ चले ॥ ३६ ॥
 इन्द्रके पुरोहित मंत्री और आमाल्योंके समान त्रायस्त्रिंशत जातिके तेतीस देव भी इन्द्रके साथ चले ॥ ३७ ॥
 जिनपर इन्द्रकी कृपा रहती है और विभूतिसे जो सभासदोंके समान हैं ऐसे तीनों परिषदोंके देव भी इन्द्रके
 चारों ओर होकर चले ॥ ३८ ॥ जिनका आशय उन्नत है और जो शरीरक्षकके समान हैं ऐसे आत्सरत्नक
 देव भी अपने बाहन और आयुधों सहित इन्द्रके समीप जाकर खड़े हुये ॥३९॥ कोतवालके समान लोकपाल
 भी अपनी विभूतिके साथ निकले और सेनाके समान पहिले कही हुई सात प्रकारकी शुभ सेना भी निकली
 ॥ ४० ॥ नगरनिवासियोंके समान प्रकीर्णक देव भी निकले और काम करनेवाले दासोंके समान आभियोग्य
 जातिके देव भी निकले ॥ ४१ ॥ चंडालोंके समान स्वर्गके अन्तमें निवास करनेवाले अल्प पुण्यमान् और
 थोड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले किल्बिषिक जातिके देव भी स्वर्गसे निकले ॥ ४२ ॥ इसप्रकार दश प्रका-
 रके देव अपनी २ विभूतिसे सुशोभित होकर पुण्य संपादन करनेके लिये सौधम इन्द्रके साथ स्वर्गसे निकले
 ॥ ४३ ॥ इन्द्रके चलते समय उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानों दूसरे
 लोगोंको इन्द्रके अद्भुत पुण्यके फलको ही दिखला रही हों ॥ ४४ ॥ जिनके कण्ठ लाल हो रहे हैं ऐसी किन्नरी

देवियां भी मधुरस्वरसे वीणाके साथ तीर्थकर नामकर्मसे उत्पन्न हुए भगवान् जिनिन्दू देवके गुणोंको गाती हुई जा रही थी ॥ ४५ ॥ उन जन्मकल्याणोत्सवमें सब देवोंसे घिरा हुआ, समस्त आभरण और तेजसे दिशा-ओं को प्रकाशित करता हुआ ईशान स्वर्गका ऐशानिन्दू भी अपनी देवियों को साथ लेकर बड़ी विभूतिके साथ घोड़ेपर चढ़ा हुआ केवल पुण्य संपादन करनेके लिये सौधर्म इन्द्रके साथ स्वर्गसे निकला ॥ ४६-४७ ॥ जिनके हृदय पुण्यसे भरे हुये हैं जो दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं और धर्ममें तत्पर हैं ऐसे वाकीके सनत्कुमार आदि इन्द्र भी अपनी २ विभूतिके साथ अपनी २ सवारियों पर चढ़े हये अपनी २ इन्द्राणी और देवोंको साथ लिये हुये उस पुण्यकार्यके लिये सौधर्म इन्द्रके साथ ही स्वर्गसे निकले ॥ ४८-४९ ॥ उस समय नगा-ड़ोंके गंभीर शब्दोंसे तथा देवोंके द्वारा कहे हुये जय जय शब्दोंसे देवोंकी सेनामें बड़ा भारी कोलाहल फैल रहा था ॥ ५० ॥ कितने ही देव प्रसन्न होकर हंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे कितने ही फिरकी लो रहे थे, कितने ही शरीरको तोड़ रहे थे और कितने ही देव आगे दौड़ रहे थे ॥ ५१ ॥ इन्द्रादिक सब देव अपने २ विमान और अलग २ वाहनोंके साथ समस्त आकाशको रोककर चलने लगे ॥ ५२ ॥ उन चलते हुये वाहन और विमानोंसे आकाश व्याप्त हो गया और ऐसा मालूम होने लगा मनों पटलोकके सिवाय कोई दूसरा ही स्वर्ग बनाया गया है ॥ ५३ ॥ सूर्य चन्द्रमा असंख्यात ग्रह नक्षत्र तारे आदि सब ज्योतिषी देव अपनी २ देवागनाओंके साथ निकले ॥ ५४ ॥ वे सब ज्योतिषी देव कातिमान्, लोकपाल वनायन्त्रिंशत् देवोंसे रहित श्रीजिनिन्दूदेवके शासनकी धर्मप्रभावना करनेवाले वे सब ज्योतिषी देव अपनी विभूति और देवोंके साथ अपने वाहनोंपर चढ़े हुये तथा आकाशको प्रकाशित करते हुये पृथ्वीपर उतरे ॥ ५५-५६ ॥ इली तरह असुरकुमार नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार द्वीपकुमार, दिककुमार ये क्रीड़ाकरनेमें आशक्त दश प्रकारके भवनवासी देव अपने अपने वाहनोंपर चढ़े अपनी देवागना और इन्द्रोंके साथ अपनी अपनी विभूतिके साथ लेकर पृथ्वीपर उतरे ॥ ५७-५८ ॥ भगवान्के जन्मोत्सवमें अपने अपने वाहनोंपर चढ़े हुये अपनी विभूतिके साथ लोकपाल वनायन्त्रिंशत्को छोड़कर केवल आठ आठ भागोंमें वटे

को जीतनेवाले भगवानके मुखको बार बार देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ७६ ॥ तदनंतर उन भगवानको लेकर चलती हुई वह इन्द्रानी उनके शरीरकी किरणोंके समूहसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो सूर्य सहित पूर्वदिशा ही हो ॥ ७७ ॥ उस समय दिक्कुमारी देवियां अष्टमंगल द्रव्य इन्द्रानीके सामने लिये चल रही थीं उनमेसे कोई तो उत्तम व्रज लिये हुई थी, कोई ध्वजा, कोई कलश, कोई चमर, कोई सुन्दरी सुप्रतिष्ठ कोई शृंगार कोई दर्पण और कोई ताल (पंखा) लिये हुए थी ॥ ७८-७९ ॥ जिस प्रकार पूर्वदिशा उदय होते हुए सूर्यको जिसपर मणियां दैदीप्यमान हो रही हैं ऐसे उद्या-चल पर्वतकी शिखरपर विराजमान करदेती है उसीप्रकार इन्द्रानीने भी बाहर आकर उन तीर्थकारको इन्द्रके हाथमें विराजमान कर दिया ॥ ८० ॥ उस समय इन्द्र आदरपूर्वक इन्द्रानीके हाथसे लेकर भगवानके रूपको प्रेमपूर्वक आंखें फाड़ फाड़कर देखने लगा ॥ ८१ ॥ सूक्ष्म बुद्धिको धारणा करनेवाला वह इन्द्र भगवानको देखकर बहुत संतुष्ट हुआ और फिर भगवानके गुण वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगा ॥ ८२ ॥ हे देव ! आप संसारके स्वामी हैं, हे प्रभो आप जगतके गुरु हैं आप धर्म तीर्थके विधाता हैं और योगियोंकेलिष्ट भी आप महा पूज्य हैं ॥ ८३ ॥ हे प्रभो ! आप इस लोकालोकरूपी धरमें समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले निर्मल केवलज्ञानरूपी दीपके धारक होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ८७ ॥ हे प्रभो ! आप वचनरूपी किरणोंसे आज्ञानांधकारको दूर करनेवाले ज्ञानरूपी सूर्य है आप ही मोहरूपी नींदसे सोए हुए इस समस्त संसारको जगावेंगे ॥ ८४ ॥ हे देव ! अपने शरीरकी कांतिसे बाह्य अंधकारको नष्ट कर दिया है अब आगे अपने वचनरूपी किरणोंसे भठ्य जीवोंके मनके अंधकारको दूर करेंगे ॥ ८६ ॥ हे प्रभो ! जिससमय आप तीनों ज्ञानोंको धारणकर गर्भमें आए थे उसीसमय अहमिन्द्र भी आपको नमस्कार करते हैं और देवोंके साथ इद्र भी नमस्कार करते हैं ॥ ८७ ॥ हे नाथ ! मुक्तिका आप ही पर आसक्त हुई है और आपके ही लिये उत्सुक हो रही है आपमें समस्त गुण चन्द्रमाकी कलाके समान बुद्धिको प्राप्त करते रहते हैं ॥ ८८ ॥ इसलिये हे जगतगुरु ! आपको नमस्कार है, हे कर्मोंको नाश करनेवाले आपको नमस्कार है आप त्वरूपी

हुए असंख्यात किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ये आठों प्रकारके व्यंतरदेव अपने परिवारको साथ लेकर केवल पुरुष संपादन करनेकेलिये आए ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार भगवानके जन्मोत्सवमें अपनी २ त्रिभूतिके साथ चारों निकायोंके असंख्यात समस्त धर्मात्मा देव अतुकमसे आकाशसे उतर कर बहुत ही शीघ्र अनेक ऋद्धियोंसे शोभायमान ऐसी हस्तिनापुरी नगरीमें आए ॥ ६३-६४ ॥ सेनाके देव अपने २ बाहनोंके साथ उस नगरीके आकाश वन मार्ग आदि सबको घेरकर ठहर गए तथा इन्द्रानीके साथ आए हुये अलग २ सब इन्द्रोंसे और महोत्सव मनाते हुये कितने ही देवोंसे राजाका आंगन भर गया ॥ ६५-६६ ॥ तदनंतर शची इन्द्रानीने अद्भुत प्रसवागारमें प्रवेश किया और बड़ी प्रसन्नतासे भगवानके साथ २ माताको देखा ॥ ६७ ॥ शचीने जगतगुरु भगवान की बहुत सी प्रदक्षिणाएं दी नमस्कार किया और फिर माताके सामने खड़ी होकर उसकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६८ ॥ कि हे माता ! तू आज संसार भरकी माता है. तू ही कल्याणी है तू ही सुमंगला है, तू ही महादेवी है, तू ही पुरुषवती है, और तू ही कीर्तिमती है ॥ ६९ ॥ जो तीर्थंकर तीनों लोकोंके पिता कहलाते हैं उनकी तू माता है इसलिये आज तू सबसे श्रेष्ठ है, महापुरुषोंके द्वारा पूज्य है, और देवियोंके द्वारा सेवनीय है ॥ ७० ॥ यद्यपि यह स्त्री जन्म सज्जनोंके द्वारा निवृत्त है तथापि आपके समान स्त्री जन्म पाना तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय है । क्यों कि आपके समान स्त्री जन्म तीर्थंकरकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार पूर्वदिशा अंधकारको नाश करनेवाले सूर्यको प्रगट करती है उसीप्रकार आपने भी अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकारके अंधकारको दूर करनेवाले श्रीजिनेंद्रदेवरूपी सूर्य प्रगट किए हैं ॥ ७२ ॥ इसप्रकार छिपी हुई इन्द्रानीने माताकी स्तुतिकी फिर मायामयी नोंदमें उसे सुलासा दिया और उसके पास मायालयी पुत्र रखकर वह अपने फैलते हुये तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले बाल चंद्रमाके समान भगवान तीनों लोकोंके नाथको बड़ी प्रसन्नतासे दोनों हाथों उठाकर वहांसे निकली ॥ ७३-७४ ॥ अत्यंत दुर्लभ ऐसे भगवानके शरीरका स्पर्शकर वह शची ऐसा मानने लगी मानो तीर्थंकरके उत्पन्न होनेका समस्त हेतुवर्षा उसे ही मिल गया हो ॥ ७५ ॥ हर्षसे जिसके नेत्र फट रहे हैं ऐसी वह शची अपनी कांतिसे पूर्ण चंद्रमा-

कमलोंके लिये सूर्यके समान हैं और गुणोंके सागर हैं इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ८६ ॥ हे प्रभो आप चक्रवर्ती हैं, धर्म चक्रवर्ती हैं और कामदेव हैं इसलिए आपको नमस्कार है, हे देव ! मैं आपके चरण कमलोंको बड़े आदरके साथ मस्तकपर धारण करता हूँ । इसप्रकार इन्द्रने भगवानकी स्तुति की, उनको अपनी गोदमें बिठाया और मेरु पर्वत पर चलनेके लिये अपने हाथको ऊंचा उठाकर फिराया अर्थात् सबको चलनेका संकेत किया ॥ ६१ ॥ हे ईश ! आपकी जय हो, हे लोकके स्वामी ! आपकी जय हो, संसारमें आपकी वृद्धि हो और आप ही बढ़ते रहें, हे दयालु, हे नाथ ! आप मेरी रक्षा करें, इसप्रकार हृदयमें प्रसन्नता धारण करते हुए देव ऊंचे शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे इसलिये उस समय सब दिशाओंकी किराक बहिराकर देनेवाला कोलाहल हो रहा था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर अपने शरीरकी कांति और आभरणोंकी किराणोंसे इन्द्रधनुष वनाने हुए तथा जय जय शब्द करते हुए देव आकाशमें जा पहुँचे ॥ ६४ ॥ गंधर्व देवोंने संगीत करना प्रारम्भ किया और हाथियोंके दांतोंके कमलोंपर विजलीके समान मनोहर अस्सराएं रसीला नृत्य करने लगीं ॥ ६५ ॥ इधर उधर फैले हुए देवोंके रत्नजड़ित विमानोंसे भरहुआ निर्मल आकाश ऐसा अच्छा मालूम होने लगा मनो उसने अपने नेत्र ही उघाड़े हों ॥ ६६ ॥ ईशान इन्द्रने सोधर्म इन्द्रकी गोदमें विराजमान श्रीजिनेन्द्रदेवके मस्तक पर सफेद छत्र लगाया ॥ ६७ ॥ सनत्कुमार माहेंद्र ये दोनों इन्द्र भगवानपर क्षीरसागरकी लहरोंके समान चमर ढोरने लगे ॥ ६८ ॥ उस समयकी विभूतिको देखकर मिथ्याहृष्टी देव भी इन्द्रको प्रमाण मानकर श्रेष्ठ जिनमार्गमें अपनी श्रद्धा करने लगे ॥ ६९ ॥ हस्तिनापुरीसे लेकर मेरु पर्वततक इन्द्रनील मणियोंके द्वारा बनाई हुई सीढियां ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों भक्तिसे आकाश ही सीढी मय परिणत हो गया हो ॥ ३०० ॥ इन्द्रादिक सब देव शीघ्र ही ज्योतिष पटलको उल्लंघनकर मेरु पर्वतके मस्तकपर महामनोहर पांडुक वनमें जा पहुँचे ॥ १ ॥ वह मनोहर मेरु पर्वत पृथ्वीके नीचे एक हजार योजन गहरा है और निन्यानवे हजार योजन ऊंचा है ॥ २ ॥ उसकी चौड़ाई पृथ्वीके समीप दश हजार योजन है और वनोंसे सुशोभित मस्तकपर एक हजार योजन है । उस पर्वतकी सेवा अनेक देव भी

करते हैं ॥ ३ ॥ मस्तकके ऊपर चूलिका है जो मूलमें बारह योजन चौड़ी है शिखर पर चार योजन चौड़ी है मध्यमें आठ योजन चौड़ी है और नीचेसे ऊपरतक चालीस योजन ऊंची है ॥ ४ ॥ वह मेरु पर्वत चारो वन-रूपी महामनोहर वनोंसे सोलह चैत्यालयरूपी आभूषणोंसे, कूटरूपी दो हाथोंसे, पीठरूपी दो पैरोंसे, चूलिकारूपी मुकुटसे और शिलारूपी ललाटसे इंद्रके समान शोभायमान था, वह मेरु पर्वत अभिषेकके द्वारा जिनेन्द्रदेवका उपकार था और देव देवी भी उसकी सेवा करते थे ॥ ५-६ ॥ पर्वतकी ईशान दिशा-में एक बड़ी भारी पांडुकशिला है उसोपर सदा तीर्थंकरोंका अभिषेक हुआ करता है ॥ ७ ॥ वह पांडुकशि-ला सौ योजन लंबी है पचास योजन चौड़ी है और आठ योजन ऊंची है । वह शिला शारवती है और अर्द्ध चंद्रमाके आकारकी है ॥ ८ ॥ वह महा उज्वल शिला देवोंके द्वारा अनेक बार क्षीर सागरके जलसे प्रचालन की गई है इसलिये वह पवित्रताकी परम सीमातक पहुंच गई है ॥ ९ ॥ तीर्थंकरोंके अभिषेकके लिये उस शिलाके मध्य भागमें जो सिंहासन रक्खा है उसका मुल पूर्वकी ओर है और रत्नोंकी किरणोंसे वह व्याप्त है ॥ १० ॥ उसके अगल वगलमें दो स्थिर सिंहासन और हैं जिनपर खड़े होकर सौधर्म और ईशान इन्द्र भगवानका अभिषेक करते हैं ॥ ११ ॥ वह भगवानके विराजमान होनेका सिंहासन पांच सौ धनुष ऊंचा है नीचे पांचसौ धनुष चौड़ा है और ऊपर ढाईसौ धनुष चौड़ा है ॥ १२ ॥ इसप्रकार इन्द्रने अनेक प्रकारकी विधि, दृश्य, गीत, नाद और शुभ महोत्सवके साथ तीनों लोकोंके नाथ भगवान तीर्थंकरको उस ऊंचे सिंहासनपर विराजमान किया और बाकीके सब देवोंने बड़ी प्रसन्नतासे चारों ओरसे मेरु पर्वतको घेर लिया ॥ १३ ॥ समस्त पुरायकर्मके उदयसे जिस तीर्थंकर भगवानका गर्भमें ही सब देवोंके साथ इन्द्रोंने सेवा की थी, जन्म लेते ही मेरुपर्वतकर जिनका अभिषेक और पूजन हुआ था जो समस्त गुणोंके समुद्र हैं और कर्मोंको जोतनेवाले हैं ऐसे तीर्थंकर भगवानकी संसारमें जय हो ॥ १४ ॥ श्रीशां-तिनाथ भगवानने निम्न पुरायकर्मके उदयसे ही मनुष्य और देवगतिमें अनेक प्रकारके सुख भोगे थे और फिर इन्द्रोंने उनको मेरुपर्वतपर अभिषेक करनेके लिए स्थापन किया था यही समझकर बुद्धिमान लोगोंको

अहमिन्द्र हुआ, फिर राजा दृढ़रथ हुआ, वहाँसे सर्वार्थसिद्धिमें जाकर अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर चक्राधुथ गणधरदेव हुए और फिर जिन्होंने रामस्त संसारमें एकमात्र पूज्य होकर और समस्त कर्मोंका नाशकर तथा समस्त संसारके स्वामी होकर तीनों लोकोंमें मान्य और तीर्थकरोंके द्वारा सेवनीय ऐसी सर्वोत्तम मोक्षबधू प्राप्त की ऐसे वे भगवान चक्राधुथ गणधरदेव शीघ्र ही अपने गुण हमें प्रदान करें ॥ ६५-६६ ॥ देखो अनिन्दता रानी राजा श्रीबिण्णका हित करती थी और उनसे प्रेम करती थी उसने पहिले तो मनुष्य और देवोंके सुख भोगे और फिर श्रीबिण्णके तीर्थकर होनेपर गणधरका पद पाया और मोक्ष प्राप्त की। इसप्रकार उसने उनके साथ सब सुखोंका अनुभव किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको सम्बन्धोंके समागमसे क्या २ इष्ट पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् सब कुछ प्राप्त होते हैं ॥ १०० ॥

देखो ! भगवान शंतिनाथने पहिले भवोंमें धर्मसाधन किया था इसलिये उन्होंने मनुष्य और देवोंके बहुतसे सुखोंका अनुभव किया था, बारह जन्म तक अनेक विभूतियां प्राप्त की थीं और अन्तमें अविचल मोक्ष पद प्राप्त किया था। यही समझकर विद्वान लोगोंको स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाले धर्ममें सदा और निरन्तर परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ १ ॥ यह श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ श्रेष्ठधर्म मुक्तिका कारण है, सब सुखोंका निधि है, स्वर्ग राज्यादिकको उत्पन्न करनेके लिए महासागर है, तीर्थकरोंकी च्छद्वियोंको देनेवाला है, गणधर पदको देनेवाला है, इन्द्रकी विभूतिको उत्पन्न करनेवाला है, संसारकी समस्त लक्ष्मीको देनेमें समर्थ है, सर्वमान्य है, गुणोंके समूहोंका भवन है, और विद्वानोंके द्वारा पूज्य है इसलिये चतुर पुरुषोंको आत्मसिद्धि करनेके लिए सब प्रयत्नोंके साथ इसका सेवन करना चाहिए ॥ २ ॥ जो श्रीऋषभदेव आदि तीर्थकर तीनों कालमें और सब द्रोपोंमें उत्पन्न हुए हैं जो तीनों लोकोंमें पूज्य हैं, ज्ञानके दीपक हैं धर्मके स्वामी हैं, अनन्त अत्यंत उच्छृष्ट हैं, जिनवरोमें श्रेष्ठ हैं, समस्त दोषोंसे रहित हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हैं, सबको शरण है आर धर्मके आधार हैं, ऐसे वे समस्त तीर्थकर भगवान हम तुम लोगोंको अपनी समस्त निर्मल लक्ष्मी प्रदान करें ॥३॥ जो सिद्ध भगवान प्रबुद्ध हैं प्रसिद्ध हैं, सबलोग जिनको नमस्कार करते हैं, जो

शांतिनाथ मेरे लिए शांति प्रदान करें ॥ ६० ॥ भगवान शांतिनाथ तीनों लोकोंके सज्जनोंको शांति करने-
 वाले हैं धार्मिक लोग भगवान शांतिनाथका आश्रय लेते हैं, भगवान शांतिनाथके द्वारा ही मोक्ष सुख प्राप्त
 होता है, उन भगवान शांतिनाथ का मैं शांति प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ। भगवान शांतिनाथ
 के सिवाय अन्य कोई मनुष्यों का हितकारी नहीं है, मृत्युंगना भगवान शांतिनाथकी ही हैं, मैं अपना
 हृदय भगवान शांतिनाथमें ही लगाता हूँ। हे प्रभो ! शांतिनाथ, हमें अपने गुण प्रदान कीजिये ॥ ६१ ॥
 जो पहिले श्रेषिण राजा हुए थे, फिर दानके फलसे देवकुर्ममें भोगभूमिया हुए थे, वहांसे शरीर छोड़कर पुण्यकर्म
 के उदयसे सौधर्म स्वर्गमें श्रीप्रभ नामके बड़े देव हुए थे, वहांसे चयकर सब विद्याओंके स्वामी राजा अमि-
 ततेज हुए थे, वहांसे शरीर छोड़कर ज्ञानत नागके तेरहवें स्वर्गमें अनेक ऋद्धियोंको धारण करनेवाले रवि-
 चूल नामके देव हुए थे। वहांसे चयकर श्रीमान पुण्यवान राजा अपराजित नामके बलभद्र हुये थे, फिर
 धर्मके प्रभावसे अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए थे, वहांसे चयकर वज्रायुध नामके चक्रवर्ती हुए थे, फिर चारित्र
 धारणकर सातवें प्रवेयकमें अत्यन्त सुखी अहमिन्द्र हुए थे, वहांसे चयकर अनेक राजाओंके द्वारा बंदनीय
 ऐसे राजा मेघरथ हुए थे, वहांसे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए थे और फिर वहांसे आकर भगवान
 शांतिनाथ हुए थे जा कि अत्यन्त सुन्दर थे, तीर्थकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, समस्त सज्जनोंकी इच्छाएं
 पूरी करनेवाले थे, जिन्होंने देव और मनुष्योंके उपसारहित सुखोंका अनुभवकर तथा पंच कल्याणकोसे
 प्राप्त हुए सुखका अनुभवकर मृत्किरूषी मनोहर स्त्री प्राप्त की थी ऐसे वे भगवान शांतिनाथ हमारे लिए
 अपनी अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२-६४ ॥ जो पहिले अनिन्दिता नामकी राजा श्रीयेणकी रानी
 थी, फिर भोगभूमिमें आर्या हुई, वहांसे सौधर्म स्वर्गमें विमलप्रभ नामका देव हुआ, फिर राजा श्रीविजय
 हुआ, फिर आनत स्वर्गमें मण्डिचूल देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण (अर्धचक्रवर्ती) हुआ, फिर पापक-
 र्मके उदयसे पहिले नरकमें नारकी हुआ, वहांसे आकर रोघनाद विधाधर हुआ, फिर धर्मके प्रभावसे अच्युत
 स्वर्गमें प्रतींद्र हुआ, फिर राजा सहजायुध हुआ, फिर धर्मके प्रभावसे सातवें प्रवेयकमें सुखसागरमें रहनेवाला

थे और इसप्रकार जन्म कल्याणमें चलते हुए वे वैल चलते हुए पर्वतों के समान शोभायमान होते थे ॥७१॥
 बैलों की सेनाके पीछे रथों की सेना थी पहिली रेखामें मनोहर सफेद रथ थे जो कुंद पुष्पके अथवा चंद्रमा
 के समान स्वच्छ थे और सफेद छत्र आदिसे सुशोभित थे ॥ ७२ ॥ उनके पीछे चार पहियों वाले वैडूर्यमणि
 के बने हुए रथ थे जो मन्दरके फूलोंके समान थे और उपमा रहित थे ॥ ७३ ॥ उनके
 बाद सोनेके बड़े २ छत्र, ध्वजा, चमर आदिसे सुशोभित तपाये हुए सोनेके बने हुए बड़े ऊंचे रथ चल रहे
 थे ॥ ७४ ॥ तदनन्तर गम्भीर शब्द करते हुए, दूभके पत्तेकी कांतिको जीतते हुए मरकत मणियोंके बने
 हुए बहुतेसे पहियोंके शुभ रथ चल रहे थे ॥ ७५ ॥ उनके बाद नीलमणिके समान कर्कोट मणिके बने हुये
 रथ चल रहे थे, उनके पीछे कमलके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए अद्भुत रथ चल रहे थे ॥ ७६ ॥
 भगवानके जन्म कल्याणके लिये सातवीं रेखामें मोदकीसी गर्दनके रंगके इन्द्रनील मणियोंके बने हुए
 अद्भुत रथ चल रहे थे ॥ ७७ ॥ इसप्रकार देव देवियोंसे परिपूर्ण, मणियोंकी कांतिसे व्याप्त, दिव्य, शुभ
 महारथ सात रेखाओंमें चल रहे थे ॥७८ ॥ वे रथ ध्वजा छत्र चमर तथा पुष्पमालाओंसे सुशोभित थे और
 इन्द्रको भी महापुण्यके फलसे प्राप्त हुये थे ॥ ७९ ॥ अनेक प्रकारके वाजोंसे व्याप्त और आकाश आच्छा-
 दनकर चलते हुए वे निर्मल रथ आकाशरूपी समुद्रमें जहाजके समान शोभायमान होते थे ॥ ८० ॥ रथोंके
 बाद घोड़ोंकी सेना थी । पहिली रेखामें सुन्दर मूर्तिको धारण करनेवाले चमर आदिसे सुशोभित बीर
 सागरकी लहरोंके समान सफेद घोड़े चल रहे थे ॥८१॥ उनके पीछे उदय होते हे सूर्यके समान सुन्दर और
 ऊंचे घोड़े जा रहे थे, फिर गोरोंकेसे रंगके और उनके पीछे मरकत मणिकी कांतिवाले घोड़े जा रहे
 थे ॥ ८२ ॥ उनके बाद नील कमलके समान फिर जवा पुष्पके समान और फिर सातवीं कक्षामें इन्द्र-
 नील मणिके समान घोड़े जा रहे थे ॥ ८३ ॥ वे घोड़े अत्यन्त दिव्य रूपवान थे, मणियोंकी मालाओंसे
 तथा पुष्पमालाओंसे विभूषित थे, मनोहर थे, वे अलग २ रंगके सात रेखाओंमें चल रहे थे, उनका शरीर
 सोने की धूलिसे धूसरित हो रहा था, मृदंग-तुरही आदि महावाजोंके शब्दोंसे वे व्याप्त थे, उनपर रत्नोंके

आसन लगे हुए थे, तथा चढे हुए देवकुमार उन्हें चला रहे थे, वे शुभ थे, उत्तम थे, चंचल थे और आकाश
 रूपी समुद्रमें तरंगों के समान जान पड़ते थे ॥ ८४-८६ ॥ घोड़ों के पीछे हाथियों की सेना थी। पहिली रेखा
 में गायके दूधके समान श्वेत बड़े ऊंचे हाथी थे, दूसरी रेखामें उदय होते हुए सूर्यके समान मनोहर हाथी थे,
 तीसरी रेखामें तपाये हुए सोनेके रंगके हाथी थे, चौथी रेखामें सरसोंके फूलके समान थे, पांचवीं रेखामें
 ऊंचे दांतोंवाले नील कमलके समान हाथी थे, छठी रेखामें जैतपुष्पके समान और सातवीं रेखामें अञ्जन
 पर्वतके समान काले हाथी थे। इसप्रकार इन शुभ महा हाथियोंका समूह चल रहा था ॥ ८७-८९ ॥ इन
 हाथियोंकी प्रत्येक रेखाके बीच २ शंख दृढ़गंज लुरही नगाड़े आदि देवोंके बाजे मीठे स्वरोसे बजते जा रहे
 थे ॥ ९० ॥ उन हाथियोंके गंडस्थलसे मद भर रहा, गरजते हुये, विभूतियोंसे सुशोभित, और रत्नोंके घंटा
 उनपर लटक रहे थे ॥ ९१ ॥ मणि और पुष्पोंकी मालाएं उनपर पड़ी हुई, अनेक प्रकारकी ध्वजाएं उनपर
 फहरा रही थीं, सफेद छत्रसे उनकी कांति बढ़ रही थी और कानरूपी चमरोंको वे ढुला रहे थे ॥ ९२ ॥
 सोनेकी संकल उनके पैरोंमें पड़ी हुई, चारों ओर लगी हुई छोटी घंटियां बज रही थीं, वे बड़े मनोहर,
 अपना देवियोंके साथ देव उनपर चढ़े हुए उनसे वह बहुतही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ९३ ॥ भगवानके
 जन्म कल्याणमें अनेक सुन्दर आभूषणोंसे सजाये हुए हाथियोंकी घटा चलती हुई ऐसी अच्छी जान पड़ती
 थी मानो चलते हुए पर्वत ही हों ॥ ९४ ॥ हाथियोंके पीछे नृत्य करनेवालोंकी सेना, उसमें बहुतसे देव भग-
 वानके जन्मोत्सवमें जन्मकल्याणकका उत्सव मनाते हुए दिव्य और उत्कृष्ट नृत्य करते जा रहे थे ॥ ९५ ॥ पहिली
 रेखामें राजाधिराज कामदेव और विद्याधर राजाओंके चरित्र दिखलाते हुए उत्तम नृत्य करते, दूसरी रेखामें
 गुणी देव समस्त अष्टमहामंडलेश्वर राजाओं के शुभ चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ ९६ ॥ तीसरी
 रेखामें वे देव आकाशमें ही बलदेव, नारायण प्रतिनारायणके पराक्रमोंके चरित्रको दिखलाते हुए नृत्य कर
 रहे थे ॥ ९८ ॥ चौथी रेखामें देव अपनी देवियोंके साथ छहों खंडोंके स्वामी चक्रवर्ती राजाओंके गुण वर्णन
 करते हुए तथा उनके चरित्र दिखलाते हुए नृत्यकर रहे थे ॥ ९९ ॥ पांचवी कचामें देव देवियां चरमशरीरी

भित होती थी ॥ ३१ ॥ वह स्वच्छ जलका प्रवाह मंदराचल पवतसे नीचे पृथीतक पड़ता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानों वह नहीं समानके कारण ही नीचे गिर रहा हो ॥ ३२ ॥ उस समय महाधूप जल रही थी, दीपोंके जलनेसे प्रकाश हो रहा था, देव वंदीजनोंके द्वारा अभिषेकके समयके मंगल गीत गाये जा रहे थे, किन्नरी देवियां भी भगवानके अभिषेकके समयमें मनोहर गीत गा रही थी, देवियोंका समूह अनेक प्रकार का उत्तम नृत्य कर रहा था, गंधर्वदेव भी गा रहे थे, देवोंके मनोहर वाजे बज रहे थे, जय नन्द आदिके शब्द हो रहे थे और करोड़ों स्वोत पढ़े जा रहे थे, इसप्रकार इन्द्रोंने प्रसन्नतासे बड़ी विभूतिके साथ अनेक कलशोंसे भगवान तीर्थंकर देवका अभिषेक समाप्त किया ॥ ३३-३६ ॥ तदनंतर इन्द्रने भक्तिपूर्वक बंदना करनेके लिये सुगंधित गंधोदक जलके कलशोंसे भगवानका अभिषेक करना प्रारंभ किया ॥ ३७ ॥ विधिको जाननेवाले इंद्रने सुगंधि द्रव्योंसे मिले हुये दिव्य गंधोदकसे भगवान तीर्थंकरका अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ समस्त दिशाओंमें व्याप्त होनेवाली और संसार भरमें उत्सव करनेवाली वह चौर सागरकी धारा जिनवाणी के समान हम लोगोंको प्रसन्न करे ॥ ३९ ॥ जो तीर्क्ष्ण तलवारकी धाराके समान विषसमूहोंको नाश करती है ऐसी पृण्यधारके समान जलकी धारा हमलोगोंको मोक्षप्रद हो ॥ ४० ॥ जो जलधारा भगवानके शरीर का स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हो गई है वह धारा भगवानकी दिव्यध्वनिके समान हमारे अन्तःकरणको पवित्र करो ॥ ४० ॥ इसप्रकार गंधोदकसे भगवानका अभिषेक कर इंद्रोंने संसारकी शान्तिकेलिये ऊंचे शब्दोंसे शान्तिकी घोषणाकी । तदनन्तर देवोंने अपने आत्माको शान्त करनेकेलिये वह गंधोदक पहिले तो मस्तकपर लगाया फिर सब शरीरपर लगाया और फिर भेटके समान स्वर्गको ले गये ॥ ४२-४३ ॥ इसप्रकार इन्द्रोंने बड़े आनंदसे भगवानका अभिषेक किया और फिर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवानका अनेक प्रकारसे पूजन किया ॥ ४४ ॥ दिव्यगंध, मुक्ताफल, कल्प वृक्षांके पुष्प, अमृतपिंड, माणिक्य उत्तम धूप उत्तम फल और अर्घ चढ़ाकर भगवानकी पूजाकी शान्ति पौष्टिक किया और इसप्रकार भगवानका जन्माभिषेक कल्याण समाप्त किया ॥ ४५-४६ ॥ फिर इन्द्रोंने सब देव देवांगनाओंके साथ प्रसन्न होकर भगवानकी तीन

लिये वह ऐसा जान पड़ता था मानो भूषणांग जातिका कल्पवृक्ष ही हो ॥ १९ ॥ इन्द्रने कण्ठमें पड़ी हुई
 मोतियोंकी मालासे सुशोभित होनेवाले तथा सुवर्णके बने हुए कलश हजार भुजाओंसे उठा रखे थे, इस-
 लिये उस समय वह इन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानों भाजनांग जातिका कल्पवृक्ष ही हो ॥ २० ॥ तदनन्तर
 सौधर्मा इन्द्रने जय जय जय इसप्रकार तीनवार कहकर बड़ी प्रसन्नता से भगवानके मस्तकपर स्थूल मनोहर
 और निर्मल धारा छोड़ी ॥ २१ ॥ उन आनन्दित हुए करोड़ो देवोंमें जय जय शब्दका बड़ा भारी कोलाहल
 हा गया और जय आपकी वृद्धि हो इसप्रकारके शब्दोंसे सब दिशाएँ वहिरीसी हो गईं ॥ २२ ॥ तदनन्तर
 कल्पवासी सब इंद्रोने संस्सार किष्ट हुए सुवर्णके कलशोंसे भगवानके ऊपर हाथीकी सूडके आकारकी स्थूल
 धारा छोड़ी ॥ २३ ॥ भगवानके मस्तकपर पड़ती हुई वह दूधके समान सफेद जलकी धारा ऐसी अच्छी
 जान पड़ती थी मानो वेगसे वहती हुई किसी दूसरी गंगा नदीका प्रवाह ही हो ॥ २४ ॥ परन्तु भगवानमें
 अनंत शक्ति थी और ब्रह्म वृषभ नाराच उनका संहनन था इसलिए वे अपनी महिमा से हेला व लीला-
 पूर्वक मेरु पर्वतके समान उस धाराकी प्रतीक्षा करते थे ॥ २५ ॥ वह धारा जिस पर्वतपर पड़े उसके टुकड़े २
 हो जायं परन्तु भगवान अपनी शक्तिसे उसे पुष्पोंके समान मानते थे ॥ २६ ॥ अभिषेक करते समय निर्मल
 जलकी छटायें भगवानके शरीरको स्पर्शकर दूर आकाशमें उछलती हुई ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानों
 भगवानके शरीरके स्पर्शसे वह पापोंसे छूट गईं हो और इसलिए ऊपरको जा रही हैं ॥ २७ ॥ भगवानके
 अभिषेककी ठंडी छटायें कुछ तिरछी भी जा रहीं थीं और ऐसी सालूम पड़ती थी मानो दिशाख्या खियोंके
 कानोमें पड़े हुए मोती हों ॥ २८ ॥ पर्वतरूपी भगवानके मस्तकपर मेघरूपी इन्द्रके द्वारा पड़ती हुई वह क्षीर
 सागरके जलकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो कोई निर्भरना ही हो ॥ २९ ॥ वह जल कलशोंके
 मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ पड़ता था इसलिए उस पर्वतके मस्तकपर वह जल उन कमलोंसे हंसीकी
 उत्तम शोभाका प्राप्त होता था ॥ ३० ॥ उस पर्वतपर कहीं शुद्ध स्फटिककी पृथ्वी थी, कहीं नीलमणियोंकी
 थी और कहीं विद्रुतमयी थी इसलिष्ट वह जलकी धारा भी उस पृथ्वीके सम्बन्धसे अनेक प्रकारकी सुशो-

ललित करनेवाला था, सूर्यके समान अत्यंत देदीप्यमान था और रूपमें कामदेवको भी ललित करनेवाला था ॥ ४२-४५ ॥ उस समय सब दिशाओंमें प्रसन्नता हो गई थी आकाश निर्मल हो गया था और स्वामीके उत्पन्न होनेसे सब प्रजाको हर्ष उत्पन्न हुआ था ॥ ४६ ॥ भगवानके जन्म लेनेसे सब कुटुम्बीलोग अपनेको धन्य और कृतकृत्य मानते थे, और बड़े भारी आनन्दके समूहसे पुण्यका भंडार भरते थे ॥ ४७ ॥ तीर्थ-कर उत्पन्न होते ही स्वर्गमें धर्मके कारण समुद्रकी गर्जनाके समान महाघंटा नाद होने लगा था ॥ ४८ ॥ देवोंके बड़े नगाड़े बिना बजाये अपने आप ही बजने लगे थे और कोमल तथा सुख देनेवाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी थी ॥ ४९ ॥ यद्यपि आकाश और पृथ्वी दोनों ही सुगंधित पुष्पोंकी सुगंधिसे व्याप्त हो रहे थे तथापि कल्पवृक्ष उस समय अनेक प्रकारसे पुष्प वृष्टि कर रहे थे ॥ ५० ॥ इन्द्रोंके आसन अकस्मात् कम्पायमान होने लगे थे मानों उन देवोंको अकस्मात् ऊंचे आसनसे नीचे गिरा रहेहो ॥ ५१ ॥ भगवानके जन्म लेनेके प्रभावसे जन्म कल्याणकी विधिको सूचित करनेवाले तथा किरणोंसे व्याप्त ऐसे उन देवोंके मुकुट शीघ्र ही नम्र होगए, नीचेकी ओर झुक गए ॥ ५२ ॥ उन आश्चर्योंको देखकर इन्द्रोंने अपने अवधिज्ञानसे भगवानका जन्म होना जाना और उसीसमय वे जन्म कल्याण करनेके लिए तैयार हुए ॥ ५३ ॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें धर्मको सूचित करनेवाला मनोहर सिंहनाद हुआ और भगवानके जन्मको सूचित करनेवाले वाकीके भी सब आश्चर्य हुए ॥ ५४ ॥ व्यंतर देवोंके आवासोंमें गंभीर भरीनाद हुआ था और आसनोंका कंपायमान होना आदि सब आश्चर्य हुए थे ॥ ५५ ॥ भवनवासी देवोंके भवनोंमें महान् शंख ध्वनि हुई थी और जन्म कल्याणकी विधिको सूचित करनेवाले वाकीके सब आश्चर्य हुए थे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार आश्चर्योंको देखकर चारों निकायोंके इन्द्रोंने अपने अपने देवोंके साथ अपने अवधिज्ञानसे भगवानका जन्म होना जाना और अपने अपने काम करनेमें चतुर वे सब इन्द्रादिक देव बहुत ही आनन्दित होकर अपनी अपनी देवांगनाओंके सथा पुण्यके सागर ऐसे जन्म कल्याण करनेकेलिए तैयार हुए ॥ ५७-५८ ॥ तदनन्तर सौधमें स्वर्गके इन्द्रकी आज्ञासे देवोंकी सेना शब्द करती हुई समुद्रोंकी लह-

रोंके समान अनुक्रमसे स्वर्गसे निकली ॥ ५६ ॥ बैल, रथ, घोड़े, हाथी, नृत्य करनेवाले, गंधर्व और सेवक
 वर्ग इस अनुक्रमसे एकके पीछे एक इन्द्रकी सेना निकली थी ॥ ६० ॥ यह सात प्रकारकी सेना अलग २
 प्रत्येक इन्द्रकी थी और प्रत्येक सेनाके भी सात २ भेद थे अर्थात् बैलोंकी सेना सात प्रकारकी थी, घोड़ों
 की सेना भी सात प्रकारकी थी इसीप्रकार सातों सेनायें सात २ प्रकारकी थीं ॥ ६१ ॥ बैलोंकी पहिली
 सेनामें दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले चौरासी लाख बैल थे, दूसरी सेनामें इससे दूने अर्थात् एक करोड़
 अड़सठ लाख बैल थे, तीसरीमें इससे दूने तीन करोड़ छत्तीस लाख बैल थे, चौथीमें इससे दूने छह करोड़
 बहचरि लाख पांचवीमें इससे दूने तेरह करोड़ चवालीस लाख, छठीमें छब्बीस करोड़ अठासी लाख और
 सातवींमें तिरपन करोड़ छिहचरि लाख बैल थे ॥ ६२ ॥ इसप्रकार बैलोंकी सातों सेनाओंमें एक सौ छह
 करोड़ अड़सठ लाख (एक अरब छह करोड़ अड़सठ लाख) बैल थे ॥ ६३ ॥ इसीप्रकार सौधर्म स्वर्गके
 इन्द्रकी सेनामें रथ घोड़े आदि सब सेनाओंकी संख्या बैलोंकी संख्याके समान थी ॥ ६४ ॥ भगवानके
 जन्म कल्याणके महोत्सवमें सबसे आगे पहिली रेखामें शंख अथवा कुंद पुष्पके समान सफेद मनोहर बैल
 चल रहे थे ॥ ६५ ॥ उसके पीछे बैलोंकी दूसरी सेना चल रही थी उसमें मणि और सुवर्णसे शोभायमान
 जवा पुष्पके समान लाल रङ्गके बैल चल रहे थे, उनके बाद नीलकमलके समान रंगवाले बैल बड़े उत्सवके
 साथ जा रहे थे ॥ ६६ ॥ उनके बाद अत्यन्त दिव्य रूपको धारण करनेवाले मरकतमणिके रंगवाले बैलोंकी
 सेना जा रही थी, उसके बाद सुवर्णके रंगवाले बैलोंकी सेना और फिर जिनकी कांति दैदीप्यमान हो रही
 है ऐसे अंजनके समान काले बैलोंकी सेना जा रही थी ॥ ६७ ॥ उसके बाद सातवीं रेखामें आकाशको
 प्रकाशित करती हुई अशोकके फूलके समान रंगके शुभ बैलोंकी सेना चल रही थी ॥ ६८ ॥ प्रत्येक बैलों
 की सेनाके बीच २ में तुरही आदि अनेक प्रकारके देवोंके बाजे महासागरकी गर्जनाके समान बजते चले
 जा रहे थे ॥ ६९ ॥ वे सब बैल मनोहर थे, घंटा, किंकिणी, चमर, मणि और पुष्पोंकी माला आदिसे सुशो-
 भित थे और दिव्यरूपको धारण करनेवाले थे ॥ ७० ॥ उन बैलोंके सुन्दर आसनोपर देवकुमार चढ़े हुए

आनन्द सहित चूलिका और मेरु पर्वतको तथा समस्त आकाशको घेरकर बैठ गई ॥ ४ ॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए सौधर्म इन्द्रने सब इंद्रों और देवोंके साथ भगवानका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ ५ ॥ उस समय देवोंके नगाडे आकाशमें व्याप्त होकर बजने लगे और देवांगनाएं आनंदित होकर उत्तम नृत्य करने लगीं ॥ ६ ॥ उस समय कालागुरुकी सुगंधित धूपका धंआ चारों ओर फैल गया और देवोंने शान्ति पुष्टि देनेवाले बहुतसे पुण्यार्थ समर्पण किए ॥ ७ ॥ इन्द्रोंने एक दिव्य मंडप बनाया जिसमें सब देव बिना किसी बाधाके बैठ गए उस मंडपमें कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुई सुवर्ण और मोतियोंकी मालाएं लटक रही थीं जो पुण्यकी पंक्तियोंके समान जान पड़ती थीं ॥ ८ ॥ तदनन्तर सौधर्म इन्द्रने भगवान शान्तिनाथका प्रथम अभिषेक करनेके लिए सबसे पहिले प्रस्तावना विधिकी और फिर कलशोद्धार किया अर्थात् कलश हाथमें लिया ॥ १० ॥ फिर श्रीमान् ईशान इन्द्रने भी आनन्दित होकर सुवर्ण रत्नोंसे वना हुआ और चंदनसे चर्चित ऐसा कलश हाथमें लिया ॥ ११ ॥ वाकीके कल्पवासी इंद्र आनन्द सहित जय जय शब्द कहने लगे और ऊपरका काम कर उनके परिचारकबने ॥ १२ ॥ सब इन्द्रानी सब देवी और अप्सराओंके साथ हाथमें मंगल द्रव्य लेकर परिचारिकाएं बनी ॥ १३ ॥ जिन कलशोंसे जल लाया गया था वे सुवर्णके बने हुए थे, उनका मुख एक योजन चौड़ा था, आठ योजनकी उनकी गहराई थी, मणियोंकी किरणोंसे वे व्याप्त थे, और मोतियोंकी मालाएं उनपर लटक रही थीं । उन कलशोंसे देव क्षीर सागरका जल लाने लगे थे और उस समय वे देव मेरुसे लेकर क्षीर सागर तक सीढ़ीरूपसे खड़े २ जल ला रहे थे ॥ १४-१५ ॥ भगवान शान्तिनाथ स्वयंभू हैं स्वयं पवित्र हैं दूधके समान उनका सफेद निर्मल रुधिर है इसलिये क्षीरसागरके बिना और कोई जल उनके स्पर्श करने योग्य नहीं है यही समझकर अत्यनंदित हुए देव उनके अभिषेकके लिए क्षीरसागरका ही जल लाए थे ॥ १६-१७ ॥ जलसे भरे हुए उन कलशोंसे आकाश व्याप्त हो गया था और ऐसा जान पड़ता था मानों सन्ध्या समयके कुछ पीले बादलोंसे ही भर गया हो ॥ १८ ॥ भगवानका अभिषेक करनेके लिये इन्द्रने अपनी बहुतसी मुजाएं बना ली थीं और सबमें वह आभूषण पहने हुए था, इस-

अपने हृदयमें सदा धर्म धारण करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस समय भगवान् शान्तिनाथ सिंहासनपर विराजमान थे उस समय सब देव उनके लिए इसप्रकार कल्पना करते थे कि क्या यह चन्द्रमा अथवा पुराणकी राशि है ? अथवा क्या निर्मल प्रभावका पुंज है ? अथवा काम है ? क्या देवोंके द्वारा नमस्कार किया हुआ इन्द्र है ? अथवा परब्रह्म है ? क्या चक्रवर्ती है अथवा धर्मकी मूर्ति है इसप्रकार कल्पना किये हुए शान्तिनाथ भगवान् हम तुम लोगोंको शान्ति दें ॥ १६ ॥ धर्मसे ही चक्रवर्तीका पद प्राप्त होता है, धर्मसे ही इन्द्रका उत्तम पद प्राप्त होता है, धर्मसे ही मनुष्य द्वारा पूज्य तीर्थंकर पद प्राप्त होता है और धर्मसे ही शाश्वत मोक्ष पद प्राप्त होता है । धर्मसे ही जीवोंको सब प्रकारकी विभूति प्राप्त होती है और धर्मसे ही मेरुपर्वतपर अभिषेक होता है यही समझकर विद्वानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये निर्मल धर्मका सेवन करना चाहिए ॥ १७-१८ ॥ भगवान् शान्तिनाथ तीनों लोकोंमें शान्ति करनेवाले हैं, मुनिराज भी शान्तिनाथका आश्रय लेते हैं, शान्तिनाथसे श्रेष्ठ धर्मकी प्रवृत्ति होती है, इस लिए मैं उन शान्तिनाथको नमस्कार करता हूँ । मनुष्योंको शान्तिनाथसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है शाश्वती मोक्षस्त्री शान्तिनाथकी ही है, हे शान्तिनाथ ! आजसे मैं आपमें ही अपना मन लगाता हूँ, हे प्रभो, इस संसारमें मुझे शान्ति दीजिए ॥ १६ ॥

इसप्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराणमें जन्मावतरण और देवोंके बालपनका वर्णन करनेवाला तेरहवां अधिकार समाप्त ॥१३॥

अथ चौदहवां अधिकार ।

श्रीशान्तिनाथ भगवान् उनके चरित्र वर्णन करनेके लिए मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करें तथा शान्ति दें इसी लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

अथानन्तर—भगवान्का अभिवेक देखनेके लिये सब देव अनुक्रमसे सब दिशाओंमें पांडुक शिलाको घेरकर खड़े बैठ गए ॥ २ ॥ दिक्पाल देव अपने निकार्योंके साथ भगवान्का अभिवेक देखनेकी इच्छासे भगवान्के सिंहासनके चारों ओर अपनी अपनी दिशमें जा बैठे ॥ ३ ॥ उस कवनमें देवीकी

हजार नौ सौ चौरासी) वर्ष समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ तदनन्तर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वे भगवान् शान्ति-
 नाथ विहार और धर्मोपदेश छोड़कर वहाँपर मौन धारणकर और निश्चल होकर विराजमान हुए ॥ ६४ ॥
 तदनन्तर जब उनकी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई तब उन्होंने मोक्ष जानेके लिये सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती
 नामके शुक्लध्यानसे योगोंका निरोध किया ॥ ६५ ॥ फिर योगरहित उन भगवानने व्युपरतक्रियानिवृत्ति
 नामके शुक्लध्यानसे दो गंध, पांच रस, पांच वर्ण, पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, छह
 संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, देवगति, दो विहायोगति (प्रशस्त अप्रशस्त) परघात, अगुरुलघु, उच्छ्वास, अप-
 घात, अयशस्कीति, अनादेय, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, स्थिर, अस्थिर, आठ स्पर्श, निर्माण, तीन अंगो-
 पांग, अपर्याप्तक, दुर्भंग, प्रत्येक शरीर, नीच गोत्र और असातावेदनीय वे बहत्तरि प्रकृतियां सबसे पहिले
 नष्ट कीं । फिर दूसरे ही समयमें उन अयोगी भगवान् शान्तिनाथने बाकीके कर्मोंको नाश करनेके लिये
 उद्यम किया और आदेय, मनुष्यगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, यशस्कीर्ति, पर्याप्ति,
 त्रस, वादर, सुभग, मनुष्यायु, ऊंच गोत्र, सातावेदनीय और तीर्थकर नाम कर्म ये तेरह प्रकृतियां उसी
 गुणस्थानके अन्तिम समयमें नष्ट कीं ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशीके दिन भरणी नक्षत्रमें
 रात्रिके पहिले समयमें वे कृतकृत्य भगवान् 'अ इ उ ऋ लृ इन पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण कालतक
 अयोगी रहकर तथा समस्त कर्मोंको और तीनों शरीरोंको नष्टकर लोकके शिखरपर जा विराजमान हुए
 ॥ ७५-७६ ॥ वे भगवान् समस्त बंधनोंसे रहित होकर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे एरंडसे छूटे हुये बीजके
 समान एक ही समयमें लोकशिखरपर जा विराजमान हुए ॥ ७७ ॥ जिनको समस्त संसार नमस्कार करता
 है और जो समस्त पदार्थोंको एक साथ देखने जाननेवाले हैं ऐसे वे भगवान् वहांपर दिव्य गुणोंको पाकर
 उपमारहित, सदा एकसा रहनेवाला, अनंत, विषयोंसे रहित, नित्य, केवल आत्मासे प्रगट होनेवाला जन्म
 मरण जरा आदि दोषोंसे रहित और हानि वृद्धिसे रहित ऐसे निर्मल सुखका अनुभव करने लगे ॥७८-७९॥
 देव मनुष्योंको तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें जो पूर्ण सुख है उससे अनंतगुणा सुख वे भगवान् एक

समयमें अनुभव करते थे ॥ ८० ॥ उसी समय उनकी अन्तिम पूजा करनेकी इच्छासे सब इन्द्रादिक देव आए और उन्होंने बड़ी भक्तिसे भगवानके उस मोचको सिद्ध करनेवाले परम पवित्र शरीरकी पूजा की । फिर उस शरीरको बहुमूल्य पालकीमें विराजमानकर चंदन अगुरु कर्पू सुगंधित द्रव्योंके साथ बड़े आदर से ले गये और अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे प्रगट हुई अघ्निसे वह शरीर शीघ्र ही पर्यायंतरको प्राप्त कर दिया अर्थात् भस्म कर दिया । उस समय उसकी सुगंधिसे सब दिशयें सुगंधित हो गई थी ॥ ८१-८३ ॥ तदनंतर उन इन्द्रादिक देवोंने पंच कल्याणकोंको प्राप्त होनेवाले भगवान शानिनाथके शरीरकी भस्म की बड़ी भक्तिसे ललाटपर, हृदयमें, कंठमें और भूजाआंघ्र लगाया ॥ ८४ ॥ फिर उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की कि “हम भी ऐसे ही हों अर्थात् हमको भी यह पद प्राप्त हो “इसके बाद उन्होंने आनंद नाटक किया और फिर प्रसन्न होकर वे सब देव अपने २ स्थानको चले गये ॥ ८५ ॥ चक्रायुध गणधरको आदि लेकर नौ हजार मुनि संयस धारणकर केवलज्ञान पाकर और इन्द्रादिक देवोंके द्वारा की हुई पूजाको पाकर तीनों शरीरोंको नष्टकर समस्त कर्मों के नष्ट होनेसे सदा रहनेवाले और अनंत सुखके सागर ऐसे मोक्षमें जा विराजमान हुए थे, अर्थात् उनके समयमें नौ हजार मुनि मोक्ष गए थे ॥ ८६-८७ ॥ मोक्ष अवस्थामें जिनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो मुकितस्त्रीके साथ परम सुखका अनुभव करते हैं और जो समस्त संसाररूप बंध हैं, ऐसे श्रीशानिनाथ जिनराजको मैं उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त निर्मल भक्तिसे स्तवन करता हूँ ॥ ८८ ॥ जो निर्मल गुणोंके निधान हैं, मुक्तिनाथ हैं, विद्वानोंके द्वारा परम पूज्य हैं, उपमारहित सुखके सागर हैं, सिद्ध पर्यायको प्राप्त हुये हैं, जिन्होंने लोकके शिखरपर अपना निवास बनाया है और जिन्होंने समस्त कर्म जीत लिये हैं, ऐसे सोलहवें तीर्थंकर भगवान शानिनाथ सदा जयशील हों ॥ ८९ ॥ जिन्होंने अपने पुण्यकर्मके उदयसे समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले मनुष्य भवके सुखोंका अनुभव किया फिर देव पर्यायोंके सुखोंका अनुभव किया, वहांपर बहुतसी विभूति पाई, फिर तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेवकी विभूति प्राप्त की अन्तमें जिन्होंने मोक्ष ही प्राप्त की ऐसे वे अत्यन्तसुन्दर भगवान

प्रकार वह भगवान अनचरीवाणी मनुष्यों की अनेक भाषारूप परिणत हो जाती थी ॥ ११ ॥ इस प्रकार आठों प्रातिहार्यों से शोभायमान अव्यजीवों के मध्यमें विराजमान और समस्त ऐश्वर्यमय भगवान शान्तिनाथ ऐसे अच्छे सुशोभित होते थे मानो तेजका पुंज ही हो ॥ १२ ॥

अथानन्तर—इन्द्रादिक देवों ने अत्यन्त शोभायमान कुबेरके द्वारा बनाया हुआ और समस्त संसारकी महद्वियों के एक घरके समान वह समवसरण दूरसे ही देखा । देखते ही प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने जय २ शब्द कहे, उनकी तीन प्रदक्षिणा दी और फिर वे भगवानके दर्शन करनेके लिये बड़ी प्रसन्नतासे उस समवसरणमें गये ॥ १३-१४ ॥ समवसरणमें प्रवेश करते ही (भगवानको देखते ही) उनके हृदयमें कल्पनाएं उठने लगीं कि यह पुण्य परमाणुओं का समूह है ? वा केवलज्ञानरूपी श्रेष्ठ ज्योति ही बाहर निकल आई है ? अथवा यह भगवानका प्रताप है ? वा तेजकी निधि है ? अथवा यह यशकी राशि है ? वा साक्षात् भगवान तीन लोकके नाथ हैं ? इसप्रकार कल्पना करते हुए सौधर्म इन्द्रने सब इन्द्रोंके देवों के और देवियोंके साथ गणधरोंसे घिरे हुए और चतुस्रुख विराजमान भगवान शान्तिनाथके दर्शन किये ॥ १५-१७ ॥ शक्ति और रागके वशीभूत हुए स्वर्गोंके इन्द्रोंने मोक्ष प्राप्त करनेके लिए देव देवियोंके साथ अपने हाथ छोड़कर मस्तकपर रखे, जगतगुरु भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं नवकर घोटूं तथा जानुओंको पृथ्वीसे लगाया और मुकुटसे सुशोभित अपने मस्तकको झुकाकर बड़ी भक्तिसे उन्हें प्रणाम किया ॥ १८-१९ ॥ तदनन्तर इन्द्रोंने अपने सब परिवारके साथ उठकर बड़ी भक्तिसे भगवानके चरण कमलों की महती पूजा की ॥२०॥ उन्होंने रत्नों के शृंगारकी नालसे निकले हुए जलकी सफेद धारासे समस्त दिशाओंको सुगंधित करनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ गंधसे अथवा स्वर्गके सुगंधित द्रव्यों से मोतियों के बने हुए अक्षतों से, कल्पवृक्षों पर उत्पन्न हुए अनेक रंगके फूलों की मालाओं से अमृतपिंडके बने हुए नैवेद्यसे, अन्धकारको नाश करनेवाले रत्नों के दीपकों से दिव्यधूपसे, मनोहर फूलों से और पुष्पांजलिसे भगवानकी पूजा की ॥ २१-२३ ॥ उन्होंने भगवानके सामने अपनी २ इंद्रानियों के साथ अपने हाथसे रत्नों के चूर्णकी आश्चर्य करनेवाली विचित्र बलि बना-

किरणोंकी शोभासे शोभायमान था ॥ ६८ ॥ इन तीन कटनीवाले तीसरे पीठके ऊपर गंधकुटी शोभायमान थी जो कि सुवर्णकी जालियोंसे मोतियोंकी जालियोंसे और अन्य अनेक शोभाओंसे शोभायमान थी अत्यन्त शुभ थी मनुष्यमालाओंसे व्याप्त थी, किरणोंके समूहसे भरपूर थी, तेजके समूहसे ही क्या मानों बनी हुई था और घूपके धूपसे सब दिशाओंको सुगंधित कर रहीं थीं ६९-१०० ॥ उस गंध कुटीके ऊपर सुवर्णका बना हुआ बहुत ऊंचा दिव्य सिंहासन था जो कि रत्नोंके समूहसे जड़ा हुआ था और अपनी कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहा था ॥ १ ॥ उस सिंहासन पर जगतगुरु भगवान शान्तिनाथ भगवान कांतिसे आकासिंहासनके तलभागको बिना छूए उससे चार अंगुल ऊंचे विराजमान थे ॥ २ ॥ उस समय उनकी अन्नन्त महिमा थी, कांति करोड़ सूर्यसे भी अधिक थी, वे उपमा रहित थे, अत्यन्त शांत थे, सबसे बड़े थे और समस्त ऋद्धियोंके समुद्र थे ॥ ३ ॥ उस समवसरणमें आकाशसे देवोंके हाथोंके द्वारा कल्पवृक्षोंके फूलोंकी वर्षा हो रही थी ॥ ४ ॥ भगवानके पास ही अशोकवृक्ष शोभायमान था जो कि बहुत ऊंचा, मणियोंके पुष्पोंसे व्याप्त, लोगोंका शोक दूर करनेवाला, महान् और सरकत मणियोंके पत्तोंसे सुशोभित था ॥ ५ ॥ भगवानके ऊपर तीन ब्रह्म शोभायमान थे जो कि तीन चन्द्रमाओंके समान जान पड़ते थे, उनका महादंड रत्नोंका बना हुआ था और मोतियोंकी मालाएं' उनपर लटक रही थीं ॥ ६ ॥ भगवानपर यक्षोंके हाथोंके द्वारा अत्यन्त श्वेत और तरङ्गोंके समान चौसठ चमर डुलाये जा रहे थे जिनसे उनकी शोभा बहुत ही अच्छी हो गई थी ॥ ७ ॥ देवोंके हाथोंसे बजते हुए देवोंके दुन्दुभी बाजे बज रहे थे जो कि नगाड़े और पणन आदिके शब्दोंसे सब दिशाओंको बहिरी बना रहे थे ॥ ८ ॥ अन्धकारको नाश करनेवाला भगवानका भ्रामंडल भी ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों रत्न, सूर्य, चन्द्रमा, और देवोंको जीतकर तेजका समूह ही एक जगह इकट्ठा हो गया हो ॥ ९ ॥ भगवानके मुखसे मनोहर दिव्यध्वनि निकल रही थी जो कि संसारभरका हित करनेवाली थी, मोक्षमार्गको प्रकाशित करती थी अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करती थी और समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करती थी ॥ १० ॥ जिसप्रकार भेषका जल संयोग पाकर अनेक प्रकारका हो ज

देकर पुण्य उपाजन करते थे ॥ ८५ ॥ स्तूप और भवनाकी पीठकी पृथ्वीके आगे चलकर नभस्कटिक का कोट था जोकि शुद्ध स्कटिक रत्नोंका बना हुआ था ॥ ८६ ॥ पहिलेके समान इसमें भी पद्मराग मयोंके बने हुये चार बड़े दरवाजे थे तथा मंगलद्रव्य और निधियां रखी हुई थीं ॥ ८७ ॥ पंजा, मंगल, चमर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठ, भृंगार और कलश ये मंगलद्रव्य प्रत्येक दरवाजे पर थे ॥ ८८ ॥ समान कोटोंके प्रत्येक दरवाजेपर हाथमें गदा आदि शस्त्र लिए हुए देव बैठे हुए थे । पहिले कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव थे ॥ ८९ ॥ उस नभस्कटिक कोटसे लेकर भगवानकी पहिली पीठिका तक लगी हुई सोलह दीवालें थी जो आकाशके समान स्कटिककी बनी हुई थीं और बहुत ही निर्मल थीं ॥ ९० ॥ उन दीवालोंने ऊपर आकाश और बड़ी भारी शोभासे सुशोभित था ॥ ९१ ॥ उस श्रीमंडप था जोकि बहुत बड़ा था रत्नोंके खंभोंपर बना हुआ था शोभायमान थी वैदूर्य मणियोंकी बनी हुई थी और तेजोमय पर्वतके समान सुशोभित थी जो बहूत पीठिकापर समान अन्तरसे सोलह जगह सीढियां थी जो कि सभके कोठोंमें प्रवेश करनेकेलिए सब महा दिशाओंमें बनी हुई थीं और बहुत ही चौड़ी थीं ॥ ९३ ॥ अष्ट मंगलद्रव्य और यक्षोंके मस्तकोंपर रखे हुए तथा एक हजार आठोंके बने हुए धर्मचक्र उस पहिलीपीठिकाकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ९४ ॥ उस पीठिकाके ऊपर दूसरा पीठ था जो सुवर्णका बना हुआ था और उसकी आठोंदिशाओंको ओर आठ प्रकारकी महा ध्वजायें फहरा रहीं थीं ॥ ९५ ॥ उन आठों प्रकारकी ध्वजाओंपर सिद्धोंके आठों गुणोंके समान अनुक्रमसे चक्र, हाथी, वृषभ, कमल, बख, सिंह, गरुड़ और मालाओंके चिन्ह शोभायमान थे ॥ ९६ ॥ उस दूसरे पीठके ऊपर तीसरा पीठ था जो कि दैदीप्यमान रत्नोंकी कांति अन्धकारका नाशकर रहा था निर्मल था सब रत्नोंका बना हुआ था और बहुत ही सुन्दर था ॥ ९७ ॥ इस तीसरे पीठकी तीन कटनियों थीं यह पीठ बहुमूल्य मणियोंसे बना हुआ था, सुमेरु पर्वतके शिखरके समान ऊंचा था और निकलती हुई

पारह गुनी होती है और चौड़ाई इनके अनुसार समझ लेनी चाहिये इसीप्रकार वन भवन और पर्वतोंकी भी

उंचाई आगमकी जाननेवाले मुनिराजोंने इतनी ही (शरीरकी ऊंचाईसे बारह गुनी) बतलाई है ॥७०-७२॥

पर्वतोंकी चौड़ाई उंचाईसे आठगुनी है और स्तूपोंकी चौड़ाई उंचाईसे कुछ अधिक समझनी चाहिये

॥ ७३ ॥ वेदी आदिकी चौड़ाई उंचाईसे चौथाई है यह सब लंबाई चौड़ाई बारह अंगोंको जाननेवाले

गणधरदेवोंने बतलाई है ॥ ७४ ॥ इन वनोंमें कहीं नदियां थी कहीं बावड़ियां थीं कहीं बालूके ढेर थे और

कहीं सभाभवन बने हुए थे ॥ ७५ ॥ इन वनोंके बाढ़ वनकी वेदी थी जो कि पहिली वेदीके समान थी

सुवर्णकी बनी हुई थी और बड़ों दरवाजोंसे सुशोभित थी ॥७६॥ इस वनकी वेदीके आगे वनके चारों ओर

अनेक भवनोंकी पंक्तियां थीं जोकि देव शिल्पकारोंकी बनाई हुई थीं ॥ ७७ ॥ ये सब भवन ऊंचे थे सुवर्ण

के लंबे इनमें लगे हुए थे इनका वंधन बज्रका बना हुआ था चंद्रकांतकी दोबालें थीं और अनेक रत्नोंसे

जड़ी हुई थीं ॥ ७८ ॥ वे भवन कोई द्विमंजिले थे कोई तिमंजिले थे और कोई चार मंजिलके थे । किन्हीं

में चंद्रशालाचें बनी हुई थीं और किन्हींमें टेढ़े लंबे लगे हुए थे ॥ ७९ ॥ उनमें कहीं कूटागार कहीं पर

सभाभवन और कहींपर प्रदर्शन भवन थे । किन्हींमें शय्या और ऊंचे आसन पड़े हुए थे, और मनोहर

सोढियां लगी हुई थीं ॥ ८० ॥ उन भवनोंमें देव गंधर्व, देवांगनाचें और विद्याधर संगीत नृत्य वाद्य और

कथाओंसे भगवानकी आराधना करते थे ॥ ८१ ॥ इन्हींके वरावर मार्गोंमें नौ नौ स्तूप थे जोकि पद्मराग

मणियोंके बने हुये थे बहुत ऊंचे थे उनपर क्वज फिर रहे थे और बहुत सुन्दर बने हुये थे ॥ ८२ ॥ उन

स्तूपोपर सिद्ध भगवान और अरहंतदेवकी प्रतिमायें विराजमान थीं वे तेजकी राशिके समान थे और मंग-

लद्वयोंसे परिपूर्णा थे उन स्तूपोंमें परस्पर एक दूसरेके साथ रत्नोंके तोरणोंकी मालाचें लगी हुई थीं जोकि

इन्द्र धनुषके समान शोभायमान थीं और आकाशरूपी आंगनको अनेक रंगका बना रही थीं ॥ ८४ ॥ वहीं

पर देव और मनुष्य भगवानकी प्रतिमाओंका अभिषेककर पूजाकर स्तुति करते थे और उनकी प्रदक्षिणा

ये मानो नन्दन आदि वनोंकी पंक्तियाँ ही भगवानके दर्शन करनेके लिए आईं हैं ॥ ३६ ॥ उनमेंसे एक एक अशोक वृक्षोंका वन था, दूसरा ससपण्ड वृक्षोंका था, तीसरा चंपके वृक्षोंका और चौथा आमके वृक्षोंका वन था । वे सब वन संतुष्ट होकर फूलें हुए फूलोंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ४० ॥ वे सब बढ़े मनोहर थे, ऊंचे थे, उनकी अच्छी छाया थी, सबपर फल लग रहे थे, सब ऋतुओंके फूलोंसे फूल रहे थे और उनपर बैठे हुए पुरुषकोकिल मधुर शब्द कर रहे थे ॥ ४१ ॥ उन वनोंमें कहीं तो तिकौन चौकोर बावड़ियां थीं, कहींपर छोटे तलाब थे, कहींपर भवन थे, कहींपर कृतिम पर्वत थे, कहींपर मनोहर चित्रशालाएं थीं कहीं पर तलाब थे, कहींपर नीचे बालूबाली नदियां थीं, कहींपरकोड़मंडप थे, कहींपर एक मंजिल दो मंजिल के मकानोंकी पंक्तियां बनी हुई थीं और कहींपर इन्द्रगोपोंसे भरी हुई हरी घास की भूमि शोभायमान थी ॥ ४२ — ४४ ॥ अशोकवनमें अशोक नामका एक महाचैत्यवृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुई तीन कटनीकी पीठपर विराजमान था और उसपर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ ४५ ॥ इसप्रकार ससपण्डमें ससवर्णका महा चैत्यवृक्ष था, चम्पकवनमें चम्पाका महावृक्ष था और आड्रवनमें आमका महावृक्ष था, ये सब तीन कटनीदार पीठपर खड़े थे और सबपर जिनप्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ ४६ ॥ उन्हीं वनों में एक एक दिशा में मालाएं, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, वोणा, सिंह, वृषभ, हाथी और चकोरके चिन्ह वाली ध्वजाएं थीं, ॥ ४७ - ४८ ॥ वायुसे हिलते हुए उन ध्वजाओंके वस्त्र ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो हाथ उठाकर भगवानकी पूजा करनेके लिए देव विद्याधरोंको ही बुला रहे हों ॥ ४९ ॥ मालाओंकी ध्वजाओंमें मनोहर दिव्य मालाएं लटक रही थीं और बाकीकी ध्वजाओंमें वस्त्र आदि शोभायमान हो रहे थे ॥ ५० ॥ भगवान शंतिनाथके मोहरूपी शत्रुओंके जीतनेसे प्रत्येक दिशामें सब मिलाकर एक एक हजार अस्सी अस्सी महाध्वजाएं फहरा रही थीं ५१ ॥ वे सब ध्वजाएं चारों दिशाओंकी मिलाकर चार हजार तीन सौ बीस थीं ॥ ५२ ॥ वहाँसे कुछ आगे चलकर दूसरा रूपका वना कोट था जो कि बहुत बड़ा था और बहुतसुन्दर था ॥ ५३ ॥ पहिलेके समान चांदीके बने हुये इसके भी चार दरवाजे थे तथा निधियां और मंगल द्रव्य

सब पहिलेके समान रखी हुई थीं ॥ ५४ ॥ पहिलेके समान मार्गके दोनों ओर दो दो सुन्दर नाट्यशालाएँ थीं और दो दो ही धूपघट रखे हुए थे ॥ ५५ ॥ मार्गोंके इपर उपर दो भागोंके बीचमें कल्पवृक्षोंके वन थे जो कि अपनी कान्तिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे और बड़े ही मनोहर थे ॥ ५६ ॥ उन वनोंमें मालांग वस्त्रांग भूषणांग ज्योतिरांग और दीपरांग आदि जातिके कल्पवृक्ष थे जोकि ऊँचे थे, छायावाले थे और फलोंसे शोभायमान थे ॥ ५७ ॥ वृक्षोंके फल आभरण थे, पत्ते वस्त्र थे और मालाएँ शाहवानोंपर लटक रही थीं इस प्रकार वे वृक्ष सब पदार्थमय थे ॥ ५८ ॥ उन वनोंके भीतर सिद्धार्थ वृक्ष थे जिनपर श्रीसिद्ध भगवानकी प्रतिमाएँ विरासब रचना चैत्यवृक्षके स्थान समझनी चाहिये अन्तर केवल इतना ही है कि ये कल्पवृक्ष हैं और अपने मनके संकल्पके अनुसार पदार्थोंको देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ अशोक सतपर्ण चंपक और आप्र ये चार चैत्यवृक्ष हैं ये चैत्यवृक्ष सबके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं चार चार महा दरवाजोंसे सोभायमान तीन तीन कोटोंसे घिरे हुए हैं, घंटा, चमर, भुङ्गार, कलश आदि मंगल द्रव्योंसे शोभायमान हैं, माणिक्यके पत्र वने हुए हैं इनके मस्तकपर तीन झन्न फिर रहे हैं, सुवर्णकी महा शालाएँ हैं, पद्ममराग मणियोंके पुष्प हैं, इनके नीचेके भागमें चारों दिशाओंमें भगवान जिनैन्द्रदेवकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं जिनकी इन्द्र नरेन्द्र विद्याधर सब पूजा करते हैं सब स्तुति करते और सब नमस्कार करते हैं ॥ ६१-६४ ॥ वनोंके चारों ओर वन बेटी थीं जो चार बड़े दरवाजोंसे शोभायमान थी और सुवर्ण तथा रत्नोंकी बनी हुई थीं ॥ ६५ ॥ इनके दरवाजोंपर घंटाओंके समूह लटक रहे थे और मोतियोंकी मालाएँ शोभायमान हो रही थीं ॥ ६६ ॥ इन वेदियोंके दरवाजे चांदीके बने हुए थे, और अष्ट मंगलद्रव्य, संगीत, वाद्य, नृत्य, रत्नोंके आभूषण तथा तोरणोंसे शोभायमान थे ॥ ६७ ॥ उन वेदियोंके आगे दो दो मार्गोंके बीचमें सुवर्णके खंभोंपर फहराती हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्ति था शोभायमान थीं वे ध्वजाओंके स्तंभ मण्डिओंके पीठोंपर विराजमान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों भगवानके मोहरूपी शत्रुकी विजयको कहनेकी तैयारीके लिए ही अच्छी तरह खड़े हों ॥ ६८-६९ ॥ सिद्धा-

हो १०८ पदत्रयविभूषित (तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेव तीनों पदोंसे विभूषित) है ॥ ४१ ॥
हे नाथ ! इस स्तुतिके फलसे परलोकमें तो हमें आपकी सब विभूति प्राप्त हो और इस लोकमें बहुत शीघ्र रत्नत्रयकी प्राप्ति हो ॥ ४२ ॥ हे देव ! गणधरदेव आपके चरण कमलोंको नमस्कार करते हैं, आप ज्ञानरूपी समुद्रके पारंगत है, आप तीनों लोकोंमें पूज्य हैं, आप सर्वदर्शी हैं, जिन है, सुखरूपी समुद्रके मध्यमें विराजमान है, अनन्त वीर्यको धारण करनेवाले हैं और आप ही तीनों लोकोंको पार कर देनेके लिये एक अद्वितीयचतुर हैं इसलिये हे देव ! आप इस संसारसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ इस प्रकार इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे भगवानके सामने खड़े होकर उनकी स्तुति की । मस्तक नवाकर बार बार नमस्कार किया और फिर अपने २ योग्य स्थानमें जा विराजमान हुए ॥ ४४ ॥ समवशरणमें चारों दिशाओं में चार मार्ग थे, उनको छोड़कर बाकीके जो चार फौन वा टुकड़े थे उनमें प्रत्येक टुकड़े में तीन तीनोंके हिसाब से सब मिलाकर बारह कांठे थे ॥ ४५ ॥ उनमें पूर्व दिशाके पहिले कांठमें मुनिराज थे, दूसरेमें कल्पवासिनी देवियां थीं, तीसरेमें अर्जिका और श्राविकाएं थीं, चौथेमें ज्योतिषी देवोंकी देवांगनाएं थीं, पांचवेंमें व्यंतरी देवियां थी, छठेमें भवनवासिनी देवियां थीं, सातवेंमें भवनवासी देव थे, आठवेंमें व्यन्तर देव थे, नौवेंमें ज्योतिषी देव थे, दशवेंमें कल्पवासी देव थे, ग्यारहवेंमें मनुष्य थे और बारहवेंमें पशुगण थे । इसप्रकार अनुक्रमसे ये जीव बैठे हुए थे ॥ ४६-४७ ॥ इसप्रकार बारह प्रकारका संघ सत्र अपने २ कोठोंमें बैठा हुआ था, सब भगवानका भक्त था, धर्मात्मा था और श्रीजिनेन्द्र देवकी दिव्यधनिको सुननेकी इच्छा रखता था ॥ ४८ ॥ यह बारह प्रकारका संघ तत्त्वोंके सुननेकी इच्छा रखता है यही जानकर बुद्धिमान चक्रायुध गणधरदेव उठे, हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े हुए और तत्त्वोंके पूछनेके वहानेसे ही मनोहर वाणीसे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ४९-५० ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं, गुप्त्योंके भी महागुरु हैं, आप दुःखसे डरे हुए लोगोंके संरक्षक हैं और आप ही सज्जनोंके लिए धर्मोपदेशक हैं ॥ ५१ ॥ हे स्वामिन् ! ज्ञानावरण कर्मके नष्ट होनेसे लोक अलोकमें फली हुई और समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित

करनेवाली आपकी ज्ञानरूपी ज्योति आज बहुत ही अच्छी शोभायमान है ॥ ५२ ॥ हे जगत गुरु !
 आपका केवल दर्शन लोक अलोक दोनों आकाशोंमें व्याप्त होकर अनंत पदार्थोंको हाथ रेखाके समान
 प्रकाशित करता है ॥ ५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे प्रकट हुआ तथा ब्रह्म आदिसे रहित
 आपका अनन्त महावीर्य समस्त लोकको उद्यमनकर विराजमान है ॥ ५३ ॥ हे नाथ ! आपका अनन्त सुख
 भी बड़ा ही विचित्र है, वह आत्मासे उत्पन्न हुआ है, अन्तरहित है, उपमारहित है, अव्यानाथ (सब तरह
 की बाधाओंसे रहित) है, अतीन्द्रिय है और अत्यन्त निर्मल है ॥ ५५ ॥ हे देव ! आपके अनुग्रहसे भव्य
 जीव आपका धर्मोपदेश सुनकर तपश्चरणोंके द्वारा कर्मोंको नष्टकर शाश्वत मोक्षपदमें विराजमान होते हैं
 ॥ ५६ ॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार जहाजके बिना समुद्रसे पार नहीं हो सकते उसीप्रकार हे यतीश ! आपके
 बिना इस संसाररूपी कूपसे मनुष्योंको कोई नहीं निकाल सकता ॥ ५७ ॥ हे नाथ इन भव्यरूपी खेतोंके
 मुंह षारूपी सूर्यकी गर्मीसे सुरक्षा गए हैं इनसे बहुतसे फल प्राप्त करनेके लिए धर्मोपदेशरूपी अमृतसे
 इनका सिंचन कीजिए ॥ ५८ ॥ हे देव जिसप्रकार ग्यासे दुखी चातक सेघसे जल चाहते हैं उसीप्रकार ये
 भव्यजीव नोन प्राप्त करनेके लिए आपसे दिव्यध्वनिरूपी अमृतको चाह रहे हैं ॥ ५९ ॥ हेस्वामिन् जवतक
 आपका ज्ञानरूपी सूर्य उदय नहीं होता तवतक ही मनुष्योंके हृदयमें प्रशस्त मोक्ष मार्गको रोकनेवाला
 अज्ञान रूपी अन्धेरा बना रहता है ॥ ६० ॥ हे विभो आप बिना ही कारण के जगतबन्धु हैं । आप लोकके
 एक अद्वितीय पितामह हैं और आप ही संसारमात्रको संतुष्ट करनेवाले असमयमें होनेवाले मेघ हैं ॥ ६१ ॥
 हे तीर्थेश यद्यपि जगतको आश्चर्य करनेवालो विभूति आपके विराजमान है तथापि आप अपने शरीरसे भी
 अत्यन्त निस्पृह हैं । हे देव यह बात बड़ी ही आश्चर्य प्रकट करने वाली और लड़ी ही अद्भुत है ॥ ६२ ॥
 यद्यपि आप बाहरसे उपमारहित भोगोपभोगसे सुशोभित हैं तथापि अन्तर्ग में वीतराग ही हैं यह बात
 सबसे अधिक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है ॥ ६३ ॥ हे देव आप ही सजनोंका अनुग्रह करनेमें चतुर हैं
 इसलिये जगन्नाथ मोक्ष सिद्ध करनेके लिए इन भव्यजीवों पर अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा अनुग्रह कीजिए

॥ ६६ ॥ हे प्रभो जन्म मृत्यु जरा आदिकी जलनको हूर करनेके लिए आपके वचनरूपी श्रेष्ठ अमृतको पीने के लिए हम सब सज्जनोंकी बड़ी हो इच्छा हो रही है ॥ ६५ ॥ इसलिये हे तीर्थराज आप कृपाकर समस्त तत्वोंको और मोक्षके मार्गको निरूपण कीजिए क्योंकि आप करुणा सागर हैं ॥ ६६ ॥ इसप्रकार स्तुति और प्रश्न कर तथा नमस्कारकर चक्रायुध गणधरदेव भगवानके वचनरूपी अमृतको इच्छा करते हुए भक्तिपूर्वक अपने कोठोंमें जा विराजमान हुए अधान्तर-गणधर देवके इसप्रकार प्रश्न करनेपर भगवान शांतिनाथ अपनी अत्यन्त गंभीर वाणीसे तत्वोंको सिद्ध करनेके लिए विस्तारपूर्वक धर्मका स्वरूप कहने लगे ॥ ६८ ॥ भगवान शांतिनाथकी दिव्य ध्वनि निकलते समय न तो उनके मुखकमलमें कोई किसी प्रकारका विकार हुआ था और न तालु ओठ आदिका किंचित् भी हलन चलन हुआ था ॥ ६९ ॥ जिसप्रकार किसी पर्वतकी गुफासे देदीप्यमान प्रतिध्वनि प्रगट होती है उसी प्रकार वर्षोंको स्पष्ट प्रकट करने वाली वह अद्भूत दिव्य ध्वनि भगवान के मुखसे निकलने लगी ॥ ७० ॥ हे गणधर तुम अपने संघके साथ आगे कहे हुए जीवादि तत्वोंको उनके भेद और पर्यायोंके साथ अनुक्रमसे सुना ॥ ७१ ॥ जिनागसमें जीव, अजीव, आखव,बंध; संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व बतलाये गये हैं ॥ ७२ ॥ इनमेंसे जीव दो प्रकारका है एक मुक्त और दूसरा संसारी । मुक्त जीवोंमें कोई भेद नहीं होता । संसारी जीव दो प्रकारके हैं एक त्रस और दूसरे स्थावर ॥ ७३ ॥ जो आठों कर्मोंसे रहित हैं, आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, जगत्बंध हैं, सुखसागरमें विराजमान हैं और लोकके ऊपर निवास करते हैं वे सिद्ध वा मुक्त कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ पृथ्वी कायिक सात लाख, जलकायिक सात लाख अग्निकायिक सात लाख, वायुकायिक सात लाख, नित्यनिगोद सात लाख, इतर निगोद सात लाख, बनस्पति दश लाख, दो इन्द्रिय दो लाख, तेइन्द्रिय दो लाख, चतुइन्द्रिय दो लाख, नारकी चार लाख, तिर्यच चार लाख, देव चार लाख और मनुष्य चौदह लाख, ये चौरासी लाख जीवोंकी जातियां हैं । तथा आयु शरीर आदिके भेदसे भगवानने इनके बहुतसे भेद बतलाये हैं ॥ इसीप्रकार सब जीवोंके कुलोंकी संख्या एकसौ साठे नित्यानवे करोड़ बतलाई है । पांच इन्द्रियां, मन, वचन, शरीर, आयु और श्वासच्छ्वास ये दश प्राण

संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके होते हैं। इसीप्रकार मनके बिना असंज्ञी पंचेन्द्रियके: नौ, मन और कर्ण इन्द्रियके बिना चौइन्द्रियके आठ, मन कर्ण और चक्षुइन्द्रियके बिना तेइन्द्रियके सात मन कर्ण चक्षु और नासिकाके बिना दो इन्द्रिय जीवोंके छह और मन कर्ण, चक्षु, नासिका, रसना वचन बलके बिना एकेंद्रियके, वाकीके चार प्राण होते हैं। ये प्राण ही जीवोंके जीवनके कारण है ॥ ७६ ८० ॥ आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन ये छह पर्याप्त कहलाती हैं। मुनिराजोंने संगी [सैनी] पंचेंद्रियके ये छहों पर्याप्तियां बतलाई हैं ॥ ८१ ॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रियके मनके बिना पांच पर्याप्त बतलाई हैं और एकेंद्रिय जीवोंके भाषा और मनके बिना चार पर्याप्त श्रीजिनेन्द्रदेवने, कही है ॥ ८२ ॥ मिथ्यात्व, सासादन मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण, अनिष्टित्तिकरण, सूक्ष्मसांप्रदाय, उपशांतकषाय, क्षीण कषाय, सयोगि केवली, अयोगि केवली, ये चौदह गुणस्थान भगवान् जिनेन्द्रदेवने बतलाये हैं ॥ ८३-८५ ॥ ये चौदह गुणस्थान मोक्षकी सीढियां हैं और गुणोंकी स्थितिके भेदसे भव्यजीवोंके गुणोंको बढ़ानेवाले हैं ॥ ८६ ॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य सम्यक्त्व, संज्ञी आहार ये चौदह मार्गणाणं कहलाती हैं। इनके द्वारा जीवोंके जानकार विद्वान् जीवोंको पहिचाना करते हैं ॥ ८७-८८ ॥ सेनी पंचेंद्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रियवाद्दर ये सात पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे चौदह जीव समास वा जीवोंके चौदह भेद कहलाते हैं। ये चौदह भेद जीवोंकी जातियोंसे [एकेंद्रिय आदि जातियोंसे उत्पन्न होते हैं ॥ ८३-९० ॥ जो संसारमें पहिले भी जीवित था, अब भी जीवित है और आगे भी सदा जीवित रहेगा उसको जीव कहते हैं वह नित्य है और अनित्य भी है ॥ ९१ ॥ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुश्रवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान, चक्षुज्ञान, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, ये सब समस्य संसारी जीवोंके रहनेवाले वैभाविक गुण हैं तथा केवलज्ञान, और केवलदर्शन ये दो स्वाभाविक गुण हैं ॥ ९२-॥ व्यवहारनयसे यह जीव कर्मोंका कर्ता है और अनेक प्रकारके सुख दुखरूप उनके फलोंको भोक्ता है। निश्चय नयसे न वह

कर समर्पण की ॥ २४ ॥ इसप्रकार उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा की, बार बार उन्हें नमस्कार किया और फिर अपने हृदयको भगवानके गुणोंमें लगाकर अपने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तकपर रखे ॥ २५ ॥ तदनन्तर उन इंद्रोंने भक्तिके भारसे ही क्या मानो अपना मस्तक भुकाया और एकसौ आठ साथेक नामोंसे वे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ हे देव ! आप जगतके नाथ हैं, आप संसारसे प्रणि-
 थोकी रक्षा करनेवाले हैं और आप ही एक हजार आठ नामोंसे प्रसिद्ध हैं ॥ २७ ॥ हे स्वामिन् ! हम लोग आपके सब नामोंकी स्तुति कर सकें ऐसी शक्ति अभी हममें नहीं है क्योंकि अभी तो हमारे घातिया वम
 विद्यमान हैं [बिना उनके नाश किए वह शक्ति आ ही नहीं सकती] ॥ २८ ॥ इसलिये हे जिन ! हम लोग कुछ थोड़ेसे ही श्रेष्ठ नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं जिससे हमारा मन और हमारे वचन दोनों ही घबित्र
 हा जाय ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! आप १ सर्वज्ञ हैं, २ सर्ववित् [सबको जाननेवाले] हैं, ३ सर्व [सबका भला करनेवाले] है ४ सर्वदर्शी [सबको देखनेवाले] हैं, ५ निरंजन [पापरहित] हैं, ६ कर्माक्ष [कर्मोंको नाश करनेवाले] है, ७ सारजित् [कामदेवको नष्ट करनेवाले] हैं, ८ स्वामी हैं, ९ केवली हैं, और
 १० विश्वदर्शन हैं ॥ ३० ॥ आप जिनन्द्र हैं १२ जितकर्मा हैं, १३ सुनीन्द्र हैं, १४ विगत्स्वह (इच्छारहित) हैं, १५ निर्मोह (मोहरहित) हैं, १६ निर्मद (भेदरहित) हैं, १७ वाग्मी (वक्ता) हैं, १८ निर्मम (ममत्त्वरहित) हैं, और १९ विजितेन्द्रिय (इन्द्रियोंको जीतनेवाले) हैं ॥ ३१ ॥ आप २० तीर्थना-
 थ हैं, २१ ऋषीकेश हैं, २२ धर्मचक्र हैं, २३ विदांबर (जानकारोंमें सर्वश्रेष्ठ) हैं, २४ धर्मकर्ता हैं, २५ सुनियोंके स्वामी हैं, २६ अनन्त हैं और २७ विश्वबंधु हैं ॥ ३२ ॥ आप २८ निर्मल हैं, २९ निष्कल (शरीर रहित) हैं ३० धीर हैं ३१ जगन्नाथ हैं ३२ जगतगुरु ३३ विश्वव्यापी (केवलज्ञानद्वारा समस्त संसारमें व्याप्त) हैं ३४ दयामूर्ति हैं ३५ घातियाती (घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले) हैं और ३६ गुणाकर [गुणोंकी खानि] हैं ॥ ३३ ॥ आप ३७ विश्वेश [संसारके स्वामी] हैं ३८ जगदाराध्य [समस्त संसारके द्वारा आराधन करने योग्य] हैं ३९ संघार्च्य (समस्त संघके द्वारा पूज्य) हैं ४० धर्मवत्सल हैं ४१ ध्यानी हैं ४२

मौनी हैं ४३ व्रती हैं ४४ दक्ष हैं ४५ संशमी (अत्यन्त शांत) हैं ४६ यमजित् [यमको जीतनेवाले] हैं
 और ४७ विजयी हैं ॥ ३४ ॥ आप निरौपम्य [उपमारहित] हैं ४६ निराबाध [सब तरहके दुखोंसे रहित]
 हैं ५० सकल [पूर्ण ज्ञानी वा सकलकेवली-शरीरसहित केवली] हैं ५१ प्रभु हैं ५२ अच्युत हैं ५३ आनन्द-
 स्वरूप हैं ५४ विश्वविद्येश [समस्त विद्याओंके स्वामी] हैं ५५ निष्प्रमाद (प्रमादरहित हैं) और ५६
 निरामय (कामादि रोगोंसे रहित) हैं ॥ ३५ ॥ आप ५७ शुद्ध हैं ५८ बुद्ध हैं ५९ वितर्क्यासा [जिनकी
 आत्ममें अनेक चित्तके किष् जांय अनेक गुणवाले] हैं ६० विराग हैं ६१ जिननायक हैं ६२ जगतबंधु हैं
 ६३ जिनाधीश हैं ६४ कृती हैं ६५ धर्मी हैं और ६६ सुदिव्यवाक् [दिव्यध्वनिको धारण करनेवाले] हैं
 ॥ ३६ ॥ आप ६७ वागीश्वर [वाणीके ईश्वर] हैं ६८ जगतभर्ता हैं ६९ ॥ आराध्य [आराधन करने योग्य]
 हैं ७० संयमी हैं ७१ यमी हैं ७२ देवाधिदेव हैं ७३ महादेव हैं ७४ शंकर [कल्याण करनेवाले] हैं और
 ७५ सुखतन्मत [सुखरूप] हैं ॥ ३७ ॥ आप ७६ परमेष्ठी हैं ७७ नभोगामी [आकाशमें चलनेवाले] हैं
 ७८ कल्याण हैं ७९ अधिपति हैं ८० यति हैं ८१ देवर्षि हैं ८२ श्रीजिन हैं ८३ तुंग [सर्वोत्तम] हैं ८४
 मुक्तिभर्ता हैं और ८५ बुधोत्तम [सर्वोत्तम विद्वान्] हैं ॥ ३८ ॥ आप ८६ यतोश [यतियोंके स्वामी] हैं
 ८७ जिनशार्दूल [जिनसिंह वा जिनराज] हैं ८८ तत्त्ववित् [तत्वोंके जानकार] हैं ८९ तत्त्वदेशक [तत्वों-
 का उपदेश देनेवाले] हैं ९० अरजा [ज्ञानावरणादि कर्मरहित] हैं ९१ जितमात्सर्य (ईर्ष्यारहित) हैं ९२
 सुतपा [श्रेष्ठ तपश्चरण करनेवाले] हैं और ९३ ऋषिनायक हैं ॥ ३ ॥ आप ९४ महातेजा [अत्यन्त तेज-
 श्च] हैं ९५ विचारज्ञ हैं ९६ विवेकी हैं ९७ ज्ञानपारग [ज्ञानके पारगामी] हैं ९८ मोहारजित् [मोहरूपी
 शत्रु को जीतनेवाले] हैं ९९ जगतज्येष्ठ (संसारमें सबसे बड़े) हैं १०० मुनीश हैं और १०१ जितदुष्कृत
 [पापोंको जीतनेवाले] हैं ॥ ४० ॥ आप १०२ विश्वज्ञ (समस्त संसारको जाननेवाले) हैं १०३ त्रिजगत
 स्वामी (तीनों लोकोंके स्वामी) हैं १०४ कामदेव हैं १०५ सुकामद (इच्छापूरी करनेवाले-इच्छानुसार
 देनेवाले) हैं १०६ त्रिकालवित् हैं १०७ विलोकेश (तीनों लोकोंके स्वामी)

कर्मोंका कर्ता है और न उनके फलोका भोक्ता है ॥ ६४ ॥ व्यवहार नयसे यह जीव मूर्त है और सदा संसारमें परित्रमण किया करता है परन्तु निश्चय नयसे यह जीव अमूर्त है और न संसारमें परित्रमण करता है । निश्चयनयसे यह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ॥ ६५ ॥ इस जीवके प्रदेशोंमें दीपकके प्रकाशके समान संकुचित होने और विस्तृत होनेकी शक्ति है इसलिए वह सातों समुद्र-घातोंके बिना सदा कर्मानुसार प्राप्त हुए छोटे बड़े शरीरके प्रमाणके ही समान रहता है ॥ ६६ ॥ विद्वान लोगोंने पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद और व्ययस्वरूप भी बतलाया है परन्तु निश्चयनयसे यह सदा असंख्यात प्रदेशी है ॥ ६७ ॥ कर्मोंके नष्ट होजानेपर यह जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेके कारण उपरको ही जाता है परन्तु कर्मसहित होनेपर पराधीन होकर चारों गतियोंमें परित्रमण करनेकेलिये सब दिशाओंमें गमन करता है ॥ ६८ ॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले जीवोंको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए रागद्वेष आदि सब विकारोंको नष्ट कर यह जीव द्रव्य ही उपादेय ग्रहण करने योग्य होता है । अन्य संसारी जीव संसारमें परित्रमण करनेवाले जीवोंको उपादेय नहीं समझते ॥ ६९ ॥ इसलिए ज्ञानी पुरुषोंको अपने ज्ञानके द्वारा तथा तप-श्चरण और तबत्रयरूपी शास्त्रोंके द्वारा कर्मोंको नष्टकर शीघ्र ही अपने आत्माको इस शरीरसे अलग करनेना चाहिए ॥ ७० ॥ इसप्रकार जीव तत्वके व्याख्यानसे समस्त सभासदोंको आनन्द उत्पन्न करा कर वे भगवान फिर अजीव तत्वोंका व्याख्यान करने लगे ॥ ७१ ॥ बुद्धिमानोंने अह्न पूर्वोंमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल यह पांच प्रकारका अजीव तत्व बतलाया है ॥ २ ॥ जिसप्रकार मछलियोंके चलनेमें पानी सहायक होता है उसीप्रकार जो जीव और पुद्गलोंके चलनेमें सहायक होता है उसे धम द्रव्य कहते हैं यह धर्म द्रव्य नित्य है, अमूर्त है और गुणों है ॥ ३ ॥ जिसप्रकार पथिकोंको ठहरनेमें छाया सहायक होती है उसीप्रकार जो जीव पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायक है वह अधर्म द्रव्य है । वह अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है नित्य है और गुणी है ॥ ४ ॥ जो जीवादि द्रव्योंको जगह दे वह आकाश है लोक अलोकके भेदसे उसके दो भेद हैं वह अमूर्त है नित्य है और महान् वा व्यापक है ॥ ५ ॥ जीव पुद्गल धर्म अधर्म

और काल ये पांच द्रव्य जितने आकाशमें विद्यमान हैं उसको लोकाकाश कहते हैं और उससे आगे चारों ओर जो अनंत आकाश पड़ा हुआ है उसको अलोकाकाश कहते हैं ॥ ६ ॥ जो द्रव्योंको नवीनसे पुरानेरूप में परिवर्तन होनेका कारण है और जो घड़ी घंटा दिनरूप है उसको व्यवहार काल कहते हैं ॥ ७ ॥ आकाशके एक २ प्रदेशपर कालका एक २ परमाणु रत्नोंकी राशिके समान अलग २ स्थिर है उन सब असंख्यात कालानुओंको निरचयकाल कहते हैं ॥ ८ ॥ धर्म अधर्म एक जीव और लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं पुद्गलके प्रदेश अनेक प्रकार हैं संख्यात असंख्यात अनंत है परन्तु कालका एक ही परमाणु है इसलिये कालको छोड़कर बाकीके द्रव्य काय कहलाते हैं । उन्हीं पांचोंको पंचास्तिकाय कहते हैं ॥ ९-१० ॥ जो स्पर्श रस गंध वर्णा सहित है और इसलिये जो मूर्त है उसको पुद्गल कहते हैं । यह पुद्गल ही सदा जीवोंको सुख दुःख देता रहता है ॥ ११ ॥ इस पुद्गलके छह भेद हैं । सूक्ष्म सूक्ष्म जैसे एक परमाणु, २ सूक्ष्म जैसे कर्मोंका समूह, ३ सूक्ष्मस्थूल जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णा, ४ स्थूल सूक्ष्म जैसे छाया, चांदनी, धूप, आदि, ५ स्थूल जैसे जल ६ स्थूल स्थूल जैसे पृथ्वी, पर्वत, आदि ॥ १२ ॥ इसप्रकार भगवान पांचों अजीव तत्वोंका अलग २ निरूपणकर फिर बुद्धिमानोंके लिए वाकीके तत्वोंका निरूपण करने लगे थे ॥ १४ ॥ आत्माके जिन भावोंसे कर्म आते हैं उनको भावास्त्रव कहते हैं और कर्मोंके आनेको द्रव्यास्त्रव कहते हैं ॥ १५ ॥ पांच मिथ्यात्व पांच अत्रत, पन्द्रह तामाद, पच्चीस कषाय, पंद्रह योग ये सब भावास्त्रवके भेद हैं भगवान जिनेंन्द्रदेवने ये सब त्याज्य बतलाये हैं ॥ १६-१७ ॥ सबसे पहिले शुभ धर्मध्यानसे पापकर्मोंके आस्त्रव का त्याग करना चाहिये और फिर मुनियोंको शुक्लध्यानके द्वारा शुभ कर्मोंके आस्त्रवका भी त्याग करना चाहिये ॥ १८ ॥ जीवोंके जिन रागादिक परिणामोंसे प्रति समय कर्म बन्धते रहते हैं उसे भगवानने भावबंध बतलाया है जो जीवके प्रदेश और कर्म परमाणुओंका परस्पर सम्बन्ध होता रहता है उसको द्रव्यबंध कहते हैं यह द्रव्यबन्ध शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके दुख देनेवाला बतलाया है ॥ २० ॥ वह बन्ध चार प्रकारका है प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध इनमेंसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध मन वचन

कायकी किरारूप योगोंसे होता है और स्थितिवन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायोंसे होता है ॥ २१ ॥ यद्यपि पाप कर्मोंकी अपेक्षा पुण्यबन्ध ग्रहण करने योग्य है क्योंकि वह सुख देनेवाला है परन्तु वह सुख वास्तविक सुख नहीं है इसलिये ज्ञानियोंको बल भी त्याग करने योग्य ही है ॥ २२ ॥ जो आत्माका परिणाम कर्मोंके आस्रवको रोकनेवाला है उसको भाव सम्बर कहते हैं और जो कर्मोंका रुक जाना नहीं आना है उसको द्रव्यसंवर कहते हैं ॥ २३ ॥ पांच महाव्रत, पांच समर्पित, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षायें, बाईस परीपहजय और पांच प्रकारका संयम वा चारित्र ये सब भावसंवरके कारण हैं ॥ २४-२५ ॥ इसलिये मन और इन्द्रियोंको कञ्चके समान अपने ग्रहमें कर मोच कर मोच करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक चारित्र पालन कर संवर धारण करना चाहिये ॥ २७ ॥ निर्जरा दो प्रकारकी है एक सविपाक और दूसरी अविपाक । सविपाक निर्जरा कर्मोंके उदयसे होती है और अविपाक निर्जरा तपश्चरणसे होती है ॥ सविपाक निर्जरा बिना ही प्रयत्नके होती है और सब जीवोंके होती है इसलिये वह त्याज्य है तथा दूसरी अविपाक निर्जरा मुनियोंके होती है मोच देनेवाली है इसलिये वह ग्रहण करने योग्य है ॥ २८ ॥ जो खत्रयके द्वारा व तपश्चरणके द्वारा प्रयत्नपूर्वक जीव पुद्गलका संबन्ध अलग हो जाता है (समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है) उसको मोच कहते हैं वह मोच अनन्त सुख देनेवाली है ॥ २९ ॥ जिसप्रकार पैरसे मस्तक तक बन्धे हुए पुरुषको छोड़ देनेसे अत्यन्त सुख होता है उसीप्रकार कर्मोंके नाश होनेसे सज्जनोंको अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको अनन्त सुख प्राप्त करनेके लिए बड़े प्रयत्नसे कठिन तपश्चरण पालन कर बहुत शीघ्र सदा रहनेवाली मोक्ष सिद्ध कर लेनी चाहिए ॥ ३१ ॥ इसप्रकार भगवान् शांतिनाथने सभासदोंको उनका सम्यग्दर्शन विशुद्ध करनेकेलिये बहुत विस्तार और भेदोंके साथ ऊपर लिखे अनुसार सातों तत्वोंको निरूपण किया ॥ ३२ ॥ इन्हीं सातों तत्वोंमें पुण्य पाप मिलानेसे नौ पदार्थ हो जाते हैं । ये चेतन और अचेतनरूप नौ पदार्थ मनुष्योंको सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि करनेवाले हैं ॥ ३३ ॥ इसके बाद भगवान् शांतिनाथने समस्त जीवोंका उपकार करनेके लिए उस सभामें कुछ पुण्य पापके कारण बतलाए ॥ ३४ ॥ मिथ्यात्व, अब्रत,

अशुभ योग, पापोपदेश, कषाय, प्रसाद, सब प्रकारके कुटिल कर्म, राग, द्वेष, मद, उन्माद, दुःख शोक भय, अशुभ, ध्यान, व्यसन, बहुतसा आरम्भ, सब प्रकारके परिग्रह, पिशुनता (चुगलखोरी) कठोर भाषण, अशुभ चेष्टा, अशुभाचरण, परस्त्रीका संकल्प, अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करनेकी इच्छा, इत्यादि दुराचरणोंसे, तथा और भी ऐसे २ कामोंसे जीवोंके दुःखोंका एकमात्र कारण ऐसा विषम और घोर पाप उत्पन्न होता है ॥ ३५-३८ ॥ तदनन्तर तीनों लोकोंके स्वामी और विना ही कारणके बन्धु ऐसे भगवान् शान्तिनाथने सभान् नीच पशु पक्षियोंमें उत्पन्न होना, अन्धा बहिरा होना अंग उपांगरहित होना रोगी व कुशीली (व्यभिचारी) होना नीच जाति व नीच कुलमें जन्म लेना कुरूपी व सबको बुरा लगनेवाला होना कुमरण होना दरिद्री निध कातर (दीन लाचार) नीच होना कुमाता कुपिता दुष्ट स्त्री शत्रु भाई कुपुत्र नीच कन्याएं कुमित्र दुष्ट सेवक और बुरा मकान आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग होना बुरे परिणाम होना मुंहसे दुर्वचन निकालना भाई बन्धु आदि इष्ट पदार्थोंका वियोग होना चंचलता बनी रहना और बुरा शरीर प्राप्त होना इत्यादि सब दुर्बलके कारण जीवोंको प्राप्त होते हैं वह सब संसारमें पापोंका ही फल समझना चाहिये ॥ ४०-४४ ॥ तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथने इसप्रकार पापका फल कहकर फिर उन्होंने पुण्यके कारणभूत उत्तम आचरणोंका वर्णन किया ॥ ४५ ॥ पहिले जो पापके कारण बतलाए हैं उनके विपरीत कार्य करना व्रतोंका पालन करना उत्तम चर्या आदि दश धर्मोंका पालन करना तपश्चरण नियम यम पालना महापात्रोंको चारप्रकारका दान देना भगवान् जिनैन्द्रदेवकी पूजन करना धर्मोपदेश देना संवेग वैराग्य आदिका चिंतन करना कायोत्सर्ग धारण करना शुभ ध्यान करना, ध्यान अध्ययन आदि कार्य करना पंच परमेष्ठियोंके नामवाले मंत्रोंका जाप करना, भगवान् जिनैन्द्रदेवकी भक्ति करना, पापोंके डरसे सदाचार पालन करना, विनयपूर्वक सुनियोंकी सेवा करना और धर्मात्माओंके साथ वात्सल्य भाव धारण करना इत्यादि कार्योंसे तथा अन्य भी ऐसे ही कार्योंसे इस संसारमें प्राणियोंको तीर्थंकर चक्रवर्ती आदिकी विभूति देनेवाला और सुखकी खानि ऐसा

महापुण्य उत्पन्न होता है ॥ ४६-५० ॥ इसप्रकार हृदयको अच्छे लगनेवाले अमृतके समान मनोहर वाक्योंसे पुण्यके कारण बतलाकर और संसारको आनन्द उत्पन्न कर वे भगवान पुण्यका फल कहने लगे ॥ ५१ ॥ इन्द्र होना, चक्रवर्ती होना, तीर्थंकर हाना, वैराग्य धारण करना, कामदेव बलभद्र होना, धन धान्य आदि विभूतिका प्राप्त होना, हाथी घोड़ा आदि महासैनाकी प्राप्ति होना, अच्छे सेवक, आज्ञाकारी देव सबपर आज्ञा चलना कीर्ति फलना वड़प्पन मिलना भोगोपभोग संपदाओंकी प्राप्ति होना, शरीर नीरोग और सुन्दर मिलना रूपवान होना शुभ भावनाएं होना, ज्ञानी और दीर्घजीवी होना इन्द्रियोंके सब सुखाकी प्राप्ति होना अच्छे कुलमें जन्म लेना, उत्तम स्त्री प्रेम करनेवाले भाई पुत्र आदि मिलना उत्तम माता पिताका होना और इच्छा-नुसार सब सामग्रियोंका मिलना इत्यादि पदार्थ जो सुखके साधन दिखाई पड़ते हैं वे सब सज्जन लोगोंका पुण्यका फल समझना चाहिये ॥ ५२-५६ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? पुण्य पापके विना इस संसारमें न तो कोई सुख दे सकता है और न कोई दुख दे सकता है ॥ ५७ ॥ जो बुद्धिमान अपने हृदयमें ऊपर कहे हुए सब पदार्थोंका श्रद्धान करता है वह मोक्ष महलकी पहिली सिढ़ीके समान सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य ज्ञानस्वरूप और अत्यन्त निर्मल ऐसे अपने शुद्ध आत्माका श्रद्धान करता है उसके उत्ती भवमें मोक्ष प्राप्त करा देनेवाला निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ ५९ ॥ जो विद्वान् इन सातों तत्वोंको यथार्थ रीतिसे जानता है वह मुक्ति स्त्रीके सुखदेखनेके दर्पणके समान महाज्ञान प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ जो आत्माको जाननेवाला बुद्धिमान अपने ज्ञानके द्वारा अपने ही आत्माको जानता है उसके मुक्ति स्त्रीको वश करनेवाला निश्चय ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य जीव अजीव आदि तत्वोंको जानकर सब प्राणियोंमें दया करता है, सब परिश्रमोंका तथा सब प्रमादोंका त्याग करता है और आत्माकी सिद्धिके लिए यत्नाचारपूर्वक जिनमुद्रा धारण करता है वह मुक्तिरूपी स्त्रीके चित्तको प्रसन्न करनेवाला तेरह प्रकारका चारित्र धारण करता है ॥ ६२ ॥-६३ ॥ जो बुद्धिमान अपने आत्माके भीतर ध्यानके द्वारा अपने आत्माका ही ध्यान करता है उसके निश्चय चारित्र प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ विद्वान पुरुष प्रथम रत्नत्रयके द्वारा

तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए सुखको पाकर तीर्थंकरकी महा विभूति प्राप्त करते हैं और अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करतें ॥ ६५ ॥ मुनिराज लोग धातिया कर्मोंको नाश कर और देवोंके द्वारा पूज्य होकर उसी भवमें मुक्तिरूपी स्त्रीके भौगनेवाले हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ फिर निश्चय रत्नत्रयके आराधनसे अघातिया कर्मोंको नाश कर जन्म मरण आदिसे रहित होकर अनन्त सुखमें लीन हाजाते हैं ॥ ६७ जो बुद्धिमान पहिले मोक्ष गये हैं जा रहे हैं या जायंगे वे सब केवल निश्चय व्यवहार दानों प्रकारके रत्नत्रयके आराधनसे ही गये हैं और उन्हींके आराधनसे जायंगे और किसीकी आराधनसे कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता ॥ ६८ ॥ यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए परिश्रमोंको त्याग कर मुक्तिस्त्रीको अत्यन्त प्रिय ऐसे दोनों प्रकारके रत्नत्रयकी आराधना बड़े प्रयत्नसे करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ इसप्रकार भगवान जिनेंद्र देवने भव्य जीवोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए साध्य साधनके रूपसे दोनों प्रकारके रत्नत्रयका निरूपण किया ॥ ७० ॥ फिर भगवानने भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिए विस्तारपूर्वक सब श्रावकाचारका निरूपण किया और मुनियोंके आचारका, निरूपण बड़ी विशेषतासे किया ॥ ७१ ॥ फिर भगवानने द्रव्यपर्यायोंसे भरे हुए सब लोकाकाशका तथा अलोकाकाशका निरूपण किया और ऊर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे लोकके भेद बतलाए ॥ ७२ ॥ तदनन्तर हानि वृद्धिको सूचित करनेवाले अवसर्पिणी कालके बारह भेद बतलाए तथा सुख दुःख देनेवाली भोगभूमि और कर्म भूमिका स्वरूप बतलाया ॥ ७३ ॥ तीर्थंकर बलभद्र चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और कामदेव आदिके पुराण बतलाए और चरमशरीरियोंके बहुतेसे चरित्र कहे । इन तीर्थंकर आदिकोंके कल्याण भी बतलाए, उनके कारण और उनसे होनेवाले सुख भी बतलाए तथा उन सबकी आयु काय, नाम, आदि सब विस्तारपूर्वक बतलाया ॥ ७४-७५ ॥ जो कुछ हो चुका था, होरहाथा और होनेवाला वह द्वादशों गमें कहे जानेवाला सब भगवानने अपनी दिव्यध्वनिसे देव और मनुष्यों को बतलाया ॥ ७६ ॥ मनुष्य, देव, देवांगनाएँ, गणधर मुनि आदि सब विवेकी जन तत्वोंका स्वरूप, धर्मका स्वरूप, रत्नत्रयका स्वरूप सुन सब लोकाकाशका स्वरूपसुनकर तथा मोक्षके मार्गको जानकर मोक्ष प्राप्त होनेके समान हृदयमें बहुत ही

आनन्दित हुए ॥ ७७-७८ ॥ उस समय कितने ही निकट भव्य जीवों ने दिव्यध्वनिके द्वारा धर्मका स्वरूप जानकर और वैराग्य धारणकर दीक्षा धारण करली थी ॥ ७९ ॥ कितने ही जीव अपने अपने योग्य व्रतोंको कोई जघन्य श्रावक होगए थे कोई मध्यम श्रावक हो गए थे और कोई उच्छ्रष्ट श्रावक हो गए थे और कोई मध्यम श्रावक हो गये थे ॥ ८० ॥ कितने भव्य देवों ने तथा मनुष्यों ने भगवानके वचनानुसृतका पानकर मिथ्यास्वरूपी विषका त्याग कर दिया था और सम्यग्दर्शन धारण कर लिया था ॥ ८१ ॥ उन भगवान तार्थ कर परमदेवसे सुख देनेवाले धर्मका स्वरूप सुनकर कितनी ही स्त्रियों ने, देवियों ने और तिर्यचोनि दान देने, पूजनकरने और शील पालन करनेमें भावना लगाई थी, कितने ही जीवों ने मोक्षमें अपनी भावना लगाई थी, कितने ही जीवोंने महाव्रत धारण किए थे, कितनो ही ने अणुव्रत धारण किये थे और कितने ही ने सम्यग्दर्शन धारण किया था ॥ ८२-८३ ॥ तदनन्तर अनेक ऋद्धियोंको तथा चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले महाबुद्धिमान और मुख्य चक्रागुध गणधर देवने समस्त संसारका उपकार करनेके लिये उसी समय भगवान जिनेन्द्र देवसे अर्थ लेकर पदरूपसे विस्तार पूर्वक बारह अंगोंकी रचना की ॥ ८४-८५ ॥ जब भगवानकी दिव्यध्वनि बंद हो गई, सब शांत हो गये, वायुरहित समुद्रके समान सब निश्चल हो गये तब सूक्ष्म बृद्धिको धारण करनेवाला सौधर्म इन्द्र उठा, हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़ा हुआ और समस्त जीवोंका उपकार करनेके लिये तथा भगवानसे विहार करनेकी प्रार्थना करनेके लिये भव्य जीवोंको सम्बोधन आदिसे उत्पन्न हुए अनेक गुणोंको लेकर बड़ी सावधानीके साथ भगवानकी स्तुति करने लगा ॥ ८६-८८ ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके नाथ हैं, आप गुरुओंमें महागुरु हैं, देवोंमें महादेव हैं और पुण्यवानोंमें महा पुण्यवान हैं ॥ ८९ ॥ आप पूज्योंमें महापूज्य हैं, स्तुतियोंमें महा स्तुत्य अत्यन्त स्तुति करने योग्य हैं, बंधोंमें महाबंध हैं और धर्मात्माओंमें महान् धर्मात्मा हैं ॥ हे देव ! आप मान्योंमें महामान्य हैं, योगियोंमें महायोगी हैं, ज्ञानियोंमें महाज्ञानी हैं और शुभोंमें महाशुभ हैं ॥ ९१ ॥ आप चतुरोंमें महाचतुर हैं, व्रतियोंमें महाव्रती हैं, धन्योंमें महाधन्य हैं और मनोहरोंमें महामनोहर हैं ॥ ९२ ॥ आप मौनियोंमें

महामौनी हैं, ऋषियोंमें महाऋषी हैं, चक्रवर्तियोंमें महाचक्रवर्ती हैं और बुद्धिमानोंमें महाबुद्धिमान हैं ॥ ६३ ॥ अप शरण्योंमें (जिनको शरण ली जाय) महा शरण्य, गुणियोंमें महागुणी, धीरवीरोंमें महा-
 धीरवीर, और यतियोंमें सर्वोत्तम यति, ॥ ६४ ॥ आप ध्यानियोंमें महाध्यानी संयमियोंमें महासंयमी, दानियोंमें महादानी, और दर्शनांश्योंमें (दर्शन करने योग्योंमें) महादर्शनांश्य, ॥ ६५ ॥ आप बन्धुओंमें
 परम बन्धु, पिताओंमें पितामह, प्रार्थ्योंमें (जिनसे प्राथना का जाय) महा प्रार्थ्य, और हितैषियोंमें परम
 हितैषी ॥ ६६ ॥ आप ज्येष्ठोंमें महाज्येष्ठ (सबसे बड़े) उत्तमोंमें महाउत्तम, और तत्वोंमें महातत्व, ।
 हे प्रभो ! आप इच्छा रहित हैं और जानकारोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ६७ ॥ हे देव ! समुद्रकी
 लहरोंकी संख्या जानी नहीं जाती, आकाशके प्रदेशोंकी संख्या नहीं जानी जाती, बादलोंसे गिरती हुई धारा-
 ओंकी संख्या नहीं जानी जाती और नदियोंमें बालूके परमाणुओंकी संख्या नहीं जानी जा सकती, उसीप्र-
 कार हे नाथ ! आप गुणोंके समुद्र हैं आप उपमारहित गुणोंकी संख्या गणधरादिकोंके द्वारा भी नहीं जानी
 जा सकती । इसलिये हे प्रभो ! मुझ ऐसोंसे आपके अनन्त गुण किसप्रकार कहे जा सकते हैं यही समझकर
 आपकी स्तुति करनेमें भी मेरा मन कम्प रहा है ॥ ६८-३०० ॥ हे स्वामिन् ! आप तीनों लोकोंके भव्य
 जीवोंको धर्मोपदेश देनेमें समर्थ हैं । संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेमें समर्थ हैं और बादलके समान
 सबको तृप्त करनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ जिसप्रकार सब देशोंमें बादलोंकी वर्षाके विना संसारको तृप्त करने-
 वाले धान्योंको उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती उसीप्रकार हे नाथ ! आपके धर्मोपदेशरूपो अमृतकी वर्षाके
 विना भव्य जीवोंको स्वर्ग मोक्षके सुखदेनेवाले धर्मकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २-३ ॥ इसलिये हे देव
 अब आज सज्जनोंका मोह और मिथ्यात्वको नाश करनेके लिये तथा सन्मार्गका उपदेश देनेके लिये य
 समय आगया है ॥ ४ ॥ हे देव आपसे धर्मोपदेशको सुनकर क्रूर पशु भी ब्रतोंको धारण कर स्वर्ग पहुंचते
 हैं फिर भला भव्य जीवोंकी तो बात हो क्या है ॥ ५ ॥ इसलिये हे प्रभो ! अब भव्य जीवोंको धर्मोपदेश
 देनेके लिये आप महा उद्योग कीजिए । आपके तेजार होनेपर आपकी विजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला

यह धर्मचक्र तैयार है ॥ ६ ॥ भगवान् शान्तिनाथ जगतको धर्मोपदेश देनेके लिए स्वयं उद्यत थे तथापि सौध-
 में इन्द्रने उनकी स्तुतिकी । भक्तिपूर्वक विहार करनेके लिए भूमिका बांधी उनके गुणों की प्रार्थनाकी, उन्हें
 नमस्कार किया, जगतको आनन्द उत्पन्न किया और इसप्रकार वह अपनेको धन्य धन्य मानने
 लगा ॥ ७-८ ॥ तदनन्तर तीनों लोकोंके नाथ भगवान् शान्तिनाथ समस्त लोगोंके साथ धर्म चक्रको आगे
 रखकर विजयका (विहार करनेके) उद्योग करने लगे ॥ ९ ॥ भगवान्के विहार करते समय करांडो देव
 साथ चल रहे थे और जय जय शब्दोंकी घोषणा कर रहे थे जिससे बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था
 ॥ १० ॥ इसप्रकार भगवान् शान्तिनाथ सूयंके समान इच्छारहित वृत्तिको धारण करते हुए सब देवोंके साथ
 विहार करने लगे ॥ ११ ॥ भगवान् जिस देशमें विहार करते थे उसी देशमें सौ सौ योजन तक सुभिक्ष रहता
 था और ईति भीति सब नष्ट हो जाती थीं ॥ १२ ॥ समस्त जीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए भगवान् आकाश
 में ही विहार करते थे और धर्मरूपी अद्भुतकी महावृष्टि कर अभ्यरूपी धान्योंको सींचते ॥ १३ ॥ भगवान्की
 शान्त अवस्थाके प्रभाव से हिरणी बाधिनी; सर्प नकुल आदि जातिविरोधी जीव भी एक साथ रहते थे और
 कोई किसीको नहीं मार सकता था ॥ १४ ॥ भगवान्का मोहनिय कर्म नष्ट होगया था इसलिए उनके कष्ट
 हार नहीं था, वे नोकर्म वगैरान्नासेही तृप्त थे और शुद्ध आत्मासे उत्पन्न हुए अनन्त सुखसेसुखी थे ॥ १५ ॥
 उनके वेदनीय आदि कर्म भी जली हुई रस्सीके समान निरुपयोगी थे इसलिए उन भगवान्के तिर्यंच वा
 देवोंसे होनेवाला कोई किसीतरहका उपसर्ग नहीं होता था ॥ १६ ॥ देव मनुष्य पशु आदि सब जगतगुरु
 भगवान्को सब दिशाओंमें अपनी ओर हो देखते थे अर्थात् वे भगवान् चतुरस्र विराजमान थे इसलिए
 उनके दर्शन चारों दिशाओंमें होते थे ॥ १७ ॥ वे भगवान् सर्वविद्याओंके स्वामी थे, क्योंकि समस्त तत्वोंको
 प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उनके प्रगट होगया था ॥ १८ ॥ उन जगतगुरु भगवान्के ज्ञान अतिशय प्राप्त
 होनेसे शरीरकी छाया नहीं पड़ती थी, नेत्रोंकी टिमिकार नहीं लगती थी और नख केशोंकी वृद्धि नहीं होती थी
 ॥ १९ ॥ भगवान् शान्तिनाथके घातिया कर्मोंके नाशहो जानेसे ये ऊपर लिखे दश अतिशय प्राप्त हुए थे

अपने और दूसरोंका उपकार करनेवाले ये दश अतिशय तीर्थकरोंके ही होते हैं और किसीके नहीं ॥ २० ॥
 धर्मोपदेश देनेवाले उन भगवानके अर्द्धमर्गधी भाषा थी जो कि देव मनुष्य तिर्यच सबकी भाषालय परिणत होती
 थी । अर्थात् सब जीव उसको अपनी अपनी भाषामें समझ लेते थे ॥ २१ ॥ भगवानके समीप हिरण्य, बाघ, हाथी
 सिंह आदि जातिविरोधी जीवोंमें भी परस्पर मैत्रीभाव था ॥ २२ ॥ उनके समीपकी भूमिपर देवोंके बनाए हुए
 मनोहर वृक्ष थे जोकि सब ऋतुओंके फल पुष्पोंके भारसे नम्र थे ॥ २३ ॥ उस समवशरणमें दर्पणके समान
 निर्मल पृथ्वी थी जोकि बड़ी मनोहर थी रत्नमयी थी, सारभूत थी और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित थी ॥ २४ ॥
 संसारको धर्मोपदेश देनेकेलिए भगवानको विहार करते हुए जानकर सुख देनेवाली शीतल और सुगंधित
 वायु मन्द मन्द रीतिसे बहती थी ॥ २५ ॥ भगवानके निकट रहनेवाले देव विद्याधर मनुष्य पशु आदि सबको धर्म
 उत्पन्न होनेवाला परम आनन्द प्रगट होता था ॥ २६ ॥ वायुकुमार देव समवशरणसे एक एक योजन तक पृथ्वीको
 तृण कीड़े पत्थर आदिसे रहित कर देते थे ॥ २७ ॥ स्तनिकुमार देव भगवानके ऊपर इन्द्रधनुषसे सुशोभित और
 अनेक प्रकारकी विजलीके विलासोंसे सुन्दर ऐसी गंधोदककी वर्षा करते थे ॥ २८ ॥ भगवानका चरण जहांपर पड़ता
 था वहीं पर देव लोग उत्तम केसरसे सुशोभित दो सौ पच्चीस कमलोंकी रचना कर देते थे ॥ २९ ॥ भगवान
 तीर्थकरके समीप सब पृथ्वी देवोंके अतिशयसे फलोंसे नम्रीभूत हुए चांवल आदि सब धान्योंसे सुशोभित
 दिखाई पड़ती थी ॥ ३० ॥ भगवानके समवसरणमें शरद ऋतुओंके सरोवरके समान सब आकाश निर्मल
 था और २ सब दिशायेँ निर्मल शोभायमान थीं ॥ ३१ ॥ चारों प्रकारके देव इंद्रकी आज्ञासे भगवानकी
 यात्राके लिये बहुत शीघ्र परस्पर एक दूसरेको बुला रहे थे ॥ ३२ ॥ जिसके एक हजार आरे हैं, जो महा
 देदीप्यमान है, सूर्यको जीत रहा है, देव जिसकी रक्षा कर रहे हैं और जो रत्नोंका बना हुआ है ऐसा धर्म
 चक्र भगवानके आगे २ चलता था ॥ ३३ ॥ देव लोग भक्तिपूर्वक दर्पण आदि मनोहर अष्ट अंगल द्रव्य
 भगवानके सामने लिये खड़े थे ॥ ३४ ॥ वातिया कर्मोंको नाश करनेवाले भगवानके देवोंके द्वारा किये हुये
 और महा ऋद्धिकी धारण करनेवाले ये सब चौदह अतिशय शोभायमान थे ॥ ३५ ॥ आठों प्रातिहार्योंसे

सुशोभित वे भगवान जब आकाशमें विहार करते थे तब उनके चारों ओर करोड़ों ध्वजाएं फहराती थीं ॥ ३६ ॥ उस समय बहुतसे नगाड़ोंके शब्द हो रहे थे, जिनके शब्दोंसे सब दिशाएं भर गईं थीं जो बड़े ही प्रेम प्रगट करनेवाले थे गंधोर थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों कर्मरूपी शत्रुओंको ललकार ही रहे हों ॥ ३७ ॥ आकाशरूपी रंगभूमिमें अप्सरायें नृत्य कर रहीं थीं गानेवाले देव और विद्याधर वीणाके साथ मधुर गीत गा रहे थे ॥ ३८ ॥ देव लोग बड़े उत्साहसे “भगवानकी जय हो, भगवानकी जय हो” आदि शब्द कह रहे थे और इन्द्रादिक भी अपने २ मुखसे जय २ शब्द कर रहे थे ॥ ३९ ॥ इसप्रकार जगतपति भगवान शंतिनाथ समस्त संसारको ज्ञानंदित करते हुये और अपने वचनरूपी अमृतसे सबको तृप्त करते हुये सब पृथ्वीपर विहार करने लगे ॥ ४० ॥ दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले भगवान शंतिनाथरूपी सूर्यनि अपने वचनरूपी किरणोंसे मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको नष्टकर दिया और समस्त संसारको प्रकाशित कर दिया ॥ ४१ ॥ वे भगवान मोक्षादि रूप फलोंकी प्राप्तिके लिये बड़े प्रेमसे सब देशोंमें भव्यरूपी धान्योंके ऊपर सदा धर्ममयी वृष्टि करते हुए, मोहरूपी महा नींदको दूर करते हुये और अनेक भव्योंके हृदय कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए अनुक्रमसे सब पृथ्वीपर विहार करने लगे ॥ ४२-४३ ॥ बहुत दिनोंके प्यासे और इसीलिये धर्मरूपी जलकी इच्छा करते हुये भव्यरूपी चातकोंने भगवानरूपी वादलसे धर्मरूपी जलको बराबर पाकर खूब अच्छी तरह अपनी प्यास बुझाई थी ॥ ४४ ॥ उस समय वे भगवान तीव्र दुःखरूपी अग्निसे जले हुये समस्त संसारको धर्माश्रुतरूपी जलसे सींचते हुए और सबको ज्ञानंदित करते हुये नवीन मेधके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ४५ ॥ उन तीर्थंकर भगवानने बारह सभाओंके साथ सन्मार्गका (सोबमार्गका) उपदेश देनेके लिये अनुक्रमसे अर्वाति, कुरु, काशी, कोशल, अंग, वंग, मगध, कलिंग, सन्न, पुंड्र, विदर्भ, मंड, मालह, और पंचाल आदि अनेक देशोंमें विहार किया ॥ ४६-४७ ॥ समस्त अंगोंको जाननेवाले और अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले ऐसे चक्राशुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर भगवानके चरण कमलोंको नमस्कार करते थे ॥ ४८ ॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले और

समस्त प्राणियों के हित करनेमें तत्पर ऐसे ग्यारह अंग चौदह पूर्वरूपी महासागरके पारंगत अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पर्वके पाठी श्रुतकेवली आठ सौ थे ॥ ४६ ॥ इसीतरह ध्यान और अध्ययनमें लगे हुए शिक्षकों की संख्या इकतालीस हजार आठ सौ थी ॥ ५० ॥ पदार्थोंको प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रीतियोंसे जाननेवाले तीन हजार अवधिज्ञानी मुनि भक्तिपूर्वक भगवानके चरणकमलोंको नमस्कार करते थे ॥ ५१ ॥ जिन्हें समस्त संसार नमस्कार करता है और आत्माके भीतर होनेवाले गुणोंसे जो सब समान हैं ऐसे केवलज्ञानियोंकी संख्या चार हजार थी ॥ ५२ ॥ अनेक आकार और अनेक रूप बनानेमें समर्थ ऐसे विक्रिया च्छद्विसे सुशोभित होनेवाले मुनियोंकी संख्या छह हजार थी ॥ ५३ ॥ सूक्ष्म पदार्थोंको जाननेवाले चार हजार मनःपर्ययज्ञानी मुनि भक्तिपूर्वक भगवानकी सेवा करते थे ॥ ५४ ॥ कुवादियोंके अज्ञानांधकारको नाश कर समार्गको दिखानेवाले वादियोंकी संख्या दो हजार चार सौ थी ॥ ५५ ॥ इसप्रकार रत्नत्रयसे सुशोभित द्रव्य और भावलिंगी सब मुनियोंकी संख्या बासठि हजार थी ॥ ५६ ॥ सम्यग्दर्शन और शील आदि व्रतोंसे विभूषित ऐसी हरिविणको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ अर्जिकाएं थी ॥ ५७ ॥ सम्यग्दर्शन और व्रत आदि गुणोंसे विभूषित ऐसे सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक भगवानके चरण कमलोंकी पूजा करते थे ॥ ५८ ॥ सम्यग्दर्शन और शीलव्रत आदिसे विभूषित ऐसी अर्हद्दत्तासीको आदि लेकर चार लाख श्राविकायें भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा करती थी ॥ ५९ ॥ इनके सिवाय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी भावनामें तत्पर रहनेवाले असंख्यात देव देवियां भगवानके चरण कमलोंकी सदा सेवा करती थीं पूजा करती थीं स्तुति करती थीं ॥ ६० ॥ इनके सिवाय देशव्रतको धारण करनेवाले सिंह सर्व आदि संख्यात ही पशु भक्ति पूर्वक भगवानको नमस्कार करते थे, ऐसे उन भगवानको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये में भी नमस्कार करता हूं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार बारह सभाओंके साथ सद्धर्माका उपदेश देते हुये और विहार करते हुए जब भगवानकी एक महीनेकी आयु रह गई तब वे सम्मेल शिखरपर आ विराजमान हुए ॥ ६२ ॥ भगवान शान्तिनाथके केवलज्ञानका समय (सशरीर केवलज्ञानका समय) सोलह वर्ष कम पच्चीस हजार (चौबीस

लोकांशिवरपर विराजमान हैं, जो लोकोत्तर हैं, अनन्त पूर्ण सुखी हैं, जिन्होंने संसारका सब भार छोड़ दिया है, जो अध्यावाधस्वरूप (सब तरहके बाधाओं से रहित) हैं जो अरूपी हैं निर्मल अनन्त गुणों से सुशोभित हैं और ज्ञान शरीरों हैं ऐसे श्रीसिद्धभगवानको मैं अपने हृदयमें स्थापन करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ । सिद्ध भगवान हमें सिद्ध पद प्राप्त करें ॥ ४ ॥ जो आचार्य पंचाचार पालन करनेमें तत्पर हैं, और प्राणियों का अनुग्रह करनेमें चतुर हैं, जो उपाध्याय पूर्ण श्रुतज्ञानका पाठ करनेमें चतुर हैं और मुनियों के पढ़ानेमें तत्पर हैं तथा जो मुनिराज तीनों योगों का धारण करनेवाले (वश करनेवाले) हैं, अत्यन्त तपस्वी हैं और सोच खीके साधक हैं उन सब आचार्य उपाध्याय और मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ । वे सब हमें अपने अपने गुण प्रदान करें ॥ ५ ॥ जो श्रीअरहंतदेवका शासन ज्ञानमय है, भगवान सर्वाज्ञ देवके मुख कमलसे प्रगट हुआ है गुणों का घर है समस्त संसारको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान है, सबका हित करनेवाला है, अज्ञानको दूर करनेवाला है, धर्मका स्वरूप करनेवाला है, मनिराज भी जिसकी सेवा करते हैं, देव भी जिसकी पूजा करते हैं, जो सारभूत अधृतके समान है, अत्यन्त निर्मल है स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाला है, और संसारके समस्त सज्जनोंको जो सदा शरणभूत है ऐसा वह श्रीअरहंतदेवका शासन सदा जयशील रहे ॥ ६ ॥ थोड़ीसी बुद्धिको धारण करनेवाले मुझ (सकलकीर्ति) मूनिके द्वारा बड़े कष्टसे जो यह श्रीशांतिनाथका निर्मल चारित्र कहा गया है वह बहुत दिन तक युग पर्यंत बुद्धिको प्राप्त होता रहे ॥ ७ ॥ यह श्रीशांतिनाथका चारित्र सब प्रकारके रागादि विकारों का दूर करनेवाला है, तर्कोंका कारण है, धर्मका स्थान है गुणों की खानि है और रागादिक विकारों से सर्वथा रहित है इसलिये वीतराग मुनियोंको यह सदा पढ़ना पढ़ाना चाहिए ॥ ८ ॥ गुणियोंमें चतुर जा मुनि श्रेष्ठ धर्मके बीजरूप ऐसे इस पूर्ण शास्त्रको अपने शुद्ध परिणामों से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वा पुण्यके लिये जैन समाजोंमें इसका व्याख्यान करते हैं वे सम्यग्दृष्टी मुनि रागादिक विकारों का नाश करने हैं निर्मल पुण्यराशि, सम्यग्ज्ञान गुण और विवेकको प्राप्त करते हैं और मनुष्य तथा देव गतियोंके उत्तम सुखोंका उत्तम सुख कर अनुक्रमसे भगवान शांतिनाथके सज्जनोंको मोक्षमें ज

विराजमान होते हैं ॥ ६-१० ॥ मैं अल्पज्ञानी हूँ, मन केवल मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे यह श्रीशांतिनाथके चरित्रका निर्माण किया है इसमें मेरे अज्ञान वा प्रमादसे जो स्वरसंधि छूट गई हो, कोई वर्ण रह गया हो वा मात्रा छूट गई हो उन सब मेरे दोषोंको सम्यग्ज्ञानी चतुर मुनि केवल मेरे लिएक्षमा करें ॥ ११ ॥ मैंने यह ग्रन्थ न ही अपनी कति फलानेके लिये बर्योनी है न बड़पनके मिलने अथवा अन्य किसी लाभके लिये बनाया है और न अपने कवित्व आदिके अभिमानसे ही बनाया है, किंतु यह ग्रन्थ पापोंको नाश करनेके लिये तथा अपना और दूसरोंका उपकार करनेके लिए ही बनाया है ॥ १२ ॥ बहुत थोड़े श्रुतज्ञानको जाननेवाले सकलकीर्ति मुनिने यह श्रीशांतिनाथका चरित्र बनाया है इसको समस्त आगमको जाननेवाले वीतराग मुनि शुद्ध कर लें ॥ १३ ॥ यह श्रीशांतिनाथका चरित्र समस्त सुखोंका समुद्र है, अत्यन्त मनोहर है और मोक्ष सुख देनेवाले त्याग व्रतकी जड़ है इसलिए समस्त मुनियोंके मुख कमलोंके द्वारा सब पृथ्वीपर इसकी वृद्धि हो और पापोंको नाश करनेके लिए सब बुद्धिमात्र अपनी २ पुस्तकोंमें लिखकर इसका प्रचार करें ॥ १४ ॥ श्रीशांतिनाथ भगवान् अत्यंत शांत हैं, इन्द्रादिक सब देवोंके द्वारा पूज्य हैं, समस्त संसारके ईश्वर हैं; तीर्थकर हैं, सौभाग्यकी एक निधि हैं, मुक्तिस्त्रीके पति हैं, तीर्थकर और चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे सुशोभित हैं, शांति और धर्मको देनेवाले हैं, कामदेव हैं, चक्राल और धर्मचक्र दोनोंको धारण करनेवाले हैं और सबानोंको अतिशय सेव्य हैं, ऐसे वे भगवान् शांतिनाथ इस अपने चरित्रके साथ इस पृथ्वीपर सदा जय-शील बने रहें ॥ १५ ॥ मैंने इस उत्तम ग्रन्थके द्वारा भक्तिपूर्वक श्रीशांतिनाथ भगवानकी स्तुति की है इस लिए जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो तब तक वे शांतिनाथ भगवान् कृपापूर्वक शीघ्र ही मेरे कर्मोंका नाश करें, मेरे दुखोंको दूर करें, निर्मल रत्नत्रय दें, समाधिप्रदान करें और श्रेष्ठ ध्यानकी प्राप्ति करावें ये सब बातें मोक्ष प्राप्त होने तक मुझे जन्म जन्ममें प्राप्त हों ॥ १६ ॥

इसप्रकार मूद्राक श्रीसकलकीर्ति विरचित शांतिनाथ पुराणमें श्रीशांतिनाथका समवसरण, धर्मोपदेश और मोक्षगमनका वर्णन करनेवाला सोलहवा अधिकांश और ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	क्र.सं.
२	अश्वत्थीविके पूर्व पुत्र अतिबल महाबलका उपसर्ग करना	१३७	देवियोंका परीक्षार्थ आना	१७४	२१८
	सहसा युधका वैराग्य	१३७	प्रियमित्रोके रूपको देखने दो देवियोंका आना		२१६
	बजायुध और सहसायुधका ऊर्ध्व प्रवेयकमें उत्पन्न होना	१३६	मेघरथका विरक्त हो समोशरणमें जाना	१७६	२२०
	पुष्कलावती देशका वर्णन	१३२	तीर्थकर धनरथका उपदेश	१७९	२२०
	धनरथ तीर्थकरका वर्णन	१३४	मेघरथका सत्कार शरीर और भोगोंका स्वरूप विचारना	१७७	२२६
	बजायुधके जीवका मेघरथ और सहसा युधके जीवका दृढरथ नामक पुत्र होना	१३५	मेघरथ और दृढरथका तप तपना	१७६	२४०
	दासियोंद्वारा सुगोंका लडाना और उनके पूर्वभव और विद्याधरोके पूर्वभव	१३७-१४८	पोडश कारण भावनाओंका चित्तवन	१८३	२४१
	सुगोंका सत्यास मरण और भूत होना	१५५	मेघरथ और दृढरथका सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होना और वहाका वर्णन	१८८	२४३
	भूतो द्वारा मेघरथका सत्कार और ढाई ढीपकी यात्रा	१५५	कुरुजांगल और हस्तिनापुरका वर्णन	१८८	२४७
	धनरथका वैराग्य	१५८	राजा अजितसेन और रानी प्रियदर्शनाको विश्वसेन नामका पुत्र होना	१६५	२५३
	लौकालिक देवोंका स्तुति करना	१६०	विश्वसेनका ऐरादेवीसे विवाह	१६८	२५५
	मेघरथका राज्य	१६२	शान्ति भगवानके गर्भमें आनेसे छह मास पहिले रत्नवर्षा होना	२००	
	क्रीडा करते हुए मेघरथको एक विद्याधरका विग्रह करना	१६३	ऐरा देवीके गर्भ शोधनेके लिये श्री ही आदिका आना	२०१	२६६
	विद्याधरीका विनती करना	१६४	ऐरादेवीका सोलह स्त्रम देखना	२०३	२६८
	विद्याधरका वृत्तांत	१६५	प्रत. सध्याका वर्णन	२०४	२७१
	जिनगुण सपत्ति व्रतका वर्णन	१६५	ऐरा देवीका अपने स्वामीको स्वप्न सुना फल सुनना	२०७	२७५
	सिहरथ विद्याधरका वैराग्य	१६६	महाराज निश्वसेतका स्वप्नोका भिन्न २ फल कह तीर्थकर पुत्रका जन्म कहना	२०६	२८२
	मेघरथके पास एक कवूत्तरका गिरना और गीधका आना	१६७	गर्भ कल्याणक माननेके लिये देवोंका आना	२०६	२८२
	दृढरथका मेघरथसे प्रश्न	१६८	दिवकुमारियों द्वारा जित माताका सेवन	२१०	२८३
	दानका स्वरूप	१६६	देवियों द्वारा मातासे समस्या पूर्ति करना	२१२	२८४
	जेश्यात सुगमें मेघरथकी प्रशंसा सुन दो	१६६		२१२	२८४
					२१२

करनेमें तत्पर रहनेवाले वे संयमी मुनिराज अपने ध्यानयोगके बलसे ही मन वचन कायकी प्रवृत्तियोंका निग्रह करते थे ॥ ५१ ॥ भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दंशशक, नग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, दुःखस्पर्श, मल सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन ये बाईस परीषह कहलाती हैं । ये परीषह दुर्धर हैं, असह्य हैं, मनुष्योंके लिए अत्यंत कठिन हैं कातरोंको भय उत्पन्न करनेवाली हैं और अत्यन्त दुःख देनेवाली हैं परन्तु वे मुनिराज अपने भाईके साथ इन सब परीषहोंको सहन करते थे ॥ ५२-५५ ॥ वे धीर वीर अपने ध्यानरूपी शस्त्रके बलसे एक वारमें आई हुई अत्यन्त कठिन और रौद्र उनईस परीषहोंको जीतते थे ॥ ५६ ॥ तदनन्तर उन्होंने अपने गुरुके समीप तीर्थकर नाम कर्मको देनेवाले सोलह कारणोंका चिंतवन किया था ॥ ५७ ॥ उन्होंने सम्यग्दर्शनको नाश करनेवाली देव मूढता आदि तीनों मूढताएं नष्टकी थी, और बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले जाति कुल आदिके आठ मद नष्ट किए थे ॥ ५८ ॥ इसीप्रकार मिथ्यात्व आदिसे उत्पन्न हुए छह अनायतनोंका त्याग किया था और शंका आदि आठों दोषोंका त्याग किया था इसप्रकार उन्होंने सम्यग्दर्शनके पच्चीसों दोषोंका त्याग किया था ॥ ५९ ॥ चिंतवन करनेमें तत्पर रहनेवाले उन मुनिराजने अपने मनमें निःशंकित आदि आठों अज्ञानोंको धारण कर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि धारण की थी ॥ ६० ॥ मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक मुक्तिरूपी स्त्रीको वश करनेवाली तीर्थकर, मुनि तप और खत्रयकी विनयको चिंतवन उन्होंने किया था ॥ ६१ ॥ स्वप्नमें भी प्रमादोंका त्याग कर मोक्ष देनेवाले अठारह हजार शीलमें कोई अतिचार नहीं लगाते थे ॥ ६२ ॥ लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाले अङ्ग पूत्र आदिके ज्ञानको वे सदा पढते रहते थे और भव्य जीवोंको पढाते रहते थे ॥ ६३ ॥ वे परमज्ञानो मुनिराज समस्त अकल्याण करनेवाले शरीर संसार और भोगोंमें मोक्षके कारणभूत संवेगका चिंतवन करते थे ॥ ६४ ॥ वे मुनिराज सब पाणियोंके लिए ज्ञान दान अभयदान आदि दान दिया करते थे और मुनियोंको विशेषकर सदा दिया करते थे ॥ ६५ ॥ वे मुनिराज समस्त कर्मोंको नाश करनेवाली वारह प्रकारके तपश्चरणकी भावना सदा किया करते थे ॥ ६६ ॥ वे संयमी मुनिराज किसी रोग आदिके कारण दुखी हुए साधुओंको धर्मोप-

होनेसे मनुष्योंके हृदयमें राग बढ़ता है ॥ ५५ ॥ जिसप्रकार इन्द्रकी इन्द्राणी होती है उसीप्रकार वह रानी अपने पतिको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, वह उच्छ्वट प्रणयकी भूमि थी ॥ ५६ ॥ इस प्रकार महाराज विश्वसेन अपने पुण्यकर्मके उदयसे ऐरा देवीके साथ साथ यथासमय तृपित करनेवाले भोग भोगते थे ॥ ५७ ॥ अथानन्तर—सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे जब जान लिया कि महाराज मेघरथके नगरमें महाराज विश्वसेन राज्य करते हैं उनकी महारानी ऐराके शुभ उदरसे धर्मके नाथ, सबके द्वारा पूज्य मुक्तिके भर्ता और सबको शांति देनेवाले सोलहवें तीर्थंकर श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथ अवतार लेगे । इस-लिये हे धनधीश्र । तुम पुण्य संपादन करनेकेलिये वहां जाओ और स्वयं बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके घर महा आश्चर्य प्रगट करनेवाली रत्नोंकी वर्षा करो ॥ ५८-६१ ॥ इन्द्रकी बात सुनकर उस यक्षराजके भाव दूने होगये और वह इन्द्रकी आज्ञाको मस्तकपर रखकर पुण्य संपादन करनेकेलिये शीघ्र ही उनके घर आया ॥ ६२ ॥ तथा वह प्रतिदिन महाराज विश्वसेनके घर बहुभूत्य वेद्वर्ष पञ्चराग आदि मणियोंकी तथा उत्तम सुवर्णकी वर्षा करने लगा ॥ ६३ ॥ उस रत्नोंकी वर्षासे गंगा सिन्धु आदि नदियोंके शीतल कण थे और भगवान्के जन्मको सूचित करनेवाले तथा कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके मनोहर पुष्प थे ॥ ६४ ॥ वह रत्नोंकी धारा ऐरावत हाथीकी मोटी और बहुत चौड़ी सूँड़के समान थी और ऐसी दृच्छी जान पड़ती रही हो ॥ ६५ ॥ आकाशका रोककर पड़ती हुई वह रत्नोंकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों स्वर्गकी लक्ष्मी ही ऐरा देवीकी सेवा करनेके लिये पृथ्वीपर आ रही हो ॥ ६६ ॥ वह आकाशसे पड़ती हुई सुवर्णमयी वर्षा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों अपनी शोभा से मनुष्योंको पुण्यका फल साक्षात् ही दिखता रही हो ॥ ६७ ॥ वह महाराज विश्वसेनका घर रत्न और सुवर्णकी महा वृष्टिसे सब ओर भर गया, उसे देखकर सब लोक धर्माचरण करनेमें तत्पर हो गये ॥ ६८ ॥ वह ऐरा महादेवीका मन्दिर देवोंने सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षासे भर दिया इस लिये मणियोंकी सैकड़ों

किरणोंसे भरा हुआ वह घर ताराओंके समूहके समान जान पड़ता था ॥ ६६ ॥ इसप्रकार वह कुबेर पुराण
 संपादन करनेके लिये ब्रह्म महीने तक प्रसन्न होकर प्रतिदिन बहुमूल्य रत्नोंकी वर्षा करता रहा ॥ ७० ॥
 अथानन्तर—प्रथम स्वर्गके इन्द्रने धर्मकी प्रेरणासे पञ्चद्रह आदिके कमलोंपर निवास करनेवाली श्री, ह्री, धृति,
 कालि, बुद्धि, लक्ष्मीइन देवियोंसे कहा कि महाराज विश्वसेनकी महादेवी ऐराके शुभ उदरमें तीर्थंकर चक्रव-
 र्ती और कामदेवइन तीन पदोंसे सुशोभित भगवान् शांतिनाथ अबतार लेंगे ॥ इसलिये तुम शीघ्र जाओ और
 भगवान्के जन्मके लिये उत्तम पवित्र द्रव्योंसे गर्भशोधना करो। इन्द्रकी आज्ञासे उन देवियोंने पवित्र द्रव्योंसे
 गर्भशोधना कर उसे शुद्ध स्फटिकके समान कर दिया ॥ ७४ ॥ श्रीदेवीने भगवानकी मातामें लक्ष्मी धारणकी,
 हीने लज्जा, धृतिने धैर्य, कीर्तिने स्तुति, बुद्धिने ज्ञान और लक्ष्मीने संपदा धारण की ॥ ७५ ॥ इस प्रकार वे
 देवियां मातामें अपने २ गुणोंको अलग रथापनकर केवल पुराण संपादन करनेके लिए माताकी सेवा करने
 लगीं ॥ ७६ ॥ अथानन्तर चतुर्थ स्नान करनेके बाद वह भगवानकी मातायोंसे सुशोभित रत्नोंके बने हुये,
 मनोहर भवमें सुन्दर कोमल शय्यापर शयन कर रही थीं। उसी दिन उत्तमे रातके पिछिले पहर भगवानके
 जन्मको सूचित करनेवाले और श्रेष्ठ फल देनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ ७७-७८ ॥ उसने पहिले स्वप्नमें शर-
 दक्षतुके बादलके समान गर्जता हुआ और ऐरावत हाथोंके समान ऊंचा मदनोन्मत्त हाथी देखा ॥ ७९ ॥
 दूसरे स्वप्नमें एक बेल देखा, उस बेलका स्त्रंथ नगाड़के समान ऊंचको उठा हुआ था वह मोटा था, धीरे २
 उहार रहा था, सफेद था, और ऐंसा जान पड़ता था मानो अमृतकी राशि ही हो ॥ ८० ॥ तीसरे स्वप्नमें उसने
 एक सिंह देखा, चंद्रमाका व्यापक समान उसका शरीर था लाल उसके बंधे थे और ऐंसा जान पड़ता था
 मानो अपने पुत्रका एक जगह इकट्ठा किया हुआ पराक्रम ही हो ॥ ८१ ॥ चौथे स्वप्नमें लक्ष्मी देखी, वह
 लक्ष्मी सोनेके ऊंचे सिंहासनपर बैठी थी और ऐरावत हाथी सोनेके कलशोंसे उसे स्नान करा रहे थे ऐसी
 वह लक्ष्मी माताका अपनी ही लक्ष्मी जान पड़ी थी ॥ ८२ ॥ पांचवें स्वप्नमें उसने आनन्दसे दो मालाएँ
 देखीं, उन मालाओंकी सुगंधिसे उन्मत्त भ्रमर उनपर लग रहे थे और उन भ्रमरोंके झकरोरोंसे वे मालाएँ

ऐसी जान पड़ती थीं मानों' उन्हों'ने गाना ही आरम्भ किया हो ॥ ८३ ॥ बहूँ स्वप्नमें उसने चंद्रमा देखा, चन्द्रमा समस्त कलाओं'से पूर्ण था, ताराओं' सहित था, बड़ी सुन्दर चांदनी उससे निकल रही थी अन्धकारको वह नष्ट कर रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' माताका मुख ही हो ॥ ८४ ॥ अपने मांगलिक कार्यमें सातवें स्वप्नमें उसने उदयाचलसे उदय होता हुआ सूर्य देखा जो कि अन्धकारको नाश कर रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' सोनेका बना हुआ कलश ही हो ॥ ८५ ॥ आठवें स्वप्नमें उसने रत्नोंसे ढके हुए दो सुवर्णमय कलश देखे वे कलश ऐसे जान पड़ते थे मानों' जिनके मुंह कमलोंसे ढके हुए हैं ऐसे अपने स्नान करनेके कलश ही हों ॥ ८६ ॥ नौवें स्वप्नमें उसने स्वच्छ जलसे भरे हुए और जिसमें कमोदनी और कमल दोनों ही फूल रहे हैं ऐसे कीचडरहित मनोहर सरोवरोंमें दो मछलियां देखीं ॥ ८७ ॥ दशवें स्वप्नमें उसने एक सुन्दर सरोवर देखा उस सरोवरका जल तैरते हुए कमलोंकी पराग वा केसरसे पीला हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानों' वह सुवर्णके चूर्णसे ही भर रहा हो ॥ ८८ ॥ ग्यारहवें स्वप्नमें उसने समुद्र देखा, वह समुद्र बुभित हो रहा था, लहरें उसमें उठ रही थीं, अनेक रत्न उसमें पड़े हुए थे और ऐसा जान पड़ता था मानों' अपने पुत्रके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नोंका एक स्थान ही हो ॥ ८९ ॥ बारहवें स्वप्नमें उसने सुवर्णका बना हुआ एक सिंहासन देखा, वह सिंहासन बहुत ऊंचा था, अनेक मणियां उसमें जड़ी हुई थीं और ऐसा जान पड़ता था मानों' मेरु पर्वतका एक अद्भुत शिखर ही हो ॥ ९० ॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने एक देव विमान देखा वह विमान बहुमुख्य रत्नोंसे दैदीप्यमान था और ऐसा जान पड़ता था मानों' देवोंके द्वारा लाया हुआ अपने पुत्रका प्रसूतिभवन ही हो ॥ ९१ ॥ चौदहवें स्वप्नमें उसने पृथ्वीको फोड़कर निकलता हुआ नागेन्द्रका भवन देखा वह भवन सुन्दर था सुवर्ण रत्नोंका बना हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानों' जिन भवन ही हो ॥ ९२ ॥ पन्द्रहवें स्वप्नमें उसने अत्यंत दैदीप्यमान रत्नोंकी महा राशि देखी वह राशि ऐसी जान पड़ती थी मानों' अपने पुत्रके निःस्वेद (पसीना न आना) आदि गुणोंका समूह ही हो ॥ ९३ ॥ सोलहवें स्वप्नमें उसने धूमरहित जलती हुई दैदीप्यमान अग्नि देखी वह अग्नि ऐसी जान पड़ती

थी मानों अपने महा उज्वल प्रताप ही मूर्ति धारण कर आ गया हो ॥ ६४ ॥ सब स्वप्नोंके अन्तमें उसने
 सब लक्षणोंसे सुशोभित, सुवर्णकीसी कांतिवाला उंचे शरीरका गजराज अपने मुखरूपी कमलमें प्रवेश
 करता हुआ देखा ॥ ६५ ॥ तदनन्तर जिसप्रकार सीपमें मोतीका विंदु आ जाता है उसी प्रकार शुभ कर्मके
 उदयसे भादो कृष्ण सप्तमीके दिन शुभ भरणि नक्षत्रमें उस ऐरा महादेवीके गर्भमें महाराज मेघरथका जीव
 सर्वार्थसिद्धिसे चयकर आ विराजमान हुआ ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार पुण्यकर्मके उदयसे सब मलोंसे रहित
 भगवान् शांतिनाथ अपने कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेके लिये देवियोंके द्वारा संशोधित मोचके समान
 दुख रहित सन्तोहर दिव्य गर्भमें अवतरित हुए ॥ ६८ ॥ भगवान् शांतिनाथके जीवने धर्मके प्रभावसे मनुष्य
 भवमें भी अनेक प्रकारके सुख भोगे थे और स्वर्गमें भी तथा अत्रैवेयक सर्वार्थसिद्धि आदि विमानोंमें भी
 अनेक प्रकारके सुख भोगे थे। अनेक इन्द्र उनको पूजा करते थे और सेवा करते थे। वे भगवान् बड़े ही सुंदर
 थे और तीनों ज्ञानोंसे सुशोभित थे यही समझकर बुद्धिमानोंको भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए पूर्ण धर्मका
 सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ६९ ॥ इस संसारमें जीवोंको धर्मके ही प्रभावसे सुख मिलता है धर्मके
 प्रभावसे ही अनेक भोग और गुणोंका सागर स्वर्ग मिलता है, धर्मके ही प्रभावसे शत्रुरहित सुराज्य मिलता
 है और धर्मके ही प्रभावसे तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली बहुतसी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ १०० ॥ धर्मके
 ही प्रभावसे देवोंके द्वारा पूज्य ऐसा इन्द्रपद प्राप्त होता है, धर्मके ही प्रभावसे चक्रवर्तीका पद प्राप्त होता है
 जिसकी अनेक राजा सेवा करते हैं, धर्मके ही प्रभावसे तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसा तीर्थंकर पद प्राप्त
 होता है और धर्मके ही प्रभावसे विद्वान् लोग सुख देनेवाले मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥ १ ॥ साक्षात्
 मोक्षका कारण ऐसा वह मुनियोंका उत्तम धर्म सम्यग्दर्शनसे प्रगट होता है, सम्यग्ज्ञानसे प्रकट होता है
 और सम्यक्चारित्रसे प्रकट होता है समस्त इन्द्रियोंको दमन करनेसे प्रकट होता है मनका निग्रह करनेसे
 और आत्माका ध्यान करनेसे प्रकट होता है ॥ २ ॥ तथा स्वर्गके सुख देनेवाला वह गृहस्थोंका धर्म पात्रोंको
 दान देनेसे, भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे, भगवान् तीर्थंकर परमदेवका स्मरण करनेसे, व्रतोंको

करनेका कारण माना जाता है ॥ ५८ ॥ तदनन्तर अखण्ड महिमाको धारण करनेवाले बुद्धिमान राजा मेघरथ भी अपनी रानियोंके साथ निर्विघ्न रीतिसे अपने घर पहुँचे ॥ ५९ ॥ अथानन्तर—किसी एक दिन राजा मेघरथ महापूजाकी योग्य सामग्रीसे पापोंको नाश करनेवाली नन्दीश्वरकी पूजाकर उपवास करते हुए विराजमान थे, उस दिन उन्होंने घरका सब आरम्भ आदि छोड़ दिया था, अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यके महोदयसे धर्म अर्थ काम इन तीनों पुष्पार्थोंकी सिद्धि होनेसे उनके मनोरथ सब पूर्ण हो गए थे, तत्त्वोंकी यथार्थ श्रद्धासे वे सुशोभित थे, शास्त्रोंके पारगामी थे, व्रत शील आदि गुणोंसे विभूषित थे, श्रेष्ठ धर्मका पालन करते थे, करुणादान आदि करनेमें तत्पर थे, वे भव्योंके लिये सूर्यके समान थे, उनके ज्ञानरूपी नेत्र सदा खुले रहते थे, पुत्र, भाई, स्त्री आदि सब कुटुम्ब उनकी सेवा करते थे और वे सदा जैन धर्मका उपदेश दिया करते थे । जिस समय वे उपवास करते हुए विराजमान थे और सब कुटुम्बी जन उनके समीप बैठे हुए थे उसीसमय भयसे घबड़ाता हुआ और कांपता हुआ एक कबूतर जीवित रहनेकी इच्छासे उनके पास आया ॥ ६०-६४ ॥ उसके पीछे ही उसके मांसके खानेका लोलुपी, महाक्रूर और दुष्ट ऐसा बूढ़ा गीध

॥ ६५ ॥ वह गीध महाराज मेघरथके सामने खड़ा होकर दीन वाणीसे कहने लगा कि हे देव ! मैं दुर्बल हूँ और भूखकी बड़ी भारी वेदनासे घबड़ाया हुआ हूँ इसलिये यह कबूतर जो मेरा भक्ष्य

शरण आया है इसे मुझे दे दीजिये क्योंकि आप दानशूर हैं । यदि आप इसे मुझे न देंगे यहाँपर ही मरा हुआ समझिये ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार दीन वचन कहकर वह भूखा पची खड़ा

पात सुनकर मेघरथका भाई दृढ़रथ कहने लगा । कि हे पूज्य ! इस गीधकी बात सुनकर मुझे

यह इस प्रकार किस कारणसे कहता है पहिले भवके किसी बैरसे अथवा केवल जातिवै-

द टिप्पणी है कि तब मेघरथ कहने लगे कि हे भाई मन लगाकर सुन, मैं इनके पहिले जन्म

का भय उत्पन्न करनेवाली इन दोनोंकी कथाका कहता हूँ ॥ ७० ॥ इसी

कारण से उसने मनोहर पहिमीखेट नामके नगरमें एक साग-

०॥१६८

१६८

०॥१६८

मालूम हुआ कि मेरी दुर्लभ आयु थोड़ी रह गई है यह जानकर वह प्रसन्न होकर समाधिगुप्त मुनिके निकट पहुंचा ॥ ४३ ॥ मनमें बैराग्य धारण करते हुए उस राजाने उन मुनिराजको नमस्कार किया और पाप शांत करनेके लिए व्रतपूर्वक सन्धास धारण किया ॥ ४४ ॥ उसने भूल प्यास आदि सब घोर परीषह सहन कीं और समाधिपूर्वक धमंध्यानसे प्राणोंका त्याग किया ॥ ४५ ॥ वह राजा राजगुप्त व्रत दान और सन्यास आदि से प्राप्त हुए पुण्यकर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गमें ब्रह्म नामका इन्द्र हुआ ॥ ४६ ॥ वहांपर वह पहिले उपार्जन किए हुए पुण्यकर्मके उदयसे इन्द्राणीके साथ इन्द्रकी लक्ष्मीका उपभोग करने लगा और इसप्रकार दश सागरकी आयु पूरी की ॥ ४७ ॥ आयु पूरी होनेपर वहांसे च्युत हुआ और वाकी वचे हुए पुण्यकर्मके उदयसे त्रिधा-धर कुलमें यह श्रीमान् सिंहस्थ विद्याधर हुआ है ॥ ४८ ॥ शंखिका भी संसारमें परित्रमणकर तपश्चरणके प्रभावसे विमानादिकोंसे सुशोभित और सुखके स्थान ऐसे देवलोकमें जाकर उत्पन्न हुई ॥ ४९ ॥ वहांसे चयकर विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके अवस्वालपुर नगरके राजा इन्द्रकेतुकी रानी सुप्रभावतीसे पुण्यकर्मके उदयसे यह सदनवेगा नामकी सती और सुलक्षणोंवाली पुत्री हुई है ॥ ५०-५१ ॥ इसप्रकार अपने पहिले भव सुनकर वह विद्याधर बहुत संतुष्ट हुआ, राजा मेघरथके पास आकर उन्हें नमस्कार किया, योग्य पदार्थोंसे उनकी पूजा की और घर भोग संसार शरीरसे विरक्त होकर दीक्षा लेनेकी इच्छासे स्त्रीके साथ अपने घरको चला गया ॥ ५२-५३ ॥ उसने घर जाकर सज्जनोंके द्वारा त्याग करने योग्य ऐसे राज्यका कठिन भार अपने सुवर्णातिलक नामके पुत्रको दिया और चारित्रसे उत्पन्न हुआ उत्तम सुगम भार ग्रहण करनेके लिए सुकिरूपी स्त्रीके पति और जगतके स्वामी, ऐसे घनस्थ तीर्थकरके समीप पहुंचा ॥ ५४-५५ ॥ वहांपर जाकर उस सिंहस्थ विद्याधरने मस्तक झुकाकर उन तीर्थकरकी बंदना की और मौच प्राप्त करनेके लिए अनेक राजाओंके साथ प्रारन्नतापूर्वक दीक्षा धारण की ॥ ५६ ॥ त्रिधाधरी सदनवेगाने भी गुणोंकी स्थानभूत प्रिय-मित्रा नामकी गणिकीके पास जाकर दोचा धारण की और सबप्रकारका तपश्चरण करने लगी ॥ ५७ ॥ देवों, काललब्धि पाकर भव्यजीवोंका क्रोध भी कभी कभी चारित्र आदिको धारण करनेमें पापकर्मोंके त्प

रसेन नागका वणिक रहता था, उसकी स्त्रीका नाम अमितसती था, उनके दो पुत्र थे, बड़े लोभी थे, धनके बड़े लालची थे, धनमित्र और नन्दिवेण उनका नाम था वे बड़े क्रूर थे, सदा द्रव्य पानेकी इच्छा रखा करते थे और इसीलिए सदा आर्तध्यानमें लीन रहते थे, ७१-७३ ॥ किसी एक दिन वे दोनों ही दुष्ट व मूर्ख किसी धनके लिये परस्पर लड़ने लगे, दोनोंने एक दूसरेको मारा, दोनोंको भारी चोट पहुंची और उस तीव्र दुखसे दोनों मर गये ॥ ७५ ॥ वे दोनों आर्तध्यानसे मरे थे, कुमार्गगामी थे, दोनोंने आपसमें बर बांध रक्खा था इसलिये वे मरकर अनेक दुखोंसे दुखी ऐसे वे दोनों पत्नी हुए हैं ॥ ७५ ॥ उस गोधके पीछे एक देवको आते हुए देखकर छोटे भाई दहशयने पूछा कि हे भाई ! कहिये यह देव कौन है और क्यों आया है ॥ ७६ ॥ इसके उत्तरमें मेपरथ कहने लगे कि हे भाई ! ध्यान देकर सुन मैं इसके पहिले भवकी कथा कहता हूं और इसके आनेका कारण भी बतलाता हूं ॥ ७७ ॥ पहिले तेने विजयाङ्क पर्वतपर दमत्तारिके साथ युद्ध करते समय क्रोधपूर्वक राजपुत्र हेसरथको मारा था वह मरकर संसारमें परित्रमणकर शुभकर्मके उदयसे जिन चेत्या-लयोंसे सुशोभित कैलाश पर्वतके किनारे पर्याकांता नदीके तटपर एक सोम नामका तापसी रहता था, आ-दत्ता उसकी स्त्रीका नाम था उनके चन्द्र नामका पुत्र हुआ था ॥ ७६-८० ॥ कुशाखोंको जानकर और कुमार्ग-गामी वह मूर्ख भोगादिकोंकी इच्छा करता हुआ प्रतिदिन पंचाग्नि तप तपता था ॥ ८१ ॥ अज्ञानपूर्वक कष्ट सहनेके कारण आयु पूरा होनेपर वह ज्योतिर्लोकमें जाकर यह नीच ज्योतिषी देव हुआ ॥ ८२ ॥ किसी एक दिन यह देव विनोद पूर्वक चैत्यालयोंसे सुशोभित और महात्मनोहर ऐसे ऐशान स्वर्गको देखनेके लिये गया था ॥ ८३ ॥ वहांपर ईशान इन्द्रकी सभाके सभासद देवोंने कुछ मेरी प्रशंसा की थी और कहा था कि इस पृथ्वीपर दान देनेवाला एक भेधरथ ही है इस समय उसके समान अन्य कोई नहीं है वह दान आदिका विचार करनेवाला है और व्रती है उस प्रशंसाको सुनकर हृदयमें डह उत्पन्न होनेके कारण मेरी परीक्षा लेने-केलिये आया है ॥ ८४-८५ ॥ इसलिये हे भाई ! अब तू मन लगाकर दानादिकका लक्षण सुन । मैं पात्र, देने योग्य द्रव्य और विधि आदि सब कहता हूं ॥ अनुग्रह वा उपकार करनेके लिए अपना धन या और कोई

पदार्थ देना दान है। उपकार भी अपना उपकार और दूसरेका उपकार ऐसे दो प्रकारका होता है ॥ ८७ ॥ दान देनेसे जो विशेष पुण्य होता है, जो कि भोगभूमि और स्वर्गका कारण है तथा उससे जो निर्मल यश फैलता है वह अपना उपकार कहलाता है ॥ ८८ ॥ उस दानसे लेनेवाले पात्र लोगोंके प्राणोंको रक्षा होती है उससे वह धर्मध्यान व्युत्सर्ग, ब्रह्म आनश्यक तप और व्रत पालन करता है उसका चित्त स्थिर रहता है, उसकी भूलका नाश होता है, उससे सुख पहुंचता है और वह उससे शास्त्रोंका पठन पाठन करता है वह सब परोपकार कहलाता है ॥ ८९-९० ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने श्रद्धा, भक्ति निर्लोभता, शक्ति, ज्ञान, दया, क्षमा ये दाताओंके सात गुण बतलाये हैं ॥ ९१ ॥ संसारमें इन ऊपर लिखे गुणोंसे सुशोभित, सम्यग्दृष्टी, ब्रती, जिनभक्त और सदाचारी उत्तम दाता गिना जाता है ॥ ९२ ॥ अन्न देने योग्य पदार्थ बतलाते हैं सद्गृहस्थोंको पात्रोंके लिये आहार दान देना चाहिए। वह आहार कृतकारित आदि दोषोंसे रहित होना चाहिए मनोहर, निर्दोष, प्रासुक, शुभ किसी प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न न करनेवाला, दाता पात्र दोनोंके गुणोंको बढानेवाला, अनुक्रमसे मोचका साधन उद्गमादि दोषोंसे रहित, प्रासुक, मधुर, पात्रके ज्ञान चारित्र आदिको बढानेवाला, तृप्ति करनेवाला और अत्यन्त निर्दोष होना चाहिये और वह विधिपूर्वक दिया जाना चाहिए ॥ ९३-९५ ॥ इसी-प्रकार पात्रोंके शरीरमें कोई व्याधि जानकर बुद्धिमानोंको हिंसा आदि पाप कर्मोंसे रहित तैयार को गई और समस्त रोग ब्रह्मेश आदिको दूर करनेवाली औषधि उन पात्रोंके लिये देना चाहिए ॥ इसीप्रकार ज्ञानी मुनियोंके लिये बुद्धिमानोंको ज्ञानदान वा शास्त्रदान देना चाहिए। वे शास्त्र सर्वज्ञ प्रणीत, पदार्थोंके सत्यार्थ स्वरूपको कहनेवाले दीपकके समान समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले, अज्ञानको दूर करनेवाले, ज्ञानके कारण, धर्मका उपदेश देनेवाले, पूर्वापर विरुद्धता आदि दोषोंसे रहित और गुणोंको प्रगट करनेके लिये खानिके समान होने चाहिए ॥ ९७-९८ ॥ चतुर पुरुषोंको दयादान सब जीवोंमें करना चाहिए क्योंकि यह दयादान ही धर्मकी जड़ है, गुणोंका स्थान है और सब जीवोंका हित करनेवाला है ॥ ९९ ॥ हे भाई! इस संसारमें मुनि-राज ही सब तरहके परिग्रहोंसे रहित हैं रत्नत्रयसे विभूषित हैं, सब जीवोंका हित करनेवाले हैं, धीर वीर हैं,

लोभ आदि सब विकारों से रहित हैं, ज्ञानध्यानमें लीन रहते हैं, चतुर हैं, संसाररूपी समुद्रके पारगामी हैं, भव्य दाताओंको संसारसे पारकर देनेवाले हैं, समस्त परीषहोंको जीतनेवाले हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेवाले हैं, शरीरके संस्कारसे रहित हैं, काम और इंद्रियरूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी सेनाके लिये सिंहके समान हैं, सातों ऋद्धियोंसे विभूषित हैं इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं, द्वादशंग श्रुतज्ञानरूपी महासागरके मध्यमें क्रीड़ा करनेवाले हैं, तीनों समय योगोंमें आसक्त रहनेवाले हैं, मोक्षकी इच्छा रखते हैं, वनमें निवास करते हैं, संसारसे भयभीत है, सुवर्ण और तृण सबको समान समझते हैं, अनेक गुरोंसे विभूषित हैं और सब दोषोंसे रहित हैं ऐसे मुनिराजोंको ही उत्तम सत्पात्र समझना चाहिये ॥ १००-१०५ ॥ जो मुनि अत्यन्त दुस्तर ऐसे इस संसाररूपी महासागरसे स्वयं पार हों और दातओंको पार कर दें उन्हींको उत्तम पात्र समझना चाहिये ॥ ६ ॥ पात्रदानका फल भोगभूमि में प्राप्त होता है जहां कि मिथ्यादृष्टी भी अनेक प्रकारके सुख प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ वहांपर उन्हें दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये इच्छानुसार सुख प्राप्त होते हैं और फिर देवियोंके समूहसे उत्पन्न होनेवाले देवगतिके सुख मिलते हैं ॥ ८ ॥ सम्यग्दृष्टी जीव सुपात्रोंको दान देनेसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंसे भरे हुये और सुखके सागर ऐसे सोलहवें स्वर्गमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ पात्रदानकी अनुमोदना करनेसे मनुष्य तथा पशु भी अनेक सुखोंसे भरो हुई भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ हे भद्र ! पात्रोंका दान देना गृहस्थोंके लिए महापुण्य का कारण है इस लोक परलोक दोनों लोकोंमें अनेक प्रकारकी विभूति देनेवाला है और यशका हेतु है ॥ ११ ॥ इसलिये गृहस्थोंको स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिये मन वचनकायकी शुद्धिपूर्वक सुपात्रोंको चारों प्रकारका दान सदा देते रहना चाहिये ॥ १२ ॥ मांस वा सुवर्ण आदिका दान कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि वह कुदान है पापोंका सागर है और दाता दोनोंके लिये नरकका कारण है ॥ १३ ॥ लोभके कारण जो दुष्ट विषयी, मांस आदि कुदान लेनेकी इच्छा करता है वह कभी पात्र नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ जो मूख मांस आदि कुदानोंको देता है वह कभी दाता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह उस पापसे अपनेको

आर दूसराका भा नरकम पगता है ॥ १५ ॥ जो मूर्ख कुदान देता है और लेता है वे दोनों ही पापकर्मके उदयसे नरकके स्वामी होते हैं ॥ १६ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको कंठगत प्राण होनेपर भी नरकका मार्ग और पापोंका धर ऐसा कुदान कभी नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ अतएव यह गीध सथात्र नहीं है क्योंकि यह दूसरे जीवोंके मांसका लोलुपी है, दुष्ट है, विषयांध है और अनेक जीवोंकी हिंसा करनेवाला है ॥ १८ ॥ यह कबूतर भी देने योग्य नहीं है क्योंकि यह भद्र है, केवल दाने चुगता है भयसे इसका सब शरीर कंप रहा है यह क्षुद्र जीव है और अपने शरण आया है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शरण आए हुये और भयसे घबराने राये हुये पशु भित्र वा शत्रुको दे देते हैं संसारमें वे सबसे नीच हैं उनके समान और कोई नीच नहीं है ॥ २० ॥ भयसे घबड़ाया हुआ यह कबूतर अपने शरण आया है इसलिये इस गीधको यह कभी नहीं देना चाहिये ॥ २१ ॥ अत्यन्त रौद्र परिणामोंको धारण करनेवाले इस गीधका जीना व मरना जो कुछ इसके कर्म के उदयके अनुसार होनहार होगा वही हांगा । क्योंकि इस संसारमें पुण्यपापको धारण करनेवाले जीव सदा अपने कर्मके उदयसे मरते हैं और अपने कर्मके उदयसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २२-२३ ॥ रौद्र परिणामोंको धारण करनेवाले कितने ही जीव पाप कर्मके उदयसे परस्पर एक दूसरेको खाते हैं अथवा जाति वैर अथवा अत्यन्त बेरके कारण परस्पर युद्ध करते हैं ॥ २४ ॥ इसलिये धर्मात्मा जीवोंको धर्मकी प्राप्ति और दया पालन करनेके लिये भयसे डरे हुए जीवोंकी प्रतिदिन शुभ रत्ना करनी चाहिये ॥ २५ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने जीवों पर दया करना ही धर्म बतलाया है, इसलिए इस कबूतरको हमें रक्षा ही करनी चाहिये ॥ २६ ॥ इसप्रकार राजा मेघराथकी वाणी सुनकर उस देवको निश्चय होगया और उसने आकर भक्तिपूर्वक उनके चरणोंको नमस्कार किया तथा उनकी स्तुति की ॥ २७ ॥ वह कहने लगा कि हे देव ! आप महान् पुरुषोंके द्वारा भी पूज्य हैं, दानकी विधि आदि जाननेवाले आपही हैं आप देवोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं और तीनों ज्ञानरूपी नेत्रोंसे विभूषित हैं ॥ २८ ॥ हे देव ! हे नराधीश ! आपकी कीर्ति स्वर्गमें भी देवोंके कानोंमें कुँडलोंके समान सुशोभित होती है इसलिये आपकी धन्य है ॥ २९ ॥ इसप्रकार उस ज्योतिषी देवने महाराज

मेघरथकी स्तुति की, उनसे अपनी स्वर्गकी सब कथा कही, दिव्य वस्त्र भूषण माला आदिसे उनकी पूजा की, नम्र और शुभ वचनों से बारबार उनकी प्रशंसा की और फिर वह उनको नमस्कारकर प्रसन्नताके साथ अपने स्थानको चला गया। उन दोनों गोध और कबूतरने भी अपने पहिले भवके वैरकी कथा सुनकर और उसे समझकर शीघ्र ही परस्पर दोनोंने अपना २ वैर छोड़ दिया। उन दोनोंने अनेक प्रकारसे आत्माकी निन्दा की, संसारसे विरक्ता धारण की, और सब प्रकारके आहारको त्यागकर सदाके लिये अनशन (उपवास) व्रत धारण किया। उन्होंने अपनी धीरवीरताकी शक्ति प्रगटकर संन्यास धारण किया, श्रीजिनेन्द्रदेवको हृदयमें विराजमानकर विधिपूर्वक प्राण छोड़े। संन्यास धारण करनेके कारण प्राप्त हुए पुण्यकर्मके उदयसे वे दोनों ही पक्षीके जीव देवारण्य वनमें अच्छी विभूतिको धारण करनेवाले सुरूप और अतिरूप नामके देव हुये ॥ ३४—३५ ॥ वे दोनों ही अपने अबधिज्ञानसे पहिले भवकी सब बात जानकर राजा मेघरथके पास आये और उनको नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३६ ॥ हे विद्वानोंमें श्रेष्ठ ! आप धर्मकी प्राप्ति करानेमें बड़े ही चतुर हैं और मेघके समान परोपकार करनेके कारण हैं ॥ ३७ ॥ हे देव, आप श्रीजिनेन्द्रदेवके आगमके ज्ञाता हैं, तत्त्वोंके जानकार हैं, सम्यग्दर्शन आदि रत्नोंसे विभूषित हैं और शीलके सागर हैं ॥ ३८ ॥ हे देव ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों तिर्यचयोनिको छोड़कर शुभ उदय और दिव्य गुणोंको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए हैं ॥ ३९ ॥ इसलिये अनेक गुणोंको धारण करनेवाले आप ही हम लोगोंके इस जन्मके गुरु हैं आप ही हम लोगोंको नमस्कार करने योग्य है और आप ही विद्वानोंके द्वारा पूज्य हैं ॥ ४० ॥ इसप्रकार मनोहर और सार्थक वाक्योंसे उनकी स्तुतिकर बहुमूल्य दिव्यमाला वस्त्र आभूषणोंसे उनकी पूजा की भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया, बार २ उनकी प्रशंसा की, और फिर मस्तक भुंकाकर उनको नमस्कारकर वे दोनों देव अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर—किसी एक दिन सब परिग्रहोंसे रहित दमवर नामके चारण मुनि आहार लेनेके लिए महाराज मेघरथके घर पधारे ॥ ४३ ॥ महाराज मेघरथने दुर्लभ निधानके समान उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता

से तिष्ठ तिष्ठ कहकर उनको स्थापन किया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर दाताके सातों गुणोंसे सुशोभित राजा मेघ-
रत्न भक्तिपूर्वक प्रतिग्रह आदि पुण्य उपार्जन करनेवाली नौ प्रकारकी विधिसे वृद्धि करनेवाला, शुद्ध, प्रासुक
मधुर, उत्तम, निर्दोष, और तृप्ति करनेवाला आहार उन मुनिराजको दिया ॥ ४५-४६ ॥ उसी समय उस
दानसे प्राप्त हुए पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके स्थानभूत उन राजा मेघरथके घर रत्नवृष्टि आदि पंचा-
श्र्वर्षोंकी वर्षा हुई ॥ ४७ ॥ पात्रोंको दान देनेसे जिसप्रकार इसलोकमें अनेक रत्नोंकी प्राप्ति होती है उसी
प्रकार परलोकमें भी बुद्धिमानोंको भोगभूमि स्वर्ग मोक्षकी महाविभूति प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ यही सम-
झकर यहृश्योंको मुनिराजके लिये लक्ष्मीका स्थान और इसलोक परलोक दोनोंमें सुखका सागर ऐसा
दान सदा देते रहना चाहिये ॥ ४९ ॥ इसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले वे महाराज मेघ-
रथ दान पूजाकर तथा पर्वके दिनोंमें प्रोपधोपवासकर अनेक प्रकारसे धर्मका उपार्जन करते थे ॥ ५० ॥
किसी एक दिन नंदीश्वर पर्वतपर उन्होंने प्रोपधोपवास किया बड़ा विभूतिसे जिनविश्वोंकी महापूजा की
और फिर रातमें वे धीरवीर स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वनमें एकाग्रचित्तसे श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंका स्म-
रण करते हुए प्रतिमायोग धारणकर मेरु पर्वतके समान स्थिर विराजमान हुए ॥ ५१-५२ ॥ ऐसेही समयमें
देवोंके द्वारा पूज्य ऐसान स्वर्गका इन्द्र देवोंकी सभामें विराजमान था, उसने धीरवीर महाराज मेघरथको
इसप्रकार विराजमान जानकर आश्चर्यके साथ कहा कि आप धन्य हैं, आपही गुणोंके सागर हैं ज्ञानी हैं,
पुरखवान हैं, विद्वान् हैं, और धैर्यशाली हैं आज आपको देखकर आश्चर्य होता है। इसप्रकार प्रसन्न होकर
उसने कहा ॥५३-५४॥ अपने मनमें ही इसप्रकारकी स्तुति करते देख देवोंने इन्द्रसे पूछा कि हे नाथ ! आपने
इससमय किस सज्जनकी यह दिव्य स्तुति की है ॥ ५५ ॥ तब इन्द्रने कहा कि देवो ! सुनो जो स्तुति
करने योग्य है और जिनकी सार्थक स्तुति मैंने की है उनकी मैं उत्तम कथा सुनाता हूँ ॥ ५६ ॥ राजा
मेघरथ बड़े धीर वीर हैं, शुद्ध सम्यग्दृष्टी हैं, राजाओंके शिरामणि हैं, तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले
हैं आसन्न भव्य हैं और अनेक गुणोंकी खानि हैं। आज उन्हेंने प्रतिमायोग धारण किया है इसलिये

पजा की और वे पसन्दतक साथ अपने स्थानको गईं ॥ ७२ ॥ रात्रिके व्यतीत होनेपर महाराज मेघरथने निर्विघ्न सीतसे कायोत्सर्गका त्याग किया और फिर वे धर्मस्थानका सेवन करते हुए निरंतर भोग भोगने लगे ॥ ७३ ॥ किसी दूसरे दिन देवियोंके साथ देवोंकी सभामें इन्द्रानुसार सिंहासनपर विराजमान हुए ईशान स्वर्गका इन्द्र कहने लगा कि इस संसारमें प्रियमित्राका रूप सबसे उत्तम है बाहरी हाव भाव आदि उत्तम गुणोंसे पूर्ण है अद्वितीय है उपमारहित है सब रूपोंसे बढ़कर है वह मानों पुण्यरूप परमात्माओंसे ही बनाया गया है । संसारमें उसका सा रूप और किसीका नहीं है । इसप्रकार प्रियमित्रासे रूपकी प्रशंसा कर वह इन्द्र चुप हो गया ॥ ७४-७६ ॥ इन्द्रकी यह बात सुनकर रतिवेणा और रतिवेगा नामकी देवांगनाएं उसका रूप देखनेके लिये पृथ्वीतलपर आईं जिस समय वे आईं थीं उस समय प्रियमित्राके स्नान करने आ समय था उस भद्राक्षे शरीरपर गंध तेल लगा हुआ था और शृंगार कुछ था नहीं । उसे देखकर उन दोनों देवियोंको इन्द्रके बचनोपर विश्वास हुआ और उस रानीके साथ बात चीत करनेके लिये उन देवियोंने वैश्य कन्याका रूप धारण किया ॥ ७७-७९ ॥ उन दोनों कन्याओंने प्रियमित्राकी सखीसे कहा कि तुम जाकर प्रियमित्रासे कहो कि आपको देखनेके लिए दोवैश्य कन्याएं आईं हैं । उस सखीने जाकर प्रियमित्रासे कह दिया । प्रियमित्राने कहा कि मैं नहा धोकर शृंगार कर आती हूं तब तक वे ठहरे ॥ ८०-८१ ॥ इसके बाद रानीने राणियोंको जोश उपपन्न करनेवाला अपना शृंगार किया और उन दोनोंको बुलाकर अपना रूप दिखाया ॥ ८२ ॥ उसे देखकर देवियोंने कहा कि शरीरकी कांति जो पहिले थी वह अब नहीं रही उससे कुछ कम हो गई है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ८३ ॥ देवियोंकी इस बातको सुनकर प्रियमित्रा उस बातका निश्चय करनेके लिए महाराज मेघरथका मुंह देखने लगी ॥ ८४ ॥ महाराज मेघरथने कहा कि हे कांति ! कर्मके उदयसे तेरे मुखकमलकी कांति पहिले कीसी नहीं है पहिलेसे अक्षय कुछ कम हुई है ॥ ८५ ॥ पर सुनकर देवियोंने अपना रूप प्रगट किया, अपने आनेके समाचार कहे और मनमें चिन्तार करने लगी कि इस जगत्संगुर रूपको धिकार है ॥ ८६ ॥ इस संसारमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है रूप, लावण्य, शौभ्रण्य शरीर

उन्होंने शरीरसे मसल खोड़ दिया है वे महा त्यागी हो गये हैं और शीलरूपी आभरणसे सुशोभित हो रहे हैं। इससमय मैंने उन्हीको स्तुति की है ॥ ५७-५८ ॥ इन्द्रकी कही हुई इस बातको सुनकर अतिरूपा और सुरूपा नामकी दो देवियां उनकी परीक्षा करनेके लिये पृथ्वीपर आईं ॥ ५९ ॥ उस समय महाराज मेघरथ शरीरसे भमल खोड़े हुए, क्रोधादि कषाय रहित, समता व्रतको धारण किए हुए, लामवान्, महाधीरवीर और सब विकारोंसे रहित विराजमान थे। उस समय वे समुद्रके समान गंभीर थे पर्वतके समान शरीर उनका निरचल था, वे षट्कांतमें विराजमान थे, श्रांत परिणामोंको धारण किये हुये थे, ध्यानमें लगे हुए थे, और अत्यंत निरपृह थे। सब चिन्ताओंसे रहित थे, निर्भय, ज्ञानी, बुद्धिमान थे, कायोत्सर्ग धारण किये हुये थे और व्रत शील आदिसे सुशोभित थे ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार गुणोंके धर उपसर्गके कारण वज्रोंसे ढके हुए सुनिराजके समान महाराज मेघरथको उन देवियोंने देखे ॥ ६३ ॥ उन देवियोंने अत्यंत धीर वीरता धारण करनेवाले उन महाराज मेघरथपर कात्तरोको भय उत्पन्न करनेवाला असह्य और भारी उपसर्ग करना प्रारंभ किया। ध्यानमें जोष उत्पन्न करनेवाले मनोहर भाव, विलास, विभ्रम, गीत, नृत्य कामको बढ़ानेवाली रागरूप चेष्टायें, हठ आलिंगन, वीणा आदिके मधुर शब्द, कामरूपी अग्निको बढ़ानेके लिए ईंधनके समान अनेक प्रकारके वचनालाप, भय आदिको उत्पन्न करनेवाले दृष्टित वाक्य, तथा और भी कात्तरोको भय उत्पन्न करनेवाले ध्यानका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके ऐसे ही ऐसे धीर दुर्वाँके कारणों से उन देवियोंने उपसर्ग किया ॥ ६४—६८ ॥ तब महाराज मेघरथने संवेगसे सुगंधित रागरहित अपनी निरचल मन श्रोतिनंददेवके चरण कमलोंमें लगाया ॥ ६९ ॥ उन देवियोंके द्वारा की हुई तीव्र धीर और रौद्र परीपहोंको जीतकर सिंहके समान वे महाराज मेघरथ मेरुपर्वतके समान निरचल विराजमान रहे ॥ ७० ॥ जिस प्रकार विजलीको लहर सुमेरु पर्वतको नहीं हिला सकती उसीप्रकार वे दोनों देवियां मेघरथके मनरूपी पर्वतको चलापमान करनेसें असमथ हुईं और उनका सब परिश्रय व्यर्थ गया ॥ ७१ ॥ तब उन दोनों देवियोंने कहा कि ईशान इन्द्रका कहा हुआ सब सच है यह कहकर उन्होंने उनको प्रणाम किया उनकी

हुआ अप्राप्तुक जलका त्याग कर देना चाहिये ॥ २ ॥ सूक्ष्म जीवों की दया पालन करनेकेलिये अन्नपान स्वाद्य और स्वाद्य यह चारों प्रकारका आहार राजिमें कभी नहीं खाना चाहिये ॥ ३ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने धर्मसेवन करनेकेलिये जघन्य ध्रावकोंकेलिये ये छह प्रतिमायें निरूपणकी हैं ये प्रतिमायें सुगम हैं और रत्नगर्भा सीढ़ी हैं ॥ ४ ॥ जो पुरुष सब स्त्रियोंको अपनी माता बहिन और पुत्रीके समान देखता है उसके निर्मल ब्रह्मचय पूगट होता है ॥ ५ ॥ असि मसि कृपि वाण्ड्य आदि सब प्रकारका आरम्भ पापका कारण है इसलिये मन बचन कायसे उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६ ॥ दूष्य धान्य सुवर्ण आदिसे उत्पन्न होनेवाला परिग्रह सब अनेक प्रकारके अशुभोंकी खानि है इसलिये बखोंको छोड़कर वाकीके सब बखोंका त्यागकर देना चाहिए ॥ ७ ॥ यहस्थोंकी ये तीन प्रतिमायें सध्यम कहलाती हैं । प्रतिमायें हृदयमें वैराग्य धारण करनेवालोंको मोक्ष मुख देनेवाली हैं ॥ ८ ॥ आहार वरके ध्यापार और विवाहादि कार्योंमें चतुर पुरुषोंको कभी सम्भति नहीं देनी क्योंकि इनमें सन्मति देना पापका समुद्र है ॥ ९ ॥ पापोंको शांत करनेके लिए और धर्मकी सिद्धिके लिए दूसरेके धरपर कृत आदि दोषोंसे रहित रवादिष्ट रहित पापरहित शुद्ध भिक्षा भोजन करना चाहिए ॥ १० ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने ये दोनों ही मनोहर प्रतिमायें उत्कृष्ट बतलाई हैं श्रावकोंको ये ही दो प्रतिमायें स्वर्ग मोक्षकी कारण हैं ॥ ११ ॥ जो बुद्धिमान् इन उपर कही हुई ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करता है वह सोलहवें स्वर्गको प्राप्त होता है और अनुक्रमसे मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ १२ ॥ इस कथनके बाद श्रीजिनेंद्रदेवने अपने पुत्रके सामने कृपापूर्वक इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख देनेवाली यहस्थोंकी सब क्रियायें कही ॥ १३ ॥ गर्भान्वय क्रिया दीक्षान्वय क्रिया और कर्त्तव्य क्रिया ये तीन प्रकारकी क्रियाएं होती हैं अब आगे इनकी संख्या बतलाते हैं ॥ १४ ॥ गर्भधानसे लेकर निर्वाण पर्यंत जो क्रियाएं सम्भयदर्शन पूर्वक की जाती हैं उन्हें गर्भान्वय क्रियाएं कहते हैं उनकी संख्या तिरपन है ॥ १५ ॥ अघतारसे लेकर मोक्ष प्राप्त होनेसे पर्यंत जो माला सिद्ध करनेवाली क्रियाएं हैं उन्हें दीक्षान्वय क्रियाएं कहते हैं उनकी संख्या अड़तालीस है ॥ १६ ॥ श्रीजिनेंद्रदेवने पूर्ण कल्याण प्राप्त करनेके लिये सद्ग्रहिल्ल

और सप्ताध्य सब कालके सुखमें पड़कर पूरा हो जाता है। इसप्रकार चित्तमें विचार कर और विरक्त होकर उन देवियों में दिव्य वस्त्र आभूषण और मालासे प्रियमित्राकी पूजा की और फिर अपनी कांतिसे दिशाओंको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गई ॥ ८७-८८ ॥ महा रानी प्रियमित्रा इस बातसे बहुत खेदखिन्न हुई और उस सतीके हृदयमें बहुत शोक हुआ तब महाराजने बड़े प्रेमसे कहा कि हे प्रिये। क्या तू नहीं जानती है कि यह चर अचर संसार तिथ्यानित्यात्मक है इसमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है ॥ ८९-९० ॥ यही समझकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसप्रकार महाराजने उसे आश्वासन दिया और राज्यभोग स्त्री आदि सबसे बंधुत विरक्त हुए ॥ ९१ ॥ किसी दूसरे दिन महाराज मेघरथ अपने सब परिवारके साथ अपने पिता तीर्थकर धनरथको वन्दना करने के लिए मनोहर नामके उद्यानमें गए ॥ ९२ ॥ वहांपर सुर असुर सबसे घिरे हुए पूज्य धनरथ तीर्थकर तिंहासतपर विराजमान थे ॥ ९३ ॥ महाराज मेघरथने सब परिवारके साथ उनकी तीन प्रदिल्लाण् दी उनकी नमस्कारःकिया बड़ी भक्तिसे उनकी पूजनकी और उत्तम स्त्रोत्रोंसे उनकी स्तुतिकी ॥ ९४ ॥ फिर महाराज मेघरथने सब जीवोंके हितकी इच्छा रखते हुए श्रावकोंकी क्रियाएं पूछी सो ठीक है क्योंकि सज्जनोंकी चेष्टाएं प्रायः कल्पवृक्षोंके समान परंपकारके ही लिए होती हैं ॥ ९५ ॥ तीर्थकर धनरथने भव्य पुत्रोंको धर्मकी प्राप्ति कराने के लिए अपनी सब भायामयी ध्यानिसे उपदेश दिया और कहा कि हे पुत्र। सुन मैं श्रावकोंके आचरणको सूचित करने वाले उपासकाध्ययन नामके सातवें अङ्गको पूर्ण रीतिसे कहता हूँ ॥ ९६-९७ ॥ सबसे पहिले श्रावकोंको शृंगारिदांपोंसे रहित तत्वोंके यथार्थ श्रद्धान करनेरूप सन्म्यधर्शनको धारण करना चाहिए क्यों कि यही सन्म्यधर्शन समस्त श्रेष्ठ ब्रतोंका मूल कारण है ॥ ९८ ॥ पांच अणुब्रत तीन गुणब्रत ए वारह ब्रत कहलाते हैं ॥ ९९ ॥ इनके सिवाय श्रावकोंको धनंध्यान धारण करने के लिए आर्तध्यानको छोड़कर तीनों समय ब्रतरूप उत्तम तामादिक करना चाहिए ॥ १०० ॥ चतुर पुरुषोंको अपने कर्म नष्ट करनेकेलिए धरके व्यापार छोड़कर सब पर्वक दिनोंमें नियमपूर्वक सदा पापधापास करना चाहिए ॥ १ ॥ बुद्धिमानोंको सचित्त द्याल पत्ते, कन्द, मूल, फल, बीज, नहीं खाना चाहिए तथा अप्रियर नहीं पका

से लेकर सिद्ध पर्यंत सात कर्त्रन्वय क्रियायें बतलाई हैं ॥ १७ ॥ श्रीघनरथ जिनेन्द्रदेवने इन सब क्रियाओं का स्वरूप विधि और फल संक्षेपसे कहा तथा और भी सद्धर्मका किया ॥ १८ ॥ महाराज मेघरथने उन घनरथ तीर्थंकरका कहा हुआ क्रियाओं का स्वरूप और स्वर्ग मोक्ष देनेवाला यहस्थोंके धर्मका स्वरूप सुना ॥ १९ ॥ फिर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनको नमस्कार किया और सोच प्राप्त करनेकेलिए हृदयको अत्यंत शांत-कर वे संसार देहका भोगका स्वरूप बार बार चिंतवन करने लगे ॥ २० ॥ वे विचार करने लगे कि संसार एक समुद्रके समान है, यह अत्यन्त दुःसह है, भीम है, विषम है, दुखरूपी मगर मच्छोंसे भरा हुआ है, जन्म मरण और बुढ़ापा ही इसके आवर्त (भँवर) हैं, चारों गतियां ही इसकी चंचल लहरें हैं, नरक ही इसके बड़वानल कुम्भ हैं, यह अत्यन्त निस्सार है, अपार है, समस्त पापोंका समूह ही इसका जल है, जीवों का परित्रमण ही इसका फेन है, यह अनादि है, अनंत है घोर है, उत्पाद व्यय धौव्य स्वरूप है, सबतरहके दुःखोंका निधान है अत्यन्त निध है और भव्यजीवोंको अत्यन्त ही भयंकर है । इसमें अशुभ कर्मरूपी सांकलसे जकड़े हुए जोव धर्मरूपी जहाज को न पाकर ही सदा उछलते और डूबते रहते हैं ॥ २१-२४ ॥ धर्मके बिना ये जीव अनादि कालसे कर्मोंके द्वारा जवर्दस्ती ठगे गए हैं इसीलिए दुखरूपी वाघोंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें सदा घूमा करते हैं ॥ २५ ॥ इस संसारमें मुनियोंके बिना और कोई मनुष्य सुखी नहीं है । किन्हींको कोढ़ आदि रोगोंसे उत्पन्न होनेवाला तीव्र घोर दुख है किन्हींको दरिद्रताका दुख है, किन्हींको अत्यन्त शोकसे दुख हो रहा है, किन्हींको भयसे दुख हो रहा है, किन्हींको मानभंग होनेका दुख है, जोकि वचनसे भी नहीं कहा जा सकता और किन्हींको पुत्र स्त्री आदिके वियोगसे उत्पन्न होनेवाला शोकका दुख है ॥ २६-२८ ॥ किन्हींके पुत्र दुराचारी और दुर्व्यसनी हैं और किन्हींकी स्त्री दुष्ट, दुराचारिणी और भयानक है ॥ २९ ॥ किन्हींके भाई दुष्ट शत्रुओंके समान हैं किन्हींका पिता दुष्ट है और किन्हींकी माता व्यभिचारिणी है ॥ ३० ॥ किन्हींके गोत्रमें कलंक लगानेवाली व्यभिचारिणी पुत्रियां हैं और किन्हींके सेवक ही डैरी हो रहे हैं और मारनेके लिये सदा तैयार रहते हैं ॥ ३१ ॥ किन्हींके नरकके

दुखों से भी बढ़कर मानसिक पीड़ा है और किन्हींके क्रोध लोभ आदिकी बाधा सदा बनी रहती है ॥३२॥
 देखो ! भरत चक्रवर्ती चरमशरीरो था तथापि उसे छोटे भाईके द्वारा मानभंगका महा दुख प्राप्त हुआ था ॥ ३३ ॥ जब चक्रवर्ती की ही यह बात है तब फिर कर्मोंके आधीन रहनेवाले अशुभ कर्मोंसे घिरे हुए जन्म बुढापा आदि दोषसहित तुच्छ पुण्यवाले अन्य लोग भला कैसे सुखी हो सकते है ॥३४॥ जिसप्रकार केलेके खंभेमें कुछ सार नहीं है और न इन्द्रजालमें कुछ सार है उसी प्रकार तीनों लोकोंमें कुछ सार नहीं है ॥३५॥ इस संसारमें घर, राज्य, शरीर, स्त्री, लक्ष्मी, पुत्र सेवक आदि कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है ॥ ३६ ॥ जो घर अग्नि आदिके संयोगसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है उस बादलके समान थोड़ी देरतक रहनेवाले घरमें भला कौन बुद्धिमान विश्वास करेगा ॥ ३७ ॥ राज्य भी सबैरेके समय दाभके पत्तेकी अनीपर रखी हुई ओसकी बूंदके समान चंचल है पापोंसे भरा हुआ है और शत्रुके दुखोंका एक स्थान है ॥ ३८ ॥ स्त्री भी इस समयमें प्राणियोंको मोहादिरूपी जलसे सीची हुई और नरकादि फलोंको देनेवाली विषकी अशुभ बेलके समान है ॥ ३९ ॥ प्राणियोंके लिए भाई बन्धनके समान है और पापके कारण है तथा धन धान्य आदिकी क्षय करनेवाले पुत्रभी फंसानेके लिये जालके समान है ॥ ४० ॥ जो भाई विरादरीके लोग, अपने मरे हुए कुटुम्बीको स्मशानमें छोड़कर चले आते हैं और फिर कभी फिरक भी नहीं देखते वे भला अपने कैसे हो सकते हैं ॥ ४१ ॥ चक्रवर्ती आदिकी राज्यलक्ष्मी विजलीकी रेखाके समान चंचल है महामोह करनेवाली है और मनुष्योंको नरकरूपी घरके दरवाजेके समान है ॥ ४२ ॥ इसप्रकार संसारकी विचित्रता और पदार्थोंको अतित्य समझकर बुद्धिमान लोग संसारको छोड़कर तपश्चरण कर मोच प्राप्त करते हैं ॥ ४३ ॥ इस शरीरसे नौ द्वारोंके द्वारा दुर्गंध अशुभ मल स्वयं बहता रहता है, यह विष्टाका घर है, और सब ओर सैकड़ों कीड़ोंसे भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ यह शरीर नरकके समान असार है, शुक्र शोणितसे उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओंसे बना हुआ है, निध है पृथ्वाके योग्य है और दुखका स्थान है ॥ ४५ ॥ तथा सब अशुभ रोगरूपी सर्पोंका विल है, अशुभ कर्मोंका कारण है सब प्रकारके दुखोंका निधान है और भूख प्यास आदिसे सदा

रोगरूपी अग्नि इस शरीररूपो झोंपड़ीको नहीं जला देती तबतक जीवोंको अपना हित कर लेना चाहिए क्योंकि फिर इस शरीरसे कुछ नहीं हो सकता ॥ ६० ॥ जबतक बुढ़ापीरूपी राक्षसी इस शरीरको नहीं खा जाती तबतक जीवोंको दीक्षा धारणकर स्वर्ग और मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिए ॥ ६१ ॥ जबतक इन्द्रियां अपने कार्यसं समर्थ हैं तबतक बुद्धिमानोंको तपश्चरणके बलसे मुक्तिरूपी स्त्री अपने हाथमें कर लेनी चाहिए ॥ ६२ ॥ जबतक आशु पूरी न हो जाय तबतक भारी तपश्चरण कर लेना चाहिए क्योंकि मकानमें अग्नि लग जानेपर फिर कंभ्रा खोदना व्यर्थ ही है ॥ ६३ ॥ जिन्होंने शारीरिक सुखोंसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तपश्चरण चारित्र्य व्युत्सर्ग आदिके द्वारा शरीरको कुश किया उन्हींका शरीर सफल समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ वही तमझकर अत्यन्त निस्सार और क्षणभंगुर इस शरीरको पाकर सारभूत तपश्चरण करना चाहिये इसीसे यह शरीर सफल हो सकता है ॥ ६५ ॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तथा ध्यान आदि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये थोड़ा अन्न पान आदि देकर सेवकके सम्मान इसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ इन भोगोंसे भी कभी तृप्ति नहीं होती, ए शरीरको कुश करनेवाले हैं, दुष्ट हैं, पहिले तो मनोहर जान पड़ते हैं परन्तु हैं पापके समुद्र और फल देते समय अत्यंत भयानक ॥ ६७ ॥ ये भोग परार्थीन हैं, क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले हैं, नरकरूपी धारके मार्गको दिखलानेवाले हैं, पशुओंने ही इनको स्वीकार किया है तथा मोक्षयात्री मुनियोंने सदा इनकी निंदा की है ॥ ६८ ॥ ए भोग धर्मरूपी राजाके महाशत्रु हैं, मोक्षरूपी धरके किबाड़ हैं, सब प्रकारके दुखोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, धीरे हैं और स्वर्गरूपी धरको बन्द करनेके लिए आर्गल (बंडा, आगल) के समान हैं ॥ ६९ ॥ व्याधि, क्लेश, दाह, भय, चिंता आदिके दो सागर हैं क्रूर हैं भूर्वा लोग ही इनका आदर करते हैं और धीरे सज्जन लोग इनका त्याग कर देते हैं ॥ ७० ॥ ए भोग बड़ो कठिनतासे प्राप्त होते हैं, दुखोंसे उत्पन्न होते हैं और मानभंग आदि दुखके कारण हैं इसलिए इस संसारमें ऐसा कौन बुद्धिमान है जो धर्मको छोड़कर इन भोगोंको सेवन करे ? ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार तेलके सींचनेसे अग्नि और अधिक बढ़ती है उसी प्रकार वुरी जलन उत्पन्न करनेवाली मनुष्यां

दुखी रहता है ॥४६॥ यह शरीर कामरूपी अग्निसे सदा जलता रहता है समस्त पापोंका कारण है और कर्मसे उत्पन्न हुआ है फिर भला इस संसारमें प्राणियोंको इससे सुख कैसे मिल सकता है ॥ ४७ ॥ यह शरीर अत्यन्त अशुद्ध है अशुद्ध द्रव्योंसे भरा हुआ है। इसमें केवल मलमूत्र ही नहीं भरा है किन्तु यह अशुद्ध पदार्थोंका घर ही है ॥ ४८ ॥ यह शरीर अन्न पान तान्बूल आदि पुष्ट करनेवाले पदार्थोंको भी अपने संसर्गसे अपवित्र और दूष्णके योग्य बना देता है ॥ ४९ ॥ यह मनुष्योंका शरीर इन्द्रधनुषके समान अतिथ है, पापकी खानि है और जब अग्नि शूल वा वृत्तुके संयोगसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ इस शरीर-रूपी घरमें भूख, प्यास, काम, रोग, क्रोधरूपी अग्नियां सदा जलती रहती हैं फिर भला चतुर पुरुष इसमें किस प्रकार प्रेम कर सकता है ॥ ५१ ॥ यह मनुष्योंका शरीर वज्र आभरण आदिसे सुशोभित हुआ बाहर से ही मनोहर दिखता है यदि इस भीतरसे देखा जाय तो शरावके घड़ेके समान अत्यंत वीभत्स और अशुभ जान पड़ता है ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार चाडालके घरमें कुछ सार दिखाई नहीं देता उसी प्रकार हड्डी चमड़ा और विष्टा आदिसे भरे हुए इस शरीरमें भी कभी सार दिखाई नहीं दे सकता ॥ ५३ ॥ यदि उसको एक दिन भी अन्नादिक भोजन न मिले तो फिर यह अग्निमें पड़े हुए सूके पत्तेके समान शीघ्र ही क्षीण हो जाता है ॥ ५४ ॥ अन्न पान आदि पदार्थोंसे प्रति दिन इस शरीरका पालन पोषण किया जाता है तथापि यह शरीर जोवके साथ नहीं जाता, दुष्टके समान यहां ही रह जाता है ॥ ५५ ॥ जो रागी मूर्ख प्रति दिन इस शरीरका पोषण करते हैं उनको यह शरीर शत्रुके समान केवल रोगोंका समूह ही देता है ॥ ५६ ॥ अथवा परलोकमें यह शरीर उनको नरकयोनि अथवा तिर्यचयोनि देता है जो कि समस्त अशुद्धताकी खानि है और काम इंद्रियोंको लालसा और क्रोधरूपी शत्रुओंसे भरी हुई है ॥ ५७ ॥ परन्तु जो लोग तपश्चरण, व्रत और कायबलेश आदि परीशर्होंसे इसको सोखते हैं कृश करते हैं उनको स्वर्ग मोलके सुख प्राप्त होते हैं इससे बहूकर भला और आश्चर्य क्या होगा ॥ ५८ ॥ इसलिये जबतक यह भूखा यमराज इस शरीरको जबरदस्ती नहीं खा लेता तबतक चतुर पुरुषोंको इस शरीरसे तप यम धर्म आदि कर लेना चाहिए ॥ ५९ ॥ जबतक-

श्रीपथसे ही नष्ट होता है इसलिए मनुष्योंको ब्रह्मपद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मचर्यका

रूपी ओषधिसे ही नष्ट होता है इसलिए मनुष्योंको ब्रह्मपद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मचर्यका
ही पालन करना चाहिए ॥ ५५ ॥ मनुष्योंका जीवन (आयु वा आयुक्रमके निषेक) संख्यात्मक है नियमित
है और वह हाथमें रखे हुए पानीके समान प्रतिश्रण नष्ट होता रहता है फिर भला ऐसा बुद्धिमान मनुष्य
कोन है जो दीक्षा धारण करनेमें आत्माका हित करनेमें, और धर्म पालन करनेमें ढेर करे क्योंकि मृत्यु कब
आयेगी यह किसीको मालूम नहीं है ॥ ५६-५७ ॥ ये भाई वंशु सब बंधनके समान हैं, बंचल संपदा विपत्ति
के समान है राज्य पापकी खानि है और जालके समान फंसानेवाली स्त्रियां पाप उत्पन्न करनेवाली हैं ॥ ५८ ॥ वे
ये विषय विषयके समान हैं भोग रोगके समान हैं और मनुष्योंका जीवन सर्वेके समय दामकी अनीपर
लगी हुई पानीकी (ओसकी) बूंदके समान शीघ्रही नष्ट होनेवाला है ॥ ५९ ॥ यदि ऐसा नहीं है तो फिर
तीर्थकर आदि पहिलेके सज्जन लोग घरको छोड़कर तपश्चरण करनेके लिए जन्में क्यों नले गए ॥ ६० ॥ वे
घनरथ तीर्थकर अपने हृदयमें इसप्रकार चिंतन कर रहनिवास आदि सब पदार्थोंसे विरक्त हुए और जब
वह दीक्षा लेनेके लिए तैयार हुए उसी समय लौकांतिकदेव अपने अर्वाधिदानसे तीर्थकरकी ओसे सार्थक
जानकर उनकी इच्छानुसार प्रार्थना करनेके लिए शीघ्रही भक्तिपूर्वक स्वर्गसे आये ॥ ६१-६२ ॥ उन्होंने प-
हिलेही मस्तक श्रुकाकर तीर्थकरको नमस्कार किया और फिर वे अपनी बुद्धिके अनुसार बड़े भावोंसे सार्थक
स्तुति करने लगे ॥ ६३ ॥ हे देव ! आप जगतके स्वामी है हे नाथ ! आप तीनों लोकोंका हित करनेवाले
हैं । हे समस्त गुणोंके एक स्थान । जिनके कोई आप्रय नहीं है उनके आप भाई हैं ॥ ६४ ॥ आप पूर्वजोंके
भी महापूज्य हैं नमस्कार करनेयोग्योंके भी नमस्कार करने योग्य हैं ॥ ६५ ॥ आप देवोंमें महादेव हैं मुनियोंमें
महाभुनि हैं गुरुओंमें सबसे बड़े गुरु हैं और मान्य जीवोंमें जगतमान्य हैं ॥ ६६ ॥ हे नाथ, आप जानकारोंमें
रके जानकार हैं ज्ञानियोंमें ज्ञानी हैं बुद्धिमानोंमें महाबुद्धिमान हैं, और त्रतियोंमें उत्तम त्रती हैं ॥ ६७ ॥
प धर्मात्मानोंमें महा धर्मात्मा हैं तपस्वियोंमें महा तपस्वी हैं पवित्रोंमें महा पवित्र हैं और धीर धीर प्राणि-

का एक स्थान ऐसा यह शरीर तो कहां ? और तीन लोकका नाथ, सर्वज्ञ, सुखकी खानि, पवित्र, ज्ञानी पूज्य, शुद्ध, और कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाला यह आत्मा कहां ? ज्ञानी पुरुषके शरीर और आत्मा इन दोनोंका सम्बन्ध कैसे हो सकता है यह संबंध तो केवल कर्मोंका किया हुआ है क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो अपने उच्छ्वस्त आत्माको अपने शरीरसे पृथक् समझता है ॥ ४३-४५ ॥ जिसप्रकार किट्टिकालिमाको जलाकर उससे शुद्ध सुवर्ण अलग ग्रहणकर लिया जाता है उसी प्रकार कर्मरूपी काठसे भरे हुए और अशुभ कर्मोंसे उत्पन्न हुए इस शरीररूपी घरको ध्यानरूपी अग्निसे जलाकर इस शरीरसे ही पवित्र आत्मा को अलग ग्रहण कर लिया जाता है ॥ ४६ ॥ फिर यह जीव समस्त कर्मोंके क्षय होजाने से सर्वज्ञ होकर आत्माका कल्याण करनेवाले, अनंत सुखसे भरे हुए, नित्य और निरामय (रोग आदि दोषोंसे रहित) मोक्षमें जा विराजमान होता है ॥ ४७ ॥ इसलिये जबतक शरीरमें जीवोंकी ममता (ममत्व बुद्धि) बनी है तबतक वह शरीर भव भवमें प्राप्त होता है । इसलिये चतुर पुरुषोंको वह ममत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ४८ ॥ इसलिये अपने आत्माका हित चाहनेवाले पुरुष दुखोंके निधि और रोग क्लेश करनेवाले शत्रुके समान इस शरीरसे क्या सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४९ ॥ जो धीर वीर पुरुष शरीर पाकर शारीरिक सुख छोड़कर और तपश्चरणकर अपने आत्माका हित सिद्ध करते हैं उन्हींका शरीर सफल समझना चाहिये ॥ ५० ॥ जिसप्रकार ईंधनसे अग्नि बढ़ती है घटती नहीं, उसी प्रकार जो मनुष्य भोगोंसे इस शरीरका लालन पालन करते हैं उन्हें कभी संतोष नहीं हो सकता । उनकी तृष्णा दिन दूनी बढ़ती जाती है ॥ ५१ ॥ इसलिये अनेक प्रकारके भोगोंसे तथा भोगोपभोगकी सामग्रियोंसे क्या लाभ है क्योंकि उनसे सुख देनेवाला संतोष कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ ये भोग विनश्वर हैं सर्पके फणके समान दुख देनेवाले हैं इनसे कभी तृप्ति नहीं होती ये शरीरकी विडंबना करनेवाले हैं और दुखसे उत्पन्न होनेवाले हैं इसलिए ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इनका सेवन करे ॥ ५३ ॥ जो मनुष्य कामज्वरसे संतप्त होकर उसकी शान्तिके लिए स्त्रीरूपी औषधिकी इच्छा करते हैं वे तेलसे अग्निकी लौको रोकना चाहते हैं ॥ ५४ ॥ यह कामज्वर ब्रह्मचर्य-

योंमें महा धीर वीर हैं ॥६८॥ आप तीनों लोकोंके स्वामियोंमें स्वामी हैं, चक्रवर्तियोंके भी चक्रवर्ती हैं, सहनशीलोंमें भी सहनशील हैं और जिनेन्द्रोंमें भी परम जिनेद्र हैं ॥ ६९ ॥ जीतनेवालोंमें सबसे उत्तम जीतनेवाले हैं, विराणियोंमें परम विराणी हैं, रक्षक हैं और ईश्वरोंमें महेश्वर हैं ॥ ७० ॥ जिसप्रकार सूर्यको दीपक चढाते हैं समुद्रको जलांजलि देते हैं और बनस्पतिको पुष्प चढ़ाते हैं उसी प्रकार यह हमारा आपको बोध कराना है ॥ ७१ ॥ आप पहिलेके तीन ज्ञानरूपी (मति श्रुत अबधि) नेत्रोंसे समस्त हेय उपादेयको जानते हैं गुणदोषोंको जानते है और बन्ध मोक्ष तथा संसारको जानते हैं ॥ ७२ ॥ आप अन्तरंग वहिरंग लक्ष्मीसे सुशोभित हैं अनंत गुणोंके स्वामी हैं मुक्तिके पति हैं जगतके बांधव हैं और सबके स्वामी हैं इसलिये मन वचन कायसे आपको नमस्कार है ॥ ७३ ॥ इसप्रकार भक्तिपूर्वक उन्होंने उन तीर्थकरका स्तवन किया, कल्प वृक्षके पुष्पोंसे तथा दिव्य गंधादिकसे उनकी पूजा की, मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया, अपना नियोग (कर्त्तव्य) पालन किया और महा पुण्य उपाजन कर वे आकाश मार्गसे अपने स्थान चले गये ॥ ७४-७५ ॥ इन्द्रोंके साथ साथ चतुर्निकायके देव अपने अपने चिन्होंसे तीर्थकरके दीचा कल्याणको जानकर बड़ी भक्तिसे आये दीचा धारण करनेके लिये उन्होंने बड़ी विभूतिसे उनका अभिषेक किया, तथा आभरणादिकोंसे उनकी पूजा की, ॥ ७६-७७ ॥ तदनन्तर उन घनरथ तीर्थकरने मेघरथका राज्यभिषेक किया, और अपनी विभूतिके साथ साथ बुद्धिमानोंको त्याग करने योग्य राज्य उनको समर्पण किया ॥ ७८ ॥ फिर वे भगवान अनेक प्रकारको शोभासे सुशोभित दिव्य पालकोंमें निराजमान होकर सब देवोंके साथ बनमें गये ॥ ७९ ॥ वहां जाकर उन भगवानने मन वचन कायकी शुद्धि और सिद्ध भगवानकी साक्षी पूर्वक वज्रादिक बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया और मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रहोंका त्याग किया ॥ ८० ॥ उन्होंने मस्तक पर पंचमुष्टि लोंच किया और इन्द्रोंके द्वारा की हुई पूजासे पूज्य होकर उत्तम संयम धारण किया ॥ ८१ ॥ वे जितेंद्रिय बुद्धिमान भगवान मन वचन कायकी शुद्धि धारण करने लगे और क्षमा द्वारा कषायरूपी विषका नाश करने लगे ॥ ८२ ॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले उन धीर वीर भगवानने शुक्लेश्वर्या, महाध्यान और मौन-

ग्यारहवां अधिकार ।

मैं शांतिरूप गुणको प्राप्त करनेकेलिए संसारकी समस्त अशांतिको दूर करनेवाले और शांतिरूपी गुणके समुद्र ऐसे श्रीशांतिनाथकी मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा मेघरथ अपनी देवियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए अनेक वृक्षोंसे भरे हुए देवरमण नामके उद्यानमें गए ॥ २ ॥ वहाँ जाकर उन्होंने उस वनको देखा, क्रीड़ाकी और फिर अपनी देवियोंके साथ एक चंदकांत शिलापर विराजमान हुए ॥ ३ ॥ उसी समय कोई एक विद्याधर विमानमें बैठा हुआ उनके ऊपरसे जा रहा था परन्तु उनके ऊपरसे जानेके कारण वह विमान रुक गया और बड़े पथरके समान भारी होगया ॥४॥ विमानको रुका हुआ देखकर वह सब दिशाओंकी ओर देखने लगा और नीचेकी ओर किरणोंसे व्याप्त और राजा मेघरथसे शोभायमान एक शिला देखी ॥ ५ ॥ उसे देखते ही वह उस शिलाके नीचे धुस गया और अपनी विद्यासे क्रोधपूर्वक अपने हाथसे ही उसे जबरदस्ती उठानेका प्रयत्न करने लगा ॥ ६ ॥ तब राजा मेघरथने उस शिलाको अपने पैरके अग्रगूठेसे दावकर उसी समय उस विद्याधरको दबाया, दुखी किया ॥ ७ ॥ पैरके दबानेसे उस शिलाका बोझ उस विद्याधरपर बहुत पड़ा वह उस दुखको सह नहीं सका इसलिये कातर होकर दीन मनुष्यके समान शीघ्र ही करुणा भरे शब्दोंमें रोने लगा ॥ ८ ॥ उसके रोनेकी आवाज सुनकर विद्याधरी विमानसे उतरी शोकसे उसका मुख सूख गया और वह महाराज मेघरथसे कहने लगी ॥ ९ ॥ कि हे नाथ ! मुझपर दया कीजिए । हे प्रभो ! इस मेरे पतिको छोड़िए और शीघ्र ही मुझे पतिकी भीख दीजिए, नहीं तो आज मैं अनाथ हो जाऊंगी ॥ १० ॥ उस विद्याधरीकी यह बात सुनकर धर्मात्मा मेघरथने कृपा पूर्वक उसी समय उस शिलासे अपना पैर उठा लिया ॥ ११ ॥ यह सब देखकर रानी प्रियमित्रा कहने लगी कि हे नाथ ! यह विद्याधर कौन है ? और इसने ऐसा क्यों किया ? ॥ १२ ॥ तब राजा मेघरथ कहने लगे कि हे भार्ये ! तू अपना चित्त एकाग्र कर सुन, मैं इस विद्याधरकी

क्रोध और अहंकारसे उत्पन्न होनेवाली कथा कहता हूं ॥१३॥ इसी मनोहर विजयाह्न पर्वतपरकी अलकापुरी

पुण्य

नगरीमें राजा विद्युदंष्ट्र राज्य करता था उसकी सुन्दर रानीका नाम अनिलवेगा था ॥ १४ ॥ उन दोनोंका

क्रोध और अहंकारसे उत्पन्न होनेवाली कथा कहता हूं ॥१३॥ इसी मनोहर विजयाह्न पर्वतपरकी अलकापुरी

नगरीमें राजा विद्युदंष्ट्र राज्य करता था उसकी सुन्दर रानीका नाम अनिलवेगा था ॥ १४ ॥ उन दोनोंका क्रोध और अहंकारसे उत्पन्न होनेवाले श्रीअमिताह्न तीर्थकरकी बन्दना यह सिंहस्थ नामका पुत्र है । आज यह केवल ज्ञानसे विभूषित होनेवाले श्रीअमिताह्न तीर्थकरकी बन्दना यह सिंहस्थ नामका पुत्र है । आज यह केवल ज्ञानसे विभूषित होनेवाले श्रीअमिताह्न तीर्थकरकी बन्दना

यह सिंहस्थ नामका पुत्र है । आज यह केवल ज्ञानसे विभूषित होनेवाले श्रीअमिताह्न तीर्थकरकी बन्दना यह सिंहस्थ नामका पुत्र है । आज यह केवल ज्ञानसे विभूषित होनेवाले श्रीअमिताह्न तीर्थकरकी बन्दना

करके लौटा है । आकाशमार्गसे मेरे ऊपर होकर जा रहा था परन्तु किसी कारणसे आकाशमें ही इसका

१६५

गान्धि

१६५

विमान रुक गया ॥ १५-१६ ॥

विमानको रुका हुआ देखकर सब ओर देखने लगा, मुझे देखकर अभिमान और क्रोधसे इस शिल्पके

नीचे घुस गया और इस शिलासहित मुझे उठानेका प्रयत्न करने लगा ॥ १७ ॥ तब मैंने इस कुमार्गगा-

मीको अपने अंगूठे से दबाया । इसको छुड़ानेके लिए यह इसकी स्त्री आई है इसप्रकार राजा मेघस्थने उस

विद्याधरकी कथा सुनाई ॥ १८ ॥ यह सुनकर प्रियमित्रा बोली कि इसके क्रोधका कारण यही है या और

कुछ है ? यह भी आप बतलाईये ॥ १६ ॥ इसके उत्तरमें राजा मेघस्थ कहने लगे कि इसके क्रोधका कारण

यही है और कुछ नहीं है मैं इस विद्याधरके पूर्व भव कहता हूं तु सुन ॥ २० ॥ धातकीबंड द्वीपमें पूर्व मेरुके

उत्तर दिशाकी ओर मनोहर ऐरावत क्षेत्र है उसमें एक शंखपुर नगर है जो जैनधर्मके उत्सवोंसे शोभाय-

मान है । उसमें पुण्यकर्मके उदयसे शुद्ध हृदयवाला राजा राजगुप्त राज्य करता था ॥ २१-२२ ॥ उसकी

सदाचारिणी रानीका नाम शंखिका था । किसी एक दिन वे दोनों मुनिराजकी बन्दना करनेके लिए शंख

स्कार किया और धर्मश्रवण करनेके लिए भक्तिपूर्वक उनके चरणोंके समीप बैठ गये ॥ २४ ॥ मुनिराजने

मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अनेक सुखोंका समुद्र ऐसा मुनि और श्रावकोंका अहिंसा लक्षणरूप धर्मका स्वरूप

निरूपण किया ॥२५॥ तथा उन्होंने उन दोनोंके सामने सुबादेनेवाली जिनेन्द्र पदको प्रदान करनेवाली और सार

गुणसंपत्ति नामकी उपवासकी विधि कही ॥ २६ ॥ उस व्रतका नाम सुनकर राजाने उस मुनिराजसे पूछा कि

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

प्रभो ! वह व्रत किसप्रकारसे किया जाता है आप कृपाकर कहिये ॥ २७ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन्,

सुन—मैं जिनगुणसंपत्ति नामके शुभ व्रतको कहता हूँ ॥ २८ ॥ जो मनुष्य श्रीजिनेन्द्रदेवकी विभूति देनेवाले इस व्रतको मन वचन कायकी शुद्धतासे पालन करता है वह मनुष्य और देवोंके सुख भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष पद प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ पहिले जिनालयमें बड़े उत्सवसे भगवानका अभिषेक करना चाहिये और फिर भव्य जीवोंको विधिपूर्वक उसका विधान करना चाहिये ॥ ३० ॥ तीर्थकर पदको देनेवाले सोलह कारणोंको उद्देश्य कर बुद्धिमानोंको सोलह उपवास करने चाहिये । फिर पांचों महाकल्याणोंको उद्देश्यकर भक्तिपूर्वक सब कल्याणोंको करनेवाले पांच प्रोषधोपवास करने चाहिये फिर आठों प्रातिहार्योंका निमित्त लेकर भक्तिपूर्वक प्रातिहार्यादिककी विभूति देनेवाले आठ उपवास करने चाहिये ॥ ३१-३३ ॥ फिर जिनेन्द्रदेवकी विभूति देनेवाले चौतीस अतिशयोंको उद्देश्य कर भाजपूर्वक चौतीस उपवास करने चाहिये ॥ ३४ ॥ इसप्रकार भव्य जीवोंको अनेक सुख देनेवाले और कर्मोंको नाश करनेवाले सब प्रोषधोपवासोंकी संख्या तिरैसठ होती है ॥ ३५ ॥ इसप्रकार ब्रतोंके पूर्ण होनेपर बुद्धिमानोंको अपनी शक्तिके अनुसार भगवानका महाअभिषेक कर और धर्मोपकरण चढ़ाकर उद्यापन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ जिनके पास धन नहीं है अथवा किसी भी कारणसे जिनमें उद्यापन करनेकी शक्ति नहीं है उनको भक्तिपूर्वक अनेक सुख देनेवाले इस उत्तम व्रतका विधान दूना करना चाहिए । और दूने प्रोषधोपवास करने चाहिए ॥ ३७ ॥ राजाने अपनी रानीके साथ एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक उस व्रतका पालन किया और अपनी शक्तिके अनुसार उसका उद्यापन किया ॥ ३८ ॥ मुनिराजकी बंदना करनेके बाद राजाने मुनिराजको नमस्कार किया, श्रावकके ब्रत स्वीकार किए और भक्तिपूर्वक ब्रतोंको लेकर प्रसन्न होकर अपने घर गया ॥ ३९ ॥ किसी एक दिन द्वारापेक्षण करते हुए राजाने स्वयं आए हुए और गुणोंके घर ऐसे धृतिषेण मुनिके दर्शन किए, भक्तिपूर्वक उनका प्रतिगाहन किया, और सुखका सागर, तृप्ति करनेवाला, मिष्ट, रसीला, और और सारभूत शुद्ध आहार दिया ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय प्राप्त हुए पुण्य कर्मके उदयसे उसके घर रत्नवृष्टि आदि पंचाशचर्योंकी वर्षा हुई सो ठीक ही है सुदानसे क्या क्या प्राप्त नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ किसी एक दिन राजाको

यह सूर्य है, दशवां सुसम है, यह विद्युत्प्रभ है, यह नीलवाक है यह उत्तर कुल है, यह चन्द्र है, यह ऐरावत है और यह प्रसिद्ध माल्यवान् है ॥ ८-१० ॥ इनमेंसे पहिलेके छह सरोवरोंपर (सरोवरोंमें कमलोंपर बने हुए भवनोंमें) श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ये छह व्यंतरी देवी रहती हैं। ये व्यंतरी सौधर्म और ऐसान इन्द्रकी नियोगिनी हैं। वाकीके सरोवरोंमें उसी नामके नागकुमार देव सदा निवास करते हैं। हे महामित्र ! अब मैं आपको दर्शनीय वजार पर्वत दिखलाता हूँ ॥ ११-१२ ॥ यह चित्रकूट वक्षार पर्वत है, यह पद्मकूट है, यह नलिन है, यह एकशैल है, यह त्रिकूट है, यह वैश्रवणकूट है, यह अंजन है, यह आत्मांजन है, यह शब्दवान् है, यह विष्णुतवान् है, यह आशीविष है, यह सुखावह है, यह चन्द्रमाल है, यह सूर्यमाल है, यह नागमाल है और यह देवमाल है। इसप्रकार ये सोलह वजार पर्वत हैं ॥ १३-१५ ॥ ये वक्षार पर्वत बहुत ऊंचे हैं क्षेत्रोंकी सीमाको विभक्त करनेवाले हैं एक एक पर्वतपर चार २ कूट हैं उनमेंसे एक एक कूटपर श्रीजिनमन्दिर शोभायमान हैं इसप्रकार ये वजार पर्वत बहुत ही मनोहर हैं ॥ १६ ॥ ये चार गजदंत हैं जो मेरु पर्वतसे विदिशाओंकी ओर चले गए हैं। गंधमादन, माल्यवान, विद्युत्प्रभ, और सौमनस इनका नाम है इनके शिखरपर अकृत्रिम जिनमंदिर शोभायमान हैं और ये बड़े ही अच्छे जान पड़ते हैं ॥ १७-१८ ॥ हृदा, हृदवती, पंकवती, तत्तजला, महोन्मत्तजला, क्षीरोदा, सीतोदा, श्रोतवाहिनी, भीरमालिनी, फेनमालिनी, ऊर्सिमालिनी ये वारह विभंगा नदी हैं ये विदेहके पृथक् पृथक् क्षेत्रोंकी सीमा- हैं। ऐ सुन्दर नदियां कुंडोंसे निकलकर महानदियोंमें गिरती हैं ॥ १९-२१ ॥ हे राजन् ! ये कच्छा, सुक- 1, महाकच्छा, कच्छकावती, आवती, लांगलावती, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सका- वती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखनलिनी, कुमूदा, सरिदा, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधावती, गंधमालिनी ये विदेहक्षेत्रके वत्तीस क्षेत्र हैं ए सदा बने रहते हैं, धर्मसे विभूषित रहते हैं और स्वर्ग मोक्षके कारण हैं ॥ २२-२६ ॥ हे महाभाग ! इधर देखिए धर्मात्मा लोगोंसे भरी हुई, बहुत ही शोभायमान और चक्रवर्तियोंके निवास करने योग्य ऐसी बत्ती-

स इन देशोंकी राजधानी हैं। चेसा, चेमपुरी, अरिस्टा, अरिस्टपुरी, खड्गा, मंजूबा, औपधि, पुयडरीकिया, सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभाकरी, अंकावती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंघपुरी, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या, अवध्या एे इनके नाम हैं। वचार पर्वत विभंगा नदी देश राजधानी आदि जो ऊपर बतलाए गए हैं वे सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वतसे लेकर प्रदक्षिणा रूपसे बतलाए गए हैं। इनके सिवाय राजा भेधरथने भूतारण्य देवारण्य आदि वन देखे, समुद्र देखे तथा मानुषोत्तर पर्वतके भीतर भीतरकी ओर भी सब चीजें उन्हींने स्वयं देखी और देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७-३४ ॥ उन्हींने उस-स सामग्री लेकर अकृत्रिम चैत्यालयोंकी पूजा की, बहुत देरतक भक्तिपूर्वक सैकड़ों स्तुतिओंसे उनकी स्तुति की और उनको नमस्कार किया ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार हृदयमें भक्तिको धारण करनेवाले उन राजा भेधरथने गणधरोंकी तीर्थकरोंकी और मुनियोंकी पूजा स्तुति की और अनेक प्रकारसे पुण्य उपार्जन किया ॥ ३६ ॥ इस प्रकार पैतालीस लाख योजन पूमाण मनुष्य क्षेत्रको देखकर और बहुतसा पुण्य उपार्जन कर राजा भेधरथ अपने नगरको लौट आए ॥ ३७ ॥ उन दोनों व्यंत्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर और सुन्दर मोती भेटकर राजाकी पूजा की और फिर वे अपने स्थानको चले गए ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य प्रत्युपकार उपकाररूपी समुद्रसे पार नहीं होता वह गंधरहित फूलके समान जीता हुआ भी निर्जीवके समान है ॥ ३९ ॥ जब सर्गोंके जीव ही इसप्रकार उपकारको जानते हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें क्यों धृन्ता रहता है यदि वह उपकार नहीं करसक्ता तो वह अवश्य ही दुष्ट है ॥ ४० ॥ अथानन्तर—किसी एक दिन काल लब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिकके लिये इसप्रकार विचार करने लगे ॥ ४१ ॥ कि देखो, यह जीव इस शरीरको इष्ट गालकर इसमें निवास करता है, यह शरीर विद्याका घर है और अत्यन्त धृणा करने योग्य है इस बातको यह नहीं जानता है। यह कितने बड़े दुखकी बात है ॥ ४२ ॥ देखो, अत्यन्त धृणा करने योग्य, निंध्य, शुक्र शोणितसे उत्पन्न हुआ सप्त धातुओंसे बना हुआ और समस्त अशुद्ध द्रव्यों

थे मानों बेलोंसे ढका हुआ कोई वृक्ष ही है ॥ ३५ ॥ इधर रत्नकंठ और रत्नायुध नामके अश्वघोषके पुत्र थे वे अपने पापकर्मके उदयसे संसारमें परिभ्रमण कर कुछ धर्मके सेवन करनेसे असुर (दयंतर) देव हुये थे अतिबल महाबल उनका नाम और वे बड़े ही दुष्ट थे । वे उन मुनिराजको देखकर पहले जन्मके बैरके संस्कारसे तथा पाप कर्मके उदयसे शरीरसे ममत्व छोड़ देनेवाले उन मुनिराजपर भयंकर उपसर्ग करने लगे ॥ ३६-३८ ॥ संसारमें जो मुनिराजकी निंदा करते हैं उनकी भव भवमें निंदा होती है तथा जो मुनिराजकी दुख देते हैं उन्हें नरकमें अनेक दुख होते हैं ॥ ३९ ॥ इतनेमें रंभा और तिलोत्तमा नामकी दो देवियां वहां आ पहुंची उन्होंने दुष्ट देवोंको समझाया कि इन मुनिराजका तपश्चरणाका बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है यदि अकस्मात् उन्हें भी क्रोध आ जाय तो फिर संसारमें ऐसा कौन है जो इनके सामने क्षणभर भी ठहर सके, इसप्रकार समझानेके बाद उन्होंने उन दोनोंको धमकाया उनकी ताड़नाकी और उन्हें रोका, इसप्रकार मुनिराजमें भक्ति रखनेवालीं उन दोनों दुष्टोंको रोका और दोनों लोकमें दुख देनेवाले पापोंसे डरकर वे दोनों देव कुछ पुराणकर्मके उदयसे अपने स्थानको चले गये ॥ ४०-४२ ॥ उन दोनों पुराणवती देवियोंने बड़ी भक्तिसे उन मुनिराजको नमस्कार किया स्वर्गलोकके पुष्य गंध आदि द्रव्योंसे उनकी पूजाकी और फिर वे स्वर्गको चली गईं ॥ ४३ ॥ देवों कहां तो वे देव और कहां वे देवियां ! पुराणसे क्या नहीं होता है संसारमें जो कुछ कठिन है, सार है और दुर्लभ है वह सब कुछ धर्मात्माओंको प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ अथानन्तर वजायुधके पुत्र सहस्रायुधको राज्य करते ही किसी कारणसे वैराग्य प्राप्त हुआ और वे संयोगुणका चिंतवन करने लगे ॥ ४५ ॥ वे अपने मनमें सरयुरोसे भरे हुए, पवित्र और मोक्ष प्राप्त करने तथा दान देनेमें चतुर ऐसे अपने कुलकर्मका चिंतवन करने लगे ॥ ४६ ॥ वे विचार करने लगे कि देवों भेरे यावा तीर्थंकर हैं । उन्होंने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त किया है और देव विधाधर मनुष्य आदि सब उनकी पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ भेरे पिता भी मोक्ष प्राप्त करनेके लिए चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको छोड़कर तथा संयम धारण कर प्रतिदिन कठिन धोर तपश्चरणा करते हैं ॥ ४८ ॥ अनंत सुवकी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग

विद्वानोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा धारणकर मेरे सामने ही बनको चले गए ॥१४॥ परन्तु मोहरूपी पिशा-
चसे घिरा हुआ, विषयोंसे अन्धा और नष्टबुद्धि में अवतक मीनके समान धररूपी जालमें जकड़ा हुआ पड़ा
हं ॥ ५० ॥ इस संसारमें इन श्रेष्ठ आत्माओंको जयतक कर्मोंके नाश होनेसे उत्पन्न होनेवाला अनन्त सुख
प्राप्त नहीं होता तबतक उन्हें सांसारिक सुखोंसे कभी तृप्ति नहीं होती ॥ ५१ ॥ मनुष्योंको चूधा रोगके
समय अथवा कामदहके समय अन्न और औषध लेकर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नहीं है किन्तु दुख
है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार कोई उन्मत्त जीव बुद्धिके भ्रमसे माताको भी स्त्री समझ लेता है
उसीप्रकार यह जीव अपनी बुद्धिके भ्रमसे बड़ी कठिनातासे प्राप्त होनेवाले, दुखसे उत्पन्न होनेवाले और आगे
भी दुख देनेवाले कामजन्य सुखको यह जीव सुख मान लेता है ॥ ५२-५३ ॥ जो सुख परार्थीन है, चंचल है
और विषयोंसे उत्पन्न हुआ है वह पशुओंने ही स्वीकार किया है फिर भला जानी लोग उसको इच्छा कैसे
करते हैं ॥ ५४ ॥ जो कामजन्य सुख है वह अनेक जीवोंका नाश करनेवाला है, रागसे परिपूर्ण है और परं-
परारूप नरकके दुखोंका कारण है, विद्वान लोगोंने भी उसे ऐसा ही माना है ॥ ५५ ॥ जो सुख विषयोंसे
रहित है अपने आत्मासे उत्पन्न हुआ है, स्त्री आदिसे रहित है, सदा रहनेवाला है और तपश्चरणसे उत्पन्न
हुआ है वह सुख मुनियोंके द्वारा मान्य गिना जाता है ॥ ५६ ॥ यदि वह अनन्त सुख कठिन तपश्चरणसे
भी मिल जाय तो फिर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो अत्यंत दुख देनेवाले सुखोंसे आत्माको विडंबित करे
॥ ५७ ॥ इसप्रकार चिंतन कर वे राजा सहस्त्राशुध काम्यराज आदि सबका त्यागकर अपने मतमें संयम
लेनेके लिए तैयार हुए ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिनकी इच्छा नष्ट हो गई है और संवेग गुणसे जिनका आत्मा
सुशोभित हो रहा है ऐस्से राजा सहस्त्राशुधने बड़ी विभूतिके साथ अपना राज्य शतबलको दिया ॥ ५९ ॥ इसके
पश्चात् पुराणकर्मके उदयसे वे राजा सहस्त्राशुध सब दोषोंसे रहित, धर्मके स्थान और कर्मोंके आश्रयसे रहित
ऐसे पिहिताश्रय मुनिके समीप पहुँचे ॥ ६० ॥ उन्होंने उन मुनिराजको मस्तक भुकाकर नमस्कार किया,
वाह्य अंतरंग परिग्रहका त्याग किया और दुखोंको नाश करनेवाली तथा मोक्ष देनेवाली उत्तम दीक्षा

धारणको ॥ ६१ ॥ वे सहश्रायुध मुनि रात दिन शरीरका क्लेश पहुँचाने वाला असह्य घोर तपश्चरण के लगे और अपने योगके अन्तमें वजायुध मुनिके समीप पहुँचें ॥ ६२ ॥ वे दोनों (वजायुध और सहस्त्रायुध) मुनिराज कातर लोगोको भय उत्पन्न करनेवाला और कठिन तपश्चरणका पालनकर वैभार पर्वतपर पहुँचें ॥ ६३ ॥ उन्होँने अपने ज्ञानसे अपनी आयु थोड़ी बाकी समझकर समस्त आहार और शरीरसे ममत्व छोड़कर सत्यास धारण किया ॥ ६४ ॥ उन दोनों मुनियोंने उत्तम क्षमा संतोष आदिको तलवार पनाकर कर्माँमें रियतिबन्ध करनेवाले कषायरूपी शत्रुओंका निग्रह किया ॥ ६५ ॥ उन्होँने जन्म पर्यंत धारण किए हुए घोर और कठिन प्रोषधोपवासोँसे तथा शीत उष्ण आदिके सब तरहके दुख देनेवाले घोर परीषहोँसे अपने शरीरको रुधिर मोससे रहितकेवल हड्डी और चमड़ेसे ढका हुआ सूका, भयानक, क्रश और इंसलिये बहुल छोटा बना दिया था ॥ ६६-६७ ॥ वे दोनों ही मुनि सब दोषोँसे रहित और मुक्तिरूपी पुत्रीकी माताएँ ऐसी दर्शन ज्ञान आदि चारोँ उत्तम आराधन करते थे ॥ ६८ ॥ वे दोनों ही चतुर मुनि अशुभ ध्यानोंको छोड़कर कभी तो एकप्रय चिन्तसे श्रीजिनेंद्रदेवका ध्यान करते थे और कभी अपने आत्मका ध्यान करते थे ॥ ६९ ॥ उन्होँने शरीर रहित पद (सिद्धपद) प्राप्त करनेके लिए सब प्रकारके दुखोंका निधान और फिर भी शरीरका कारण ऐसा अपने शरीरका समत्व सर्वथा छोड़ दिया था ॥ ७० ॥ उन्होँने वैराग्यसे भरा हुआ अपना मन श्रेष्ठ धर्म ध्यानके द्वारा मरण पर्यंत अपने आत्मध्यानमें सर्वथा लगाया था ॥ ७१ ॥ इसप्रकार पूर्ण प्रयत्न और पूर्णसमाधिके साथ रत्नराजको शुद्धकर उन्होँने सूक्ष्म जीवोंको अभय देनेवाले अपने प्राण छोड़े थे और धर्मके प्रभावसे ऊर्ध्व यैवैयकके सुखके सागर ऐसे सौमनस नामके अथो विमानमें वे दोनों ही अहमिन्द्र हुए ॥ ७२-७३ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र शुद्ध स्फटिकके समान रत्नोंके बने हुये अनेक ऋद्धियोंसे परिपूर्ण ऐसे उत्पाद यह नामके विमानमें दो शिलाओंके बीच मणियोंसे जड़े हुए सोनेके आसनपर (पलंगपर) उत्पन्न हुए थे, और अन्तर्मुहूर्तमें ही चौवन अवस्थाको प्राप्त हो गए थे ॥ ७४-७५ ॥ उत्पन्न होते समय वे दिव्यमाला और वज्र पहिने हुए थे और सब आभूषणोँसे सुशोभित थे उत्पन्न होते ही वे उठकर

बैठ गये और सब दिशाओं को देखने लगे ॥ ७६ ॥ वे देखने लगे कि सब तरहके रत्नों के बने हुए बड़े ऊंचे चैत्यालय हैं बड़े अच्छे घर हैं और सब ऋतुओं में सुख देनेवाली संसारमें सारभूत बड़ी २ ऋद्धियां हैं ॥७७॥ उन्होंने तेजके समूहके समान अथवा धर्मोदयके समान सब अहिमिन्द्रों को एकसा देखा उसी समय बड़ी ऋद्धिको धारण करनेवाले उन दोनों को अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७८ ॥ उस अवधिज्ञानसे उन्होंने अपने पहले भवके सब समाचार जान लिए तथा तप और ज्ञानका उत्तम फल भी जान लिया, तदनंतर उन दोनों ने जिनालयमें जाकर अनेक प्रकारसे भगवानकी पूजा की ॥ ७९ ॥ इसके परचात् वे दोनों ही अहमिन्द्र धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए प्रवीचाररहित, तृप्ति करनेवाले और आत्मामें अनुभव होनेवाले अनेक प्रकारके सुख भोगने लगे ॥ ८० ॥ स्वर्गों में देवों को देवांगनाओं से जो सुख प्राप्त होता है उससे बहुत ही अधिक है, सबका समान पद रहता है, भोगों प्रभोग आदि सामग्री समान होती है, विमानों की ऋद्धियां समान होती हैं मान सन्मान सब समान होता है, सब परस्पर प्रेम रखते हैं सबके हृदय शुद्ध रहते हैं, होनाधिक पद किसीका नहीं होता और सबके हृदयमें प्रेम रहता है ॥ ८२-८३ ॥ मैं इन्द्र हूं, मैं ही इन्द्र हूं, मेरे सिवाय और कोई इन्द्र नहीं है इसप्रकार मानकर वे अपने हृदयमें सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं ॥ ८४ ॥ सब अहमिन्द्रों की बेश्या शुद्ध रहती है, वे सब उपमारहित होते हैं, और विषाद तथा मदसे सब रहित होते हैं इसप्रकार वे सब अहमिन्द्र समान ही होते हैं ॥ ८५ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र कभी तो दूसरे अहमिन्द्रों के साथ रत्नजायको प्रगट करनेवाली धर्मको सूचित करनेवाली और शुभकर्मोंका वंध करनेवाली गोष्ठी वा धर्मचर्चा करते थे कभी अवधिज्ञानसे भगवानके कल्याणों को जानकर उस पदको (तीर्थंकर पदको) प्राप्त करनेके लिए बड़ी भक्तिसे अपने स्थानपर बैठ ही मस्तक भुक्ताकर नमस्कार करते थे ॥८६-८७॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र पूसदा होकर अपने विमानके जिनालयमें सदा श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन करते रहते थे ॥ ८८ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र कामरूपी अग्निके दाहसे रहित थे कही आने जानेकी इच्छा उन्हें थी

ही नहीं और आत्मासे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके मनको प्रसन्न करनेवाले सुख भोगते थे ॥ ८६ ॥ उन्हें सातवीं पृथ्वीतक अथधिज्ञान था, वहींतक विक्रिया कृद्धि थी और वहीं तक प्रताप और गमन करनेकी शक्ति थी ॥ ९० ॥ उनका डेढ़ हाथका शरीर था, उनकी मूर्ति सौम्य थी, वे दोनों ही बड़े बलवान थे उनका सम चतुराजसंस्थान था और वे ऐसे जान पड़ते थे मानों पुण्यकास्यसूह ही हो ॥ ९१ ॥ उनकी उन्तीस सागरकी आयु थी, उन्हें कभी रोग होता था न क्लेश, न अनिष्ट संयोग होता था न इष्टवियोग ॥ ९२ ॥ उन्तीस हजार वर्ष धीत जानेपर वे तृप्त करनेवाला असृतमय मानसिक आहार करते थे ॥ ९३ ॥ उन्तीस पक्ष अर्थात् साढ़े चौदह महीने वीतनेपर सब दिशाओंको सुगंधिन करनेवाला उच्छ्वास लेते थे और इस प्रकार वे सुखके सागरमें डूबे हुए थे ॥ ९४ ॥ इसप्रकार धर्मके प्रभावसे वे दोनों ही अहमिन्द्र आत्मासे उत्पन्न हुए, रागरहित सब दोषोंसे रहित, स्वर्गके सुखोंसे उत्तम, उपसारहित, अत्यन्त सार और स्त्री आदिके समागमसे रहित सुखोंका सदा अनुभव किया करते थे ॥ ९५ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र तिस्रों कित आदि गुणोंसे परिपूर्ण तत्त्वोंका अज्ञान करते थे, भगवान अरहन्तदेवकी भक्ति करते थे, चारित्रधर्मका भावना करते थे, श्रुतज्ञानका पाठ करते थे, मुक्तिरूपी स्त्रोमें आसक्त रहते थे और धर्मके श्रेष्ठ गुणोंकी चर्चा किया करते थे ॥ ९६ ॥ वह चक्रवर्तीका जीव धारण किये हुए चारित्रके फलसे, घोर तपश्चरणसे सभ्यधर्यान ज्ञानके बलसे और शुद्धमनसे जो कुछ पहिले पुरण संव्य किया था उसके उदयसे पुत्रके साथ अहमिन्द्र हंकर उस विमानमें अत्यन्त निर्मल और सारभूत सुखका अनुभव करते थे यही समझकर बुद्धिमानोंको चारित्र धारण कर सदा धर्मको पालन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ बहुल कहनेसे क्या लाभ है सज्जनोंको मनुष्य जन्म और श्रेष्ठकुल पाकर बड़े प्रयत्नसे सब प्रकारके कल्याण देनेवाले धर्मका पालन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ संसारमें धर्म ही श्रेष्ठ पिता है, धर्म ही भाई है, धर्म ही परजनमकी माता है धर्म ही धन आदिके सुख देनेवाला है और धर्म ही जीवका हित करनेवाला है, आत्माके गुणोंको बढ़ानेवाला धर्मके सिवाय और कोई नहीं है ॥ ९९ ॥ श्रिजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ धर्म ही तीर्थकर पद देनेके लिये प्रबल कारण है, धर्म ही

चक्रवर्ती और इन्द्रकी विभूतिका हेतु है धर्म ही अनन्त सुख देनेवाला है और धर्म ही सबसे उत्तम है इस-
 लिये उत्तम पुरुष ही उस धर्मका पालन करते हैं ॥ ३०० ॥ संसारमें धर्म ही स्वर्गरूपी धरका आंगन है धर्म
 ही हित करनेवाला है, धर्म ही मोक्ष सुख देनेवाला है धर्म ही अनन्त गुणोंका समुद्र है श्रीजिनेन्द्रदेव भी
 इसका सेवन करते हैं यह धर्म चारित्रिको धारण करनेसे प्रगट होता है और सवतरहके पापोंको नाश कर-
 नेवाला है । जो बुद्धिमान रातदिन इस धर्मका पालन करते हैं मोक्ष भी उनकी रक्षी हो जाती है, फिर भला
 स्वर्गका लक्ष्मीको तो बात ही क्या है ॥ ३०१ ॥ श्री शांतिनाथ भगवान उत्तमक्षमा आदि शांत गुणोंको
 धारण करनेवालोंको शांति करनेवाले हैं, शांतिके स्थान हैं शांतिको धारण करनेवाले है, एक शांतिरूपी रसमें
 ही डूबे हुए हैं, अत्यन्त निर्मल हैं, अशुभकर्मोंको शांत करनेवाले हैं धीर वीर हैं अशांतिको दूर करनेवाले
 और मोक्ष प्राप्त करनेवालोंको दुष्ट लोगोंके द्वारा प्राप्त हुए धर्मके विघ्नोमें सब तरहकी शांति करनेवाले हैं ।
 ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको मैं नमस्कार करता हूं ।

इसप्रकार शांतिनाथ पुराणमें अहमिन्द्र भवका निरूपण करनेवाला नवमा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

दशवां अधिकार ।

मैं अपने अशुभ कर्मोंको शांत करनेके लिये विघ्नोको दूर करनेवाले, समस्त संसारको शांति देनेवाले,
 कर्मरूप शत्रुओंके समूहको शांति करनेवाले और समस्त संसार जिन्हें नमस्कार करता है ऐसे श्रीशांतिनाथ
 भगवानको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ अथानन्तर—जम्बू वृक्षसे सुशोभित ऐसे जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र
 में एक पुष्कलावती नामका देश है ॥ २ ॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले देव भी मोक्षपद पानेके लिए उस
 देशमें जन्म लेनेके लिये लाजायित रहते हैं ॥ ३ ॥ उस देशमें भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिये और
 तीर्थ यात्राके करनेकेलिये धीर वीर दयालु मुनि सदा विहार करते रहते हैं ॥ ४ ॥ उस देशमें बिना जिनालयके
 न ग्राम थे न द्वीप थे न खेट थे न सटवं थे न कर्कट थे और न पत्तन थे ॥ ५ ॥ वहांपर भोगोपभोगोंसे

द्यों से श्रीकनकश्यांति जिनराजकी अनेक प्रकारसे पूजा की, उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दी और उन्हें नमस्कार-
 र किया ॥ ५६-५७ ॥ अपने पोतेको (पुत्रके पुत्रको) केवलज्ञानकी प्राप्ति सुनकर वज्रायुध चक्रवर्तीने आनन्द
 नाभक गंभीर भरी दिल्हाई ॥ ५८ ॥ वे चक्रवर्ती पूसन्नचित्त होकर अपने रणबालके साथ, सेनाके साथ
 और भाई बंधुओंके साथ पूजा करनेकेलिए उन जिनराजके समीप पहुँचे ॥ ५९ ॥ उन्होंने वहाँ पहुँचकर
 उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दी, मस्तक भुकाकर उन्हें नमस्कार किया, पूजाकी और फिर बड़ी शक्तिसे उन
 जिनराजकी स्तुतिकरना प्रारम्भ किया ॥ ६० ॥ हे देव । हे जिनाधीश । आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं इस-
 लिए आपकी जय हो, आप तीनों लोकोंमें बुद्धिको प्राप्त होनेतक बराबर बहते रहें ॥ ६१ ॥ हे नाथ । आप
 तीनों लोकोंके स्वामी हैं, हे स्वामिन् । आप बुद्धिभावोंमें भी गुरु हैं आप मनुष्योंके विना ही कारणके हित
 करनेवाले भाई हैं और आप ही उनकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ६२ ॥ हे प्रभो । तीनों लोकोंके स्वामी इन्द्रादि
 भ्रा मस्तक भुकाकर आपको नमस्कार करते हैं और अपने आत्मका हित चाहनेवाले मुनिराज भी आपके
 दोनों चरण कमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ६३ ॥ हे देव । यह पापी कामदेव बड़ा ही पहलवान है, इस दुष्टने
 तीनों लोक जीत लिए हैं परन्तु आपने ब्रह्मचर्यरूपी प्रबल शस्त्रसे बालकपनमें ही इसे जीत लिया है ॥ ६४ ॥
 हे भगवान् । सज्जन लोग आपकी सेवा करते हैं भव्य जीवोंको आप शरण देनेवाले हैं मुक्तिरूपी रत्नी आपपर
 आसक्त है और भर्ताय्वर लोग सदा आपकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६५ ॥ हे देवोंके द्वारा पूज्य । आपने बालक-
 पनमें ही चारित्ररूपी तलवार लेकर तीनों लोकोंको जीतनेवाले और अत्यन्त अर्थकर ऐसे नाइरूपी महाशत्रुको
 मारडाला ॥ ६६ ॥ हे जगन्नाथ । आपका गुरुरूपी महासागर अमन्त है उसका इन्द्र अथवा अत्यन्त बृह-
 मान विद्वान् कोई भी पार नहीं कर सकता और न कोई आपकी स्तुति कर सकता है ॥ ६७ ॥ इसलिये हे
 देव आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रसन्न हूजिए और धर्मोपदेश दीजिए, मैं संसारसे डरकर आपके चरणकमलों
 की शरण आया हूँ ॥ ६८ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर वे चक्रवर्ती धर्म श्रवण करनेके लिए उनके चरणोंमें दृष्टि
 रखकर उनके चरणोंके समीप बैठगए ॥ ६९ ॥ तदनन्तर वे जिनराज कृपापूर्वक अपने बाधाका उपकार करने

कर्मके उद्देश्यसे उस मूर्खने उपसर्ग करना प्रारम्भ किया ॥ ४४ ॥ शरीरसे ममत्व न रखनेवाले उन मुनिराज पर उस दुष्टने कातर लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाला अत्यन्त घोर और असह्य उपसर्ग करना प्रारम्भ किया ॥ ४५ ॥ उसने दुःख देनेवाली ताड़नाकी, धर्माच्छेद करनेवाले कड़वे, और विकार उत्पन्न करनेवाले दुर्ब-
 और संकल्प विकल्पोंसे रहित ऐसे अपने चित्तको शरीरसे अलग कर आत्मध्यानमें लगाया ॥ ४६ ॥ परन्तु उन मुनिराजने संवेग गुणसे सुगंधित हुए स्थिर कर उन्होंने तीव्र परीषद्को जीता और मृत्युके भयसे रहित होकर वे मेरु पर्वतके समान निरचल विराजमान हुए ॥ ४८ ॥ उन्होंने उसपर क्रोध न कर उत्तम क्षमा धारण की और वे संवर धारण कर अप्र-
 और एकत्व वितर्क शुकृध्यानरूपी तलवारसे वाकीके घातिया कर्मोंको नाश किया ॥ ५० ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने उसीसमय समस्त संसारको दिखलानेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि क्षमा राजोंको किसी दुष्ट शत्रु पर भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए १ अर्थात् सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ इसलिये मुनि-
 क्षमा धारण करना चाहिए ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार बिना तुण्डके रथानमें पड़ी हुई अभिन उष्यर्ष हो जाती है उ-
 स्वीप्रकार वह विद्यधर भी उष्यर्ष हो गया कुछ न कर सका सो ठीक ही है क्योंकि जिनके कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता उनका दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं ॥ ५३ ॥

मुनिराज कनकशांतिको केवलज्ञान प्राप्त होनेसे उनकी पूजाकेलिये सब देव आए उन्हें देखकर वह पापी डरगया, भयसे उसका स्वयं शरीर कांपने लगा और वह वैरभाव छोड़कर भठ्य जीवोंके रक्षा करनेवाले और तीनों लोकोंके स्वामी ऐसे उन्हीं अरहंतदेवके शरण आया सो ठीक ही है क्योंकि नीचोंकी वृत्ति ही ऐसी होती है ॥ ५४-५५ ॥ तदनन्तर जय जय शब्दोंसे कोलाहल करत हुए बहुतसे बाजि बजाते हुए और पूजाकी सामग्री लिए हुए इन्द्रादि अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ आए, उन्होंने बड़ी भक्तिसे स्वर्ग लोकके द्र-

निश्चय नयसे इस ङ्ग (जिनिधर्म) तथा गणधर केवलज्ञानी और मुनिराज प्रातिदिन विहार करते रहते हैं । परन्तु सप्त और मोक्षमार्ग सदा बना रहता है अंग पूर्वरूप श्रुतज्ञान सदा रहता है जिना- है । इत्यादि सदा रत्नसंचयपुर नामका नगर है ॥ २५ ॥ इत्यादि अनेक गुणों से भरे हुए उस देशमें न आदि चौदह रत्नोंसे, चैत्यालयके शिखरोंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे अनेक गुण रत्नोंसे ब्रान- दरावाजोंपर लगे हुए रत्नोंसे और वाजारोंमें जौहरियोंके द्वारा किए हुए रत्नोंके ढेरोंसे रातदिन शोभाय- न रहता है ॥ २७—२८ ॥ उस नगरमें मनुष्योंके पुण्यकर्मके उदयसे पुत्ररूप रत्न, जवाहरात, और सम्यग्द- र आदि रत्नोंका समूह सदा बना रहता है इसीलिये उस नगरका सार्थक नाम रत्नसंचयपुर है वह नगर- समाने रत्नोंके कुलपहके समान सदा सुशोभित रहता है ॥ ३०—३१ ॥ स्वर्गके समान वह अक्रान्तिम- उत्सर्गपूजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा सदा शोभायमान रहता है ॥ ३२ ॥ उसके कोटमें जिनसे गांकी किरणों छूट रही हैं, जिनपर दारपाल (पहरेदार) बैठे हुए हैं ऐसे ऊंचे और मनोहर दरवाजे एक- क लोगोंसे भरे हुए, बड़ी शोभा करनेवाले और सदा एकसे रहनेवाले ऐसे एक हजार चौपाये हैं ॥ ३४ ॥ प्रकार हाथी घोड़े रथ पदाति आदि लोगोंसे भरे हुए बाराह हजार मार्ग हैं ॥ ३६ ॥ उस नगरमें कितने ही लय रत्नमय हैं कितने ही सुवर्णमय हैं, कितने ही शुद्ध स्फटिकके समान हैं और कितने ही वैदूर्यमणि- तान हैं ॥ ३७ ॥ वे चैत्यालय ऊंचे हैं अनेक प्रकारके हैं नृत्य गीतके शब्दोंसे शब्दायमान रहते हैं, लगी हुई ध्वजाओंसे शोभायमान हैं और मनुष्य विधियों से सदा भरे रहते हैं ॥ ३८ ॥ वे जिना- के समूहसे व्याप्त रहते हैं, बाजे गाजेके शब्दोंसे गर्जना करते रहते हैं और सैकड़ों प्रतिमाओंसे नगरके समान जान पड़ते हैं ॥ ३९ ॥ उन चैत्यालयोंमें श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजा होके

यह जीव सर्वव्यापी है अथवा तिलके बारीक छिलकेके समान सूक्ष्म है ? वह जानी है अथवा जड़ है ? आप इन सब बातों का निरूपण कीजिये ॥ ८३ ॥ उस देवकी इन बातोंको सुनकर वह वक्ता राजा वज्र-तु अपने मनको निश्चलकर सुन । मैं जीवादि पदार्थोंका लक्षण पत्रपातरहित कहता हूं ॥ ८५ ॥ यदि जीव को चार्णिक माना जाय तो पुण्य पापका फल चिंता आदिसे उत्पन्न होनेवाला कार्य, चोरी आदि विचार पूर्वक किए हुए कार्य, ज्ञान चारित्र आदिका अनुष्ठान और कठिन तपश्चरण आदि कुछ भी नहीं बन सकेंगे तथा शिष्योंको अन्य जीवोंसे ज्ञानकी प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी ॥ ८६-८७ ॥ यदि जीवको सर्वथा नित्य माना जाय तो कर्मोंका बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं बन सकेगा ॥ ८८ ॥ इत्यादि दोषोंके भयसे बुद्धिमान पुरुषोंको परीक्षाकर एकान्तसे दूषित सब मर्तोंके पक्षोंको दूरसे ही त्याग कर देना चाहिए ॥ ८९ ॥ स्वरूपको सूचित करनेवाला है और नयोंसे कथन करनेवाला है ॥ ९० ॥ व्यवहार नयसे यह जीव अनित्य है क्योंकि जन्म मरण बुढ़ापा रोग आदि सहित है और कर्मोंसे बंधा हुआ है ॥ ९१ ॥ तथा परमार्थनयसे (निश्चय नयसे) यह जीव सदा नित्य है क्योंकि निश्चयसे यह जीव जन्म मरण बुढ़ापा बंध मोक्ष संसार आदि सबसे रहित है ॥ ९२ ॥ त्याग करने योग्य उपचरितासद्भूत (व्यवहार) नयकी अपेक्षासे यह जीव शरीर कर्मोंका कर्ता है तथा घट पट आदि सांसारिक कार्योंका कर्ता है । अशुद्ध निश्चय नयसे यह जीव रागादि भावों का कर्ता है । परन्तु शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे न तो यह कर्मोंका कर्ता है न रागादि भावोंका कर्ता है ॥ ९३-९४ ॥ व्यवहार नयसे यह जीव सुख दुख देनेवाले कर्मोंके फलको सदा भोगता है परन्तु निश्चय नयसे किसीका भोक्ता नहीं है ॥ ९५ ॥ पर्यायार्थिक नयसे जो जीव कर्मोंको करता है वह उसके फलको नहीं भोगता किंतु दूसरे जन्म में उसकी दूसरी पर्याय ही उसके फलको भोगती है परन्तु निश्चय नयसे जो जीव कर्मोंको करता वही उसके सुख दुख फलको भोगता है अन्य कोई नहीं भोगता ॥ ९६-९७ ॥

स्त्री स्त्री श्रीतीर्थकर ऐसे मनुष्य रत्नों को उपन्न करती है वह स्त्री सर्वोत्तम है अन्य नहीं ॥ २४ ॥ फिर देवियों ने पूछा कि हे देवी ! आपके समान और स्त्री कौन है माताने उत्तर दिया कि जो स्त्री संसारके समस्त जीवों का उपकार करनेवाले तीर्थ करको उपन्न करती है वह स्त्री मेरे समान है ॥ २५ ॥ इसप्रकार देवियों ने जो कुछ पूछा वही गर्भमें विराजमान भगवान तीर्थ करके माहत्म्यसे उस महादेवीने तुरंत ही बतला दिया ॥ २६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि जो नित्यस्त्रीमें आसक्त है और इसीलिए जो कामी है विरक्त बुद्धिवाला नहीं है जो लोभरहित होकर भी अत्यन्त लोभी है, और कभी स्नान न करनेपर भी पवित्र रहता है वह कौन है ! (यह प्रहेलिका वा पहेली है इसका अर्थ कहीं मिला तो है नहीं परन्तु जो इस समय सूझ रहा है वह यद् है—जो नित्यस्त्री अर्थात् मोक्षस्त्रीमें आसक्त है इसलिए जो कामी अर्थात् काम—अभीष्ट पदार्थ, उसको सिद्ध करनेवाला है और विरक्त अर्थात् विशेष रक्त-रगद्रव्युक्त बुद्धिवाला नहीं है जो लोभरहित होनेपर भी मोक्षकी इच्छा रखता है और कभी स्नान न करनेपर भी सदा पवित्र रहता है वह मुनि है) ॥ २७ ॥ हे देवी ! तू अपना चित्त हरिहर आदिसे अलग रख क्यों कि तीन पदको धारण करनेवाले भगवान् शांतिनाथमें ही तेरा हृदय व्याप्त हो रहा है और वे भगवान् आपके गर्भमें आये हैं इसीलिए लोग आपको परमपवित्र कहते हैं (यह क्रियागुप्त श्लोक है) हे जननी संसारके अखिल जन तेरे लङ्केंकी ही जय कहते हैं ॥ २८ ॥ क्योंकि तेरा लङ्का अत्यंत सुकृती है गुणों का सागर है इंद्र नरेंद्र आदि निखिला जन उसकी स्तुति करते हैं और तीनों लोकोंके लोग उसकी आराधना करते हैं (यह निरोष्ठ्य-जिसमें ओठ न लगे, श्लोक है और अर्थ भी निरोष्ठ्य अक्षरों में ही लिखा गया है) ॥ २९ ॥ हे जननी ! तेरा लङ्का अखिल शत्रुओं का नाशक है, सब्जनों का रक्षक है ऋषि सरोजोंके लिये सूर्य है और तीर्थका कर्ता है ॥ ३० ॥ (यह निरोष्ठ्य है और अर्थ केअक्षर भी निरोष्ठ्य हैं) हे देवी भगवान् जिनेंद्र देव तीनों लोकोंके स्वामी हैं और तीनों लोकोंका हित करनेवाले हैं इसलिये सब इंद्र देवोंके साथ उनकी सेवा करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥ (यह विन्दुमान श्लोक है) हे देवी तेरा पुत्र वैदीप्यमान लक्ष्णोंके समूहसे शोभायमान है समस्त देवोंके द्वारा

पूज्य है और तीनों लोकों को पालन करनेमें तत्पर है ॥ ३३ ॥ (यह विन्दुच्युतक श्लोक है) इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा कहे हुए कठिन श्लोकों को भी विशेषरीतिसे जानती हुई वह महा देवी बहुत ही सुखसे समय व्यतीत करती थी ॥ ३३ ॥ वह महादेवी अपने उदरमें तीन ज्ञानको धारण करनेवाले तीर्थकरको धारण कर रही थी इसलिये समस्त ज्ञानमें वह स्वभावसे ही धीरता धारण कर रही थी ॥ ३४ ॥ जिसप्रकार प्रातःकालके समय गर्भमें देदीप्यमान सूर्यको धारण करती हुई पूर्व दिशा शोभायमान होती है उसीप्रकार अपने गर्भमें कांतिसे अत्यंत देदीप्यमान अद्भुत तीर्थकर बालकको धारण करती हुई महादेवी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार गर्भमें (मध्यभागमें) रत्न रहनेसे पृथ्वी शोभायमान होती है उसीप्रकार तीनों पदोंसे सुशोभित होनेवाले तीर्थकरके गर्भमें आनसे उस महादेवीकी शोभा बहुत ही बढ़ गई थी ॥ ३६ ॥ वे भगवान तीर्थकर शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल थे, देवोंके द्वारा पूज्य थे और दयाकी मूर्ति थे इसीलिये उदरमें रहते हुए भी माताको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं हुई थी ॥ ३७ ॥ माताके कृश उदरमें कोई किसी प्रकारका प्रगट विकार नहीं हुआ था तथापि गर्भकी वृद्धि तो हुई थी यह केवल भगवानके तेजका ही प्रभाव था ॥ ३८ ॥ शची इन्द्रानी भी अपने पाप नाश करनेकेलिये देवियोंके साथ बड़े आदरसे द्विपकर पूज्य माताकी सेवा करती थी ॥ ३८ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ हैं थोड़ेसेमें इतना ही समझ लेना चाहिये कि वह माता तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय थी और तीनों लोकोंकी माता थी क्योंकि धर्म तीर्थको प्रगट करनेवाले तीर्थकरकी भी वह जननी थी ॥ ४० ॥ कुवेरने नौ महीने तक महाराज विरसेनके घर प्रतिदिन आकाशसे सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षाकी थी ॥ ४१ ॥ अथानन्तर—ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रातः कालके भरणी नक्षत्रमें शुभ सुहूर्त और शुभ लग्नमें जिसप्रकार पूर्व दिशा किरणोंको फैलाते हुए सूर्यको प्रगट करती है उसीप्रकार उस महासती ऐरादेवीने सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र तीनों लोकोंमें भरे हुए महा आनन्दके समूहके समान सुन्दर था, निर्मल तीनों श्रेष्ठ ज्ञान ही उसके निर्दोष नेत्र थे, वह पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान था, अपनी कांतिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था, भव्यरूपी कमलोंको प्रफु-

हो ॥ ६२ ॥ इस प्रकार वे दिक्कुमारियां बड़ी शीघ्रताके साथ माताकी सेवा कर रही थीं और गर्भमें आये भगवानके प्रभावसे माताकी शोभा और विभूति बहुतही बढ़ गई थी ॥ ६३ ॥ अधानन्तर-नौवां महीना समीप आनेपर वे देवियां विशेष कव्योंकी चर्चासे गर्भके भारको धारण करनेवाली उस महादेवीको प्रसन्न करती थीं ॥ ६४ ॥ निगूढ़ अर्थ (छिपा हुआ अर्थ) क्रियालुप्त (जिसमें क्रिया छिपी हो) विंदुच्युतक, मात्राच्युत, अक्षरच्युत, (जिनमें विंदुमाता अक्षर कम किया गया हो) आदि श्लोकोसे तथा अन्य भी कई प्रकारके श्लोकोसे वे देवियां माताको प्रसन्न करने लगीं ॥ ६५ ॥ देवियोंने पूछा कि इस संसारमें सत्पुरुष कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थोंको सिद्धकर मोक्षमें जा विराजमान हुआ है वही सत्पुरुष वा सज्जन है। उसके सिवाय अन्य कोई सज्जन नहीं है ॥ ६६ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि इस संसारमें कायर पुरुष कौन है ? माताने कहा कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थोंको सिद्ध नहीं करता वही कायर है अन्य कोई नहीं ॥ ६७ ॥ देवियोंने पूछा कि कौनसे मनुष्य सिंहके समान समझे जाते हैं उत्तरमें माताने कहा कि जो इन्द्रियोंके साथ साथ कामदेवरूपी दुर्हर हाथीको मार भगाते हैं वे ही मनुष्य सिंह कहलाते हैं। अन्य नहीं ॥ ६८ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें नीच पुरुष कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो मनुष्य सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र धर्म और तपको पाकर भी उन्हें छोड़ देते हैं वे विद्वानोंके द्वारा नीच कहलाते हैं ॥ ६९ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि विद्वान कौन हैं ? माताने कहा कि जो शास्त्रोंको जानकर पाप, मोह और बुरे काम नहीं करते हैं और विषयोंमें आसक्त नहीं होते हैं वे ही व्रती विद्वान कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ १०० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें मूर्ख कौन है ? माताने उत्तर दिया कि जो शास्त्रोंको जानते और मनन करते हुए भी पाप, मोह, इन्द्रियोंकी आसक्ति और कुमार्गको नहीं छोड़ते हैं वे ही संसारमें मूर्ख हैं ॥ १ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें जन्मके अन्ध कौन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो तीर्थकर परमद्वय, धर्मकण्य गुरु और शास्त्रोंके दर्शन नहीं करते वे जन्मांध हैं तथा जो कामांध हैं वे विशेषकर जन्मांध हैं ॥ २ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस

उन्हें रेशमी वस्त्र समर्पण करती थीं और कितनी ही देवियां उन्हें दिव्य मालाएं पहनाती थीं ॥ ७६ ॥ कितनी ही देवियां हाथको तलवार लेकर उठाये हुए बड़े प्रयत्नके साथ भगवानकी माताके शरीरकी रक्षा करनेमें लगी हुई थीं ॥ ८० ॥ कितनी ही देवियां सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए तथा अनेक लोगोंसे भरे हुए महाराजके आंगनमें पुष्पोंकी पागसे भरी हुई पृथ्वीको झाड़ रही थीं ॥ ८१ ॥ कितनी ही देवियां पृथिवीपर घिसे हुए चन्दनके छोटे दे रही थीं और कितनी ही देवियां सावधान होकर गीले कपड़ेसे उसे, पोंछ रही थीं ॥ ८२ ॥ कितनी ही देवियां माताके सामने रत्नोंके चूर्णसे स्वारितक रचना कर रही थीं (सांथिया निकाल रही थीं) और कितनी ही देवियां कल्पवृक्षोंके सुगंधित पुष्पोंकी उसे भेट दे रही थीं ॥ ८३ ॥ कितनी ही देवियां अपने शरीरको छिपाकर: आकाशमें खड़ी थीं और जोरसे कह रही थीं कि महादेवीकी रत्ना बड़े प्रयत्नसे करो ॥ ८४ ॥ कितनी ही देवियां चलते समय साथ चलती थीं, कितनी ही देवियां खड़े होनेपर आसन देती थीं और माताके बैठ जानेपर उसके चारों ओर बैठ जाती थीं ॥ ८५ ॥ इसप्रकार वे देवांगनायें पुराय संपादन करनेके लिये तीर्थंकरके गुणोंकी आश्रासे उस गर्भवती भगवानकी माताकी सेवा करती थीं ॥ ८६ ॥ चारों ओरके अन्धकारको दूर करती हुई कितनी ही देवांगनायें रात्रिमें अपने भवनोंमें दैदीप्यमान ज्योतिवाले उज्ज्वल मणियोंका प्रकाश करती थीं ॥ ८७ ॥ कितनी ही देवियां जलक्रीडा कराकर माताको सुख पहुंचाती थीं दूसरे दिन वनक्रीडा कराकर सुख पहुंचाती थीं और फिर किसी दिन कथा गोष्ठी कहकर माताको सुख पहुंचाती थीं ॥ ८८ ॥ कितनी ही देवियां उसके पुत्रके गुणोंको प्रगट करनेवाले और मनको प्रसन्न करनेवाले अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मधुर गीतोंसे माताको प्रसन्न करती थीं ॥ ८९ ॥ कितनी ही देवियां श्रेष्ठ गीतोंसे भिले हुए वीणा, शृङ्ग, वंशी आदि वाजोंसे तथा अनेक प्रकारकी तुरहियोंसे माताके मनको संतुष्ट करती थीं ॥ ९० ॥ कितनी ही देव गनाएं विक्रिया ऋद्धिसे होनेवाले तथा हाव भावोंसे भरे हुए रसीले और मनोहर नृत्योंसे माताको परम सुखी करती थीं ॥ ९१ ॥ इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेवासे वह माता ऐसी शोभायमान थी मानों संसार भरकी लक्ष्मी किसी तरह एक जगह ही आकर इकट्ठी हो गई

गुणी कौन हैं ? माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, और तपसे विभूषित है तथा मुक्तिरूपी स्त्रीके प्यारे हैं और आत्मका हित करनेवाले हैं वे गुणी कहलाते हैं ॥ १४ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निर्गुणी कौन हैं माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, दान, शील, तप और जितपूजासे रहित हैं वे अशुभ कार्य करनेवाले निर्गुणी कहलाते हैं ॥ १५ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि जन्म किन्का सफल है माताने कहा कि जिन धीर पुरुषों ने राजत्रयादिके द्वारा मोक्षको अपने हाथमें कर लिया है उन्हीका जन्म सफल है ॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निष्कल जन्म किन्का है माताने कहा कि जो तप चारित्र्य व्रत दान पूजा आदि नहीं करते उन्हींका जन्म इस संसारमें निष्कल समझना चाहिए ॥ १७ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि शीघ्र करने योग्य कार्य कौनसा है माताने कहा कि कर्मोंको नाश करनेवाले और संसारको पूर्ण करनेवाले तप, धर्म, व्रत, दान, पूजा, उपकार आदि कार्योंको बहुत शीघ्र कर डालना चाहिए ॥ १८ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि मनुष्यों के लिए कठिन शल्य क्या है माताने कहा कि जो जीव हिंसादिक पाप व अनाचारका सेवन स्वयं छिपकर करते हैं वही उनके लिये कठिन शल्यके समान चुभता रहता है ॥ १९ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि संसारमें अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य कौनसे हैं माताने उत्तर दिया कि जो कभी दूसरेकी निन्दा नहीं करते और आत्मध्यान अध्ययन आदि आत्मके कार्योंमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे ही मनुष्य संसारमें दुर्लभ हैं ॥ २० ॥ फिर देवियों ने पूछा कि पक्षपात कहां करना चाहिए माताने कहा कि धर्ममें, साधर्मि पुरुषोंमें शास्त्रमें जिन-प्रतिमामें जिनचैत्यालयमें और भगवान् जितेंद्रदेवके कहे हुए सत्यमार्गोंमें पक्षपात अवश्य करना चाहिए ॥ २१ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि मध्यस्थभाव कहां रखने चाहिये माताने कहा कि संसारमें जो पुरुष रागी है द्वेषी है, तीव्र मिथ्यात्वरूपी पिसाचसे जकड़ा हुआ है और दुष्ट है सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिये ॥ २२ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि दिन रात क्या चिन्तन करना चाहिए। माताने कहा कि रात दिन धर्मध्यान का चिन्तन करना चाहिए। संसारकी असराला, शास्त्रोंकी आज्ञा, मोक्ष, तप और रागको घटानेका सदा चिन्तन करते रहना चाहिए ॥ २३ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि इस संसारमें उत्तम स्त्री कौनसी है माताने कहा कि जो शीलवती

संसारमें बहिरे कौन हैं ? माताने कहा कि जो अरहंत देवके कहे हुए शास्त्रोंको तथा धर्मोपदेशके हितकारक वाक्योंको नहीं सुनते हैं वे ही बहिरे कहलाते हैं ॥ ३ ॥ इस संसारमें लंगड़े कौन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो आलसी न तो तीर्थयात्राको जाते हैं न किसी धर्मकार्यमें जाते हैं और न मुनियोंको नमस्कार करने जाते हैं वे ही लंगड़े गिने जाते हैं ॥ ४ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि गूंगे कौन हैं ? माताने कहा कि जो शास्त्रोंको जानते हुए भी समय पाकर हित मित और प्रिय बचन नहीं कहते हैं वे गूंगे कहलाते हैं देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें विवेकी कौन हैं ? माताने कहा कि जो देव, कुर्देव, धर्म, अधर्म, पात्र, अपात्र और शास्त्र कुशास्त्रका विचार करते हैं वे ही विवेकी हैं ॥ ६ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें अविवेकी कौन हैं ? माताने उत्तर दिया कि जो गुरु, कुगुरु, बंध, मोक्ष और पुण्यपापका विचार नहीं करते वे ही अविवेकी हैं ॥ ७ ॥ इस संसारमें धीर वीर कौन हैं माताने कहा कि जो काम इन्द्रिय मन तथा परीषह कषाय आदिसे जीते नहीं जाते वे ही धीर वीर कहलाते हैं ॥ ८ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि अधीर कौन हैं ? माताने कहा कि जो कामदेवरूपी योद्धाओंके द्वारा ताड़ना किण् जानेपर चारित्ररूपी युद्धसे शीघ्र ही भाग जाते हैं वे ही अधीर कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ ९ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें पूज्य और प्रशंसनीय कौन कहलाते हैं ? माताने कहा कि जो धीर परीषह और उपसर्गोंके आनेपर भी स्वीकार किण् हुए शुभ चारित्रको नहीं छोड़ते वे ही प्रशंसनीय हैं ॥ १० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें निच्य कौन हैं माताने कहा कि जो कामदेवरूपी आकाशी चोरोसे पीडित होकर स्वीकार किण् हुए तप चारित्र और संयम आदिको छोड़देते हैं वे निच्य हैं ॥ ११ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि रात्रिमें जगनेवाले कौन हैं । माताने कहा कि जो ज्ञानरूपी सूर्यको हृदयमें धारणकर और मोहरूपी रात्रिको नाशकर आत्माका ध्यान करते हैं वे ही रात्रिमें जगनेवाले कहलाते हैं ॥ १२ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि सोनेवाले कौन कहलाते हैं माताने कहा कि जो मोहरूपी नौदके वर्षाभूत हुए मनुष्य हृदयमें विराजमान ज्ञानरूपी सूर्यको नहीं जानते हैं और न आत्माके ध्यानको ही जानते हैं वे ही सोनेवाले कहलाते हैं ॥ १३ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें

और समस्त अशुभ कर्मरूपी हाथियोंका सद दूर करनेके लिए तथा उनका नाश करनेके लिये वे सिंहेके समान समर्थ होंगे ॥ ३५ ॥ दो मालाओंके देखनेसे अनेक प्रकारके सुख देनेवाले वे धर्मतीर्थके कर्ता होंगे ॥ ३६ ॥ लक्ष्मीके देखनेसे सब इन्द्रोंके द्वारा क्षीर सागर जलसे मेरु पर्वतके ऊपर उनका महा ऋद्धियोंको सूचित करनेवाला महाभिषेक होगा ॥ ३७ ॥ पूर्ण चंद्रमाके देखनेसे वे लोगोंको प्रसन्न करनेवाले और समस्त संसारको आनन्द देनेवाले होंगे और धर्मरूपी अमृतकी महावृष्टिसे भव्यरूपी धान्योंको वे सींचनेवाले होंगे ॥ ३८ ॥ सूर्यके देखनेसे संसारके समस्त रूपोंको वे जीतनेवाले होंगे । सूर्यकोसी उनकी कांति होगी, वे कामदेव, अत्यन्त रूपवान और तीर्थकर होंगे तथा दिव्य परमाणुओंसे उनका शरीर बना हुआ होगा ॥ ३९ ॥ दो कलशोंके देखनेसे उन्हें निधियां प्राप्त होंगी, वे धर्मरूपी अमृतसे भरपूर होंगे तीर्थकर होंगे, अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित होंगे और समवसरणकी विभूति उन्हें प्राप्त होगी ॥ ४० ॥ दो मछलियोंके देखनेसे मनुष्य लोक और स्वर्गलोकके सब सुख उन्हें प्राप्त होंगे और उनका मन सब जीवोंपर दया करनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ सरोवरके देखनेसे उनके शरीरपर एकसौ आठ लक्षण और नौसौ व्यंजनहोंगे । वे कलाविज्ञानमें चतुर होंगे और बुद्धिमान होंगे ॥ ४२ ॥ समुद्रके देखनेसे वे तीर्थकर अनन्त दर्शन नञ्चता ज्ञान अनन्त सुख और अनन्त वीर्यके समुद्र होंगे और रत्नत्रय आदि रत्नोंकी खानि होंगे ॥ ४३ च सिंहासनके देखनेसे वे जगत गुरु भगवान इन्द्र नरेन्द्र आदिके द्वारा मान्य और समस्त भोगोंको एक स्थान ऐसा साम्राज्य प्राप्त करेंगे ॥ ४४ ॥ स्वर्गसे आते हुए विमानके देखनेसे देवोंके द्वारा पूज्य वे तीर्थकर भगवान धर्मतीर्थके प्रवृत्ति करनेके लिये स्वर्गसे आकर अवतार लेंगे ॥ ४५ ॥ नागेन्द्रका भवन देखनेसे समस्त संसारको प्रगट करनेवाला अबधिज्ञान उनके होगा और इसलोक परलोक दोनों लोक संबंधी हित अहित जाननेमें वे निपुण होंगे ॥ ४६ ॥ रत्नराशिके देखनेसे वे तीर्थकर अनन्त गुणोंकी खानि होंगे और संसारमें महान नररत्न होंगे ॥ ४७ ॥ निर्धूम अग्निके देखनेसे वे तीर्थकर भगवान अपने शुक्लध्यान रूपी अग्निसे कर्मरूपी ईंधनके महासमूहको अवश्य जलावेंगे इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ४८ ॥ अंतमें जो गजराजको

थोड़ेसे समीप रहनेवाले लोगोंसे धिरी हुई उस रानीने महाराजकी सभामें प्रवेश किया ॥ १८—२० ॥ महाराजने रानीको देखकर अपने योग्य विनय की और अपने स्नेहको सूचित करनेवाला आधा आसन स्वयं उसे दिया ॥ २१ ॥ वह महादेवी सुखसे विराजमान हुई और अपना मुख कमल प्रसन्न-कर तीनों ज्ञानोंको धारण करनेवाले अपने पतिसे कहने लगी कि हे देव ! मैं रात्रि के पिछिले पहर सुखसे सो रही थी उस समय मैंने महा अश्रुदयको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ २२-२३ ॥ हे देव ! वे स्वप्न अत्यन्त अद्भुत साहास्यको प्रकट करनेवाले फल संपादन करनेमें समर्थ हैं इसलिए मैं उन्हें कहती हूं, आप मन लगाकर सुनिए ॥ २४ ॥ १ पर्वतके समान गजराज, २ महा शब्द करता हुआ ऊंचा बेल ३ पर्वतकी शिखरको उल्लंघन करता हुआ सिंह, ४ ऐरावत हाथियोंके द्वारा स्नान करती हुई लक्ष्मी, ५ लटकती हुई दो मालाएं, ६ आकाशको प्रकाशित करता हुआ चंद्रमा, ७ उदय होता हुआ सूर्य, ८ सुन्दर दो मछलियां, ९ अश्रुत से भरे हुए दो कुंभ, १० स्वच्छ जलसे भरा हुआ और कमलोंसे शोभायमान सरोवर, ११ रत्नोंसे भरा हुआ समुद्र, १२ सुवर्णका बना हुआ सिंहासन, १३ स्वर्गसे आता हुआ विमान, १४ पृथिवीको फोड़कर निकलता हुआ नागेन्द्र भवन, १५ जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं ऐसी रत्नराशि और १६ कनकके समान निर्मल (धूमरहित) अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे थे । हे स्वामिनि ! मुझपर दयाकर इन का सच्चा फल मुझसे कहिए क्योंकि मेरे मनमें इनके फल सुननेकी इच्छा बहुत कुछ बढ़ रही है ॥ ३० ॥ तदनंतर महाराजने अपने अत्रधिज्ञानसे उनका फल जाना और अपने प्रफुल्लित होते हुए मुख कमलसे वे महादेवीके लिये उनका फल कहने लगे ॥ ३१ ॥ कि हे देवी ! हे देवोंके द्वारा पूज्य ! महा अश्रुदयको प्रकट करनेवाले तेरे स्वर्णोंका फल पुत्रकी प्राप्ति है उसीको मैं कहता हूं तू मन लगाकर सुन तीनों लोकोंके देखनेसे तेरे तीर्थंकर महापुत्र होंगे, वे राज्य करेंगे, समस्त संसार उनकी पूजा करेगा और और संसारमें धर्मरूपी रथको चलानेमें वे ही समर्थ होंगे ॥ ३३ ॥ महा वृषभ (बेल) के देखनेसे वे तीनों लोकोंमें सर्व श्रेष्ठ होंगे और संसारमें धर्मरूपी रथको चलानेमें वे ही समर्थ होंगे ॥ ३४ ॥ सिंह देखनेसे उनमें अनन्त शक्ति होगी

धारण करनेवाले भवनवासी देवोंके इन्द्र भी अपने निकाय (भवनवासी देवों) के साथ धर्म साधन करनेकी इच्छासे पृथ्वीपर आए ॥ ६४ ॥ इसप्रकार देवोंसे, सेनासे, विमानोंसे और वाहनोंसे भरा हुआ महाराज विश्वसेनका सब घर आकाश और वन नगरके समान :दिखाई देता था ॥ ६५ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे धिरे हुये और परमानन्दमें दूबे हुये सौधर्म :इन्द्रने अपनी इन्द्राणिके साथ केवल धर्म साधन करनेके लिये बड़ी भक्तिसे गभमें विराजमान भगवान जिनेंद्रदेवकी तीन प्रदक्षिणाएं दी और देदीप्यमान सुकुटसे सुशोभित अपना उत्तम मस्तक भुकाकर उनको नमस्कार किया ॥ ६६-६७ ॥ फिर उसने बहुमूल्य और दिव्यवस्त्राभरणोंसे माता पिताकी पूजा की और फिर उनके नामने मनोहर हाव भावोंसे नाटय शास्त्रके क्रमसे उत्पन्न हुआ और रथोरसव करनेवाला उत्तम आनन्द नामका नाटक किया ॥ ६८-६९ ॥ तदनन्तर अपना कार्य समाप्तकर सौधर्म इन्द्रने पुण्य संपादन करनेके लिये भगवानकी माताकी सेवामें दिक्कुमारियोंको नियुक्त किया और उत्तम श्रेष्ठाचरणोंके द्वारा महा धर्मका उपार्जनकर वह सब देवोंके साथ अपने स्थानको चला गया ॥ ७०-७१ ॥ तदनन्तर चारों निकयोंके चतुर देव अपना अपना कार्य कर परम आनन्द मनाते हुये और प्रसन्न होते हुए अपने अपने इन्द्र और देवांगनाओंके साथ अनेक प्रकारके भावोंसे महा पुण्य संपादन कर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ ७२-७३ ॥ सब देवोंके चले जानेके पश्चात् उसी समय यसे भगवानकी माताकी आज्ञा पालन करनेवाली वे दिक्कुमारी देवियां केवल पुण्य संपादन करनेके लिए अपने अपने योग्य कार्योंसे माताकी सेवा करने लगी कितनी ही उसे तांबूल देने लगी और कितनी ही देवियां उसे स्नान करानेके कामपर नियुक्त हुईं ॥ ७५ ॥ कितनी ही देवियां भोजन बनानेके काममें लग गईं, कितनी ही शय्या बनानेमें लग गईं, और कितनी ही देवियां पुण्य संपादन करनेकेलिए उसके पेर दावनेमें लग गईं ॥ ७६ ॥ कोई देवी प्रसन्न होकर स्वयं दिव्य सुगंधित द्रव्योंसे तथा कुंकुम और कज्जलसे माताका शृंगार करनेलगी ॥ ७७ ॥ हार कंकण केशुर आदि बहुतसे आभरणोंको प्रसन्नताके साथ पहनाती हुईं, कोई देवी ठीक कल्पलताके समान सुशोभित होती थी ॥ ७८ ॥ कल्पलताके समान कितनी ही देवियां

मुखाने प्रवेश करते हुए देखा है उसका फल यह है कि तेरे निर्मल गर्भमे श्रीशांतिनाथ तीर्थकरने अवतार
 लेलिया है ॥ ४६ ॥ सुन्दर आकारको धारण करनेवाली वह महादेवी इसप्रकार अपने स्वप्नोका फल मुनकर
 बहूत सन्तुष्ट हुई उसका शरीर रोमांचित हो गया और उसे बहूत ही आनन्द हुआ ॥ ५० ॥ उसी समय
 स्वर्गमें अपने आप घंटोंका महान शब्द होने लगा और बिना ही वजाए देवोंके वड़े नगारे (अनहद वाजे)
 बजने लगे ॥ ५१ ॥ उसी समय कल्पवृक्षोंसे बहूतसे पुष्पोकी पुष्प वर्षा होने लगी और शीतल मंद सुगन्धि-
 त तथा कोमल और प्रिय वायु बहने लगी ॥ ५२ ॥ तथा भगवानके गर्भावतरणके प्रभावसे इन्द्रोंके आसन
 कपने लगे और उनके मुकुट कुछ नव गए ॥ ५३ ॥ उन सब आश्चर्योंको देखकर अवधिज्ञानसे उन्होंने
 भगवानका गर्भावतरण जाना और फिर गर्भकल्याण करनेके लिए वे तैयार हुए ॥ ५४ ॥ भगवानके गर्भाव-
 तरणके प्रभावसे ज्योतिर्लोकमें भी महा सिंहनाद हुआ तथा पहिले कहे हुए सब आश्चर्य हुए ॥ ५५ ॥
 तथा व्यंतरोंके स्थानोंमें भी अपने आप भेरी नाद होने लगा और स्वर्गमें जो जो आश्चर्य हुए थे वे आश्चर्य
 सब होने लगे ॥ ५६ ॥ भववासियोंके भवनोंमें भी अपने आप शंखध्वनि होने लगी और पहिले कहे हुए
 सब आश्चर्य अपने अल्प होने लगे ॥ ५७ ॥ तदनन्तर सौधर्म इन्द्रको आदि लेकर सब इन्द्र आए, सबके
 साथ अलग अलग सातों प्रकारकी सेना थी, अपनी अपनी सवारियोंपर वे आ रहे थे, उनके साथ बड़ी भारी
 विभूति थी, वे अपनी कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे, अनेक प्रकारके उनके लुरई आदि बाजोंके
 शब्दोंसे सब स्त्रियाएँ बहिरी सी हो रही थीं, नृत्य गीतोंमें वे लगे हुए थे, भगवानका गर्भकल्याण करनेकी
 उनकी इच्छा थी, उत्सवमें वे लगे हुए थे अपनी अपनी देवांगनाएँ उनके साथ थी और सब देव भी उनके
 साथ थे । इसप्रकार गर्भ कल्याणकी पूजा करनेके लिये वे सब क्षण भरमें ही महाराज विश्वसेनके मन्दिर-
 में आ पहुँचे ॥ ५८-६१ ॥ उसीप्रकार सब ज्योतिपीदेवोंके साथ तथा अपने परिवारके साथ सब सूर्य चन्द्र-
 मा भगवानकी माताके घर आए ॥ ६२ ॥ इसीप्रकार सब व्यंतर देव अपनी विभूति और देवियोंके साथ
 प्रसन्न होकर पुरय संपादन करने लिये भगवानके गर्भकल्याणमें आए ॥ ६३ ॥ उसीप्रकार बड़ी ऋद्धिको

धारण करनेवाले मूनियोंके साथ और अधिक प्रेम करते थे ॥ ८१ ॥ महाधीर वीर उन मूनिने इसप्रकार तीर्थ-
 भावनाओंका भावन क्रिया था ॥ ८२ ॥ इसप्रकार इन भाव-
 कर नाम कर्मकाबंध करनेवाली सालह कारण मूनिराजके उसके फल स्वरूप तीर्थकर है, मनुष्य देव विद्या-
 नाओंकी अच्छी तरह भावना करते हुए, उन मूनिराजके अन्त महिमा है, यह महान पुण्यका कारण है, ८३ ॥ उन मूनिराजको
 था ॥ ८३ ॥ इस तीर्थकर नाम कर्मको अन्त महिमा है, यह महान पुण्यका कारण है, ८४ ॥ उन मूनिराजको
 धर सब इसे नमस्कार करते हैं और यह तीनों लोकोंको क्षोभित करनेका कारण है ॥ ८४ ॥ उन मूनिराजको धार-
 निर्माल कोष्ठबुद्धि, वीजबुद्धि, पादानुसारिणी बुद्धि और संभि-... बुद्धि ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं । जिस-
 प्रकार राजर्षि अपनी राजावद्याओंके द्वारा सब धर्म अधर्मको जान लेते हैं उसीप्रकार पूज्य ऋद्धियोंको धार-
 ण करनेवाले उन मूनिराजने उन बुद्धि ऋद्धियोंको धारण करनेवाले और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेमें
 ॥ ८५-८६ ॥ परमार्थको जाननेवाले, महा ऋद्धियोंको धारण करनेवाले उन मूनिराजके बिना
 तत्पर ऐसे वे मूनिराज दीप्ततपसे दीप्यमान थे, उच्छुल्ल तप्ततप, महातप, धोरतप, धोरपराक्रम तप और
 उग्रतपका सदा पालन करते थे ॥ ८७-८८ ॥ मोक्षरूप महा इच्छाको धारण करनेवाले उन मूनिराजके बिना
 इच्छाके ही केवल आत्म शुद्धिसे ही अणिमा महिमा आदि आठों विक्रिया नामकी ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं
 ॥ ८९ ॥ मामर्ष रिद्धि, क्षेत्ररिद्धि, जल, विट्, सर्वौषधि आदि समस्त योगोंको नाश करनेवाली और संसार
 भरका उपकार करनेवाली रिद्धियां, मधुखात्री, वीरखात्री और सपिखात्री नामकी रिद्धियां प्राप्त
 तपके प्रभावसे अमृतखात्री रिद्धियां, परीपहोंको जीतनेसे हो असंख्य बल प्राप्त करनेवाली
 हुई थीं ॥ ९१ ॥ उन धीर वीर मूनिराजको परीपहोंको जीतनेसे हो असंख्य बल प्राप्त करनेवाली
 मनोबल वचनबल और कायबल नामकी रिद्धियां प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है क्योंकि किए हुए आहा-
 से उनके अक्षीण अन्न और अक्षीण आलाय ऋद्धियां प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है क्योंकि किए हुए आहा-
 तपस्वरणका फल अक्षय होता ही है ॥ ९३ ॥ वे मूनिराज अनुक्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए आहा-
 रके लिये श्रीपुर नगरके राजा श्रीषण्णके घर पधारे ॥ ९४ ॥ राजा श्रीषण्णने भी दुर्लभ निधानके समान उन्हें

कर भ र पूवक तिष्ठ तिष्ठ गहकर उन्हें स्थापन किया ॥ ६५ ॥ उनने बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उन
 मुनिराजको प्राप्तक और मिष्ट आहार दिया जिससे उसके घर पंचारचर्योंकी वर्षा हुई ॥ ६६ ॥ फिर किसी
 दिन वे मुनि आहारके लिए ईर्यापथ शुद्धिपूर्वक दत्तपुर नगरके राजा नंदनके घर पधारे ॥ ६७ ॥ राजा नंदनने
 भी भक्तिपूर्वक उनको स्थापन किया और विधिपूर्वक उत्तम शुभ रसीला मधुर आहार उनको दिया ॥ ६८ ॥
 शुभकर्मके उदयसे उसके घर भी परलोक फलको सूचित करनेवाली और देवोंके द्वाराकी हुई रत्नवृष्टि
 आदि पंचारचर्योंकी वर्षा हुई ॥ ६९ ॥ तदनंतर किसी एक दिन इच्छारहित वे मुनिराज संयमकी वृद्धिके
 लिए पुंडरीकिणी नगरीके राजा सिंहसेनके घर पधारे ॥ ७० ॥ उस राजा सिंहसेनने भी उनके चरण
 कमलोंका नमस्कारकर उन्हें स्थापन किया और उन्हें मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक चारित्र बढ़ानेवाला
 उत्तम मधुर आहार दिया ॥ ७१ ॥ उसी समय प्राप्त हुये पुण्यके प्रभावसे उनके घर बहुतेसे द्रव्यसे भरी हुई
 रत्नवृष्टि आदि पंचारचर्योंकी वर्षा हुई थी सो ठीक है क्योंकि मनुष्योंको दानसे क्या क्या प्राप्त नहीं
 होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥ २ ॥ वे मुनिराज तपश्चरणके द्वारा समयकी परम कोटिपर पहुँच
 गये थे और दृढ़रथके साथ साथ नभस्त्रिलकपर्वतपर जा विराजमान हुये थे ॥ ३ ॥ शुद्ध बुद्धिवाले उन
 मुनिराजने अपनी एक महीनेकी आयु जानकर प्रायोपगमन नामका सन्यास धारण किया था ॥ जिसमें
 प्रायः चारो आराधनाओंका और तीनों रत्नत्रयोंका आराधन प्राप्त हो उसको प्रायोपगमन कहते हैं अथवा
 जिस शूभ प्रायोपगमनमें पहिलेके हिंसा आदिसे उत्पन्न हुये समस्त पापोंके समूह पायः नष्ट हो जाय
 उसको प्रायोपगमन कहते हैं । अथवा जिसमें मनुष्योंके निवासस्थान हटकर वनमें जाना पड़े उसको बुद्धि-
 मानोने तथा श्रोजितेन्द्रदेवने प्रायोपगमन कहा है ॥ ५-७ ॥ वे मुनिराज अपने शरीरका न नो स्वयं कुछ
 प्रतिकार करते थे और न कभी दूसरेसे करानेकी इच्छा करते थे इस प्रकार शरीरसे समस्त छोड़कर वे
 निश्चल विराजमान थे ॥ ८ ॥ वे मुनिराज अपनी शक्तिके अद्भुतसार बलका आश्रय लेकर ध्यान और अध्या-
 यनके साथ साथ अनशन तप करते थे ॥ ९ ॥ तपश्चरणसे उनके सब शरीरपर केवल हड्डी चमड़ा रह गया था

परिपूर्ण पुण्यशाली जिन्हें देव मनुष्य सब नमस्कार करें ऐसे असंख्यात शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥६॥
हंस आदि उत्तम पक्षियोंसे शोभायमान और निर्मल जलसे भरे हुए मनोहर तलाव, बावड़ी नदी और कू-
आ सब और शोभायमान हैं ॥ ७ ॥ वहाँके वित प्राणियोंको तृप्त करनेवाले मुनियोंके तपस्वरणके समान
सदा सफल बने रहते हैं ॥ ८ ॥ वहाँके ऊंचे वन बृक्ष पुष्पफलोंसे शोभायमान बड़े अच्छे जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
सदा सफल बने रहते हैं ॥ ९ ॥ वहाँके ऊंचे वन बृक्ष पुष्पफलोंसे शोभायमान बड़े अच्छे जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
नके नीचे ध्यान धारण किये मुनिराज विराजमान हैं और जो दूसरे कल्पवृक्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ९ ॥
वहाँपर स्थान स्थानपर देव विद्याधर और मनुष्योंके द्वारा पूज्य ऐसी तीर्थ कर और गणधरोकी उत्तम निर्वाण
भूमियां विद्यमान हैं ॥ १० ॥ वहाँपर आदि अंत रहित, श्रीजिनेंद्र देवका कहा हुआ हिंसासे रहित, सब
जीवोंका हितकरनेवाला और सदा रहनेवाला धर्म सदा विद्यमान रहता है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार शरीरके मध्य-
भागमें नाभि रहती है उसी प्रकार ऊपर लिखे गुणोंसे परिपूर्ण देशके मध्यभागहै पुंढिरिकिणी नापकी शुभ
नगरी है ॥ १२ ॥ वह नगरी सोने व रत्नोंके बने हुए सदा रहनेवाले कोटसे और उसके ऊंचे दरवाजेसे
सदा शोभायमान रहती है ॥ १३ ॥ वहाँके अद्भुतम जिनालय धर्मके सागरके समान शोभायमान हैं वह
जिनालय सुमेरु पर्वतके शिखरके समान ऊंचे हैं, अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान हैं, उनमें मणियोंके
संडप बने हुए हैं, उनके चारों ओर कोट लिखे हुये हैं उनपर बहुतसी ध्वजारों फहरा रही हैं धर्मात्मा श्री-
पुरुषोत्तम वे भरे हुए हैं धर्मके उपकरण तथा सोने वा माणिक्यकी वनी हुई अनेक प्रकारकी शोभासे वे शोभायमान हैं
देवकी प्रतिमाओंसे सुशोभित हैं देव भी उनको सेवा करते हैं अनेक प्रकारकी शोभासे वे शोभायमान हैं
और गीत, द्रव्य, वाजे और स्तुतिके सैकड़ों शब्दोंसे सदा शोभायमान रहते हैं ॥ १४-१७ ॥ ऊंचे मकानों
की शिखरोंपर लगी हुई ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती है मानो मोक्षसुख प्राप्त करनेके
लिये देवोंको ही बुला रही हो ॥ १८ ॥ वहाँपर पुण्यवान मनुष्य ही केवल अपने इकट्ठे किये हुये पुण्यका
फल भोगनेके लिये ही श्रेष्ठ कुलोंसे उत्पन्न होते हैं पापी लोग वहाँपर कभी उत्पन्न नहीं होते ॥ १९ ॥ कि-
तने ही पुण्यवान लोग अनेक प्रकारके भोग भोगते हुये भी दान पूजा तप और ब्रतोंको पालनकर महापुण्य

उपाजन करते हैं ॥ २० ॥ जिसप्रकार धर्मके प्राणवसे मनुष्य द्रव्यसे ही उद्य कमाते हैं उसीप्रकार वहाँके मनुष्य धर्मसे ही धर्मकी वृद्धि करते हैं ॥ २१ ॥ उस नगरीमें जो उत्तम मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे अपने पूर्व भवके पुण्य कर्मके उदयसे त्यागी, भोगी, धीरवीर अनेक शास्त्रोंमें निपुण, सुन्दर मधुरभाषी, बली, शील-दान, सन्महदृष्टि बुद्धिसालू, विद्वान अत्यन्त चतुर, विवेकी, सदाचारी अनेक प्रकारकी लज्मीसे सुशोभित, दयाचार और पापोंसे रहित, न्यायमार्गमें चलनेवाले, श्रीजिनोद्देवके चरणकमलोंके भक्त, नीच देवोंसे विमुख निरर्थ गुरुओंकी सेवा करनेमें आसक्त, कुरुश्रुओंकी सेवा रहित, विनयवान् अच्छी भावनावाले और धर्म-ध्यानमें लतपर पुरुष उत्पन्न होते हैं तथा ऊपर लिखे सब गुणोंसे सुशोभित और सुख देनेवाली खियां उत्पन्न होती हैं ॥ २२-२६ ॥ उस नगरीमें उत्पन्न हुए कितने ही चरमशरीरी चतुर पुरुष संयमरूपी तीक्ष्ण शस्त्रसे कर्मरूपी शत्रुओंको जवर्दस्ती नाश कर मुक्त होते हैं ॥ २७ ॥ कितने ही पुरुष चारित्र धारणकर स्वर्ग जाते हैं कितने ही इन्द्रकी विभूति प्राप्त करते हैं और कितने ही धर्मात्मा वैश्वकके सुख भोगते हैं ॥ २८ ॥ कितने ही उत्तम मुनि पुण्यकर्मके उदयसे रत्नत्रयका आराधनकर सर्वार्थसिद्धि आदि पंचोत्तर विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ उस नगरीके कितने ही भद्र पुरुष अपने शुद्ध भावोंसे उत्तमपात्रोंको दान देकर तीर्थकर गणधर केवलजानी और धीरवीर अनेक प्रकारके भोग भोगते हैं ॥ ३० ॥ उस नगरीमें असंख्यत दिव्याधर पूजा करते हैं वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं फिर भला उस नगरीका वर्णन करनेसे क्या लाभ है ॥ ३१-३२ ॥ इस प्रकार अनेक गुणोंसे भरी हुई उस नगरीमें सब राजाओंके शिरोमणि ऐसे धनरथ नाम के तीर्थकर राजप करते थे ॥ ३३ ॥ उनके उत्पन्न होनेके पहिले ही पिताके घरके आंगनमें कुबेरने ब्रह्म महीने तक रत्नोंकी वर्षा की थी ॥ ३४ ॥ उनके गर्भावतारके समय इंद्रने देव देवियोंके साथ आकर वड़ी भक्तिसे साता पिताको पूजा की थी और स्तुति की थी ॥ ३५ ॥ उनके उत्पन्न होते ही सब देवोंके साथ इंद्र उन्हें मेरुपर्वतपर ले गए थे और वड़ी भक्तिसे धीर सागरके जलसे उनका अभिषेक किया था ॥ ३६ ॥ उसी वालक

अवस्थामें इन्द्राणीने स्वयं स्वर्गमें उतपन्न हुए वज्र माला आभूषण आदि उत्तम पदार्थोंसे उनको विभूषित किया था ॥ ३७ ॥ उनकी बालक अवस्थामे ही इंद्र, पुण्य उपाजन करनेकेलिये अपनी इंद्राणीके साथ उनकी सेवा करते थे ॥ ३८ ॥ उनके रूपको देखकर इन्द्रके मनमें भी आश्चर्य हुआ था और अतस्त होकर उसने उस रूपको देखनेके लिये एक हजार नेत्र बनाए थे ॥ ३९ ॥ उनका रूप महादिव्य था दिव्य गुणोंसे विभू- था, उपमारहित था और कलाओंसे सुशोभित था उसका वर्णन भला कौन बुद्धिमान कर सकता है ॥ ४० ॥ उनके शरीरमें पसीना नहीं आता था दूधके समान उनका रक्षिर था, प्रथम समचतुरत्रसंस्थान था वज्र- उनके शरीरमें पसीना नहीं आता था, अर्थात् वज्रमय हृदियोंसे बना हुआ वज्रमय शरीर था, उस शरीरमें सम्पूर्ण पुण्य- दूधमय नाराच संहतन था, अर्थात् वज्रमय सौरूप्य (सुन्दरता) गुण था उनके श्वासमें इतनी सुगन्धता थी कि रूप परमाणुओं से बना हुआ उत्तम सौरूप्य (सुन्दरता) गुण था उनके बाणों शोभाप्रिय और सब जीवोंका हित सब दिशाओंमें उसकी सुगन्धित फेब जाती थी, वह शरीर महादिव्य लक्षणों और उपजनोसे सुललित था शुद्धध्यानके योग्य अप्रमाण्य महावीर्य (शक्ति) था और उनकी बाणों साथ प्रगट हुए थे फिर गज्जला उनके करनेवाली थी । षट् दश दिव्य अतिशय भगवान्के शरीरके साथ प्रगट हुए थे फिर गज्जला उनके गुणोंका अलग वर्णन करनेसे क्या लाभ है ॥ ४१-४५ ॥ जन वे धीर वीर राजगद्दीपर विराजमान थे तभी देव विद्याधर सब उनकी सेवा करते थे फिर भला राजाओंनी तो बातही क्या है ॥ ४६ ॥ वे भगवान स्वर्गमें उत्पन्न हुनोवाले गीत नृत्य आभूषण वज्र आदि, उत्तमसे उत्तम भोगोंके द्वारा प्रतिदिन सुखका अनुभव किया करते थे ॥ ४७ ॥ इस संसारमे समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले उन धनरथ तीर्थकरके सुखका प्रमाण भला कौन जान सकता है ॥ ४८ ॥ उनके मनोहरा नामकी रातो थी जो गुणवता सौभाग्यवती पुण्यवती और अनेक लक्षणोंसे सुशोभित थी ॥ ४९ ॥ उन दोनोंके वह वज्रायुधके जीव प्रवैयकसे चपकर पुण्यकर्मके उदयसे मेघ- रथ नामका पुत्र हुआ था ॥ ५० ॥ उन्ही धनरथ तीर्थकरकी मनोरमा रातोसे सहस्रायुधका जीव प्रवैयकसे चपकर पुण्यकर्मके उदयसे डढरथ नामका पुत्र हुआ था ॥ ५१ ॥ पिता धनरथने प्रसन्न होकर सब भाई वंध- जोके साथ वड़े उत्सवसे उन दोनोंकी आधानादि सब क्रियाएं की थी ॥ ५२ ॥ उन दोनोंके जन्मके समय

अपने कुटुम्बके साथ जिनालयमें जाकर बड़ी विभूतिके साथ भगवानका महामिषेक किया और उनकी बुद्धिके लिए भगवानकी पूजा की थी ॥ ५३ ॥ उन दोनोंके जन्म समयके उत्सवमें भाई वन्धुओंने मांगनेवाले दोन अनाथ और याचक सब संतुष्ट किए थे ॥ ५४ ॥ वे दोनोंही भाई उनके योग्य वस्त्र आभूषण और अष्टलके समान दूध मिथी आदि पदार्थोंके द्वारा पालन पोषण किए जाते थे और इसलिए वे चन्द्रमाके समान बढ़ने लगे थे ॥ ५५ ॥ वे दोनों ही भाई मुग्धावस्थाको विलाकर साला पिताको आनंदित करते थे और कुमार अवस्थको पाकर सब कुटुंबियोंके धारे सालूम होते थे ॥ ५६ ॥ उन दोनों भाइयोंने थोड़े ही समयमें राजनीति, शास्त्रविद्या और जैन सिद्धान्तका रहस्य अध्ययन कर लिया था ॥ ५७ ॥ वे दोनों ही भाई पुरुषकर्मीके उदयसे अनुक्रमसे यौवना और गुणोंके साथ साथ लक्ष्मी कला बुद्धि और कांतिसे भी विभूषित हो गए थे ॥ ५८ ॥ उन दोनोंका परस्पर रत्नोंके जड़े हुए सुकुदसे शोभायमान था, हृदय माला और दिव्य हारसे शोभायमान था और काल कुंडलोंसे शोभायमान थे ॥ ५९ ॥ वे दोनों ही भाई केयूर, अङ्गद श्रेष्ठ आभूषण और सुन्दर दिव्य वस्त्रोंसे शोभायमान थे और नागकुमार देवोंके समान जान पड़ते थे ॥ ६० ॥ वे दोनों ही भाई धीर वीर थे शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थे कलाओंसे परिपूर्ण सुन्दर विद्वान् थे, लोगोंको धिय और मान्य थे प्रसिद्ध थे और शुद्ध हृदयवाले थे ॥ ६१ ॥ उनका यश संसारमें व्याप्त था, वे राजनीतिकी प्रवृत्ति करनेवाले थे, प्रतापी थे, चतुर थे और उनका शरीर कांतिसे सुशोभित था ॥ ६२ ॥ वे दोनों ही भाई न्यायधर्ममें लीन थे, पूज्य थे, दानी थे, गुणी थे, श्रीजिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंके भक्त थे और निर्धन शुरुओंके सेवक थे ॥ ६३ ॥ वे दोनों ही भाई सुशील थे, धर्मात्मा थे, विद्या और विनयके परगामी थे अनेक राजा उनकी सेवा करते थे इसलिए वे इन्द्र प्रतीदिके समान सुशोभित होते थे ॥ ६४ ॥ पहिले भवोंको निरूपण करनेवाला और तत्त्वोंका प्रलय प्रगट करनेवाला अनुभासा अग्निज्ञान (अवेयकसे साथ आया हुआ) केवल सेवकही था (हठरथके नहीं था) ॥ ६५ ॥ वे दोनों ही भाई यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गए थे और सब ऐश्वर्योंको प्राप्त हो गए थे इसलिए हाथोंके समान उनको देखकर घनरथ तीर्थकरको

दिन वे दोनों निर्दयी भाई लोभमें पड़कर एक बैलके लिए लड़ने लगे ॥ ८२-८३ ॥ वे दोनों ही पापी श्रीन-
दीके किनारे लड़ने लगे परस्पर एक दूसरेको बड़ी भारी चोट पहुँचाने लगे । परस्पर एक दूसरेकी असह्य
चोटसे वे बहुत दुखी हुए और दोनों ही मर गये ॥ ८४ ॥ वे दोनों भाई आर्तिध्यानरूपी महापापको करते
हुए मरे थे, इसलिये वे कांचन नदीके किनारे रेतकर्ण और ताम्रकर्ण नामके हाथी हुए थे । वे दोनों ही
हाथी क्रोधी थे, मदीनमत थे, बलवान थे और पहिले जन्मकी शत्रुता उनके हृदयमें भरी हुई थी। देखो ! जो
महाक्रोध करते हैं उनकी क्या क्या दुर्गति नहीं होती है ॥ ८५-८६ ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके वैरके संस्का-
रसे वे दोनों क्रोधित होकर लड़ने लगे और अपने अपने मजबूत दाँतोंसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे
तथा परस्पर एक दूसरेकी चोटसे दुखी होकर दोनोंही मर गए ॥ ८७ ॥ अयोध्या नगरके रहनेवाले नंदिमित्र
नामके ब्यालिको भैंसोंसे वे दोनों ही मरकर पापकर्मके उदयसे भँसा हुए ॥ ८८ ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके
वैरके संस्कारसे उन दोनोंने परस्पर दुख देनेवाला युद्ध किया बहुत देरतक परस्पर एकने दूसरेको सर्गोंकी
चोट पहुँचाई और दोनों ही लड़ते २ मर गए ॥ ८९ ॥ वे दोनों ही मरकर उसी नगरके राजपुत्र शक्तिसेन
और वरसेनके यहाँ वज्र सरीखे मजबूत मस्तकवाले भेड़ा हुए ॥ ९० ॥ वहाँपर भी पहिले जन्मके क्रोधके
कारण बहुत देरतक परस्पर लड़े और मरकर पापकर्मके उदयसे वे दोनों मुर्गे हुए हैं ॥ ९१ ॥ इसलिये हे राजन
यह निश्चित है कि पहिले जन्मके संस्कारसे मनुष्योंका वैर और मित्रता दोनों ही अनेक भवों तक परावर
साथ चली आती हैं ॥ ९२ ॥ इसलिये हे राजन् ! बुद्धिमान लोगोंको प्राण नाश होनेपर भी किसी
भी हीन वा दीनके साथ अनेक दुख देनेवाला वैर कभी नहीं करना चाहिये ॥ ९३ ॥ इसप्रकार उन विद्वान
मेघरथने उन दोनों मुर्गोंके पहिले जन्मकी कथा कहकर सब समासदोंको आश्चर्य उत्पन्न किया और सब-
को संतुष्ट किया ॥ ९४ ॥ इसके बाद वे मेघरथ कहने लगे कि इन दोनों मुर्गोंके लड़ते समय अनेक विद्या-
ओंमें निपुण ऐसे दो विद्याधर आपके स्नेहसे प्रसन्न होकर यहाँ आकर बैठे हैं । वे विद्याधर कौन हैं और
क्यों आए हैं ? यह सब सुनना चाहें तो हे राजन् ! सुनिए, मैं उन दोनोंकी कथा कहता हूँ ॥ ९५-९६ ॥ इ-

उनके विवाह करने की चिंता हुई थी ॥ ६६ ॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमके साथ कर दिया था और छोटे पुत्र हृदयका विवाह सुमतिके साथ कर दिया था ॥ ६७ ॥ नेवरथके रूप आदि गुणोंसे सुशोभित प्रियमित्रा रानीसे सुभ लक्षणोंवाला नंदिवर्धन नामका पुत्र हुआ था और हृदयके अनेक सौभाग्योंसे भरपूर ऐसी सुमति रानीसे अनेक गुणोंसे सुशोभित वरसेन नामका पुत्र हुआ था ॥ ६८-६९ ॥ इसप्रकार वे धनरथ तीर्थंकर पुत्र पौत्रआदि सब प्रकारकी सुखः साधनियोंका अनुभव करते हुए सिंहासनपर विराजमान होकर इन्द्रकीसी लोला करते थे ॥ ७० ॥ किसी एक दिन प्रियमित्राकी दासी सुप्रेणा एक घन-कुण्ड नामके मुर्गेको लेकर आई और सबको दिखाकर कहने लगी कि जिस किसीका मुर्गा जीत लेगा उसको एक हजार दीनार दूंगी ॥ ७१-७२ ॥ सुप्रेणाकी यह बात सुनकर छोटी रानीकी दासी कांचना उससे लड़नेके लिए दज्जुंड नामके मुर्गेको ले आई ॥ ७३ ॥ ऐसे जीर्गोंके युद्ध करने वा लड़नेसे परस्पर दोनोंको दुख होता है और देखनेवालोंको भी हिंसासे आनन्द माननेसे रौद्र ध्यान होता है । रौद्रध्यानसे महापाप होता है, पापसे नरक मिलता है और नरकमें दुख सहना पड़ता है । इराजिये धर्मात्मा लोगोंको ऐसा युद्ध देखना भी अयोप्य है ॥ ७५ ॥ इसी बातको स्मरण करते हुए वे धनरथ तीर्थंकर बहुतरंगे भयजीवोंको समझानेके लिये तथा अपने पुत्रकी महिमा प्रगट करनेके लिए अपने पुत्र पौत्रादिकोंके साथ बिना मनके उन दोनोंके युद्धको देख रहे थे ॥ ७६, ७७ ॥ वे दोनों ही दुष्ट मुर्गे पूर्वाजन्मकी शत्रुताके कारण परस्पर क्रोध करते हुए आश्रय उत्पन्न करनेवाला और दुख देनेवाला महायुद्ध करने लगे ॥ ७८ ॥ इसी बीचमें धनरथ तीर्थंकरने अपने पुत्र नेवरथसे पूछा कि इन दोनोंका युद्ध क्यों हो रहा है ? क्या इसमें कोई पहिले जन्मकी शत्रुता कारण है ? ॥ ७९ ॥ पिताकी यह बात सुनकर अर्वाविज्ञानी नेवरथ सब जीवोंको हित करनेवाली और कानोंको सुख देनेवाली अच्छी बानी कहने लगे ॥ ८० ॥ कि हे छुटुबी लोगो ! अपने मनको स्थिरकर सुनो, मैं इन दोनोंके पहिले जन्मकी शत्रुताकी कथा कहता हूँ ॥ ८१ ॥ इसी जन्मद्वीपके घेरावत क्षेत्रके रत्नपुर नगरमें दो भाई थे, वे वैश्य थे परन्तु पूर्ण थे गाडोवानका काम करते थे भद्र और धन उनका नाम था । किसी एक

पराक्रमी थी ॥ ११ ॥ उसी देशके विजयाद्वि पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें मंदार नामका एक नगर है उसमें शंख नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी रानीका नाम जया था ॥ १२ ॥ उन दोनोंके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री हुई थी । वह बड़ी रूपवती थी, पुण्यकर्म करनेवाली थी और अनेक लक्षणांसे सुशोभित थी ॥ १३ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे वह सुन्दर विद्याधरी विधिपूर्वक अशयघोषने विवाही थी ॥ १४ ॥ वह राजा अभयघोष एक वर्षतक बराबर उसमें आसक्त रहा इसलिए पुण्यकर्मके उदयसे सुवर्णतिलका (पहिली रानी) बहुत दुखी हुई ॥ १५ ॥ किरली एक दिन बसन्त ऋतुके समय सुवर्णतिलकाकी दूती चंचलिकाने राजासे आकर कहा कि हे देव ! सुवर्णतिलकाका बाग बहुत ही सुन्दर और मनोहर है पुण्यके फलके समान उसमें बहुत-से फल फले हुए हैं इसलिये आप उसे देखनेके लिये चलिye ॥ १६-१७ ॥ उस दासीकी यह बात सुनकर पहिली रानीके स्नेहसे जब राजा उस बागमें चलनेके लिये तैयार हुआ उसी समय पृथिवीतिलकाने अपनी क्षियासे बहीपर सब ऋतुओंके फल पुष्पोंसे भरा हुआ बाग बनाकर दिखला दिया और राजासे कहा कि हे देव । आप इस अच्छे बागको देखिए आप कहीं दूसरी जगह मत जाइए । इसप्रकार कहकर उसे जानसे रोका । परन्तु उसकी बातका उल्लंघनकर वह राजा उस वनको देखनेके लिये चला ही गया । मानभंग होनेके कारण विद्याधरीको बहुत दुख हुआ ॥ १८-२१ ॥ वह विचार करने लगी कि इस पराधीन रहनेवाली स्त्री जातिको धिक्कार है । यह स्त्रीपर्याय दुखका कारण है मोक्ष इस पर्यायसे मिलती नहीं, यह पर्याय निन्द्य अपवित्र और सदा अशुभ है ॥२२॥ जो भोग विना सन्मानके भोगे जाते हैं और दुखके सागर है तथा चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले हैं वे भोग आज भरे पूरे हों अर्थात् अब मैं उनको भोगना नहीं चाहती ॥२३॥ इसप्रकार चिंतनकर वह वैराग्यको प्राप्त हुई और घर भोग तथा पतिघ्नो छोड़कर सुमति नायकी गणित्नीके सलीप पहुंची ॥ २४ ॥ उस सतीने वहां जाकर उसको नसरकार किया, एक साड़ीके बिना अन्य स्वप परिभ्र-होका त्याग किया और सब तरहके सुख देनेवाली उत्तम दीक्षा धारण की ॥ २५ ॥ देखो ! संयम धारण करनेके लिये कभी मान करना भी अच्छा है क्या कि निकट भन्व्य जीवांका वह साग आत्माकी हित सिद्धि-

शान्ति०

१४६

सी जम्बूद्वीपके भारतक्षेत्रके विजयाह्वं की शुभ उत्तर श्रेणीमें एक कनकपुर नगर है उसमें पुराणकर्मके उदयस्तेरके गरड्वेग नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी सुन्दरमुखी रानीका नाम धृतिषेणा था ॥ ६७-६८ ॥ दोनोंके देवतिलक और चंद्रतिलक नामके दो पुत्र थे जो दोनों ही प्रतापी थे, धीर वीर थे और मोक्षगार्भ थे ॥ ६९ ॥ किसी एक दिन वे दोनों ही भाई अपने अशुभ कर्मोंको दूर करनेके लिए भगवान् जिनेंद्रदेवके प्रतिभाओंकी वंदनाके लिपित सिद्धकूट चैत्यालयमें गये थे ॥ १०० ॥ वहांपर उन्होंने भगवानकी पूजा की स्तुति की, नमस्कार किया और फिर धर्मश्रवण करनेके लिये वहांपर विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप पहुंचे ॥ १ ॥ वे दोनों ही मुनि अविद्याज्ञानी थे, चतुर थे और देव भी उनकी पूजा करते थे उन दोनों विद्याधरो ने बड़ी भक्तिसे उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, मस्तक भुक्काकर नमस्कार किया और उनके समीप जाकर बैठ गए ॥ २ ॥ उनमेंसे बड़े मुनिने स्वर्ण देनेवाले गृहस्थ धर्मका तथा मोक्षके कारण मुनिधर्मका दोनोंका निरूपण किया और कृपापूर्वक वतलाया कि यह धर्म ही सुखोंकी खानि है मनुष्योंको परलोकके लिए यही पाथेय (साथ ले जाने योग्य) है और यही पापोंकी नाश करनेवाला तथा उत्तम है ॥ ३-४ ॥ मुनिके द्वारा कहे हुये और संसारसे पारकर देनेवाले उस धर्मको सुनकर उन दोनों ने मुनिको नमस्कारकर अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ ५ ॥ उन्होंने पूछा कि हे भगवन् ! हम दोनों ने पहिले जन्ममें ऐसा कौनसा तप किया था, अथवा दान दिया था, अथवा व्रत पालन किया था अथवा भगवानका पूजन किया था जिससे हम दोनोंको विद्याधरोंकी विभूति प्राप्त हुई है । हे देव । हमें सुखी करनेके लिये यह सब कृपापूर्वक निरूपण कीजिए ॥ ६-७ ॥ उन दोनोंपर अबुग्रह करनेके लिये ही वे मुनिराज कहने लगे कि हे विद्याधरो ! मैं पहिली कथा कहता हूं तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ८ ॥ धातकी खण्ड द्वीपके पूर्व भेरुके उत्तर दिशाकी ओर ऐरावत क्षेत्रमें तिलकपुर नामका नगर है ॥ ९ ॥ उसमें धर्मात्मा अभयघोष नामका राजा राज्य करता था और उसके शुभहृदयवाली सुवर्णतिलका नामकी रानी थी ॥ १० ॥ उन दोनोंके दो पुत्र हुए थे विजय और जयंत उनका नाम था वे दोनों ही भाई धीर वीर थे, शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थे और नीतिमान् तथा

का कारण ही जाता है ॥ २६ ॥ अधानन्तर — किसी एक दिन राजा अभयघोषने मध्याह्नके समय श्रेष्ठ धर्म-को उत्पादन करनेवाली परम प्रसन्नताके साथ दमयर नामके श्रेष्ठपुत्र मुनिराजका पड़गाहन किया । जिनधर्मका विचार करनेवाले उस राजाने अशुभ कर्मोंको नाश करनेके लिये दाताके साते गुणोंसे विभूषित होकर बड़ी भक्तिसे नौ प्रकारकी विधिपूर्वक उन मुनिराजको प्राप्तक, सिष्ट सरस और उत्तम आहार दिया । उसी समय प्राप्त हुए पुरयसे राजा अभयघोषके घर रत्नवृष्टि आदि उत्तम पंचारचर्य हुआ ॥ २७-३० ॥ पात्रदानके फलसे जिसप्रकार इसलोकमें भारी विभूति प्राप्त होती है उसी प्रकार स्वर्ण मोक्ष देनेवाली अनेक प्रकारकी लक्ष्मी परलोकमें भी प्राप्त होती है ॥ ३१ ॥ वह राजा अभयघोष दातके प्रभावसे प्राप्त हुए पंचारचर्योंको देखकर तथा काल लविके प्राप्त हो जानेसे उसी समय संवेगको प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ वह विचार करने लगा कि देखो ! जिन मुनियोंको दान देनेसे यह मनुष्य क्षणमात्रमें ही देवोंके द्वारा प्रकट हुई बहुमूल्य उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है फिर भला उन उत्तम मुनियोंको तपस्चरणके प्रभावसे स्वर्ण मोक्ष आदि परलोक में कौनसी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती होगी उसको मैं नहीं जान सकता ॥ ३३-३४ ॥ पापरूप समुद्रके मध्यमें रहनेवाली इस शहस्थीसे क्या निष्कर्ष हो सकता है क्योंकि इस शहस्थीके द्वारा मनुष्योंको मोक्षरूपी स्त्रीका मुखकमल कभी दिखाई ही नहीं दे सकता ॥ ३५ ॥ इसका भी कारण यह है कि शहस्थ कभी कभी दान पूजा आदिके द्वारा थोड़ासा पुण्य संप्राप्त करता है परन्तु फिर हिंसा आदि पाप कार्योंके द्वारा बहुतरापाप संचय कर लेता है ॥ ३६ ॥ यह शहस्थ घरके व्यापाररूपी कार्योंके समुद्रमें सदा डूबा रहता है और बहुतरासी चिंताओंमें विरग रहता है इसलिये वह कभी सुखी नहीं हो सकता उसे सदा दुख ही भोगने पड़ते हैं ॥ ३७ ॥ यदि शहस्थधर्म कल्याण करनेवाला ही होता तो तीर्थंकर ही इसे क्यों छोड़ते और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको छोड़कर क्यों दीक्षा धारण करते ? ॥ ३८ ॥ इस संसारमें केवल मुनियोंको ही अनेक प्रकारका सुख प्राप्त होता है क्यों कि वही सुख सब तरहकी चिंताओंसे रहित है आत्मासे उत्पन्न हुआ है और ध्यानसे प्राप्त हुआ है ॥ ३९ ॥ संसारमें वे मुनिराज ही धन्य हैं जो

आत्मानन्द रूपी अंजुलिके पात्रसे हृदयरूपी धरसे निकालकर ध्यानरूपी उत्तम अष्टतको सदा पीते रहते ॥ ४० ॥ यह संसार अनेक दुःखोंसे भरा हुआ है यदि इसमें कहीं सुख है तो वह केवल मुनियोंका ; केवल आत्मासे प्रगट होता है । इस संसारमें और किसी प्राणीको सुख नहीं है ॥ ४१ ॥ यदि मुनियोंका ई संसारमें त्रिषयोंसे रहित उत्तम सुख न हो तो फिर चक्रवर्ती लोग अपनी इतनी भारी विभूतिको ब्राह्म तपश्चरण कथा धारण करते हैं ॥ ४२ ॥ इसलिये मैं जानता हूँ कि आत्मासे प्रगट हुआ उपमा रहित प सुख है तो वीतराग मुनियोंको ही है अन्य रागो द्वेषी जीवोंको वह सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ इस प्रकार विचारकर उस राजा अभयघोषने शीघ्र ही तृणके समान राजपका त्याग किया और वह अपने दो पुत्रोंके साथ अनङ्गसेन गुरुके समीप पहुँचा ॥ ४४ ॥ वहाँ जाकर उस राजाने तीनों लोकोंका हिन कर बाले उन मुनिराजको नमस्कार किया उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दी, बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह त्याग किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने दोनों पुत्रोंके साथ एकाग्रचित्तसे समस्त कर्माँ रूपी अग्नि को जलानेके लिए अग्निके समान संयम धारण किया ॥ ४२-४६ ॥ तदनन्तर वे तीनों ही मुनिराज र मोक्षकी लक्ष्मीके चित्तको मोहित करनेवाला वारह प्रकारका घोर और असह्य तपश्चरण करने लगे ॥ ४७ ॥ मुनिराज अभयघोषने सन्म्यदर्शनकी विशुद्धिधारणकी और तीर्थकर पदको देनेवाली सोलह कारण भा नाएँ भावन कीं ॥ ४८ ॥ पहिली भावना सन्म्यदर्शनकी विशुद्धि है, दूसरी मन वचन कायसे मुनियों विनय है, द्रत और शीलोंको अतिचार रहित पालन करनेकी भावना तीसरी है, अपना उपयोग सदा ज्ञान वनापे रखनेकी भावना चौथी है, संसार शरीर आदिसे भ्रान्ति प्रगट करनेवाली संवेग रूप भावना पाँच है, छठी शक्तिके अनुसार चारों प्रकारके दान देनेकी भावना है, सातवीं शक्तिके अनुसार वारह प्रकार तपश्चरण करनेकी भावना है, आठवीं भावना धर्माधान और शुक्लव्यान को प्रकट करनेवाली साधु समा है । दशप्रकारके मुनियोंकी सेवा चाकरो कर दैयावृत्य करना नौवी भावना है । स्वर्गमोक्ष देनेवाली अरह देवकी भक्ति करना दशवीं भावना है । आचार्यकी भक्ति करना ग्यारहवीं भावना है मोक्षका मार्ग दिखाने

वाले उपाध्यायकी भक्ति करना बारहवीं भावना है, शास्त्रोंमें सदा भक्ति रखना तेरहवीं भावना है, कहीं आधश्यकोंको पूर्ण रीतिसे पालन करना चौदहवीं भावना है जैन धर्मके महात्म्यको प्रगट करनेवाली मार्ग-प्रभावना पंद्रहवीं भावना है और सब गुणोंकी खानिके समान धर्मात्माओंमें प्रेम करना सोलहवीं भावना है ॥ ४६-५३ ॥ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे बुद्धिमान पुरुषोंको तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करनेवाली ये ही ऊपर लिखी हुई सोलह कारण भावनायें हैं ॥ ५४ ॥ तीर्थंकर अबतक हुए हैं अथवा आगे होंगे अथवा जो हैं वे सब इन भावनाओं को चितवनकर ही हुए हैं और इसी प्रकार होंगे ॥ ५५ ॥ यदि केवल सम्यग्दर्शनकी ही विशुद्धि प्राप्त होजाय तो बलवती भावना तीर्थंकर नामकर्मका बंध करती है सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके बिना, मनुष्योंको कभी तीर्थंकर नामकर्मका बंध नहीं होता ॥ ५६ ॥ अल्पशक्तियाला भी जोव सम्यग्दर्शनसे सुशो-भित होकर इन भावनाओंके प्रभावसे तीर्थंकर हो जाता है और सब कर्मोंसे रहित होकर सिद्ध पद प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५७ ॥ इसलिये चारों प्रकारके सब संघको मोक्षरूपी खी प्राप्त करनेके लिये मोक्षरूपी लक्ष्मीको उत्तम सर्वािके समान इन भावनाओंका चितवन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ५८ ॥ उन अभयघोष मुनिराजने एकप्र चित्तसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके साथ २ सब भावनाओंका चितवनकर तीर्थंकर नाम कर्मका बंध किया ॥ ५९ ॥ उन्होंने अपनी शक्तिको प्रगटकर जीवन पर्यंत विधिपूर्वक द्रव्य-भाव दोनो प्रकारसे उत्तम संघमका पालन किया ॥ ६० ॥ आशुके अन्त समयमें चारों प्रकारके आहा-रका त्याग किया, सन्यास धारण किया, पवित्र चारों आराधनाओंका आराधन किया, बिना किसी संकल्प विकल्पके अपना मन परमेशीके चरण कमलोंमें लगाया और सब तरहके प्रयत्नोंके साथ समाधि पूर्वक प्राणोंको छोड़कर आसंख्यात सुखोंके सागर ऐसे अच्युत नामके सोलहवें शुभस्वर्गमें वे तीनों ही तप-श्चरण्यके उदयसे बड़ी ऋद्धिके धारी देव हुए ॥ ६१-६३ ॥ वहांपर उन्होंने अपनी अपनी देवियोंके साथ वाइंस सागर तक धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए, उपमारहित अत्यन्त सुख देनेवाले स्वर्गके उत्तम भोग और फिर वार्की वचं युध्यकर्मके उदयसे आशुके अन्तमें वहांसे च्युत होकर तुम दोनों राजपुत्र हुए ही ॥ ६४-६५ ॥

इसप्रकार उन मुनिराजके वचनोंको सुनकर उन दोनोंको बहुत संतोष हुआ और देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवान मुनिराजको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे फिर पढ़ने लगे कि हे प्रभो । हमारे पहिले जन्मके पिता रामें शांत परिणामोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज अनुग्रह करनेके लिए उन दोनोंके सामने सब संदेहोंको दूर करनेवाले वचन कहने लगे ॥ ६८ ॥ कि हे विद्याधरो ! मैं तुम्हारे पिताके तीर्थंकर होनेवाली कथा कहता हूँ । तुम मन लगाकर सुनो ॥ ६९ ॥ मनुष्योंसे भरे हुए जम्बूद्वीपमें धर्माका स्थानभूत पूर्व विदेहचेत्र है उसके पुष्कलवती देशमें पुंडरीकिया नगरी है ॥ ७० ॥ उसमें पुराणकर्ताके उदयसे हेमांगद नामका राजा राज्य करता था और उसकी रूपवती सुन्दर रानीका नाम मेघमालिनी था ॥ ७१ ॥ अभयघोषका जीव सोलहवें स्वर्गमें वचनोंके अगोचर सुखोंका अनुभवकर आयुके अन्तमें वहंसि चथकर उन दोनोंके तीनों लोकोंका हित करनेवाले धनरथ नामके तीर्थंकरकी पर्यायसे आया है ॥ ७२ ॥ इस समय वे श्रीमान् राजा धनरथ अपनी रानी और पुत्रोंके साथ दो मुर्गोंका युद्ध देखते हुए विराजमान हैं ॥ ७३ ॥ इन सब बातोंको सुनकर उन दोनों विद्याधरोने उन मुनिराजको नमस्कार किया और पहिले जन्मके प्रेमके कारण वे दोनों ही विद्याधर आपको देखनेकेलिए बड़ी शीघ्रतासे यहां आए हैं ॥ ७४ ॥ इसप्रकार मेघरथसे उस सब कथाको सुनकर उन दोनों विद्याधरोने अपना स्वरूप प्रगट किया और सबके प्रत्यक्ष हुए ॥ ७५ ॥ उन दोनों विद्याधरोने तीर्थंकर भगवान धनरथको और राजकुमार मेघरथको नमस्कार किया, पहिले जन्मके स्नेहके कारण भक्तिपूर्वक दिव्यबल आभूषणोंसे वार वार उनकी पूजाकी और स्तुति की । तदनन्तर वे दोनों ही विद्याधर शरीर भोग और संसारसे विरक्त हुए तथा संयम धारण करनेके लिए गोवर्द्धन मुनिराजके समीप पहुंचे ॥ ७६-७७ ॥ मन बचन कायसे उन मुनिराजको नमस्कारकर और परिग्रहोंका त्यागकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सदा रहनेवाली कोशरूपालक्ष्मीकी श्रेष्ठ माताके समान दीक्षा धारण की ॥ ७८ ॥ उन दोनोंने अनिष्ट, घोर और असह्य तपस्चरण किया, शुबलध्यानरूपी तलवारसे घातिया कर्मरूपी अनादिके शत्रुओंको नाश किया और

अनन्त गुणोंका समुद्र तथा लोकालोक सबको प्रकट करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया । इन्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजाकी ॥ ७९-८० ॥ उन्होंने अन्तमें अन्तके शुक्लध्यानरूपी अग्निसे वाकोके कर्मरूपी ई धनको जलाया और एक समयमें ही अनन्त सुखके स्थानभूत लोकके शिखर पर जा विराजमान हुए ॥ ८१ ॥ इधर दोनों मुर्गे भी पापकर्मके उदयसे प्राप्त हुए अनेक प्रकारके दुख देनेवाले पहिले भवके सब वैरको सुनकर अपने मनमें ही अपनी निंदा करने लगे ॥ ८२ ॥ उन दोनोंने सुख देनेवाला वैराग्य धारण किया परस्परका वैर छोड़ा और जीवनपर्यंत शुभ अनशन व्रत (उपवास) धारण किया ॥ ८३ ॥ उन दोनोंने अपनी शक्तिके अनुसार भूख प्यास आदि परीपहोंको सहन किया और वे दोनों ही हृदयमें श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण करने हुए धर्मको धारणकर रहने लगे ॥ ८४ ॥ उन्होंने प्रतिदिनके काय क्लेशसे शरीरको दुर्बल किया और शुभ ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक प्राणोंका त्याग किया वे दोनों ही मुर्गे मरकर धर्मके प्रभावसे भूतारण्य और देवारण्य वनमें तांत्रचूल और कनकचूल नामके भूत जातिके देव हुए ॥ ८५-८६ ॥ दिव्य गुणोत्सुशोभित उन दोनों देवोंने अपने अधिज्ञानसे उसी समय अपने पहिले भवके सब समाचार जान लिए और परस्परका अपना सम्बन्ध भी जान लिया ॥ ८७ ॥ वे दोनों ही विचार करने लगे कि कहां तो हम सांस भक्षी, निंब और हीन पक्षी थे और कहां हमें राजकुमार मेघरथने जीवोंकी दयापालन करनेवाले धर्मका उपदेश दिया ॥ ८८ ॥ यदि हम वहां जाकर उन धर्मात्माका प्रत्युपकार न करें तो फिर इस संसारमें हमारे समान अन्य नीच कौन होगा ॥ ८९ ॥ इसप्रकार कहकर वे दोनों ही देव आए, आकर उन्होंने बड़े प्रेमसे मेघरथको प्रणाम किया और वस्त्र माला आभूषण आदिसे उनकी पूजाकी ॥ ९० ॥ उन्होंने उनकी वार वार प्रशंसाकी स्तुतिकी और भक्तिपूर्वक कहा कि हे नराधीश ! आप धन्य हैं, और ज्ञान गुणसे शोभायमान हैं ॥ ९१ ॥ हे देव ! हम आपके ही प्रसादसे तिर्थच योनिको नष्टकर अत्यन्त सुखी और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए हैं ॥ ९२ ॥ अब हम आपका केवल यही उपकार करना चाहते हैं कि आप मानुषोत्तर पर्वतके भीतरका सब संसार देख लें ॥ ९३ ॥ इसप्रकार कहकर वे दोनों ही देव भक्तिपूर्वक खड़े रहे, तब कुमार मेघरथने उन दोनोंसे

कहा कि अच्छा तुम्हारा कहा स्वीकार है ॥ ९४ ॥ यह सुनकर उन दोनों देवों ने अनेक प्रकारकी ऋद्धि-
 यों से शोभायमान एक विमान बनाया और उसमें गुरुजनों के साथ देवके समान उल मेघरथ राजकुमारको
 बिठाया ॥ ९५ ॥ उन्होंने वह विमान ज्योतिषी देवोंसे विभूषित आकाश मार्गमें पहुंचाया और फिर वे दोनों
 देव वहांसे सुन्दर और मनोहर देशोंको दिखाने लगे ॥ ९६ ॥ वे दिखाने लगे कि हे देव ! देखिए ब्रह्म
 कालोंसे शोभायमान यह पहिला भरतक्षेत्र है और यह जघन्य भोगभूमिक सुख देनेवाला हिमवत क्षेत्र है
 ॥ ९७ ॥ उसके बाद मध्यम भोगभूमिक सुख देनेवाला यह हरि वर्ष क्षेत्र है और धर्म, तीर्थंकर गणधर
 आदिसे भरा हुआ यह विदेह क्षेत्र है ॥ ९८ ॥ यह जीवोंको पात्र दानका फल भोगोपभोग साम्यीको देने-
 भरतके समान श्रेयवत क्षेत्र है और दशप्रकारके कल्पवृक्षोंसे सुशोभित यह हैरण्यवत क्षेत्र है ॥ ९९ ॥ यह
 ॥ १०० ॥ श्रीजिनालयसे सुशोभित यह हिमवान पर्वत है । यह ऊंचा महाहिमवान पर्वत है और यह सुंदर
 निषिध पर्वत है ॥ १ ॥ यह दिव्य सुमेरु पर्वत है जो चारों वनोंसे शोभायमान है देव भी जिसकी
 सेवा करते हैं जो सोलह चैत्यालयोंसे विभूषित है और भगवानके स्नान करनेसे पवित्र है
 ॥ २ ॥ यह नील पर्वत है यह त्र्यम्बी है और यह शिखरो है ये ब्रह्म प्रसिद्ध कुल पर्वत हैं इनके पूर्व कूटपर
 भगवान श्रीजिनेन्द्रदेवके चैत्यालय हैं और अपनी कांतिसे ये सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ इधर देखिये, ये सप्तद्वार
 गमन करनेवाली चौदह सुन्दर महा नदियां हैं दरवाजा और वेदिकासे शोभायमान हैं, नित्य हैं, जलसे भरी
 हैं, बहुत चौड़ी हैं, शीतल हैं, दिव्य हैं, इनके दोनों किनारोंपर वन हैं ये पद्म महापद्म आदि सरोवरोंसे नि-
 कली हैं और अनेक नदियां आकर इनमें मिली हैं । गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सीता
 आठवीं सीतोदा, नारी, नरकान्ता, महानदी सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता, रकोदा ये इन नदियोंके नाम
 हैं ॥ ४-७ ॥ देखिये ये सोलह सरोवर हैं जो कमल और कमलोंपर बने हुए भवनोंसे शोभायमान हैं । यह
 पद्म है, महापद्म है, यह तिर्गच्छ है, केशरी है, महापुण्डरीक है, पुण्डरीक है, यह निपथ है, यह देवकुरु है

नेके लिये पृथ्वीपर आया ॥ ८६ ॥ उस देवने आते ही मुनिराज अजितसेन (जो विद्याधर शांतिमतीकी विद्या-
सिद्धिमें विघ्न कर रहा था) और वायुवेग (शांतिमतीका पिता) के दर्शन किए अतिशय वैराग्यके सम्बन्धसे
घरका त्याग कर संयम धारण करनेसे तथा तपश्चरण और ध्यानसे उन दोनोंको केवलज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त
हुए थे और वह केवलज्ञान उन दोनोंको उसी समय प्राप्त हुआ था । वे दोनों ही सिंह्रासनपर विराजमान थे,
उनपर चमर डुल रहे थे, अनेक प्रकारकी विभूति प्राप्त हो रही थी, प्रातिहार्योंके वीचमें वे विराजमान थे,
असंख्य देवगण उनकी सेवा कर रहे थे, चारों संधोंसे वे सुशोभित थे, अनंत गुण सहित विराजमान थे,
समस्त जीवोंका हितकरनेके लिए वे तत्पर थे, उनकी अनेक प्रकारकी महिमा फैल रही थी, सब इन्द्र मिलकर
उनकी पूजा कर रहे थे, अनन्त सुख उन्हें प्राप्त हो चुका था, और अनेक मुनिराज उन्हें नमस्कार कर रहे
थे ॥ ८७-९१ ॥ उन दोनोंके दर्शनकर वह देव विचार करने लगा कि आश्चर्य, कि कहां तो भयसे व्याकुल
हुआ विध्यांध विद्याधर और कहां देवोंके द्वारा पूज्य तीनों लोकोंके एक सर्वज्ञ देव । कहां तो मेरा वृद्ध पिता
और कहां सब पदार्थोंके एक साथ देखनेवाले केवली भगवान् । संसारमें बड़े पुरुषोंको भी अत्यन्त आश्चर्य
करनेवाली बात है ॥ ९२-९३ ॥ पहिले मुनियोंने बतलाया था कि जीवोंमें अनंत शक्ति है वह भूट कैसे हो
सकती है क्योंकि इससमय वह शक्ति मैंने साक्षात् देख ली ॥ ९४ ॥ इस प्रकार मनमें चिन्तनकर उसने
उन केवलीकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, मस्तक भुक्काकर उनको नमस्कार किया और गुण वणन कर उनकी
स्तुति की ॥ ९५ ॥ स्वर्गलोकके द्रव्योंसे बड़ी भक्तिपूर्वक उनकी पूजाकी और आश्चर्य करनेवाले धर्मसे प्रसन्न
होकर वह स्वर्गको चला गया ॥ ९६ ॥ चक्रवर्ती अपने मनमें जिनधर्मको स्थापनकर पुण्यकर्मके उदयसे ऊर्ध्वो
च्छुद्धिओंसे उत्पन्न होनेवाले भोगोंका सदा भोगने लगा ॥ अधानन्तर—चैत्यालयासे सुशोभित स्वेतवर्ण
रुपाचल पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें सुन्दर शिवमन्दिर नामका नगर है ॥ ९८ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे उसमें
मेघवाहन नामका राजा राज्य करता था । उसके विमला नामकी रूपवती और निर्मल स्त्री थी ॥ ९९ ॥ उन
दोनोंके सुवर्णभरणोंसे विभूषित, सती शीलवती और शुभ लक्षणोंवाली कनकमाला नामकी पुत्री थी

॥ १०० ॥ वह सहस्रायुधके पुत्र कनकशान्तिने विधिपूर्वक विवाही थी और शुभोदयसे वह उसे स्वयं तरहके सुख देती थी ॥१०१॥ तथा पुण्यकर्मके उदयसे स्वयोकसार नामके नगरमें जयसेन नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम जयसेना था । उनके वसन्तसेना नामकी पुत्री थी वह भी रूपयान कनकशान्तिने विधिपूर्वक विवाही थी और वह उसकी छोटी स्त्री थी ॥ १०२-३ ॥ जिसप्रकार काम रतिये स्तुष्ट होता है उसीप्रकार वह कनकशान्ति उसके कटाक्षोंसे, हास्यसे, कामसेवासे, बोधलके समान मधुर शब्दोंसे स्तुष्ट होता था । शुभकर्मके उदयसे किसी एक दिन वह कनकशान्ति अपनी स्त्रियोंके साथ कौतूहलसे बुलाए हुएके समान विहार करनेके लिये वनमें गया ॥ १-५ ॥ जिस प्रकार कन्द मूल फल ढंढनेवालेको निधि मिल जाय उसी प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे कुमारने उस वनमें विमलप्रभ नामके मुनिके दर्शन किए । वे मुनिराज ज्ञानकी प्रभासे घिरे हुए थे, पापकर्मरूपी मलसे रहित थे, और सब जीवोंका हित करनेवाले थे, वह बुद्धिमान उनको नमस्कार कर और उनको तीन प्रदक्षिणा देकर उनके समीप बैठ गया ॥ ६-७ ॥ उन मुनिराजने धर्मबुद्धि देकर आशीर्वाद दिया और फिर कृपापूर्वक श्रेष्ठ धर्मका निरूपण करना प्रारम्भ किया ॥ ८ ॥ श्रावकोंका धर्म एक देश है परन्तु वह जीवोंकी दयासे भरपूर और अशुभ्रत शिखाव्रतोंको धारणकर सिद्ध किया जाता है ॥९॥ इसी प्रकार दान पूजा आदिसे भी वह सिद्ध किया जाता है वह धर्म स्वर्ग लोकका देनेवाला है और सभ्यदर्शन सहित होनेकर अनुक्रमसे निर्वाणको सिद्ध करता है ॥ १० ॥ पापरहित श्रेष्ठ संपूर्ण धर्म अत्यन्त कठिन है, उपमा रहित है और मोक्ष प्राप्त होने पर्यन्त कल्याण करनेवाला है उस घर आदि परिग्रहोंका त्याग करनेवाले, और परीषहोंको जीतनेवाले धीरवीर मुनिराज ही तपश्चरण, सभ्यदर्शन, ज्ञान चारित्र और विनयके द्वारा पालन कर सकते हैं ॥ ११-१२ ॥ जो दोन मनुष्य विषयासक्त हैं और स्त्री आदिसे घिरे हुए हैं वे कभी स्वप्नमें भी श्रेष्ठ मुनिधर्मको धारण नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ इसलिये हे राजन् गृहस्थ धर्मको छोड़कर तीर्थांकर और गणधरोंके द्वारा सेवनीय तथा सुख देनेवाले मुनिधर्मको शीघ्र धारण कर ॥ १४ ॥ गृहस्थ कभी सामायिक आदिके द्वारा धर्म करता है तो कभी घरमें रहनेवाले बहुतसे आरंभ आदिसे केवल पाप ही करता है तथा कभी चैत्र्यालय आदि बनाकर पुण्य पाप दोनों करता है । इस प्रकार

श्रावक सदा कर्मोंको बांधता और नष्ट करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ इसलिए बुद्धिमान पुरुषोंको धर छोड़कर अत्यन्त निर्मल, सारभूत, सब चिन्ताओंसे रहित और सब तरहके पाप योगोंसे रहित ऐसा मुनिधर्म धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ सुनिर्धर्मको धारण करनेसे यह जीव इस लोकमें भी देव और चक्रवर्ति योंद्वारा पूज्य हो जाता है फिर भला परलोककी तो बात हो क्या है ॥ कुमार कनकशान्ति भी उन मुनिराजके वचन सुनकर तथा शरीर भोग और संसारसे बिरक्त होकर मुनिराजके धर्मको देनेवाले परम संवेगको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ वह विचार करने लगा कि जिनके हृदय विषयोंमें आसक्त हैं ऐसे भजुर्थोंके बहुतरसे दुर्लभ दिन बिना धर्मके व्यर्थ ही चले जाते हैं ॥ २० ॥ जो दिन निकल जाते हैं वे सैकड़ों सुवर्णके खंड देनेपर भी फिर कभी नहीं लौट सकते । इस लिए जबतक वे दिन कुछ बाकी रहें तबतक ही बुद्धिमानोंको अपना हित कर लेना चाहिए ॥ २१ ॥ जिसप्रकार निकके नष्ट होनेपर दरिद्रोंको हाथ ही मलना पड़ता है उसीप्रकार देवसे आयु पूरी हो जानेपर सृष्टिके समय सज्जन लोगोंको हाथ ही मलना पड़ता है ॥ २२ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको बालकपनमें भी धर्म सेवन करना चाहिये क्योंकि यमराज लेनेके लिए कब आ जायगा यह किसीको मालूम नहीं है ॥ २३ ॥ जो जीव बालकपनमें कठिन तपश्चरण और चारित्र्य पालन नहीं करता वह पीछे उसका पालन नहीं कर सकता जैसे वृद्धावस्थामें बेल कुछ नहीं कर सका ॥ २४ ॥ इसप्रकार विचारकर दोनों त्रिवर्णोंका और भोग लक्ष्मीका त्याग किया और स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वैराग्य धारणकर दीक्षालक्ष्मी स्वीकार की ॥ २५ ॥ कनकशान्तिके तपश्चरण धारण कर लेनेपर विवेकरूप निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाली उन्न रानियोंने भी शीघ्र ही शरीर भोग और संसारसे वैराग्य धारण किया ॥ २६ ॥ वे दोनों ही अपना कुलकी आई हुई स्त्रियोंके साथ विमलमती नामकी गणिनीके समीप पहुँची और उनको लम्बरत्नारकर सबके साथ उहाँने दाँवा धारण की ॥ २७ ॥ इंधर वे कनकशान्ति नामके मुनिराज सदा श्रुत ज्ञानका अभ्यास करने लगे, ध्यानका अभ्यास करने लगे, दोनों प्रकारका कठिन तथा घोर तपश्चरण करने लगे और परिषद्द्वारा जीतने लगे ॥ २८ ॥ वे मुनिराज बलभे, पर्वतपर, किसी पर्वतकी गुफा आदि शून्यस्थानमें और भयंकरसंशान्तोंमें सिंहके समा-

न सदा निर्भय होकर रहते थे ॥ २९ ॥ वे धीर वीर मुनिराज कर्मोंको नाश करनेकेलिये विना किसी प्रमाद-
के जंगल गांव और वन आदिकोंमें अकेले विहार किया करते थे ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपने शरीरसे समस्त
आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हैं और जिनकी बुद्धि विशुद्ध है ऐसे वे धीर वीर मुनिराज किसी एक दिन
सिद्धाचल पर्वतपर कायोत्सर्ग धारण कर विराजमान हुए ॥ ३१ ॥ वहांपर उन निरग्रह मुनिराजको वस्तंतसेना-
के भाई चित्रचूतने देखा । पहिले बंधे हुए वैरके कारण और पाप कर्मके उदयसे उन्हें देखते ही क्रोधसे उस-
के नेत्र लाल होगए और उस मौखने उन मुनिराजपर उपसर्ग करनेका विचार किया ॥ ३२-३३ ॥ परन्तु
उसी समय उन मुनिराजके तपश्चरणके प्रभावसे पुण्यवान विद्याधर राजाओंने उसे बलकारा इसलिये वह
पापी असमर्थ होनेके कारण वहांसे भाग गया ॥ ३४ ॥ किसी दूसरे दिन वे मुनिराज अपने योथ्य समयपर
आहारके लिए ईर्ष्यापथ शुद्धिसे रत्नपुर नामके नगरमें पहुंचे ॥ ३५ ॥ वहांपर जिसका शरीर श्रेष्ठधर्मसे वि-
भूषित होरहा है ऐसे राजा रत्नसेनने उनका पङ्गाहन किया उन्हें नमस्कार किया और निधि पानेके समान
वह प्रसन्न हुआ ॥ ३६ ॥ उन कनकशांति मुनिराजके लिए उस राजाने दाताके सातों गुणोंसे परिपूर्ण होकर
नवधा भक्तिसे विधिपूर्वक मन वचन कायका शुद्धकर बड़ी भक्तिसे प्राप्तक नूर, चिकना, रसीला, धर्मको
बढ़ानेवाला और कृतादि दोषोंसे रहित शुद्ध आहार दिया ॥ ३७-३८ ॥ उसी समय उपार्जन किए हुए
पुण्यके प्रभावंसे राजाके घर देवोंने रत्नबुद्धि आदि उत्तम पंचाश्वर्य किए ॥ ३९ ॥ देखो ! मुनियोंके दान
देनेसे जब इस लोकमें ही अनेक तरहकी संपत्ति मिल जाती है फिर भला परलोकमें भोगकाय और देवोंकी
संपदा क्यों नहीं मिल सकती ॥ ४० ॥ जिसप्रकार बुद्धिमान लोग सोने और रत्नोंके थोड़ेसे व्यापारसे बहुत-
तसी लक्ष्मी कमा लेते हैं उसीप्रकार सत्पात्रोंको थोड़ासा दान देकर भी यह मनुष्य इस लोक और परलोक
दोनों लोकोंमें सुखोंसे भरे हुए समुद्रके समान श्रेष्ठ पुण्य उपार्जन करता है ॥ ४१-४२ ॥ किसी एक दिन
वे मुनिराज यात्रिया कर्मरूप शत्रुओंको नाश करनेके लिए सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायाग धारण कर
विराजमान हुए ॥ ४३ ॥ उनका देखकर वही चित्रचूत क्रोधरूपी अग्निसे जाडवल्यमान होगया और पाप

॥ ६५ ॥ वहाँके सुनिगण निर्ममत्वकी प्राप्ति करनेके लिए और भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए प्रत्येक गांव खेट और नगरमें बिहार किया करते हैं ॥ ६६ ॥ वहाँपर पुण्यवान, दानी जिनपूजा करनेमें तत्पर और सदा श्रावकोंके विभूषित करनेवाले गृहस्थ ही निवास करते हैं ॥ ६७ ॥ देवांगनाओंके समान वहाँकी चतुर स्त्रियां दान देनेवाली हैं, शील पालन करनेवाली हैं, धर्म धारण करनेवाली हैं तथा रूपवती और लावण्यवती हैं ॥ ६८ ॥ उत्तम नरेशका शासन होनेसे वहाँकी प्रजाको चोर आदिका कुछ भय नहीं है अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए बहुतसे सुखको सदा भोगती रहती है ॥ ६९ ॥ कर्मके प्रभावसे वहाँके लोगोंके पास अनेक प्रकारकी लक्ष्मी है वे दान पुण्यमें सदा तत्पर रहते हैं और सदा उत्सव मनाते रहते हैं ॥ ७० ॥ वहाँपर उत्पन्न हुए कितने ही लोग दानके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं और कितने ही तपश्चरणके प्रभावसे स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ तथा कितने ही भव्य जीव चारित्र्य धारण कर और कर्मसमूहको नाश कर वन्धनरहित हो जानेके कारण मोक्षमें ही जा बिराजमान होते हैं ॥ २ ॥ वहाँपर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसी निर्वाण भूमियां हैं जो पुण्य कर्मोंकी जननी हैं और मुनियोंकेलिये वसतिकके समान हैं ॥ ३ ॥ उस देशमें केवलज्ञानी भी धर्म वृद्धिकेलिये चारों संघोंके साथ, देवों सहित लोगोंकी इच्छानुसार विचार करते हैं ॥ ४ ॥ इत्यादि वर्णन करने योग्य उस देशमें मध्यभागमें नाभिके समान हस्तिनापुरी नामकी एक नगरी है जो कि स्वर्गपुरीके समान शोभायमान है ॥ ५ ॥ ऊंचे को, ५, और ऊंचे दरवाजोंसे तथा खाई और आटारियोंकी पंक्तियोंसे वह नगरी शोभायमान है और उसे शत्रु भी कभी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ राज-भवनोंकी शिखर पर फहराती हुई ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती है मानों पुण्यवान देवोंको धर्म साधन करनेके लिये ही बुला रही है ॥ ७ ॥ उत्तम पदार्थोंसे भरे हुए राजमार्ग ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो सुन्दर चारित्र्यवालोंसे चलता हुआ स्वर्ग मोक्षका मार्ग ही हो ॥ ८ ॥ उस नगरीमें मुनि और गृहस्थोंके द्वारा श्राजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ अहिंसारूप धर्म ही प्रतिदिन धारण किया जाता है ॥ ९ ॥ वहाँपर इस लोक तथा परलोक संबंधी कार्योंमें मंगल कार्योंमें तथा भोजन प्राप्त करनेके लिए गृहस्थोंके द्वारा श्रौतीर्थकर ही माने

जाते हैं और वे ही पूजे जाते हैं ॥१०॥ उस नगरीके जन्तुरहित वनोंमें ध्यानादिक की सिद्धिके लिए इच्छा-रहित योगी चतुर श्रुति निवाल्न किया करते हैं ॥ ११ ॥ कोटसे, तोरणोंसे, मनोहर धर्मोपकरणोंसे, शिखरों-पर लगी हुई ध्वजाओंके समूहसे, गीत नृत्य बाजे, सैकड़ों स्तोत्रोंके शब्द, और धर्मार्त्ता स्त्री पुरुषोंके द्वारा वहंके जिनमन्दिर धर्मके सागरके समान उत्तम जान पड़ते हैं ॥ १२-१३ ॥ धुले हुए वस्त्र पहने, हाथमें पूजा-की सामग्री लिए जिनमन्दिरोंकी ओर जाती हुई वहां की स्त्रियां देवांगनाओंके समान जान पड़ती हैं ॥ १४ ॥ कितनी ही रूपवती स्त्रियां भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर घरकी आती हुई अप्सराओंके समान शोभायमान होती हैं ॥ १५ ॥ रूप लावण्यसे सुन्दर दिखनेवाली कितनी ही स्त्रियां जिन मन्दिरमें गीत नृत्य करती हुई किन्नरियोंके समान अच्छी जान पड़ती हैं ॥ १६ ॥ वहांके रहनेवाले शहरथ सवेरे ही चारपाईसे उठ कर सदा जप सामायिक आदि धर्म ध्यान किया करते हैं ॥ १७ ॥ पात्रदान देनेमें तत्पर रहनेवाले सब दानी शहरथ, मुनियोंको दान देनेके लिये द्रो पहरके समय द्वारापेक्षा किया करते हैं ॥ १८ ॥ दृढ़वती वे पुरुष संन्यायके समय प्रतिदिन पंच नमस्कार मंत्रका जप किया करते हैं रामायिक किया करते हैं और कायोत्सर्ग किया करते हैं ॥ १९ ॥ धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले वहांके पुरुष सोच प्राप्त करनेके लिये अष्टमी और चतुर्दशीके दिन वरसंन्यधी सब आरम्भ छोड़कर प्रोषधोपवास किया करते हैं ॥ २० ॥ वहांके स्त्री पुरुष सब धर्म पालन करनेकेलिये शहरथोंके योग्य सब वतोंका पालन करते हैं और सब शीलवतोंको पालन करते हैं ॥ २१ ॥ वहांके रहनेवाले धर्मार्त्ता हैं, दानी हैं, सुन्दर हैं, धीर वीर हैं शीलवतोंको पालन करनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं और सम्यग्दृष्टी हैं ॥ २२ ॥ पुण्य कर्मके उदयसे वहांकी स्त्रियां रूपवती हाव भाव आदिमें चतुर लावण्यरूपी समुद्रकी बेलके समान जान पड़ती हैं ॥ २३ ॥ उस शहरके मध्यभागके उत्तरी ओर उत्तम राजमन्दिर है वह राजमन्दिर पर्वतके शिखरके समान बहुत ऊंचा है, कोट दरवाजे आदिसे शोभायमान है, बहुत बड़ा है, परिवार और सेवकोंसे भरा है, सुन्दर है, अनेक सिद्धियोंसे सुशोभित है, आवाज और बाजोंके सैकड़ों शब्दोंसे व्याप्त है, और उसमें सब आवश्यक पदार्थ

यथा स्थानपर रखवे हुए हैं। उसके चारों ओर और भी छोटे छोटे सफेद भवन हैं जो ऐसे जान पड़ते हैं मनों चन्द्रमाके चारों ओर तारे ही हों ॥ २४-२६ ॥ उस राजधानीमें समस्त शत्रुओंको जीतनेवाले और काश्यप गोत्रमें उत्पन्न हुए महाराज अजितसेन राज करते थे ॥ २७ ॥ उनकी रानीका नाम प्रियदर्शना था वह बड़ी ही सुन्दरी थी, अनेक गुणोंसे सुशोभित थी और बाल चन्द्रमा आदि शुभ स्वप्नोंको देखनेवाली थी ॥ २८ ॥ उन दोनोंके पुण्य कर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गसे आकर अनेक श्रेष्ठ गुणोंके सागर ऐसे विश्वसेन नामके पुत्र हुये थे ॥ २९ ॥ वे महाराज विश्वसेन तीन ज्ञानधारी थे, अनेक राजा उनके चरण कमलोंकी सेवा करते थे, और धर्मात्मा तथा ज्ञानी गुरुओंकी वे विनय करते थे ॥ ३० ॥ भगवान तीर्थंकरके वे भक्त थे, लोगोको प्रिय दाता थे, और कुटुम्बी लोगोको सुख देते थे ॥ ३१ ॥ वे राज्यका सब भार धारण करते थे, बड़े सुन्दर थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानो विज्ञान सहित थे, बुद्धिमान थे, और विद्वान थे ॥ ३२ ॥ उन्हें अनेक श्रेष्ठियां प्राप्त थीं वे बड़े वक्ता थे उनको कीर्ति तीनों लोकोंमें फैली हुई थी तीनों लोकोंमें वे प्रसिद्ध थे और देव मनुष्य विद्याधर सब उनकी सेवा करते थे ॥ ३३ ॥ सुकुट कुंडल हार अंगद केशूर कंकण आभूषणोंसे तथा दिव्य माला और वस्त्रोंसे वे महाराज इन्द्रके समान शोभायमान थे ॥ ३४ ॥ अथानन्तर गांधार देशके गांधार नगरमें धर्मके प्रभावसे श्रीमान् महाराज अजितंजय राज्य करते थे ॥ ३५ ॥ उनकी सौभाग्यशालिनी रानीका नाम अजिता था। उन दोनोंके सनत्कुमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी ॥ ३६ ॥ यौवन अस्वथामें उस रूपवती सुन्दरका विवाह विवाहविधिसे महाराज विश्वसेनके साथ हुआ था ॥ ३७ ॥ वह महादेवी महाराज विश्वसेनकी पहरानी थी, उनकी बहुत प्यारी थी, सब लोग उसे मानते थे और लावण्यरसकी वह कुई थी ॥ ३८ ॥ समस्त सुन्दर अंग प्रयगोंको धारण करनेवाली वह रानी रूप लावण्य, कांति, लक्ष्मी, बुद्धि, दीप्ति और विभूतिसे प्रतिदिन इन्द्रानीके समान शोभायमान थी ॥ ३९ ॥ वह अपनी कांतिसे चन्द्रमाकी कलाके समान लोगोंको आनन्द देती थी और ऐसी जान पड़ती थी यानों देवांगनाओंके रूपका सार लेकर ही बनाई हो ॥ ४० ॥ वह मनोहर थी, मनोज्ञ थी, सरस्वतीके समान

लोगों को प्यारी थी, विज्ञानमें कुशल थी, चतुर थी, कलाओं की जानकार थी, उसका मुख सदा प्रसन्न रहता था और स्वर उनका बहुत ही मीठा था ॥ ४१ ॥ धर्मके कामोंमें चलते समय सुन्दर लक्षणों से सुशोभित हुए उसके दोनों चरण ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों अशोक वृक्षके पत्ते ही हों ॥ ४२ ॥ वे चरण मणियोंके बने हुए विष्णुओंके भंकारोंसे शब्दापमान थे, देव उनकी सेवा करते थे वे बड़े कोमल थे और नखरूपी चन्द्रमासे प्रगट हुई सैकड़ों किरणोंसे वे व्याप्त थे ॥ ४३ ॥ केलेके खंभेके समान उसके जंघा बहुत ही अच्छे जान पड़ते थे और कांची देशके बने हुए शालसे ढका हुआ उसका कटिबंध बहुत ही सुन्दर जान पड़ता था ॥ ४४ ॥ उसका हृदय यौवनकी लक्ष्मीके घरके दो स्तन कुम्भोंसे शोभायमान था और उसपर पड़ा हुआ दिव्य हार बहुत ही सुशोभित होता था ॥ ४५ ॥ उसके दोनों हाथ कंकणोंसे शोभावमान थे भगवानकी सेवा करनेमें तत्पर थे कमलोंकी जीतते थे और बड़े ही मनोहर थे ॥ ४६ ॥ उसका कंठ गीत स्वर, और कंठाभरणसे सुशोभित था, कोमल था, मनोहर था और पुत्रके आलिंगन करनेमें तत्पर था ॥ ४७ ॥ उसके मुखकी कांति चन्द्रमंडलके समान तथा सरस्वतीके घरके समान वह संसारमें शोभायमान था ॥ ४८ ॥ उसके दोनों कान श्रुतज्ञानसे सुशोभित थे और श्रुतदेवताकी पूजन सामर्थ्यके समान कानोंमें पहने हुए आभरणोंकी रचनासे बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४९ ॥ उसके नेत्र स्निग्ध थे, मनोहर थे, विभ्रम विलाससहित थे, भगवानका मुख देखनेकेलिये लाजायित थे और कज्जलसे शोभायमान थे ॥ ५० ॥ उसका मस्तक भौराके समान काले बालोंसे सुशोभित था, पुष्पगंध आदिसे सुगंधित था और देव शुकको ही नमस्कार करता था ॥ ५१ ॥ पुण्य संपत्ति ही उसकी जतनी थी लज्जा ही उसकी सखी थी और गुण ही उसके परिजन थे ॥ ५२ ॥ बहू दिव्य वस्त्र पहने हुए थी उसम शृङ्गार रचनासे सुशोभित थी और ऐसी जान पड़ती थी मानों ब्रह्माने (नाम कर्मने) कोमल और मनोहर परमाणुओंसे ही बनाई हो ॥ ५३ ॥ इस संसारमें कवियोंने खियोंके जो कुछ उत्तम लक्षण वर्णन किए हैं वे उसके शुभ शरीरमें सब विद्यमान थे ॥ ५४ ॥ हमलोग वीतराग हैं इसलिए हमने वे सब लक्षण नहीं कहे हैं क्यों कि शृङ्गारकी पुष्टि

पालन करनेसे, पौषधोपवास करनेसे और परोपकार करनेसे प्रकट होता है ॥ ३ ॥ जो जीव मन वचन कायसे सुखके सागर एक धर्मका ही पालन करते हैं वे श्रीशांतिनाथ भगवानके समान स्वर्ग और मनुष्योंके महासुख भोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें धर्म ही स्वर्गके सुख देनेवाला है और गुण प्रकट करनेवाला है, इस धर्मका आश्रय मुनिराज ही लेते हैं क्योंकि धर्मसे ही यह पुरुष संसार समुद्रमें पार होता है इसीलिये मैं धर्मके लिए ही सदा नमस्कार करता हूँ । धर्मके सिवाय अन्य कोई मोक्षका कारण नहीं है । धर्मकी जड़ सम्यग्दर्शन है, इसलिये मैं अपने मन वचन काय धर्ममें ही धारण करता हूँ । हे धर्म इस संसारमें अशुभ मोहसे भरो रक्षा कर ॥ ५ ॥ भगवान शांतिनाथ समस्त पापोंकी शांति करनेवाले हैं, धर्मात्मा जीवोंके शरण हैं और संसार काम आदिके संतापसे संतप्त हुए जीवोंके समस्त दुख दूर करनेवाले हैं ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको मैं समस्त दुख और पाप नष्ट करनेके लिये तथा समस्त व्यसन शांति करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

इसप्रकार श्रीशांतिनाथ पुराणमें अहमिन्द्रके गर्भावतरणको करनेका वारहवार अधिकार समाप्त ॥ १२ ॥

अथ तेरहवां अधिकार ।

अथानन्तर—वह मंगल करनेवालो ऐसा महादेवी जगानेके लिये वज्रते हुए तुरई आदि बाजे सुनकर जगी और बंदी लोगोंके मंगल, गीत सुनने लगी ॥ २ ॥ बंदीजन कहने लगे कि हे देवी ! आपके सामने यह जगनेका समय आ गया है क्योंकि यह प्रातःकालका समय धर्म ध्यानके योग्य है ॥ ३ ॥ इस योग्य समयमें कितने ही जैती मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चंचल योगोंका निरोध कर सुख देनेवाला उत्तम सामायिक करते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही लोग धर्म साधन करनेके लिये एकाग्रचित्तसे समस्त विघ्नोंको दूर करनेवाले पंच परमेषियोंके वाचक उत्तम नमस्कार मंत्रोंका जप करते हैं ॥ ५ ॥ मोक्षरूपी स्त्रीमें आसक्त हुए कितने ही लोग चारपाईसे उठकर मनको रोककर कर्मोंका नाश करनेवाला अरहंतोंका ध्यान करते हैं ॥६॥ इस समय

कितने ही धीर वीर मुनि केवल मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए शरीरसे ममत्त्व छोड़कर संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये जहाजके समान कायोलसर्ग धारण करते हैं ॥ ७ ॥ इस प्रातःकालके समय कितने ही लोभ कामप्रिय यह संसार अनिष्ट है इसी बातको लोगोंके सामने बतलाता हुआ चन्द्रमा अस्ताचलके सरभुख हो गया उसकी किरणें भी मन्द पड़ गई हैं और कांति भी मन्द पड़ गई है ॥ ९ ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके शुभ कर्मल प्रफुलित हो रहे हैं ॥ १० ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके वचनोंसे अभव्य जीवोंका हृदय कमल संकुचित हो जाता है उसीप्रकार इस प्रातः कालके समय सूर्यके संबंधसे ऋषुदितियोंका समूह संकुचित हो गया है ॥ ११ ॥ जिसप्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवके वचनोंसे अज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार प्रातः कालके सूर्योदय होनेसे रात्रिका अन्धकार सब नष्ट हो गया है ॥ १२ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? पापोंको शांत करनेके लिये रात्रि व्यतीत हो गई है और रात्रिके व्यतीत होनेसे बहुतसे लोभ धर्मध्यातमें लग गये हैं ॥ १३ ॥ इसलिये हे देवि अब श्रीप्रही शय्या छोड़िये और इस प्रातः कालके समय स्तोत्र स्मरण कर धर्मका सेवन कीजिये ॥ १४ ॥ हे सुमङ्गले ! इसी धर्मके सेवन करनेसे तू इसलोकमें इंद्राणी आदिसे उत्पन्न हुए और परलोकमें स्वर्गादि-कोसे उत्पन्न हुए मंगलोंको (कल्याणोंको) प्राप्त होगी ॥ १५ ॥ वह सती महादेवी पहिलेसे ही जग रही थी तो भी बन्दीजनोंने उसे ऊपर लिये अनुसार प्रबोधित किया उस समय महादेवीका मुख कमलिनिके समान स्वर्णोंके देखनेसे प्रफुलित हो रहा था ॥ १६ ॥ वह शय्यासे उठी और समस्त मङ्गल कार्योंकी सिद्धि-केलिये धर्मका कारणभूत भगवानका स्मरण करने लगी ॥ १७ ॥ उसने समस्त पुण्यकर्मके लिये, स्वानादिक-नित्य कर्म किया ब्रह्माभरण पहने और फिर वह चलती हुई कल्पवेलके समान निकली, उस समय सफेद-छत्रसे वह शोभायमान हो रही थी जिनवाणीके समान लोगोंको प्रिय थी, चारों ओर परदा आदि ढालकर अपना महोदय प्रगट कर रही थी, और जिसप्रकार चन्द्रमाकी रेखा रात्रिमें प्रवेश करती है उसी प्रकार

की कामाग्नि स्त्रियोंपर प्रेम करनेसे और अधिक बढ़ती है ॥ ७२ ॥ जिसप्रकार अग्नि जलसे ही शान्त होती है उसी प्रकार अनेक अनर्थोंको उत्पन्न करनेवाली मनुष्योंकी कामरूपी अग्नि ब्रह्मचर्यरूपी जलसे ही शान्त हो सकती है ॥ ७३ ॥ मनुष्योंके हृदयमें जबतक कामरूपी अग्नि जलतो रहती है तबतक उस हृदयमें चारित्र्य तप ध्यानरूपी वृद्ध किस प्रकार जम सकते हैं ? ॥ ७४ ॥ मनुष्योंको विषयोंसे उत्पन्न हुए सुख विषसे भी घोरतर विष हैं क्योंकि विष तो एक ही जन्ममें मनुष्योंके प्राण लेता है दूसरे भवमें नहीं परन्तु विषयोंसे उत्पन्न हुआ महा निध्न सुखरूपी विष मनुष्योंको जन्म जन्ममें नरक तिर्यचके अनेक दुख देता है ॥ ७५-७६ ॥ पापकी ओर ले जानेवाले ये सब भोग सर्पसे भी महादुष्ट हैं क्योंकि सर्प तो इसी भवमें प्राणोंका हरण करता है परलोकमें नहीं परन्तु अनन्त दुख और क्लेश और देनेवाले ये भोग नरकादि दुर्गतियोंमें अनन्त भवोंतक प्राणियोंके प्राणोंका हरण किया करते हैं ॥ ७७-७८ ॥ जबतक मनुष्योंकी आशा सांसारिक सुखोंसे बनी हुई है तबतक उनको मोक्षसुख किस प्रकार मिल सकता है ? ॥ ७९ ॥ समस्त दुखोंके कारण ये भोग रोगोंसे भी अधिक शत्रु हैं क्योंकि रोग तो मनुष्योंको थोड़े दिन तक ही दुख देते हैं परन्तु ये दुष्ट और नीच भोग प्राणियोंको चारों गतियोंमें बहुतसे दुख, शोक, भय, क्लेश, अपयश और पाप दिया करते हैं ॥ ८०-८१ ॥ जिनका हृदय भोगोंमें आसक्त है वे अशुभ कर्मोंसे ठगे हुए जीव अकेले ही सब प्रकारके दुख देनेवाले अनादि संसाररूपी मार्गमें सदा परित्रमण किया करते हैं ॥ ८२ ॥ जो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पहिले मोक्षमें जा चुके हैं वे केवल तपश्चरणसे ही गये हैं और भोगादिकोंको छोड़कर ही गए हैं ॥ ८३ ॥ जो सत्पुरुष इस संसारमें अब मोक्ष जायेंगे भोगोंको त्यागकर चारित्र्यका पालन करनेसे ही जायेंगे ॥ ८४ ॥ यही समझ कर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको कर्मोंका नाश करने और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये रोग सर्प और शत्रुके समान सबसे पहिले इन सब भोगोंका त्याग करना चाहिये ॥ ८५ ॥ बिना दीक्षा धारण किये तीर्थंकरोंको भी सदा रहनेवाली मोक्ष कभी नहीं होती है यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही वह दीक्षा धारण कर लेनी चाहिये ॥ ८६ ॥ इस प्रकार बहुत

तरहसे चिंतनकर महाराज मेघरथ वैराग्यको प्राप्त हुए और दीक्षा लेनेकी इच्छा रखते हुए उन्होंने अपने
 पूज्य पिता तीर्थंकरको नमस्कार किया ॥ ८७ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वे अपने हृदयमें अनित्य अश्रण
 आदि बारह अनुप्रेक्षाओंका चिंतन करने लगे और अनेक राजाओंके साथ अपने घर पहुंचे ॥ ८८ ॥
 स्वयं संयम धारण करनेके लिये वे महाराज मेघरथ अपने छोटे भाई दृढरथसे कहने लगे कि हे भाई !
 आज तू समस्त विभूतिके साथ इस राज्यको स्वीकार कर ॥ ८९ ॥ इसके उत्तरमें मोक्षकी इच्छा रखनेवाला
 वह दृढरथ कहने लगा कि हे भाई ! मेरी बात सुनिये, यदि राज्य अच्छा है तो फिर आप ही इसे क्यों
 छोड़ते हैं ॥ ९० ॥ पापोंको उत्पन्न करनेवाला राज्यका जो दोष आपने देखा है वही दोष बुद्धिके बलसे
 मैंने भी विशेष रीतिसे देख लिया है ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार वड़े पुरुष इस संसारमें वसन क्रिये हुए आहार
 की इच्छा नहीं करते हैं उसीप्रकार आपके द्वारा छोड़े हुए राज्यको मैं भी कभी नहीं भोग सकता ॥ ९२ ॥
 दीक्षा धारण करनेके लिये वह राज्य ग्रहण करके भी तो फिर छोड़ना पड़ेगा इसलिये तपश्चरण करने वा-
 लोंको पहिलेसे ही इसका ग्रहण न करना सबसे अच्छा है ॥ ९३ ॥ क्या आपसे डरनेवाले बुद्धिमान विवेकी
 पुरुष पहिले अपने शरीरको कीचड़में लपेटकर फिर स्वयं स्नान करते हैं ॥ ९४ ॥ इसलिये मैं मोक्ष प्राप्त
 करनेके लिए चिरकालसे आए हुए मोहको नाशकर आज आपके साथ ही पापोंको नाश करनेवाले उत्तम
 संयमको धारण करूंगा ॥ ९५ ॥ तब महाराज मेघरथने अपने छोटे भाईको राज्यसे परदुःख जानकर
 अपने पुत्र मेघनादको विधिपूर्वक राज्य दिया ॥ ९६ ॥ फिर शीघ्र ही वे मोक्ष प्राप्त करनेके लिए बड़ी विभूति,
 सहित अनेक राजा और छोटे भाईके साथ प्रसन्न होकर अपने पिता घनरथ तीर्थंकरके समीप पहुंचे ॥ ९७ ॥
 वहां जाकर उन्होंने बड़ी भक्तिसे मस्तक झुकाकर तीर्थंकरको नमस्कार किया और जिनवाणीके अनुसार
 मन बचन कायसे बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग किया ॥ ९८ ॥ इसप्रकार महाराज मेघरथने मोक्ष प्राप्त
 करनेके लिए सात हजार राजाओंके साथ और छोटे भाईके साथ देवोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा धार-
 ण की ॥ ९९ ॥ इसप्रकार महाराज मेघरथने पुण्य कर्मके उदयसे तीर्थंकरकी कही हुई जिनमुद्रा धारण की

थी और वे सबको बांटकर (सबको धर्मोपदेश देते हुए वा दूसरोंसे चारित्र्य पालन कराते हुए) निर्मल चारित्र्यसे उत्पन्न हुये धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंके सारभूत सुराज्यका (मुनि अवस्थाका) प्रतिदिन अनुभव करते थे ॥ ३०० ॥ महाराज मेघरथको धर्मके प्रभावसे ही अमुक राजा जिसकी सेवा करते हैं और जो सुखका घर है ऐसा राज्य प्राप्त हुआ था, धर्मके ही प्रभावसे चंद्रमाके समान निर्मल रागरहित चारित्र्य धारण किया था और धर्मके ही प्रभावसे उन्हें ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त हुआ था यही समझकर विद्वान् लोगोंको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए पापोंको नाश कर परंपरासे सुख देनेवाले धर्मको ही सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ३०१ ॥ यह धर्म संसारमें सब जीवोंका हित करनेवाला है, विद्वान् लोग धर्मका ही पालन करते हैं, धर्मसे ही सब प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं, उसी धर्मको मैं सिद्धपद प्राप्त करनेकेलिए नमस्कार करता हूं धर्मके सिवाय असंख्यात गुण देनेवाला मित्र इस संसारमें और कोई नहीं है, धर्मकी जड़ दिया है इसलिये मैं अपना चित्त धर्ममें ही लगाता हूं, हे धर्म ! संसारके भयसे मेरी रक्षा कर ॥ ३०२ ॥ भगवान् शान्तिनाथ इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं, ज्ञानी पुरुष शान्तिनाथका ही आश्रय लेते हैं, संसारी जीवोंको मोक्ष को प्राप्ति श्रीशान्तिनाथ भगवानसे ही होती है, इसलिये मैं शान्ति प्राप्त करनेके लिये भगवान् शान्तिनाथको ही नमस्कार करता हूं । भगवान् शान्तिनाथसे हो यह मोक्ष मार्ग सदा वृद्धिको प्राप्त होता रहता है, श्रीशान्तिनाथके अनंत गुण हैं, इस संसारमें मेरी आत्मा श्रीशान्तिनाथमें ही निवास करती है, हे शान्तिनाथ भगवान् आप मेरे समस्त पापोंके समूहको शांत कीजिये ॥ ३०३ ॥

इसप्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराणमें महापान मेघरथके वैराग्य प्रगट होने कीक्षा धारण करनेवाला यह प्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ॥११॥

बारहवां अधिकार ।

मैं अपने अशुभ कर्मोंको शांत करनेकेलिये संसारमात्रको शांत करनेवाले, समस्त पापोंको शांत करनेवाले और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव इन तीनों पदोंसे सुशोभित श्रीशान्तिनाथको नमस्कार करता हूं

॥ १ ॥ अथानन्तर—मुनिराज मेघरथ छह प्रकारके बाह्य तपश्चरण करने लगे और लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाला छह प्रकारका उत्कृष्ट अभ्यंतर तपश्चरण सदा पालन करने लगे ॥ २ ॥ यह बारह प्रकार तपश्चरण जो मुनिराज मेघरथने पालन किया था उसे मैं अपनी शक्तिके अनुसार संक्षेपसे वर्णन करता हूँ ॥३॥ अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्षशय्यासन. कायकेश, यह छह प्रकारका बाह्य तपश्चरण कहलाता है यह तपश्चरण अभ्यंतर तपश्चरणका कारण है ॥ ४-५ ॥ अनन, पान, खाद्य, स्वाद्य, इन चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन (उपवास) तप कहलाता है ॥ ६ ॥ तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी भूलसे कुछ कम आहार लेना अवमोदय तप है, यह अवमोदय तप अनेक प्रकारसे होता है ॥७॥ मैं आहार लेनेके लिए एकही घर जाऊंगा अथवा एक ही गलीमें जाऊंगा अथवा चौराये तक जाऊंगा, इसप्रकार विलक्षण नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है यह तप आशाका सर्वथा नाश करता है ॥ ८ ॥ इन्द्रियोंको वश करनेके लिए दूध, दही, घी, तेल, सीठा आदि रसोंका त्याग करना रस परित्याग तप है ॥ ९ ॥ पशु, पक्षी, स्त्री आदिसे रहित गुफा आदि एकांत स्थानमें शयन आसन करना विविक्षशय्यासन तप है ॥ १० ॥ व्युत्सर्गके द्वारा अथवा वृक्षके नीचे आतापन योग धारण कर विद्वानोंके द्वारा जो दुःख सहन किया जाता है उसे कायकेश तप कहते हैं ॥ ११ ॥ अब अतरंग तपका वर्णन करते हैं—प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान यह छह प्रकारका अन्तरंग तप कहलाता है ॥ १२ ॥ पापोंका नाश करनेवाला आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, कायोत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, और श्रद्धान यह दश प्रकारका शुद्ध करनेवाला प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ १३-१४ ॥ बुद्धिमानोंको ज्ञान दर्शन चरित्र तप मुनि आदि गणधरोंकी मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक विनय करनी चाहिये ॥ १५ ॥ कर्मोंको नष्ट करनेके लिए सज्जनोंको आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैच्य, ग्लान, गण, कुल, संघ साधु और मनोह इन दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा सुश्रुषा कर वैयावृत्य करना चाहिये । यह वैयावृत्य ही गुणोंका समूह है ॥ १६-१७ ॥ इन्द्रियोंको दमन करनेके लिए मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक वाचना, पृच्छना, अनुपूर्वा,

था, उनका उदर अत्यन्त कृश हो गया था, शरीरके अंग उपांग सूख गए थे और नेत्ररूपी कमल अत्यन्त गहरे हो गए थे ॥ १० ॥ महाक्षमाको धारण करनेवाले वे मुनिराज महा वैर्य धारणकर और प्रसन्न चित्त होकर लुधा तुषा आदि सब परिपर्णोंको जीतते हुए विराजमान थे ॥ ११ ॥ उन्होने क्रोधका नाशकर महा-
लमा धारण की थी, कठिनताको छोड़कर मार्दव धारण किया था, मायाका नाशकर आर्जव धारण किया था और अधिक बोलनेका त्यागकर सत्यधर्म धारण किया ॥ १२ ॥ लोभको छोड़कर शौच धर्म धारण किया था, प्रमादका त्यागकर संयम तप त्याग धारण किया था, शरीरसे ममत्व छोड़कर आर्किचन्य धर्म धारण किया था और ब्रह्मचर्यके सब दोषोंको नष्टकर दृढ ब्रह्मचर्य धारण किया था । इसप्रकार वे मुनिराज अपने मनमें शरीर, सवारो, लक्ष्मी, धर, राज्य, भोग आदि पदार्थोंमें तथा संसारमें सदा अनित्यता का चिंतवन किया करते थे ॥ १५ ॥ इस जीवकों सिवाय धर्मके और कोई भी व्याधि, जन्म, जरा, मरण, दुख, शोक आदिसे वचनेवाला नहीं है इसप्रकार वे सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अनादि संसाररूपी वन महाभयानक है, घोर है और अनेक दुखोंसे भरा हुआ है इसमें यह प्राणी पंच परावर्तनोंके द्वारा सदा परिभ्रमण किया करता है इसप्रकार वे अपने मनमें सदा चितवन किया करते थे ॥ १७ ॥ यह जीव संसाररूपी समुद्रमें पुराणपापके फल सुख दुखको अकेला ही अनेक प्रकारसे भोगा करता है सुख दुखके वादनेमें कोई साथी वा मित्र नहीं है इसप्रकार भी वे चितवन किया करते थे ॥ १८ ॥ यह आत्मा शरीरसे सर्वथा भिन्न है फिर भला वह अन्य पदार्थमें मिलकर एक कैसे हो सका है इसप्रकार वे मुनिराज अपने हृदयमें सदा स्मरण किया करते थे ॥ १९ ॥ यह अपना शरीर सब दुखोंकी खानि है, अपवित्र है और अशुद्ध पदार्थोंका मन्दिर है ऐसा यह शरीर कर्माशुद्ध नहीं हो सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा इसप्रकार भी वे मुनिराज विचार करते थे ॥ २० ॥ जिसप्रकार जलके आनेसे समुद्रमें नाव डूब जाती है उसीप्रकार कर्मोंके आनेसे यह प्राणी संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है इसप्रकार भी वे अपने हृदयमें चितवन करते

थे ॥ २१ ॥ जिसप्रकार उस आते हुए पानीके रोक देनेसे वह नाव अपने द्विपको अच्छी तरह पहुँच जाती है उसीप्रकार कर्मोंके संवर होनेसे यह जीव मोक्षमें जा विराजमान होता है । इसप्रकार भी वे अपने हृदयमें धारण करते थे ॥ २२ ॥ जिसप्रकार अजीर्ण रोगसे दुखी मनुष्य मलके निकल जानेसे सुखी होता है इस-
 और सदा दुखसे भरा हुआ है और नित्य तथा अनित्य दोनों स्वरूप है इसप्रकार वे हृदयमें धारण करते थे ॥ २४ ॥ इस जीवको मनुष्य जन्म अच्छा कुल, निरोग शरीर पूरी आयु और उत्तम धर्मकी प्राप्ति उत्त-
 रोत्तर दुर्लभ है इस प्रकार भी वे हृदयमें चिंतवन करते थे ॥ २५ ॥ धर्म हिसासे रहित है, सबतरहके सुख देनेवाला है, मुक्तिका कारण है और तूमा मादव आदिके भेदसे दश प्रकारका है इसप्रकार भी वे मुनिराज अपने हृदयमें धारण करते थे ॥ २६ ॥ इसप्रकार अनुपेक्षाओंका चिंतवन करनेसे उनका वैराग्य दूना हा गया था और परलोकमें समस्त कार्य करनेवाला निवेक उनके हृदयमें जाडवलयमान होगया था ॥ २७ ॥ वे मुनि-
 राज मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक आज्ञाविचय अप्रायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय, यह चारों प्रकार का धर्मध्यान धारण करते थे ॥ २८ ॥ उन मुनिराजने वैराग्यसे सुगंधित हुए अपने मनसे सब संकल्प वि-
 कल्प छोड़ दिये थे, और प्रमादको छोड़कर कर्मोंको नाश करनेवाली श्रेणी आरोहण की थी ॥ २९ ॥ वे धीरवीर मुनिराज सुखके सागर, कर्मरूपी ईंधनको जलानेके लिये अग्नि और दुखरूपी दावानलके लिये भेष के समान प्रथम शुद्धध्यानका चिंतवन करते थे ॥ ३० ॥ उन मुनिराज नेधरथने अपने भाईके साथ उस प्रथम शुक्लध्यानसे अशुभ कर्मोंका नाशकर उत्तम धर्मका संपादन किया था ॥ ३१ ॥ उन मुनिराजने अति-
 चार रहित स्वर्ग मोक्ष देनेवाली चारों आराधनाओंका विधिपूर्वक आराधन किया था ॥ ३२ ॥ तथा वे उस आराधयानसे प्रयत्नपूर्वक प्राणोंका त्यागकर रत्नत्रयके फलसे स्वार्थान्द्रिमें जा विराजमान हुये थे ॥ ३३ ॥ यह स्वार्थान्द्रि विमान मुक्तिशिलासे बारह योजन नीचा है तथा अन्य सब विमानोंसे ऊपर है यह सबसे उत्तम है इसलिये इसको अनुत्तर विमान कहते हैं ॥ ३४ ॥ यह विमान एक लाव योजन चौड़ा है, सूर्य-

मंडलके समान है और समस्त पटलोंके अन्तमें चंद्रारत्नके समान शोभायमान है ॥ ३५ ॥ उस सर्वार्थ-
 सिद्धिमें उत्पन्न होनेवाले पुण्यवान लोगोंके सुख और धर्मादिक विना प्रयत्नके सिद्ध हो जाते हैं इसीलिये
 उसका सर्वार्थसिद्धि यह सार्थक नाम है । यह विमान सब विमानोंके मस्तकपर विराजमान होता हुआ
 बहुत ही अच्छा जान पड़ता है ॥ ३६-३७ ॥ इस संसारमे इस विमानसे और कोई उत्तम विमान नहीं है,
 यह विमान दिव्य है, सब ऋद्धियोंसे भरपूर है, और असंख्य सुखोंका सागर है, इसीलिये संसारमें यह
 विमान अनुत्तर कहलाता है, यह इसका नाम सार्थक है क्योंकि संसारमें इसकी कोई उपमा नहीं है ॥ ३८-
 ३९ ॥ यह विमान बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है तथा जो मुनि रत्नत्रय सहित हैं, मुक्तिरूपा स्त्रीमें आ-
 शक्त हैं, महा तपस्वी हैं, धीर हैं, और संसारके पार पहुँचानेवाले है उन मुनियोंको महा सुख देनेकी इच्छा
 से अपनी शिखरपर फहराती हुई ध्वजाओंसे बुला रहा ही सा जान पड़ता है ॥ ४०-४१ ॥ देवोंके प्रतिविधों
 को धारण करती हुई उसकी मणियोंकी दीवालें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों कोई दूसरा अपूर्व स्वर्ग
 ही बनाना चाहती हो ॥ ४२ ॥ यह विमान रत्नोंकी किरणोंसे भरा हुआ है इसलिये उसमें दिन रातका
 संकल्प कभी नहीं होता वहांपर मणियोंकी किरणोंसे सदा दिनकी शोभा बनी रहती है ॥ ४३ ॥ वह विमान
 सब प्रकारके सुख देनेवाला है इसलिये उसमें कभी भी चतुर्ओंका परिवर्तन नहीं होता उसमें समस्त सुख
 देनेवाला समान काल ही सदा बना रहता है ॥ ४४ ॥ वहांकी अत्यन्त कोमल और सुगन्धित लटकती हुई
 पुष्पमालायें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों इन्द्रोंकी सज्जनतान्त्री ही बतला रही हों ॥ ४५ ॥ वहांपर स्थान
 स्थानपर मोतियोंकी मालायें शोभायमान है और ऐसी जान पड़ती हैं मानों अपनी शोभासे उत्तम दांतों
 की किरणोंकी आंर हंस ही रही हों ॥ ४६ ॥ इसप्रकार जिसमें स्वाभाविक सर्वोत्तम रचना हो रही है जो
 समस्त सुन्दरताकी खानि है और सब जगह सुख देनेवाला है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमानकी अत्यन्त कोमल
 उपपाद् शय्यामें वे दोनों ही अहमिंद्र क्षणभरमें ही छहों प्रकारकी पर्याप्तिको प्राप्त करते हो गए ॥ ४७-४८ ॥
 वे दोनों ही अहमिंद्र अन्तर्मूर्तियों ही समस्त अवयवों सहित पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ॥ ४९ ॥

उन दोनोंके शरीर सप्त धातु सब तब केश आदिसे रहित थे, पसीना खेद आदिसे रहित थे, सुन्दर, लक्ष-
णोंसे सुशोभित थे स्वाभाविक सुन्दर थे, व्याधि निवसपंद (आंखोंकी टिमिकार) आदिसे रहित थे, नेत्रों
का आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे, मनोहर उपमा रहित, और सुखकी खानि थे । समस्त शुभ और चिकने
परमाणुओंसे बने हुए थे, अत्यन्त कोमल थे और शय्यापर चंद्रकुण्डलके समान मनोहर जान पड़ते थे
॥ ५०-५२ ॥ अपने शरीरकी कांतिसे ठके हुए सिंहसतपर विराजमान हुए वे दोनों ही इन्द्र सूर्य चंद्रमाके
समान शोभायमान होते थे ॥ ५३ ॥ उनके गलेमें दिव्य हार था मस्तकपर सुन्दर मुकुट था, कानोंमें कुण्डल
थे, भुजाओंमें केयूर थे और किरणोंकी मूर्तिके समान वे शोभायमान थे ॥ ५४ ॥ स्वाभाविक वस्त्र माला,
थे ॥ ५५ ॥ उन दोनोंका वैकिक्यक शरीर आण्णमादि गुणोंसे पृथर्सनीय था, सब दिशाओंको सुगंधित करता
था और स्वाभाविक सुन्दर था ॥ ५६ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र असंख्यात ऋद्धियोंके सागरके समान रत्न
सुवर्णमयी अक्रुत्रिम जिनभवनोंमें समस्त अभ्युदयोंकी सिद्धिके लिए संकल्पमात्रसे ही उत्पन्न हुए दिव्य
गंध अचल आदि द्रव्योंसे भक्तिपूर्वक श्रीजिनप्रतिमाओंका सुख देनेवाला पूजन किया करते थे ॥५७-५८॥
वे दोनों ही अहमिन्द्र माल प्राप्त करनेके लिए वहां बैठे ही बैठे अपने अवधिज्ञानसे तीनों लोकोंमें विराज-
मान सब प्रतिमाओंका देखकर सदा नमस्कार किया करते थे ॥ ५९ ॥ अपने अवधिज्ञानसे भगवानके पंच
कल्याणकोंका जानकर बड़ी भक्तिसे मस्तक भुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे ॥ ६० ॥ भगवानके गुण समू-
होंमें अनुरक्त हुए वे दोनों ही अहमिन्द्र भगवानके पथाप्य गुणसमूहोंका वर्णनकर वचनोंके द्वारा सदा
उनकी स्तुति किया करते थे ॥ ६१ ॥ वे दोनों ही विद्वान अहमिन्द्र श्रीजिनेन्द्रदेवका पद प्राप्त करनेके लिये
अथवा पापोंके नाश करनेके लिये अपने मनमें प्रतिदिन अनन्त गुणोंसे सुशोभित श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण
किया करते थे ॥ ६२ ॥ जो अहमिन्द्र बिना बुलाए स्वाभाविक रीतिसे आ जाते थे उनके साथ वे दोनों
अहमिन्द्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य देनेवाला धर्मगोष्ठी परस्पर किया करते थे ॥ ६४ ॥ बड़ी ऋद्धिको

चीतनेपर वे दोनो' ही अहमिन्द्र समस्त दिशाओ'को सुगंधित करनेवाला थोड़ासा उच्छ्वास लेते थे ॥ ८० ॥
 वे दोनों ही अहमिन्द्र अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकसे लोकनाडी तकके मूर्त योग्य द्रव्योंको पर्याय सहित
 देखते थे ॥ ८१ ॥ उनकी श्रेष्ठ विक्रिया ऋद्धि भी लोकनाडी तक समस्त कार्य करने और अनेक रूप धारण
 करनेमें समर्थ थी ॥ ८२ ॥ परन्तु वे दोनों ही अहमिन्द्र नीतराग थे इस लोकमें मुनिराजके समान इच्छा-
 रहित थे इसलिए वे कभी विक्रिया नहीं करते थे ॥ ८३ ॥ मुनियोंका जिसप्रकार ऋद्धिसे उत्पन्न हुआ आभ-
 रणरहित दैदीप्यमान आहारक शरीर होता है उसीके समान उनदोनो'का शरीर था ॥ ८४ ॥ भगवान जिने-
 न्द्रदेवने जो अत्यन्त शांत और उत्तम सुख बतलाया है वह सब मिलकर उन दोनोंके शुभकर्मके उदयसे
 प्रगट हुआ था ॥ ८५ ॥ इसप्रकार पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए सुवामृतरूपी सागरके मध्यमें वे
 दोनों ही अहमिन्द्र डूब रहे थे ॥ ८६ ॥ अथानन्तर—इह खंडोंसे शोभायमान नदी और विजयाङ्ग पर्वतसे
 विभूषित इसी मनोहर भारतवर्षमें आर्यखण्ड शोभायमान है ॥ ८७ ॥ उसके मध्यभागमें सत्र धाल्योंकी खानि
 और अनेक धर्मात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ कुछ जांगल नामका देश है ॥ ८८ ॥ वहाँके मनोहर वनोंमें वृजोंके
 नोचे वज्रासनसे विराजमान हुए कितने ही मुनि अनेक प्रकारका ध्यान करते हैं और कितनेही धर्मोपदेश करते हैं
 ॥ ८९-९० ॥ वहाँकी नदियोंके मनोहर और शीतल किनारोंपर ध्यान अध्ययनमें तत्पर रहनेवाले और आर-
 ऋरहित कितने ही मुनि सदा विराजमान रहते हैं ॥ ९१ ॥ जिसप्रकार चारित्र मुनियोंको फल देता है उसी
 प्रकार वहाँके आम आदिके ऊंचे वृक्ष चाहनेवालोंको अपने अपने अच्छे फल देते हैं ॥ ९२ ॥ जिसप्रकार
 मुनियोंका चारित्र सब प्रकारकी तृप्ति करनेवाला होता है उसी प्रकार वहाँके चावलोंके पके खेत मनुष्योंको
 बहुतसे फल देते हैं ॥ ९३ ॥ वहाँके गाँवोंसे जिनके सफेद शिखरोंपर धजाएँ फहरा रही हैं ऐसे ऊंचे जिना-
 लय धर्मकी खानिके समान शोभायमान होते हैं ॥ ९४ ॥ वहाँपर धर्मात्मा लोग ही समस्त कर्मोंको नाश
 करनेके लिए स्वर्गसे आकर, जन्म लेते हैं क्योंकि वहाँपर प्रतिदिन कोई न कोई मोक्ष जाता ही रहता है

धारण करनेवाले वे अहमिन्द्र केवल मोक्षकी इच्छासे पुण्य प्राप्त करनेवाली, तत्त्वज्ञानसे भरी हुई और सार-
 भूत श्रीजिनेन्द्रदेवकी कथा सदा किया करते हैं ॥ ६४ ॥ यदि वे अहमिन्द्र अपनी इच्छानुसार चले गए तो
 अपने रहनेके समीपके उद्यानमें सुन्दर सरोवरोंके किनारेकी भूमिपर क्रीड़ा किया करते हैं ॥ ६५ ॥ परचेत्रसे
 उनका विहार कभी नहीं होता क्यों कि शुक्ललेश्याके प्रभावसे उन्हें अपने भोगोंमें ही संतोष होता है ॥ ६६ ॥
 उनका स्थान अनेक प्रकारकी विभूतिसे भरा हुआ है और कभी न नाश होनेवाले सुखकी खानि है इसलिये
 उन्हें अपने स्थानमें जो प्रेम है वह दूसरी किसी जगह नहीं है ॥ ६७ ॥ इस जगहमें ही इन्द्र हं मोरे सिवाय
 और कोई इन्द्र नहीं है इस प्रकारके सुखको प्राप्त हैं इसीलिये वे वहाँके उत्तम देव अहमिन्द्रके नामसे प्रसिद्ध
 हैं ॥ ६८ ॥ उनमें ईर्ष्या, मत्सर, आत्मप्रशंसा, आठ प्रकारका मद्द, दीनता, घोर, द्वेष, शोक, भय, झरति,
 मानसिक, दुःख, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दुर्भगता और कामाग्नि आदि दोष सर्वथा नहीं हैं ॥ ६९-७० ॥
 वे अहमिन्द्र सब मन्द कषायी होते हैं और धर्म-ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं इसलिये उनमें परस्पर स्वाभाविक
 उपमा रहित प्रेम सदा बना रहता है ॥ ७१ ॥ वे प्रेमसे केवल अरहंतोंकी पूजा किया करते हैं और सब तरह
 आनन्दित और सुखी होते हुए क्रीड़ा किया करते हैं ॥ ७२ ॥ उनके चिंतारहित, प्रमाणरहित, आत्मासे
 तथा परमानन्दसे उत्पन्न हुआ और मुनियोंके द्वारा जानने योग्य सुख सदा बना रहता है ॥ ७३ ॥ प्रवीचार
 रहित (कामवेदनासे रहित) रागरहित और स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला सुख उन्हें सदा बना रहता है ॥ ७४ ॥
 अहमिन्द्रोंके कामवेदनासे रहित जो स्वाभाविक सुख होता है वह प्रवीचार से होनेवाले सुखसे भी असंख्या-
 तयुगा है ॥ ७५ ॥ इस संसारमें समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाला जो उत्कृष्ट सुख है वह सब पुण्यकर्मके
 उदयसे उन विरागी देवोंको होता है ॥ ७६ ॥ एक हाथ ऊंचा, महा वैदीप्यमान उनका उत्तम शरीर समच-
 तुरल संस्थानसे बहुत ही सुन्दर जान पड़ता है ॥ ७७ ॥ उन दोनों अहमिन्द्रोंकी तेतीस सागरकी आयु थी
 और धर्म-ध्यानकी कारणभूत उत्कृष्ट शुक्ललेश्या थी ॥ ७८ ॥ तेतीस हजार वर्ष वीतनेपर वे दोनों तृप्ति कर-
 नेवाला, अमृतमय, मानसिक दिव्य आहार ग्रहण करते थे ॥ ७९ ॥ तीस पक्ष अर्थात् साडे सोलह महीने

करते थे ॥ १६ ॥ -

जिनपर आत्मदत्तदेवकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं और जो धर्मके कल्पवृक्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ६३ ॥ प्रमोहर कीड़ा पर्वत हैं जो सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहे हैं । प्रजलसे भरी हुई बावड़ियां हैं जिनमें रत्नोंकी सीडियां लगी हुई हैं ॥ ६४ ॥ प्रनिर्मल जलसे भरे हुए तालाव हैं और प्रमोहर बड़े रवन हैं जिसमें सब ऋतुओंके फूल फूल फूल रहे हैं ॥ ६५ ॥ मुझे देखकर प्रलोक वहुत ही आनन्द मना रहे हैं प्रलोक पुण्यकी मूर्ति, बड़े प्यारे, प्रशंसनीय विनीत और अत्यन्त प्रेम करनेवाले जान पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ यह महान् देश सुखकी खानिके समान है तीन लोकके नाथ भी इसकी सेवा करते हैं यह अनेक महिमाओंसे शोभायमान है और ऐसा जान पड़ता है मानों समस्त संसार इसकी वंदना करता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार

नवन करते हुए उस इंद्रके मनमें जबतक पहिले और इस भवकी शुभ बात मालूम नहीं होती तब तक निश्चय नहीं होता है ॥ ६८ ॥ उसी समय ज्ञानरूप नेत्रोंको धारण करनेवाले उसके मंत्रो उसके मनकी बात जानकर आते हैं और उसे नमस्कार कर उस समयके योग्य वचन कहते हैं ॥ ६९ ॥ ब्रह्मदेव है कि हे देव ! नमस्कार करते हुए हम लोगोंपर निर्मल दृष्टि डालकर प्रसन्नकीजिए और अगिली पहिली सब बातोंको बतलानेवाले हमारे वचन सुनिए ॥ २०० ॥ हे स्वामिन ! आज हम लोग धन्य हैं और हम लोगोंका जीवन आज सफल हुआ क्योंकि इस स्वर्गमें आपके जन्म लेनेसे हम लोग पवित्र हो गए हैं ॥ १ ॥ हे देव ! आप प्रसन्न हूजिये आपकी सदा जय हो, आप सदा जीते रहें और लक्ष्मीसे सदा बढ़ते रहें । इस समय आप इस समस्त स्वर्गके राज्यके स्वामी बनें ॥ २ ॥ हे देव आपके पुण्योदयसे ही इस स्वर्गमें यह देवोंके द्वारा पूज्य भोग उपभोगोंसे भरपूर और सुखकी खानि ऐसी यह विभूति प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ यह अच्युत नामका सबसे बड़ा स्वर्ग है जो कि सबके मस्तकपर विराजमान है और आनन्द ऋद्धि और कल्याणरूपी समुद्रको सदा बढ़ानेके लिये चंद्रमाके समान है ॥ ४ ॥ जब यहां इन्द्र उत्पन्न होता है तब प्रतींद्र आदि दश प्रकारके सभी देव उस उत्पन्न होनेवाले इन्द्रका महोत्सव मनाते हैं ॥ ५ ॥ यहांपर कल्पना करने मात्रसे ही भागोंकी प्राप्ति हो जाती है, यौवन सदा नवीन बना रहता है, लक्ष्मी सबसे उत्तम है और सदा एक सी बनी रहती है

१०. ऋद्धियोंके समूहके धर हैं और यह आपके चरण कमलोंको नमस्कार करती हुई देवोंकी मंडली है ॥ ७ ॥ ये रत्नोंके बने हुए राजभवन हैं जो दिव्य देवांगनाओंसे भरे हुए हैं जिनकी कान्ति चंद्रमाके समान है और जो बड़े ही मनोहर हैं तथा ये कीड़ा करनेकी नदियां हैं तथा ये कीड़ा करनेके पर्वत हैं ॥ ८ ॥ प्रा० अनेक प्रकारके रूपको धारण करनेवाली कामदेवके समान रूपवती और अनेक प्रकार की लीला और रस प्रकट करनेमें तत्पर ऐसी सुन्दर देवियां हैं जो कि आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ ९ ॥ यह देदिप्यमान क्षत्र है, यह सिंहासन है, यह चमरोका समूह है और ये विजय ध्वजाएं हैं ॥ १० ॥ अनेक सुन्दर देवियां जिनकी सेवा करती हैं ऐसी पु० अथ महा देवियां हैं जो कि लावण्यरूपी सागरकी लहरोंके समान हैं और आपके लिए समर्पण की हुई हैं ॥ ११ ॥ यह मन्दोमत्त हाथियोंकी सेना है यह मनके समान शीघ्र जानेवाले घोड़ोंकी सेना है, ये ऊंचे सोनेके रथ हैं और यह पौदल चलनेवाली सेना चल रही है ॥ १२ ॥ यह सात प्रकारकी सेना सात जगह बटकर आपसे प्रार्थना करती हुई आपके चरण कमलोंको धूमस्कार कर रही है ॥ १३ ॥ जिसे सप्त देव नमस्कार कर रहे हैं जो समस्त लक्ष्मीका मंदिर हैं और उत्तम हैं ऐसा यह समस्त स्वर्गका साम्राज्य आपके पुरोधयसे आपके सामने है आप इसे ग्रहण कीजिए ॥ १४ ॥ मंत्रियोंके ये वचन सुनते ही उस इन्द्रको आगली पीछली सब बातोंको सूचित करनेवाला अबधिज्ञान प्रगट होगया था ॥ १५ ॥ उस अबधिज्ञानसे उस इन्द्रने पहिले भवको सब बातें जानली थी और वह पहिले भवमें उपार्जन किए हुए धर्मको चिंतवन करनेलगा था ॥ १६ ॥ वह विचार करने लगा था कि देखो मैंने पहिले जन्ममें अपनी शक्ति प्रगटकर बहुत दिवसक कातर जीवोंको अत्यन्त कठिन ऐसा धोर तपश्चरण किया था ॥ १७ ॥ मैंने पहिले स्वर्ग निर्वाण आदि अग्निसे विषयरूपी वन जलाया था और ब्रह्मचर्यके प्रहारसे कामदेवरूपी शत्रु मारा था ॥ १८ ॥ उत्तम लक्ष्मा, मादर्व आदि कुठारसे मैंने मायारूपी बेलके साथ साथ जिनपर ऋकृादिक फल लगते हैं ऐसे कषायरूपी वृक्ष काटडाले थे ॥ १९ ॥ राग द्वेष महाशत्रुओंको ध्यान-

करते थे ॥ १६ ॥ इसप्रकार चक्राशुष आदि अनेक मुनियोंके साथ बहुतसे देशोंमें विहार करते हुए वे भगवान सहस्राव्रतनमें जा पहुँचे ॥ १७ ॥ वे श्रेष्ठ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करनेके लिए ब्रह्म उपवास धारणकर विराजमान हुए, बाह्य सामग्र्यका पाकर उन्होने समस्त चिंताओंका निरोध किया और सिद्धोंके गुण प्राप्त करनेके लिए सबसे पहिले सिद्धोंके आठों गुणोंका ध्यान करने लगे ॥ १६ ॥ अनंतदर्शन अनंतज्ञान अनन्त करनेकी इच्छा करनेवाले तीर्थंकरोंकी तथा अन्य मुनियोंकी इन गुणोंका ध्यान करना चाहिए ॥ २०-२१ ॥ लगे तथा सब द्रव्य तद्रथ और पदार्थोंका चिन्तन करने लगे ॥ २२ ॥ तथा मनको शुद्ध करनेके लिए आज्ञाविचय, अप्रायविचय, विपाकाविचय और संपथानविचय इन चारो धर्मध्यानोको धारण करने लगे ॥ २३ ॥ उन्होने चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी एक जगह नरकाशु त्रिपंचायु और देवाशु इन तीन प्रकृतियोंको बिना ही प्रयत्नके नष्ट करदिया था ॥ २४ ॥ अनन्तनुबन्धी काथ मान माया लोभ और मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियां धर्म ध्यानसे पहिलेसे ही नष्ट होगई थीं ॥ २५ ॥ फिर वे उत्तम आत्म शुद्धियोंका चिन्तन करते हुए सातवें गुणस्थानमें जा पहुँचे और मोक्षरूपी परकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणियों विराजमान हुए ॥ २६ ॥ वे भगवान प्रमादरहित होकर अनुक्रमसे अधःप्रवृत्ति करण अपूर्वकरण, और अनिशुक्तिकरण गुणस्थानें जा विराजमान हुए ॥ २७ ॥ साधरण, आलप, एक इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरद्वीन्द्रिय जाति, निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानशुद्धि, नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, त्रिभंगति, त्रिभंगत्त्यानुपूर्वी, उद्योत वे सोलह प्रकृतियां उन्होंने अनिशुक्तित गुणस्थानके पहिले भागमें ही नष्ट कर दी थीं ॥ २८-२९ ॥ वे महा योद्धा भगवान पृथक्प्रवितर्कवीचार नासके पहिले शुक्ल ध्यानरूपी तलवारको हाथमें लेकर और मुक्तिरूपी कवच पहनकर कर्मोंसे मुक्त कर रहे थे ॥

ऊपर लिखी सोलह प्रकृतियों को नाश करनेके बाद उन्होंने उसी नौवें गुणस्थानके दूसरे भागमें उसी शुक्लध्यानसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ये आठ कथानष्ट कर दिये थे ॥ ३०-३१ ॥ तदनन्तर उन्होंने ध्यानके योगसे तीसरे भागमें नृपंसकवेद चौथे भागमें क्रोध, आठवें भागमें संज्वलन मान, नौवें भागमें संज्वलन माया नष्ट की ॥ ३२-३३ ॥ कर्मरूपी शत्रुओंके नाश करनेमें उद्यत हुए उन भगवानने फिर विजयभूमि पाकर दशवें गुणस्थानमें सूत्रमसांपराय नामके चारिप्ररूपों तीव्रण तलवारसे सूत्रम लोभ नष्ट किया और इसप्रकार कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाले उन भगवानने सब कथायोगी नष्ट कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ इसप्रकार उन्होंने अनन्त गुणोंको बढ़ानेवाले वारहवां गुणस्थान प्राप्त कर लिया और फिर वे वाक्यके घातिया कर्मरूपी पापोंको नाश करनेकेलिये उद्यम करने लगे ॥ ३६ ॥ उस बारहवें गुणस्थानके पहिले क्षणमें उन्होंने एकत्रवितर्क अविचार नामके दूसरे शुक्लध्यानसे त्रिद्रा और प्रचला दो प्रकृतियां नष्ट कीं और फिर चथाख्यात चारित्र धारण करनेवाले उन भगवानने उसी दूसरे निमल शुक्लध्यानसे उसी बारहवें गुण स्थानक अन्तिम क्षणमें चार दर्शानावरणकी प्रकृतियां पांच ज्ञानावरणको प्रकृतियां और पांच अन्तरायकी प्रकृतियां नष्ट कीं ॥ ३७-३९ ॥ इसप्रकार उन्होंने कर्मो-की त्रिसट प्रकृतियोंको नष्टकर उर्मानमय लोक अलोकको प्रकाशित करनेवाला अनन्त केवलज्ञान अनन्त-दर्शन क्षाधिक दान, जायिक लाभ, जायिक भाग, जायिक उपभाग, जायिक वीर्य, जायिक सम्यग्दर्शन और जायिक सम्यक्चारित्र्य ये अथवा और दूसरेका हित करनेवालों को केवललक्षिण्यां प्राप्त की इसप्रकार भगवान शान्तिनाथने छत्रार्थ अथवायक सालह वर्ष द्यतीतकर पाँच शुक्ला एकादशीके दिन सायंकालके समय स्नातक वनकर देवोंके द्वारा महापूजा प्राप्त की थी ॥ ४०-४३ ॥ भगवान शान्तिनाथके घातिया कर्म नष्ट होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर देवोंके समूह आकाशमें जय जय शब्द कर रहे थे, देवोंके द्वारा वज्रत हुए नगाडोंके शब्दोंसे सब दिशाएँ और आकाश भरगया था और आकाशसे कल्पवृक्षोंके पुष्पोंकी

वर्धा ह्रां रही थी ॥ ४४ ॥ भगवानके समस्त गुणरूपी समुद्रकी ज्ञानरूपी लहरके बढ़नेपर (पूर्णज्ञान होनेपर) शीलिल और सुगंधित वायु :मन्द मन्द रीतिसे बह रहा था, आकाश सब दिशाओंके साथ निर्मल और मनोहर होगया था और सम्पन्नानियोंको आनन्द हो रहा था ॥ ४५ ॥ भगवानके माहात्म्यसे स्वर्गमें उसी-स्तव्य इंद्रोंके आसन कंपयमान होगये थे उनके मस्तकके सुकृत नम्रीभूत होगये थे और क्षण चण करनेवाले धंटा आदि बाजोंके समूहोंका अद्भुत शब्द होने लगा था ॥ ४६ ॥ जिन भगवानको केवल ज्ञान प्रगट होते हां देवोंके सब इन्द्रोंने अपने अपने निकायोंके सब देवोंके साथ अपने सिंहासनसे उठकर और थोड़ेसे पंड चलकर नमस्कार किया था तथा जो समस्त पापोंसे रहित हैं, जिनेंद्र हैं, अनन्त गुणोंके समुद्र हैं और समस्त संसारके स्वामी हैं, उनको मैं भी मस्तक भुक्काकर भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं और सदा उनकी स्तुति करता हूं ॥ ४७ ॥ जिन भगवान शान्तिनाथके लिये कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे भक्तिपूर्वक सब देवोंके साथ आकर अनेक प्रकारकी रचनाके द्वारा संसारके समस्त उत्तम लोगोंके द्वारा सेवा करने योग्य ऐसी समवसरण की विभूतिकी रचनाकी थी वे भगवान शान्तिनाथ इस संसारमें सदा जयशील हों ॥ ४८ ॥ जिन भगवान शान्तिनाथको देवोंके इन्द्रका आदि लेकर सब देव और सब मुनिराज भक्तिपूर्वक दिव्य मस्तक भुक्काकर नमस्कार करते हैं, जां सर्वज्ञ हैं, जिनेन्द्र हैं, संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाले हैं, विजयी हैं, धर्मो-पदेश देनेमें सदा तत्पर हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हैं और गुणोंके निधि हैं ऐसे भगवान शान्तिनाथको मैं उनको शक्ति प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूं ॥ ४९ ॥ जो सर्वज्ञ हैं, दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं, सब देवगण जिनकी पूजा करते हैं, जो भव्य जीवोंके लिये एक अद्वितीय वंधु हैं, कल्याणमय हैं, कल्याणार्क कारण हैं, समस्त शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, अन्तरहित हैं, अत्यन्त धीर वीर हैं, सर्वोत्तम मुनियोंके भी स्वामी हैं, निखिल गुणोंके समुद्र हैं, प्रपंच रहित हैं, जिनेन्द्र हैं, और समस्त संसार जिन्हें बंदना करता है ऐसे श्रोशान्तिनाथ भगवानको मैं उनके अतिशय प्राप्त करनेके लिए मस्तक भुक्काकर सदा नमस्कार करता हूं ।

इसप्रकार शान्तिनाथ पुराणमें दीक्षा कल्याणक और केवलज्ञान कल्याणको वर्णन करनेवाला पन्द्रहवा अधिकार समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

अथ सोलहवां अधिकार ।

जो देवों के देव हैं, तीनों जगतके स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व दर्शी हैं और तीनों लोकों का हिंस्र करनेवाले हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवानको मैं अपने पाप शान्त करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ अथानन्तर— करनेवाले चारों निकायों के सब देव अपने अपने इन्द्रों के साथ तथा अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ हथी आदि अपने २ बाहनो पर चढ़े हुए पहिले जन्म कल्याणके समय वर्णान्तिष्पे अनुसार भगवानकी पूजा करनेके लिये अपने २ रथानो से निकले ॥ ३ ॥ वे सब असांख्यात देव गोल नृत्य करते हुए बड़ी विभूतिके साथ अपने शरीर और आभरणों की कांतिसे आकाशको प्रकाशित करते हुए जा रहे थे ॥ ४ ॥ देवों-इन्द्रों ने दूसरे ही देवों द्वारा बहुमूल्य रत्नों से बनाये हुए समवसरण स्थानको देखा । वह समवसरण समस्त विभूतिका एक स्थान था ॥ ५-६ ॥ यद्यपि इन्द्रादिकोंके द्वारा बने हुए उस समवसरणका वर्णान्तिष्पे कोई नहीं कर सकता तथापि भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेके लिये आचार्य कुछ थोड़ासा वर्णान्तिष्पे करते हैं ॥ ७ ॥ चार योजन और दो कोस लंबा चौड़ा गोल आकारका इंद्रनील महा रत्नोंका बना हुआ पीठ था ॥ ८ ॥ उसके पश्मान किरणों से भरपूर था, इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगों से भरपूर था, और उस पीठके चारों ओर बहुत ऊंचा और बहुत ही सुन्दर शोभावमान था ॥ ९-१० ॥ इस धूलिशालके चारों दिशाओं में रत्नोंकी मालाओं से सुशोभित और सुवर्णके खंभों पर विराजमान तोरण अपनी अलग शोभा दिखा रहे थे ॥ ११ ॥ उन तोरणों से कुछ दूर आगे चलकर सब दिशाओं में मार्गके मध्यभागमें दिव्य भूतिको धारणा करनेवाली जगती थीं । इन जगतियों पर सुवर्णकी सोलह सोलह सीड़ियां बनी हुई थीं, भगवानके

अभिषेकसे वे पवित्र थीं और चार चार गोपुरोंसे सुशोभित तीन तीन कोटोंसे घिरी हुई थीं ॥ १२-१३ ॥ उन जगत्तियोंके बीचमें दिव्य पीठिकाणं बनी हुई थीं और उनपर देवोंके द्वारा पूज्य और अत्यन्त रूपवान तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ १४ ॥ उन पीठिकाणोंके ऊपर तीन २ कदनीदार पीठ थी और उन पीठोंके ऊपर आकाशकी छूनेवाले मानसस्तम्भ विराजमान थे ॥ १५ ॥ वे मानसस्तम्भ बहुते ऊंचे थे और घंटा चमर ध्वजाएं और शिरपर फिरते हुए कजोंसे सुशोभित थे ऐसे मानसस्तम्भ चारों दिशाओंमें थे ॥ २६ ॥ उनको दूरसे देखते ही मिथ्यादृष्टियोंका मान खंडित हो जाता था इसलिये 'मानसस्तम्भ' यह उनका सार्थक नाम प्रसिद्ध था । १७ ॥ उन मानसस्तम्भोंके मध्यभागमें जो भगवानकी अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित प्रतिमाएं विराजमान थीं उनको इंद्र भी चौर सागरके जलसे तथा और भी अनेक द्रव्योंसे पूजा करते थे ॥ १८ ॥ उन मानसस्तम्भोंके चारों ओर चारों दिशाओंमें मनोहर चार बावड़ियां थी जो कि स्वच्छ जल और कमलोंसे सुशोभित थी ॥ १९ ॥ उन बावड़ियोंमें मणियोंकी सीढ़ियां बनी हुई थीं, नंदोत्तरा आदि उनका नाम था, उनके किनारेपर पादप्रक्षालनके कुँड बने हुए थे तथा भ्रमर और पक्षियोंसे वे शोभायमान थीं ॥ २० ॥ उन बावड़ियोंसे कुछ ही आगे चलकर प्रत्येक मार्गको छोड़कर बाकीके भागमें कमलोंसे ढकी हुई, पक्षियोंसे सुशोभित और स्वच्छ जलसे भरी हुई खाइयां शोभायमान थीं ॥ २१ ॥ इसके भीतरी भागमें उत्तम लतावन था जो कि अनेक प्रकारके वृक्ष और लताओंके सब ऋतुओंके फूलोंसे सुशोभित था । उस लतावनमें इन्द्रोंके विश्रामके लिये मनोहर क्रीड़ा पर्वत थे, लताभवन थे, जिनके भीतर शय्याएं विछी हुई थीं और जगह २ चन्द्रकांतमणियोंकी श्रिलाएं पड़ी हुई थी ॥ २२-२३ ॥ उस लतावनसे आते मार्गको छोड़कर पहिला कोट था, जो कि बहुत ऊंचा था, दैदीप्यमान था और सुवर्णमय था ॥ २४ ॥ वह कोट ऊपरसे नीचे तक कहीं तो मोतियोंकी पंक्तियोंसे शोभायमान था, कहीं विद्रुमोंसे सुशोभित था, कहींपर नील मणियोंसे नए बादलोंके समान जान पड़ता था, कहीं लाल मणियोंसे इंद्रगोपके समान (वर्षा ऋतुमें होनेवाला लाल जानवर) सुन्दर जान पड़ता था, कहीं विजलीसे पीला दिखाई

देता था और कहीं अनेक तरहके रत्नोंकी किरणोंसे इंद्रधनुषके समान जान पड़ता था ॥ २५-२६ ॥ उसपर कहीं मनुष्य और पक्षियोंके चित्रमय जोड़े बैठे थे और कहीं वह लतावोंसे ढका हुआ था, इसप्रकार निषिध पर्वतको स्पर्श करता हुआ वह कोट बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥ २७ ॥ उस कोटके चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे थे जो निर्माजिले बने हुए थे और पद्मराग मणियोंकी शिखरोंसे वे शोभायमान थे ॥ २८ ॥ कहींपर गानेवाले देव कहींपर भगवानके गुण गा रहे थे, कहींपर सुन रहे थे और कहींपर नृत्य कर रहे थे तथा कहींपर वर्षासे व्याकुल हुई स्त्रियां बैठी थीं ॥ २९ ॥ प्रत्येक दरवाजेपर भुंगार, कलश, झारी आदि एकसौ आठ नगल द्रव्य सुशोभित थे ॥ ३० ॥ उन प्रत्येक दरवाजोंपर सौ सौ तोरण थे जो कि मणियोंके आभरणोंकी कांतिके समूहसे आकाश को भी कुछ कुछ पीला कर रहे थे ॥ ३१ ॥ शंख आदि नों निषिधों उन दरवाजोंके पास ही रखी हुई थीं और भगवानका तीनों लोकोंको उल्लंघन करनेवाला माहात्म्य प्रकट कर रहीं थीं ॥ ३२ ॥ चारों दिशाओंके चारों दरवाजोंमें उन दरवाजोंके भीतर मार्गके दानों और दो दो (मार्गके एक इधर एक उधर) नाट्यशालयं शोभायमान थीं ॥ ३३ ॥ उन नाट्यशालाओंके स्तंभ सुवर्णके थे, दीवारें स्फटिक मणियोंकी थीं और शिखर मणिकय्य मणियोंके बने हुए थे, वे नाट्यशालाये बहुत ही जंचा और बहुत ही दिव्य थीं ॥ ३४ ॥ उन दरवाजोंकी तीनों मंजिलें शरद-चतुर्के वादलोंके समान शोभायमान थीं और गाने बजानके शब्दोंसे वे वादलोंके गर्जनोंको शोभाका धारण करती थीं इसप्रकार वे सदा उत्तमसे ही भरपूर रहती थीं ॥ ३५ ॥ उन नाट्यशालोंमें कहीं तो देव भगवानको विजय गा रहे थे और कहीं किन्नरो देवियां प्रसन्न होंकर वीणा आदि वाजोंके मधुर स्वरसे गा रही थीं ॥ ३६ ॥ तथा कहींपर देवांगनाएं मृदंग आदि वाजोंके साथ अपने मनोहर शरीरोंको हिला भुलाकर देवनेवालोंका अत्यन्त प्रिय लगनेवाला परम नृत्य कर रही थीं ॥ ३७ ॥ उन दरवाजोंसे कुछ आगे चलकर मार्गके दोनों ओर दो रथपथट रखे हुए थे जो कि निकलते हुए धूपकी धूमसे आकाशको भी सुगंधित कर रहे थे ॥ ३८ ॥ मार्गके इधर उधर और दों मार्गोंके बीचमें चार वन थे जो ऐसे जान पड़ते

निधि थी उससे लौकिक शब्द प्रगट करनेवाली चीजें निकला करती थीं । यहनिधि विशेषकर वीणा वंशी मृदङ्ग आदि इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयों को विशेष रीति से दिया करती थीं ॥ ६७-६८ ॥ श्रीतीर्थकरके उप देशके अनुसार असि मसि आदि छह कर्मोंके योग्य सर्व साधना महा काल नामकी निधिसे उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ६९ ॥ शय्या आसन मकान आदि नसणं निधिसे और धान्य तथा छहों रसोंकी उत्पत्ति पांडुक निधिसे उत्पन्न होती है ॥ ७० ॥ लक्ष्मी को प्रगट करनेवाले चक्रवर्तीके पुण्य कर्मके उदयसे रेशमी वस्त्र दुपह् आदि वस्त्रों को पद्म निधि देती है ॥ ७१ ॥ चक्रवर्तीके लिए सवतरहके दिव्य आभरण पिंगल निधिसे प्रगट होते हैं और नोति शास्त्र माणव निधिसे मिलते हैं ॥ ७२ ॥ शास्त्रोंकी उत्पत्ति शंख निधिसे होती है और सुवर्ण आदि भी शंख निधिसे प्रगट होते हैं ॥ ७३ ॥ चक्रवर्ती और धर्म चक्रीके सर्वल नामकी निधिसे महा नील तथा और भी बहुमूल्य रत्नोंके ढेर प्रगट होते हैं ॥ ७४ ॥ इन निधियोंकी देव रक्षा करते हैं चक्रवर्तीके भोगोप भोगों का वर्णन कौन करसकता है ॥ ७५ ॥ उन चक्रवर्ती के पहिले कहे हुए चौदह रत्न थे जो आरच्य कारक जो शस्त्र लेकर नौ निधि चौदह रत्न और चक्रवर्तीकी रक्षा करते थे ॥ ७७ ॥ घर हो घरे हुए चित्तसार नामका मनोहर कोट था और मणियोंके तोरणोंसे शोभायमान सर्वतोभद्र नामका गोपुर था ॥ ७८ ॥ सेनाके लिये नंदावत नामका बहुत बड़ा शिविर था, और सब जगह सुख देनेवाला वैजयंत नामका राजमहल था ॥ ७९ ॥ दिक्स्वस्तिका नामकी सभा थी बहु मूल्य रत्नकुट्टिमा पृथ्वी थी मणियोंकी बनी हुई सुविधि नामकी चमचमाती हुई छड़ी थी ॥ ८० ॥ दिशाओंको देखनेके लिए गिरिकूटक नामका ऊंचा भवन था और वर्द्धमान नामका मनोहर प्रदर्शनीय भवन था ॥ ८१ ॥ उन भगवानके घर्पांतक [गर्मीको दूर करनेवाली] नामका धाराग्रह और वर्षामें रहनेके लिए गृहकूटक नामका वर्षामवन था ॥ ८२ ॥ पुष्करवर्त नामका सफेद चनासे पुता हुआ मनोहर शुभ भवन और सदा अक्षय रहनेवाला कुवेरकांत नामका भांडागार था ॥ ८३ ॥ जिसमें भेई चीज कभी न निवटे ऐसा वसुधारक नामका कोठार और जीमूत नामका बहुत मनोहर स्नान भवन था

झर रहा है ऐसे चौरासी लाख हाथी थे ॥४६॥ सुवर्ण और रत्नोंके बने हुए चौरासी लाख रथ थे और बायुके
 समान तेज चलनेवाले अठारह करोड़ शुभ घोड़े थे ॥४७॥ तेज चलनेवाले पयादे भी चौरासी करोड़ थे और
 बत्तीस हजार सुकुटबद्ध राजा उनको नमस्कार करते थे ॥ ४८ ॥ उनके अन्तःपरमं कुल जाति आदिसे
 परिपूर्ण बत्तीस हजार राजाओंकी कन्याएं विवाही हुईं आई थीं और भक्तिपूर्वक मलेच्छ राजाओंके द्वारा दी
 हुईं राजपुत्रियां भी बत्तीस हजार थीं । इसीप्रकार विद्या विनयसे सुशोभित कोमल शरीर को धारण करने
 वाली बत्तीस हजार ही विद्याधर राजाओंकी कन्याएं थीं ॥ ४९-५० ॥ गीत बाजोंसे भरपूर और अस्यन्त सुख
 देनेवाले बत्तीस हजार ही नाटक थे ॥ ५१ ॥ अच्छे स्थानोंसे सुशोभित बत्तीस हजार देश थ और कंटसे
 घिरे हुए बहत्तर हजारि नगर थे ॥ ५२ ॥ इसीतरह जिनमंदिरोंसे विभूषित और कुटुम्बी लोगोंसे भरे
 हुए छ्यानवे करोड़ गांव थे ॥ ५३ ॥ निन्यानवे हजार समुद्रको बेलसे घिरे हुए शुभ द्राणसुख थे ॥ ५४ ॥ उन
 भगवान के अधिकारमें अच्छे रत्नोंके निकलनेके स्थान ऐसे अड़नालीस हजार पत्तन थे ॥ ५५ ॥ जिनमें
 धार्मिक लोग रहते हैं और जो नदी समुद्र दोनोंसे घिरे हैं ऐसे सांलह हजार खेत थे ॥ ५६ ॥ मनुष्योंसे
 भरे हुए और समुद्रके भीतर बसे हुए छप्पन अंतर्द्वीप थे ॥ ५७ ॥ धर्माल्ता लोगोंसे भरे हुए और पर्वतके
 ऊपर बसे हुए ऐसे चौदह हजार संवाहन थे ॥ ५८ ॥ भगवानके पुण्यकर्म के उदयसे वन पर्वत नदी और
 धान्य आदिसे भरे हुए अट्टाईस हजार दुर्ग वा किले थे ॥ ५९ ॥ उनकी सेवा में अठारह हजार मलेच्छ राजा
 थे जो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों को नमस्कार करते थे ॥ ६० ॥ एक करोड़ हंडेथे जो
 रसोईघरमें चावल बनानेके काम आते थे ॥ ६१ ॥ एक लाख करोड़ हल थे जो सदा खेत जोतनेके काम आते
 थे ॥ ६२ ॥ उनके तीन करोड़ गाय थीं जिनके दूध चलानेका शब्द सुनकर रास्तागीर भी थोड़ी देरके लिए ठहर
 जाते थे ॥ ६३ ॥ विद्वानोंने सातसौ कुक्षवास बताये हैं जिनमें मलेच्छ देशके लोग आकर ठहरते थे ॥ ६४ ॥
 काल, महाकाल, नैसर्प, पांडक, पद्म, माणव, पिंग, शंख, और सब रत्न ये प्रसिद्ध नामकी नां निधियां थीं
 जिनसे वे चक्रवर्ती घरकी चिन्तासे सर्वथा रहिन थे ॥ ६५-६६ ॥ पुण्यके निधि उल चक्रवर्तीके काल नामकी

वनकर बुद्धिमानोंको घोर तपस्वरणके द्वारा इसे सफल करना चाहिये ॥ ७४ ॥ इति अशुचि अनुप्रेक्षा ॥६॥
 जिसप्रकार छेदवाली नाव पानी भर जानेके कारण समुद्रमें डूब जाती है उसीप्रकार यह प्राणी कर्मोंके
 आखव होनेके कारण इस दुस्तर संसार समुद्रमें डूब जाता है ॥ ७५ ॥ जिसप्रकार जहाजसे छूटा हुआ
 मनुष्य समुद्रमें असह्य दुख भोगता है उसीप्रकार धर्मसे छूटा हुआ यह मूल्व इस भयानक संसाररूपी समुद्रमें
 अनेक कष्ट भोगता है ॥ ७६ ॥ मिथ्यात्व अचिरति कपाय प्रगाढ ये सब कर्म अनिके कारण हैं ये ही मनु-
 ष्योंको संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाले हैं ॥ ७७ ॥ जबतक मनुष्योंके चारों गतियोंमें परिश्रमण करनेवाले
 और अनेक दुख देनेवाले अशुभ कर्मोंका आखव होता रहता है तबतक उन्हें नित्य मोक्ष सुख कभी नहीं
 मिल सकता ॥ ७८ ॥ जिसप्रकार अपराधी पुरुष गलेमें सांकल डालकर कारागारमें पहुंचाया जाता है उसी
 प्रकार कर्मोंके द्वारा यह जीव चारों गतियोंमें परिश्रमण करता है ॥७९॥ जिसप्रकार ऋणी (कर्जदार) मनुष्य
 परवश होकर रातदिन महा दुख भोगता रहता है उसीप्रकार कर्मोंके आधीन हुआ यह जीव नरकादि दुर्ग-
 तियोंमें घोर दुख सहन किया करता है ॥ ८० ॥ जिस महापुरुषने सम्यग्दर्शन सम्यक् चारित्र्य संयम, कर्षा-
 यनिग्रह और ध्यान आदिके द्वारा कर्मोंका आखव रोक लिया है उसीका मनोरथ पूर्ण हुआ है ॥ ८१ ॥ जो
 पुरुष यम, तप चारित्र आदिके द्वारा कर्मोंके आखवको रोक नहीं सकते उनका शरीर धारण करना सब
 व्यर्थ है ॥ ८२ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको शुभ ध्यानसे पापाखवको रोकना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करनेके
 लिए आत्मव्यानसे दोनों प्रकारका कर्माखव रोकना चाहिए ॥ ८३ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोग मुक्ति-
 रूपी स्त्रीको प्राप्त करनेके लिए अपने मनको नियहकर तथा चारित्र आदि धारणकर सदा कर्मोंके आखवको
 रोकते रहते हैं ॥ ८४ ॥ इन्द्रिय और मनसे होनेवाला आखव संसाररूपी समुद्रमें डुबानेवाला है, मोक्षसे दूर
 करनेवाला है, समस्त दुखोंका निधि है, नरकका स्थान है, कुमार्गमें रुलानेवाला है और पाप उत्पन्न करने-
 का यही समझकर गुणी पुरुष तप, व्रत, ध्यान आदिके द्वारा समस्त आखवको रोककर और कर्मोंको
 रोककर यही मोक्षरमणीको प्राप्त होते हैं ॥ ८५ ॥ इति आखवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

लिए अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा सदा अपने ही आत्माका ध्यान करते रहना चाहिए ॥ ६३ ॥
 इति अन्यत्वानुप्रेक्षा । यह शरीर शुक श्रोणितसे बना है, सतधातुमय है, अपवित्र है, विष्ठा आदिसे भरपूर है,
 निंद्य है, राग रूपी सर्पके बिलके समान है, दुर्गंधमय है अत्यन्त घृणित है, सेकड़ों कीड़ोंसे भरा हुआ है अनित्य
 है ऐसे शरीरमें ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो धर्मको छोड़कर प्रेम करे ॥ ६५ ॥ इसशरीरके सुख आदि मनोहर
 स्थानोंमें भी जो पदार्थ रख दिया जाता है वही स्थान अपने स्वभावके अनुसार मनुष्योंको घृणा उत्पन्न कर
 देता है ॥ ६६ ॥ जिसप्रकार चांडाल के घर में हड्डी चमड़ा आदिको छोड़कर और कोई सुन्दर पदार्थ नहीं
 मिल सकता उसीप्रकार इस घृणित शरीरमें भी कोई पदार्थ सुन्दर नहीं मिल सकता ॥ ६७ ॥ यद्यपि ये प्राणी
 इस शरीरका पालन पोषण करते हैं तथापि यह उनको इसी जन्ममें अनेक रोगोंसे दुखी करता है और पर
 लोकमें नरकादि दुर्गति देता है इससे बढ़कर भला और कौनसा आश्चर्य हो सकता है ॥ ६८ ॥ यदि तपश्चरण
 के द्वारा इस शरीरको कृश किया जाय तो यह इस जन्ममें शम ध्यान आदि आत्मासे उत्पन्न हुए सुखोंको
 देता है और परलोकमें स्वर्ग मोक्षादिके सुख देता है । इससंसार में इस से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो
 सकता है ? ॥ ६९ ॥ यह शरीर नरकके समान असार है, दुर्गंधमय है, नवद्वारोंसे सदा झरता रहता है, पापोंका
 कारण है और दुखोंका पात्र है । यह विजलीके समान अनित्य है, और मानों यमके मुखमें ही ठहरा हुआ है ।
 जिन उत्तम बुद्धिमानोंने अपने आत्माकी सिद्धिके लिए तप यम आदि कष्टोंके द्वारा इस शरीरको
 कृश किया है उन्हीका शरीर पाना सफल हुआ है ॥ ७२ ॥ इसप्रकार शरीरको अपवित्र समझ
 कर स्वर्ग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए बुद्धिमानोंको सदा तप, चरित्र, धर्म आदि पवित्र
 कार्य करते रहना चाहिये ॥ ७३ ॥ यह शरीर शुक श्रोणितसे बना है, घृणा उत्पन्न करनेवाला है, रोगरूपी
 सर्पोंका घर है, भूख, प्यास, काम, कषायरूपी अग्निसे संतप्त है, तमस्त अशुद्ध पदार्थोंका सुख है और अन्न
 वख आदि सभस्त पवित्र पदार्थोंको भी बहुत शीघ्र अपवित्र बना देता है इस शरीरका ऐसा स्वभाव चित्त-

मय समझकर बुद्धिमानों को चारित्र्य आदिके द्वारा अनंत सुखका सागर ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ ४० ॥ इकट्ठे किए हुए पापकमरूपी सांकलसे बंधे हुए प्राणी संसाररूपी शत्रुको नाश करनेवाले सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सायक चारित्रिके न मिलनेसे पाप दुख भय देनेवाले निःसार असह्य संसारबंध परित्रमण्य किया करते हैं यही समझकर संवेग आदि गुणों से सुशोभित होनेवाले पुरुषों को प्रयत्न और शीघ्रतापूर्वक रत्नत्रय धारण करना चाहिये ॥ ४१ ॥ इति संतारानुष्ठेया ।

यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेलाही मरता है, अकेला ही सुख भोगता है अकेला ही दुर्खा होता है, अकेला ही रोग सहन करता है, अकेला ही नीरोग रहता है और अकेला ही चारों गतियों में परिश्रमण करता है ॥ ४२ ॥ विषयों में अन्धा हुआ यह अकेला ही जोब हिंसा आदिके द्वारा ऐसा पाप कर्म उधार्यन करता है जिससे नरकमें जाकर जो बचनसे कहा भी न जा सके ऐसा महा दुख भोगता है ॥ ४३ ॥ यह अकेला ही मूर्ख बल कपट कर ऐसा पाप करता है जिससे तिर्यच गतिमें जाकर छेदन भेदन आदिके दुःखसहन करता हुआ स्थावर योनिमें परिश्रमण करता है ॥ ४४ ॥ अकेला ही अलपारंभादिक द्वारा मनुष्य भव पाता है और अनेक जातियों में पाप पुण्यसे उत्पन्न हुए सुख दुख भोगता रहता है ॥ ४५ ॥ तथा अकेला ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, सद्धर्म, दान पूजा आदिके द्वारा धर्म उपार्जनकर स्वर्गमें सदा रहित और अनन्त सुखका स्थान ऐसा मोक्षपद प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ जो कुटुम्बके लिए इन्द्रिय और धनादिकके द्वारा पाप कमाता है वह अकेला ही दुर्गतियों में जाकर उस पापका फल भोगता है । उस दुखका भोगनेके लिये और कोई नहीं आता ॥ ४८ ॥ अन्न पान आदिसे पालन पाषण किया हुआ यह शरीर भी परलोकमें जीवके साथ नहीं जाता फिर भला शत्रुके समान कुटुम्बी लाग कैसे जा सकते हैं ॥ ४९ ॥ जो मूर्ख मोहकर्मके उदयसे धन कुटु वियोंके लिये 'यह मेरा है' करते रहते हैं वे भी उनका छोड़कर अकेले ही परिश्रमण किया करते हैं ॥ ५० ॥ इसप्रकार आत्माको अकेला ही समझकर बुद्धिमान लोग मरण आदिमें

अनंत गुणों का कारण ऐसा निर्मलत्व ही धारण करते हैं ॥ ५१ ॥ यह जीव अकेला ही चारित्रतप दान पूजन आदिके द्वारा प्रतिदिन धर्मसेवनकर और देवों की विभूति पाकर सुख भोगता है तथा अकेला ही प्रतिदिन हिंसा आदिके द्वारा पाप उपार्जनकर नरक तिथंच गतिमें अनेक प्रकारके दुख भोगता है और अकेला ही महाव्रतादिकों के द्वारा कर्म नष्टकर उपमारहित मोक्षपद प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ।

इस संसारमें माता भी अन्य है पिता भी अन्य है पुत्र वांधव आदि भी अन्य हैं और स्त्री

पुत्री आदि सब पृथक् पृथक् उत्पन्न होती हैं ॥ ५३ ॥ जहांपर आत्माके प्रदेशोंमें मिला हुआ और आत्माके साथ उत्पन्न हुआ यह शरीर ही आत्मासे भिन्न निरिचत है फिर भला कुटुम्बी लोण आत्माके कैसे हो सकते हैं ॥ ५४ ॥ लक्ष्मी, धर, भार्ग, सेवक आदि सब कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं इसलिए सब भिन्न हैं पाप के उदयसे पहिले शरीरको छोड़ता रहता है और नए शरीरको ग्रहण करता रहता है इसप्रकार संसारमें अनेक प्रकारके शरीर धारण करता रहता है ॥ ५६ ॥ शरीर धन धर आदि जो कुछ कर्मोंके उदयसे प्राप्त होता है वह सब आत्मासे भिन्न है और सब विनश्वर में ॥ ५७ ॥ मूख लोण शरीरादि पदार्थोंको आत्मासे भिन्न क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि जन्म मरणके समय वे ता इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ५८ ॥ यह आत्मा कर्मोंसे सर्वथा भिन्न है, फिर भला वह शरीर धर धन आदि से मिलकर एक कैसे हो सकता है ॥ ५९ ॥ यह आत्मा एक है, नित्य है, ज्ञानमय है, गुणी है और सबसे भिन्न है योगी लोण सदा इसीप्रकार ध्यान करते रहते हैं ॥ ६० ॥ जो जीव अपने आत्माको प्रतिदिन शरीरादिकसे भिन्न मानते हैं वे ही समस्त कर्मों से रहित परमात्मपदका प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार ज्ञानी पुरुष आत्माका स्वसे भिन्न समझकर सबसे भिन्न लोण मात्माके कारण ऐसे अपने अकेले आत्माका ही सेवन करते हैं ॥ ६२ ॥ यह शरीर और धर सब आत्मासे भिन्न है तथा कुटुम्ब धन आदि भी भिन्न है और कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए संसार के जितने पदार्थ हैं वे भी सब आत्मासे भिन्न हैं यही समझकर बृद्धिमानोंका अपने आत्माको तथा मोक्षको प्राप्त करनेके

आयु सदा निकलती रहती है ॥ १६ ॥ इन सब बातोंको समझता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मोक्ष-मार्गरूपी सुख सागरका छोड़कर खो कुटुंब आदि अनित्य पदार्थोंमें अपनी बुद्धिको निरचल समझे ॥ १७ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको काम भोगोंसे चिरक होकर तप चारित्र आदिके द्वारा अनित्य शरीरसे नित्य मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १८ ॥ इस समस्त संसारको अनित्य समझकर और मोक्षको उत्तम तथा नित्य समझकर बुद्धिमानोंको शीघ्र ही अनंत गुणोंका सागर ऐसा मोक्षपद सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१९॥ संसारमें धन सब पैर धूलके समान है और अनेक पापोंका कारण है, यह शरीर यमराजके समान है विषयोंसे उत्पन्न हुआ सुख दुःख पूर्वक होता है, जीवन वादलोकें समान चंचल है पुत्र खो आदि सब कुटुंबी लोग इंद्रजालके समान है । इसप्रकार समस्त पदार्थोंको अनित्य वा चंचल समझकर बुद्धिमानोंको शीघ्र ही मोक्षके लिए प्रयत्न करना चाहिये ॥ २० ॥ इति अनित्यानुष्ठेक्षा ।

जिसप्रकार वनमें बाघके द्वारा पकड़े हुए हिरणको कोई नहीं बचा सकता उसीप्रकार इस संसारमें रोग मृत्यु आदिके द्वारा पकड़े हुए मनुष्योंको ही कोई शरण नहीं है ॥ २१ ॥ जिसप्रकार किसी जहाजसे छूटे हुए पत्तीको उस समुद्रमें उसे कोई नहीं बचा सकता उसीप्रकार संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २२ ॥ यमराजके द्वारा ले जाते हुए इस प्राणीको समस्त देव मनुष्य मंत्र तंत्र और उत्तम औषधियें आदि कोई नहीं बचा सकती ॥ २३ ॥ जो भूर्व औषधि चंडिका मंत्र आदिको शरण मान लेते हैं वे भी शीघ्र मर जाते हैं क्योंकि वे देव आदि उन्हें कभी नहीं बचा सकते ॥ २४ ॥ यदि इंद्रादिक देव ही मनुष्योंके शरण हो जाय तो फिर वे अपनी आयु पूरी हो जानेपर अनेक पदसे पृथ्वीपर द्रव्यों आ पड़ते हैं ॥ २५ ॥ इसलिये मनुष्योंको श्रीजिनेंद्र देवका कहा हुआ अहिंसाधर्म ही शरण है वहीं पापोंको नाश करनेवाला है और इसलोक तथा परलोकमें साथ जानेवाला है इसलिये उसीका पालन करना चाहिये ॥ २६ ॥ इसके सिवाय मुनिराजने अरहंत आदि पंच परमेष्ठी शरण वतलाए हैं क्योंकि इस संसार समुद्रमें भव्य जीवोंको वे ही पार करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अथवा इस असार संसारमें अनंत गुणोंका समुद्र, सदा

निश्चल रहनेवाला, और अनंत सुख देनेवाला मोक्षपद ही मनुष्यों को शरण है ॥ २८ ॥ इसप्रकार इस समस्त संसारको अशरण और सुखसे अत्यंत दूर समझकर बुद्धिमानों को तप और रत्नत्रय आदिके द्वारा पूर्ण होती है) उस समय तीनों लोकोंमें इंद्र चक्रवर्ती मंत्र तंत्र औषधि आदि कोई भी इस जीवको रोग क्लेश विषाद दुःखभय सृष्टु आदिसे नहीं बचा सकता, सब व्यर्थ जाते हैं यही समझकर सब उत्तम बुद्धिमानों को धर्म और मोक्षको ही शरण मानना चाहिये । इन्हेंका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ इति अशरणानुप्रेक्षा ।

दुःखरूपी सिंह बाघ आदिसे भरे हुए इस पांच प्रकारके अनादि संसाररूपी वनमें दुःखसे पीड़ित हुए ये प्राणी अपने अपने कर्मोंके अनुसार परिभ्रमण किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्यास आदिसे दुखी हुए जीवों ने कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अपने पाप कर्मोंके उदयसे अनंत बार न जन्म लिया हो न मरण हुए ए जीव न भरे हों अथवा न जन्मे हों ॥ ३४ ॥ नरकगति तिर्यचगति मनुष्य गति और स्वर्गमें प्रवेशक तक कोई ऐसी योनि बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अनेक बार न जन्म लिया हो, न मरण किया हो ॥ ३५ ॥ यह जीव मिथ्यात्व अबृत्त कषाय आदि भावोंसे प्रतिदिन संसारके कारण और अत्यंत दुःख देनेवाले कर्मोंका बंध करता रहता है ॥ ३६ ॥ इसप्रकार कर्मोंसे बंध हुए कुसार्थात्मी प्राणी धर्मरूपी जहाजके न मिलनेसे इस अनादि संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते रहते हैं ॥ ३७ ॥ यह अत्यंत कामी मूर्ख संसारमें दुखको ही सुख मानते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष कामको जलन आदिसे उत्पन्न हुए सब सुखोंको भो दुखरूप ही समझते हैं ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार विषसे भरे हुए घड़में कभी अमृत नहीं हो सकता उसीप्रकार सैकड़ों दुखोंसे भरे हुए इस निर्गुण संसारमें कभी सुख नहीं मिल सकता ॥ ३९ ॥ इसप्रकार इस संसारको दुःख-

पदसे उत्पन्न हुए, उपमारहित, अपार और क्षणक्षणमें उत्पन्न होनेवाले उत्तम सुखोंका अनुभव करते थे ॥ १६ ॥ इस संसारमें बिना धर्मके न तो तीर्थकरकी लक्ष्मी प्राप्त होती है, न चक्रवर्तीकी पूर्ण संपत्ति प्राप्त होती है न तीनों लोकोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है और न अत्यन्त सुख प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ धर्मके बिना न तो निधि रत्न आदि प्राप्त होते हैं न तीनों लोकोंमें फैलनेवाला यश प्राप्त होता है, न इन्द्र नरेंद्रों-द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और न लोकोत्तर सुख प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ धर्मके बिना न तो धर्मसाधनमें बुद्धि लगती है न समस्त शास्त्रोंकी जानकारी प्राप्त होती है, धर्मके बिना न तो जीवोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है और न धर्मके बिना इष्ट पदार्थोंकी सिद्धि होती है ॥ १९ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोगोंको परलोककी सिद्धिके लिये मन बचन कायकी शुद्धतापूर्वक बड़े प्रयत्नसे व्रत, दान पूजा, दीक्षा, तप, जप, यम आदि पालनकर भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुये धर्मका पालन करना चाहिये ॥ २० ॥ तीनों लोक जिनके चरण कमलोंकी पूजा करते हैं जो पापरहित हैं और पुण्यके स्थान हैं ऐसे वे भगवान् शांतिनाथ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानको फैलाते थे, पापोंका नाश करनेवाला धर्मध्यान धारण करते थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिये पर्वके दिनोंमें सदा प्रोषधोपवास धारण करते थे सदा न्याय और विवेकसे काम लेते थे तथा श्रावक धर्मके योग्य उत्तम व्रत पालन करते थे ॥ २१ ॥ स्तुति और बंदना किये हुए वे पूज्य श्रीशांतिनाथ भगवान् संसारकी अशांतिको दूर करें, धर्मात्मा लोगोंके तथा भेरे अशुभ कर्मोंका नाश करें और धर्मध्यान पापोंसे रहित पूर्ण शुक्लध्यान, रत्नत्रय समाधि और समाधिमरण प्रदान करें ॥ २२ ॥

इस प्रकार शांतिनाथ पुराणमें जन्माभियेक और राजलक्ष्मीको वर्णन करनेवाला चोदहवा अधिकार समाप्त ॥ १४ ॥

अथ पन्द्रहवां अधिकार ।

में अपने समस्त पाप शान्त करनेके लिये अनंत महिमाओंसे विराजमान और समस्त सोभाग्यके समुद्र ऐसे भगवान् शांतिनाथको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ अथानन्तर—इसप्रकार राज्य करते हुये भगवानको

पचीस हजार वर्ष व्यतीत हो गये तब किसी एक दिन वे अपने अलंकृत भगवतमें विराजमान थे। वहाँपर
 उन्होंने किसी दूपागमें अपनी दो हाया देखीं। उन्हें देनाकर वे आश्चर्यके साथ विचार करने लगे कि यह
 इसके भीतर क्या है ॥ २३ ॥ उन्होंने अपने अद्विजानसे जान लिया कि यह तब तब अपने ही शरीरमें उत्पन्न
 हुआ है और अपने पहिले जन्मको दो पर्याय है। वे उसको उनके प्रकृतसे विचार करने लगे ॥ २ ॥ वे
 भगवान् चारित्र्य मार्गीय कर्मके जगापनमें और कान्तलब्धिसे उसी समय वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ वे
 विचार करने लगे कि जिन प्रकार यह आधा चंचल है उसी प्रकार यह शरीर, राज्य, पद, संपत्ति आशु स्त्री
 आदि सब चंचल है ॥ ६ ॥ तदन्तर वे भगवान् सोच प्राप्त करनेके लिये अपने मनमें वैराग्य उत्पन्न कर-
 नेके लिये सातके समान चार अनुभवाओंका चिन्तन करने लगे ॥ ७ ॥ अतिस्य, अग्रण, नानार, परर
 अन्यत्र, अशुचि, आक्षत्र, संवर, निर्वांग, लोरु, बोधितुलभ और धर्म वे चार अनुभवाओं का ज्ञानी है।
 इनको वे भगवान् अज्ञ २ चिन्तन करने लगे ॥ ८-९ ॥ वे विचार करने लगे कि देना यह मनुष्योंका
 शरीर विजलीके समान चंचल है, मृष्टुके द्वारा यह अस्य चन्द होनेवाला है बुद्धिवाणी राधर्मीसे चिरा
 हुआ है और विम अग्नि मर्प शत्रु आदिसे चन्द होनेवाला है ॥ १० ॥ पुत्र, मित्र, स्त्री, भाईवन्तु, मेवरु,
 माता पिता, आदि सब अतिस्य है अज्ञभरमें जलके बुद्धुद्रुके समान चन्द हो जाते हैं ॥ ११ ॥ यह राज्य
 पापके समान है, पापकी स्थिति है, दयाके समान चंचल है, अनेक शत्रुओंसे चिग हुआ है, और शत्रुओंके
 द्वारा अनेक प्रकारकी शत्रुता उत्पन्न करनेवाला है ॥ १२ ॥ यह लज्जा वैराग्यके समान चंचल है, इसके
 लिये चार, शत्रु, राजा आदिसे भी प्राधना करनी पड़ती है, सब लोग इसका उपयोग करने लें, वड़ी कठि-
 नतासे प्राप्त होती है और दुन देनेवाली है ॥ १३ ॥ घर वाहन, गृहस्थिके सम पदाथ, राज्य प्रलंकार और
 चक्रवर्तीकी पदवी आदि सब कालरूपो अग्निसे भस्म हो जाते हैं ॥ १४ ॥ पूर्ण पुण्यको प्राप्त हुये इन्द्रादिक
 देव भी अपने समयानुसार स्वर्गसे पड़ने हैं फिर भला पुण्यहीन मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ॥ १५ ॥ तिस-
 प्रकार घटीयंत्रके द्वारा कृणसे पानी निकाला जाता है उसी प्रकार घड़ी दिन आदिके द्वारा प्राणियोंकी दुर्लभ

उद सुदंगके आकारका है, और चारों कोनों तक जीवोंसे भरा हुआ है ॥ ८ ॥ उत्याद ध्रौव्य सहित और अपने २ गुणोंसे भरपूर ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल और जीवराशिसे वह लोक भरा हुआ है ॥ ९ ॥ उस के अधोभागके सात नरकोंमें चौरासी लाख बिल हैं जो समस्त दुखोंके निधान हैं ॥ १० ॥ उनमें पापी नारकी अन्य नारकियोंके द्वारा दिये हुए परस्परके छेदन भेदन आदि अनेक प्रकारके घोर दुखोंके द्वारा सदा दुख भोगते रहते हैं ॥ ११ ॥ वे नरक समस्त दुखोंके समुद्र हैं उनमें यह जीव पहिले उपाजर्न किए हुए पापकर्मके उदयसे जो वचनोंसे भी न कहे जा सकें ऐसे दुख भोगता रहता है वहांपर जीवोंको लेश्मानत्र भी सुख नहीं मिलता ॥ १२ ॥ केवल ढाई द्वीप ही ऐसा है जिसमें कुछ जीव पुण्योपाजर्न करते हैं कुछ चारित्र धारणकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कुछ हिंसाकर पाप कमाते हैं ॥ १३ ॥ ज्योतिष्क और व्यंत्तर देवोंसे भरे हुए असंख्यात द्वीपोंमें ये जीव पुण्य पापके वश होकर सदा परिश्रमण किया करते हैं ॥ १४ ॥ पूर्वोपाजित शुभ कर्मोंके उदयसे कुछ धर्मात्मा जीव सोलह स्वर्गोंमें और नव प्रवैयक आदि कल्यातीत विलानोंमें अनेक प्रकारके सुख भोगते रहते हैं ॥ १५ ॥ उसके आगे सदा एकसा रहनेवाला नित्य स्थान है जहांपर अनेक सुखमें लीन हुये और तीनों लोकोंके द्वारा बंदनीय ऐसे सिद्धात्मा निवास करते हैं उनको मैं भी नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ इसप्रकार लोकका विचित्र स्वरूप जानकर विद्वान लोग रागादिकको छोड़-कर मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय करते हैं ॥ १७ ॥ यह अनेक प्रकारका समस्त लोक द्रव्योंसे भरपूर है, उत्याद ध्रौव्य स्वरूप है, सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है, सुख दुखसे भरा हुआ है, अनादि है और सदा रहनेवाला अविनाशी है लोकका ऐसा स्वरूप जानकर बुद्धिमान लोग रत्नत्रयके द्वारा सिद्ध होकर उसके ऊपर जा विराजमान होते हैं ॥ १८ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥

जन्म मरणसे पीड़ित हुआ यह जीव अनंत कालतक निगोदमें परिश्रमण किया करता है और फिर अन्य स्थावरोंमें श्रमण करता है त्रस पर्याय नहीं पाता ॥ १९ ॥ कदाचित बड़ी कठिनातासे त्रस पर्याय मिल भी जाय तो बहुत दिनतक लट कुंथ आदि कीड़े मकोड़ोंकी योनियोंमें ही घूमा करता है पंचेन्द्रिय

पर्याय नहीं पाता ॥ २० ॥ कदाचित् पंचेन्द्रिय भी हो जाय तो बहुत दिनतक अरसेनी ही बना रहता है, धर्माबुद्धिसे रहित होनेके कारण सेनी नहीं होता ॥ २१ ॥ कदाचित् सेनी भी हो जाय तो सिंह बाघ आदि क्रूर जातियोंमें उत्पन्न होकर हिंसादिके द्वारा महापाप उत्पन्न करता है जिससे नरकादिकोंमें जाकर अनेक दुख भोगता है ॥ २२ ॥ नरकोंमें जाकर अनेक सागरतक दुख भोगता है और ऐसे दुख भोगता है जा वचनसे भी न कहे जा सकें । पाप कर्मके उदयसे यह जीव दुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं पा सकता ॥ २३ ॥ कदाचित् समुद्रमें गिरे हुए रत्नके समान दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ले तो फिर म्लेच्छ जाण्डोंमें हो भ्रमण किया जाता है आर्यखण्डमें जन्म नहीं लेता ॥ २४ ॥ कदाचित् भाग्यवशसे आर्यखण्डमें भी जन्म ले नहीं ले सकता ॥ २५ ॥ कदाचित् श्रेष्ठ कुलमें भी जन्म ले ले तो आयु, रंगरहित शरीर, इन्द्रियोंकी पूर्णता रत्नत्रयकी प्राप्ति, कर्पायोंकी मंदता, अरहंतदेवके कहे हुए शास्त्र, निर्णय गुरु, सम्यग्दर्शन, तप, ज्ञान, चारिष आदिकी प्राप्ति उत्तरोत्तर दुर्लभ है, कदाचित् बड़े भाग्यसे ये सब मिल भी जाय तो चिंतामणि रत्नके समान ध्यानकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ॥ २६-२७ ॥ इन सबका पाकर भी यह मनुष्य यदि धर्म साधन करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें प्रमाद करे तो फिर यह दीन संसाररूपी वनमें भ्रमण किया ही करता है ॥ २८ ॥ फिर यह जीव समुद्रमें गिरे हुए साणिकके समान करोड़ों सागरतक भी मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठकुल और धर्मके साधन नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ २९ ॥ यही समझकर बुद्धिमान लोग रत्नत्रयकी स्थापना पाकर धर्म साधनमें महा प्रयत्न करते हैं उस धर्मके सेवकसे माश्रफें जा विराजमान होते हैं ॥ ३० ॥ इन जंसारमें मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, फिर सुदेश, सुकुल श्रेष्ठबुद्धि, आराधयता, इन्द्रियोंकी पूर्णता, श्रेष्ठगुरु, सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप, उत्तरोत्तर दुर्लभ है इसलिये धार्मिक गुरुग इनका पाकर सम्यग्प्रयत्नसे चारित्र्य धारण कर माक्ष सिद्ध किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इनि बोधितुल्यानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आक्रिन्त्य आर व्रतचर्य यह दश प्रकारका उत्तम

जिसप्रकार बिना छिद्रका जहाज समुद्रके पार पहुंच जाता है उसीप्रकार धीर वीर पुरुष संवरके द्वारा कर्मों का नाशकर संसारके पार हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ चतुर पुरुष समिति, व्रत, युक्ति, परीपहजय, धर्मध्यान, शुद्धध्यान, अध्ययन, संयम आदिके द्वारा संवर धारण करते हैं ॥ ८७ ॥ संवरके साथ यदि थोड़ा भी तप, चरित्र, संयम आदि किया जाय तो वह भी सब प्रकारके कल्याण देनेवाला और मोक्षरूपी वृक्षका बीज हो जाता है ॥ ८८ ॥ यद् संवर जीवका परम सिद्ध है, संवर ही परम तप है, संवर ही स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करनेवाला है, संवर ही धर्मका कारण है और संवर ही अनन्त सुख देनेवाला है ॥ ८९ ॥ जिसने कर्मों का आस्रव रोककर संवर धारण किया है वही संसारके पार होता है और वही अपने हाथमें मोक्षको ले सक्ता है फिर भला और सुखोंकी तो बात ही क्या है ॥ ९० ॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले योगी पुरुष संवर धारण करनेके लिये सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्वको नाश करते हैं, व्रतोंसे अचिरतिको, यत्नपूर्वक धर्म धारणकर प्रसादोंको, क्षमासे क्रोधरूपी शत्रु को, मार्दवसे मानको, आर्जवसे मायाको, संतपरो लोभको, कायोत्सर्गसे शरीरके ममत्वका, मौनसे वचनयोगको और ध्यान तथा शास्त्रज्ञानके अभ्याससे मनोयोगको नष्ट करते हैं इसप्रकार आस्रवके सब कारणोंको नष्ट कर डालते हैं ॥ ९१-९२ ॥ जो जीव चारों गतियोंके कारणरूप कर्मों का रोककर संवर धारण करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है बिना संवरके मोक्षके लिए परिश्रम करना सब व्यर्थ है ॥ ९३ ॥ यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनियोंको सब इन्द्रियोंको तथा योगोंको निग्रहकर और तपश्चरण धारणकर सदा संवर धारण करना चाहिए ॥ ९४ ॥ यह संवर सर्वधर्मका निर्मल समुद्र है सुखका निधि है, मुक्तिरूपी स्त्रीका भाई है, नरकरूपी घरका किवाड़ है, तीर्थकर भी सदा इसकी सेवा करते हैं, यह अनन्त गुणोंकी खानि है और निर्मल है इसलिए बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अनेक प्रकारके संयम अदिके द्वारा सदा सब कर्मोंको रोककर संवर धारण करना चाहिये ॥ ९६ ॥ इति संवरानुश्रवा ॥ ८ ॥

सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी होती है, जो कर्म अपना फल देकर जो खिर जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है यह संसारमें सब जीवोंके होती है ॥ ९७ ॥ तथा तपश्चरण, संयम, ध्यान, परीप-

हजय और श्रुतज्ञानसे विना फल दिए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं वह अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा पापकर्मों का संवर करनेवाले मुनियोंके ही होती है ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोगवाला प्राणी मलके निकल जानेसे सुखी हो जाता है उसी प्रकार तप चारित्ररूपी औषधिके द्वारा कर्मरूपी मलके निकल जानेसे (नष्ट-इसलिए वह त्याग करने योग्य है और अविपाक निर्जरासे अन्य कर्मों का आश्रय होता रहता है ग्रहण करने योग्य है ॥ १०० ॥ जिस प्रकार अधिक गर्मी देनेसे कच्चे आम भी पक जाते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान लोग तपश्चर्यारूपी गर्मीसे असंख्यात कर्मों को पकाकर नष्ट कर डालते हैं ॥ १ ॥ जो पुरुष इस संसारमें पहिले उपार्जन किए हुए कर्मों की निर्जरा करते हैं उनके साथ मुक्ति स्त्री भी होती है फिर भला देवानगनाओंकी तो बात ही क्या है ॥ २ ॥ यह कर्मोंकी निर्जरा मुक्तिरूपी कच्चाकी माता है, नरकरूपी घरकी अग्रला (बैंड़ा) है, स्वर्गके लिए सीढ़ियोंकी पंक्ति है और सुखकी खानि है ॥ ३ ॥ मुनि लोग पहिले तो पापरूप अशुभ कर्मोंका संवरकर उनकी निर्जना करते हैं, और फिर अशुभ कर्मोंका संवरकर उनकी निर्जरा करते हैं ॥ ४ ॥ अपने आत्माका हित चाहनेवाले प्राणियोंके लिए यह निर्जरा परम माता है, यह सब दुखोंको दूर करनेवाली है, सारभूत है और अनंत सुख उत्पन्न करनेके लिए पृथ्वीके समान है ॥ ५ ॥ यही समझकर उत्तम बुद्धिमानोंको मन तथा इंद्रियोंका निरोधकर और तप चारित्र संयमादि धारणकर प्रतिदिन कर्मोंकी निर्जरा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ यह कर्मोंकी (अविपाक) निर्जरा संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाली है, मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी है, नरकके दरवाजेकी मजबूत अग्रला है, स्वर्गके लिये निर्मल सीढ़ियोंकी पंक्ति है, अनंत सुखोंकी खानि है और श्रीतार्थकर भी इसकी सेवा करते हैं इसलिये बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कायक्लेश, तप जप आदि गुणोंके द्वारा यह कर्मोंकी निर्जरा सदा करते रहना चाहिये ॥ १७ ॥ इति निर्जरानुश्रवा ॥ ६ ॥

यह लोक अकृत्रिम है, नित्य है, उर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे तीन प्रकारका है, वह ज्ञान गोचर है, २६२

होनेसे आज रत्नत्रयरूप महान मोक्षका मार्ग प्रगट होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५७ ॥ हे नाथ । आज आपके चारित्ररूपी तलवारके हाथमें लेनेसे यह तीनों लोकोंको जीतनेवाला मोहरूपी शत्रु अपने आप ही 'हा में मरा, हा में मरा' इसप्रकार कहता हुआ कांप रहा है ॥ ५८ ॥ हे स्वामिन् । आज आपके ज्ञानका उदय होनेसे इस संसारमें मनुष्योंके स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेवाला और सुखका सागर ऐसा महान् धर्मका उदय होगा ॥ ५९ ॥ हे प्रभो ! सूर्यके समान आपका उदय होनेसे खद्योतके समान पाखंडी लोग प्रभारहित हो जायेंगे इससे कोई संदेह नहीं है ॥ ६० ॥ हे देव । आपका दीक्षाकल्याणक सुनकर धर्मरूपी महासागर को वृद्धि होनेसे आज, हम स्वर्ग निवासियों तथा मनुष्योंको बहुत ही आनन्द हुआ है ॥ ६१ ॥ हे जिनन्द, आज आपका धर्मोपदेश सुनकर बहुतेसे मोहि मनुष्य मोह नाश करेंगे, कामो लोग कामको नष्ट करेंगे, और धार्मी लोग धार्मीको छोड़ देंगे ॥ ६२ ॥ हे स्वामिन् । आपके केवलज्ञानसे सज्जन लोगोंका उपकार होगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हे प्रभो । आप केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिए उद्यम कीजिए ॥ ६३ ॥ हे नाथ । वैराघ्यरूपी तीक्ष्ण तलवारसे जगतके जीतनेवाले मोहरूपी दुष्ट योद्धाको मारकर आज शीघ्र ही संयम धारण कीजिये ॥ ६४ ॥ हे देव । आज राज्यके कठिन भारको छोड़कर अपने ज्ञानके द्वारा तीनों जगतके राज्यका कारण और सुगम ऐसा तपश्चरण का भार स्वीकार कीजिये ॥ ६५ ॥ हे देव । आप विद्वान और मूर्ख दोनोंको उपदेश देनेवाले हैं फिर क्या हम लोगोंके द्वारा प्रबुद्ध किये जा सकते हैं ? क्या प्रकाश करनेके लिये सूर्यको दीपक दिखाया जाता है ॥ ६६ ॥ इसलिये हे नाथ । तपश्चरण कर आप स्वसत्त संसार को पवित्र कीजिये और केवल ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र ही मनुष्योंका उपकार कीजिए ॥ ६७ ॥ हे देव आप धर्म अर्थ काय इन तीनों पुरुषार्थोंके पारणामी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीर्थंकर हैं और तीनों लोकोंके स्वामी हैं ॥ ६८ ॥ हे नाथ । आप चौथे मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध करनेके लिए चारित्र धारण कीजिए ॥ ६९ ॥ हे देव आप धर्म धारण कर ही आप संसारसे भव्य जीवोंका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥ ६९ ॥ जिसप्रकार संसारमें आकाशसे कोई बड़ा नहीं है, और परमाणुसे कोई छोटा नहीं है उसीप्रकार हे देव । तीनों कालमें आपसे कोई

वडा देव नहीं है ॥ ७० ॥ इसलिये हे जिनेन्द्र दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले, जगतको आनन्द देनेवाले
 परंपेष्टी आपका नगरकार है वार वार नमस्कार है ॥ ७१ ॥ आपका ज्ञान समस्त संसारका जालता है इस-
 लिये आपका नमस्कार है, आप सज्जनोंके गुरु है इसलिये आपका नमस्कार है, आप शुक्तिर्षिक पति है
 इसलिये आपका नमस्कार है और आप कल्याणकसागर है इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ७२ ॥ हे देव !
 इस स्तुतिके द्वारा हम आपसे संसारका लक्ष्मी नहीं मांगते है किन्तु हम आप अपने गुणोंका समूह ही दे-
 डालिए ॥ ७३ ॥ हे भगवान शीतिनाथ इन्द्र भी आपके चरण कमलोंकी पूजा करते है, आप संसारके सब
 ननोंको उल्लस देनेवाले है, आप ही तानों कालोंके जीवोंके भावोंको कटनेवाले है, आप ही समस्त कबलूप
 ही सबज्ञ है, और आप ही तीर्थंकर चक्रवर्ती कापदेव पदको धारण करनेवाले है इसलिये हे देव ! मेरे लिये
 तो आप ही शरण है ॥ ७४ ॥ इसप्रकार उन लौकिक देवाने भगवानकी स्तुति की, प्रशंसा की और वार
 वार उन्हें प्रणाम किया तथा अपना नियोग साधनकर वे प्रसन्नचित्त होकर अपने रयातको चले गये ॥ ७५ ॥
 जितप्रकार दीपस चक्रुके द्वारा पदार्थोंके देवमेंसे सहायक होता है उसीप्रकार लौकिक देवोंके बचन भग-
 वानको दीर्घामें नहायक होगाये थे ॥ ७६ ॥ भगवान जबतक अपना राज्य छोड़ने और वसमें जानके लिए
 तैयार हुए, तबतक चारों निकायके देव और इन्द्र अपने अपने चिन्होंसे तथा आसनोंके कंपवमान होनेसे
 भगवानका दीर्घा कल्याणक जानकर पहिले कहे अनुचार अपने अपने वाहन और देवांगनाओंके साथ
 अपनी कानिते आकाशका प्रनाशित करने हुए गीत नृत्य करते हुए आपे और आते ही उन्होंने जगतगुरु
 भगवानको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया ॥ ७७-७८ ॥ उस समय देवोंको सेना, देवांगनाएँ और देव सब
 आकाश, नगरको गलियां, राज्यभवन नगर वन सबको रोककर वड़ें होगाये थे ॥ ८० ॥ तदनन्तर इन्द्रादिक
 देवाने वड़ें उल्लसके साथ दीर्घा कल्याणका उल्लस मनानके लिए वड़ी विभूति पूर्वक मोतियोंकी माला-
 आसे सुशोभित, धीरसागरके जलसे भरे हुए, सुवर्णके उच्च, गहरे उत्तम कलशांसे भगवानका सर्वोत्तम

महाधर्म कहलाता है यही धर्म मोक्षका कारण है इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको मन बचन कायसे क्षमा आदि धर्मोंको धारण करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ बुद्धिमान लोग धर्मसे ही तीर्थंकर पद पाते हैं, धर्मसे ही चक्रवर्ती की विभूति, इंद्रके सुख, स्वर्ग, राड्य, कीर्ति और दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥ तीनों लोकोंमें जो पदार्थ दुर्लभ है, जो दूर है और जो बड़ी कठिनातासे प्राप्त हो सकता है वह भी धर्मार्थमा जीवोंको धर्मके प्रभावसे लालाभाजमें प्राप्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ धर्मसे ही पुत्र पौत्र आदि कुटुंब मिलता है धर्मसे ही सुखकी सामर्थी मिलती है धर्मसे हा रूपवती स्त्री मिलती है और धर्मसे ही सेवक आदि प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥ जिसके धर्मका उदय होता है उसके पास सुख देनेवाली तीनों लोकोंकी लक्ष्मी धरकी दासीके समान स्वयं आ जाती है ॥ ३७ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल कारण धर्म ही है धर्मके विना ये कुछ नहीं प्राप्त होते इसलिये बुद्धिमानोंको सबसे पहिले धर्म ही सेवन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ इसलिये बुद्धिमानोंको बहुमूल्य मनुष्य रत्न पाकर धर्मके विना कभी एक समय भी नहीं विताना चाहिये ॥ ३९ ॥ जो निर्मल धर्म पालन करते हैं उनके चरणकमलोंको इन्द्र भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं औरोंकी तो बात ही क्या है ॥ ४० ॥ यही समझकर सज्जनोंका मोक्ष प्राप्त करनेके लिए प्रतिदिन श्रीजिनेंद्रदेवके कहे हुए दयालय धर्मका पालन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ यह उत्तम क्षमा आदि दश प्रकारका धर्म सुखका सागर है, मोक्षका कारण है, समस्त गुणोंका निधि है, स्वर्गके लिये सोढीके समान है, इन्द्रोंके लिए अनेक कृधियां देनेवाला है, तीर्थंकर पद देनेवाला है, समस्त कर्मोंका नाश करनेवाला है, संसारको समस्त लक्ष्मी और शोभाको देनेमें चतुर है और रत्न निधि आदिका धर है इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको आत्माकी सिद्धि करनेके लिए भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे हुए सद्धर्मका सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ इति धर्मानुपेक्षा ॥ १२ ॥

ये वारह अनुप्रेक्षाएं शास्त्रोंमें कही हैं ये सब अनुप्रेक्षाएं मुक्तिरूपी स्त्रीकी सखी हैं, गार भूत हैं तथा वीरग्य और धर्माचरणकी माता हैं, जो मनुष्य अपने हृदयमें इनको धारण करते हैं वे तीनों लोकोंके स्वामी होते हैं उनके सबप्रकारकी लक्ष्मी स्वयं आजाती है सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और मुक्ति, स्त्री, ज्ञान, चारित्र

क गुण अत्यन्त वैराग्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ इसप्रकार अनुपेक्षाओंके चिंतन करनेसे भगवानके हृदयमें अनंत सुखका कारण और कर्मरूप शत्रुओंका नाश करनेवाला वैराग्य दूना होगया ॥ ४४ ॥ उन्होंने विरक्त होकर ऊर्ध्वो खंड पृथ्वी नौ निधि चौदह रत्न भोग काय स्त्री आदिका मोह छोड़ दिया और वे घरसे निकलनेकी तैयारी करने लगे ॥ ४५ ॥ इतनेमें ही ब्रह्मलोकमें रहनेवाले अत्यन्त शांत दीक्षा कल्याणको सूचित करनेवाले देवषि ब्रह्मचारी निर्मल हृदयको धारण करनेवाले एकावतारी चतुर और ग्यारह अंग चौदह पूर्वके पारगामी और दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले सारस्वत आदित्य बन्धि, आरुण, गर्दतोप, लुधित, अब्यावाध, अरिष्ट ये आठ प्रकारके विचक्षण लौकांतिक देव अपने अबाधि-ज्ञानसे तथा अकब्र्यात होनेवाले चिन्होंसे भगवानका वैराग्य उत्पन्न होना जानकर आये और आते ही उन्होंने बड़ी प्रारब्धतासे मस्तक झुकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४६-४८ ॥ तदनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ श्रेष्ठ द्रव्योंसे भगवानकी पूजा की और फिर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर उत्तम गुणोंके द्वारा वे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ५० ॥ हे देव ! आप संसारको जाननेवाले हैं और ज्ञानियोंमें भी ब्रह्मज्ञानी हैं इस संसारमें ऐसा कौन है जो आपको समझावे क्योंकि आप महापुरुषोंके भी गुरु हैं ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार लोग फूलसे वनरूपतिकी पूजा करते हैं जलकी अंजलि देकर समुद्रकी पूजा करते हैं और केवल भक्तिपूर्वक दीपकसे सूर्यको पूजा करते हैं उसीप्रकार हे जिनराज ! केवल सर्वोधनके बहानेसे भक्ति करनेवाले हम लोग आपको स्तुति करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं विद्वानोंके गुरु हैं आपही संसारसे अर्थात् होनेवाले लोगोंके रक्षक हैं और इस संसारसे बचानेके लिये आप ही मनुष्योंके शरण ह ॥ ५४ ॥ हे देव ! आपके धर्मोपदेशसे श्रेष्ठ व्रतोंको धारण करनेवाले कितने ही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं कितने ही पुण्यवान स्वर्गको जाते हैं और कितने ही कल्याणतीत विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ हे स्वामिन् ! आज सब्यदर्शन और सब्यज्ञानको रोकनेवाला मनुष्योंका मिथ्याज्ञान रूपी अन्धकार आपके बचनरूपी किरणोंसे नष्ट होकर दूर भाग जायगा ॥ ५६ ॥ हे देव ! आपके तीर्थकी (दिव्य ध्वनिकी) प्रवृत्ति

महाभिषेक किया ॥ ८१-८२ ॥ फिर उन इन्द्रो'ने आद्रपूर्वक दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र और चंदनकी वनी हुई सुगंधित मालाओं'से भगवानको विभूषित किया ॥ ८३ ॥ भगवानने वड़े उत्सव और विभूतिके साथ अपने पुत्र नारायणका राज्याभिषेक किया और सब राज्य संपदा उसे दी ॥ ८४ ॥ भगवानने मोहरूपी शत्रुको मारकर आद्रपूर्वक सब कुटुम्बी लोगों'से पूछा और फिर वे इन्द्रके हाथका सहारा लेकर इन्द्रो'के द्वारा वनाई हुई, रत्नमयी, दीजा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीपर सवार हुए ॥ ८५-८६ ॥ उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर सात पेंडतक ले चले फिर सात पेंडतक प्रसन्न चित्तवाले विद्याधर आकाशमें ले चले और फिर अत्यन्त प्रसन्न हुए सब देव उस पालकीको कंधेपर रखकर शीघ्र ही आकाशमार्गसे चले ॥ ८७-८८ ॥ भगवानके माहात्म्यकी प्रशंसा वस इतनेमें ही समाप्त समझनी चाहिये कि इन्द्र भी प्रसन्न चित्त होकर उनकी पालकीको ले जा रहे थे ॥ ८९ ॥ उस समय देव पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे, जय जय शब्द कर रहे थे और गंधोदककी वर्षाके साथ शीतल पवन बह रहा था ॥ ९० ॥ देव वंदीजन गसन समयके मङ्गल गीत गा रहे थे और देवों'के द्वारा वजाये हुए गसन समयके वाजे वजा रहे थे ॥ ९१ ॥ उस समय इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग "यह सज्जनों'के गुरु भगवानके मोहरूपी शत्रु के जीतनेका समय है" । इस प्रकार ऊंचे शब्दों'से घोषणा कर रहे थे ॥ ९२ ॥ उस समय देव प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण सब आकाशको घेरकर भगवान शान्तिनाथके आगे आये वड़ी प्रसन्नतासे जय जय शब्दों'का कोलाहल कर रहे थे ॥ ९३ ॥ उस समय भगवानके नामने समस्त दिव्य देवांगनाएं प्रसन्न होकर अपने शरीरकी कृत्रबंध आदिकी लघुता दिखला कर तथा और भी अनेक तरहके चित्र दिखलाकर नृत्य कर रही थीं ॥ ९४ ॥ किन्नर जातिकी देवियां मोहरूपी शत्रु के विजयकी प्रशंसासे गुये हुए गीत गाती हुई भगवानके सामने मार्गमें हो सधुर स्वरसे गा रही थीं ॥ ९५ ॥ उस समय इन्द्रो'के शरीरकी कांति आकाशके अन्त तक फेले रही थी और दु'दुभिषियों'के शब्द सब दिशाओं'को रोककर सब जगह भर गए थे ॥ ९६ ॥ इन्द्र लोग भगवानके इधर उधर चमर हुला रहे थे और सब दिक्कुमारियां हाथों'में मंगल द्रव्य लेकर सामने

चल रही थीं ॥६७॥ उस समय बाजोंके शब्दोंसे, नृत्योंसे, जपजपकारोंके शब्दोंसे और गंधर्वोंके द्वारा होनेवाले गालोंसे संसार भरको आनन्द हो रहा था ॥६८॥ वेभगवान उस समय रत्नोंकी बनी हुई बहुमूल्य दिव्य पालकीमें विराजमान थे और दिव्यनाला आभरण चन्द्र आदि पहने हुए थे इसलिये वे मुक्ति कल्पार्क वरक समान सुशोभित होते थे ॥ ६९ ॥ अथवा वे भगवान असंख्यात देवोंसे घिरे हुए बड़ी विभूतिके साथ आकाशमार्गसे जा रहे थे इसलिये वे ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों संयमरूपी लक्ष्मीके साथ विवाह करकेके लिए क्रिया या तथा नगरसे निकलते नगर निवासियों ने इसप्रकार उन्हें आशीर्वाद दिया था ॥ १ ॥ कि है नृपाधीन ? आप जाइए आपका मोक्षमार्ग कल्याणकारी हो, हे देव आपकी जय हो, आपकी वृद्धि हो और आपको समस्त कल्याण प्राप्त हो ॥ २ ॥ उन्हें जाते हुए देखकर कितने ही लोग परस्पर कह रहे थे कि संसारमें यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि ये भगवान रत्न, निधि, स्त्रियां आदि सबको छोड़कर वनको जा रहे हैं ॥३॥ इस बातको सुनकर अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि यह ऐसा वैराग्यका ही माहात्म्य है । कि जिससे ये लोग ऐसी लक्ष्मीका भी छोड़ सकते हैं ॥ ४ ॥ यह सुनकर अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि संसार में ऐसे थोड़े उत्तम मनुष्य होते हैं जो इस लक्ष्मीको भोग सकते हैं और क्षणभरमें ही उसे छोड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि ये भगवान तीर्थंकर हैं चक्रवर्ती हैं और कामदेव हैं इसलिये ये इस लोक और परलोकके सब कामोंमें समर्थ हैं अन्य कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ यह सुनकर अन्य कितने ही चतुर लोग कहने लगे कि यह तुम्हारी बात विरकुल ठीक है, इन भगवानकी ही ऐसी शक्ति है औरोंमें ऐसी शक्ति कभी नहीं हो सकती ॥७ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि भगवान के धर्मका प्रभाव देखो जो इन्द्र भी सब देवोंके साथ इनकी सेवा कर रहा है ॥ ८ ॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि संसारमें जो कुछ आश्चर्यकारी पद है वह सब पुण्यका ही माहात्म्य है ॥ ९ ॥ इसप्रकार उत्कृष्ट वचनोंसे जिनकी प्रशंसा होरही है ऐसे वे भगवान अनुक्रमसे इन्द्रके साथ साथ नगरके बाहर जा पहुंचे

चतुर्थीके दिन सायंकालके समय भरणी नक्षत्रमें भगवान शान्तिनाथने प्रसन्न होकर दीक्षा धारणकी ॥३७॥ भगवानने जिन केशोंका लोच किया था उनको भगवानके मस्तकपर निवास करनेके कारण अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने वड़े आदरसे उनको रत्नकी पेटोमें रखवा तथा भगवानके मस्तकका स्पर्श करनेसे उनको अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने बड़ी विभूतिके साथ लेजाकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेपण किया ॥ ३८-३९ ॥ वरुण आभूषण माला आदि जो जो चीजें भगवानने उतारी थीं उन्हें भी देव असाधारण उत्तम समझकर अपने साथ ले गए थे ॥ ४० ॥ आरच्य है कि उत्तम पुरुषोंके सम्बन्धसे निर्गुण पदार्थ भी उत्तम होजाते हैं जैसे श्रीजिनेन्द्रदेवके आश्रय होनेसे यत्न भी पूजे जाते हैं ॥ ४१ ॥ भगवानके साथ साथ चक्रायुध आदि एक हजार राजाओंने दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर संयम धारण किया ॥ ४२ ॥ उन नवदीक्षित मुनियोंसे धिरे हुए वे शान्तिनाथ भगवान ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों एक बड़ा कल्पवृक्ष अन्य कल्पवृक्षोंसे धिरे ही हा ॥ ४३ ॥ अत्यन्त शान्त और आभूषण आदिसे रहित उन भगवानकी दिगम्बर अवस्था को धारण करने वाला शरीर अपने तेज और कांति आदि गुणोंसे अच्छा जान पड़ता था मानों चन्द्रमाका अद्भुत पूर्ण विंब ही हो ॥ ४४ ॥ उस समय भगवानके देदीप्यमान और उपमारहित रूपको इन्द्र सब देवोंके साथ हजारों नेत्रोंसे देखता हुआ भी तृप्त नहीं होता था ॥४५॥ तदनन्तर सन्तुष्ट हुए इन्द्र तीनों लोकोंके स्वामी और परम पदमें रहनेवाले भगवानके यथार्थ उच्चम गुणोंको वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगे ॥४६॥ हे देव ! गुणोंके प्रमाणको उल्लङ्घनकर उनको अधिकताके साथ वर्णन करना स्तुति कहलाती है परन्तु आपमें तो गुण ही अनन्त हैं हम तो उनका भी कहनेमें समर्थ नहीं ॥ ४७ ॥ तथापि हम मन्दबुद्धिवाले लोग केवल भक्तिके वश होकर आपकी स्तुति करनेको तैयार हुए हैं इसमें केवल भक्ति ही कारण है और कुछ नहीं ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! इस संसार में चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले गणधरदेव भी आपके गुणरूपी समुद्रका पार नहीं पा सकते फिर भला हम लोग उनका पार कैसे पा सकते हैं ॥ ४९ ॥ नदी, बृक्ष, मेघ और निधि आदि केवल दूसरोंका उपकार करते हैं परन्तु आप संसार भरका हित करनेवाला अपना और दूसरोंका दोनोंका उपकार करते हैं । हे देव ! हे धीर

॥ १० ॥ अथान्तर-भगवानके चले जानेपर उनकी रानियां भी शोकसे व्याकुल हुईं और माग में मंत्रियोंको साथ लेकर भगवानके पीछे पीछे चलीं ॥ ११ ॥ भगवानके वियोगरूपी अग्निसे उनका शरीर झुलसासा हा गया था उन्होंने आभूषण उतार दिये थे, शोभा उनकी जाती रही थी और गिरती पड़ती वे भगवानके पीछे पीछे जा रही थीं ॥ १२ ॥ कितनी ही द्वावानलसे जली हुई लताके समान जान पड़ती थी, उनकी झरिररूपी लकड़ी कंप रही थी, मूर्छा आनेसे उनके नेत्र बन्द होगए थे और वे पृथ्वीपर गिर पड़ी थीं ॥ १३ ॥ हे नाथ आज आप कहाँ चले गए ? अब आपका मिलाप कहाँ होगा ? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी ? इसप्रकार दुखसे व्याकुल हुईं कितनी रानियां रोरोकर करुणा उत्पन्न करनेवाले शब्दोंसे विलाप कर रही थीं और केशों की चोटी खोले हुए प्रभाहीन कितनी ही रानियां अपनी छाती ही कूट रही थीं ॥ १४-१५ ॥ कितनी ही रानियोंके केशपाण्डू छूट गए थे, मालाएं टूट गई थीं, चोली ढीली हो गई थीं, आँवोंसे आंसू बह रहे थे और उनकी अवरथा शोचनीय हो गई थीं ॥ १६ ॥ कितनी रानियां अपने थोड़ेसे पुण्यसे उत्पन्न हुए सौभाग्यको निंदा करती थीं जिनसे कि असमयमें ही संसार के द्वारा निंदनीय दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था ॥ १७ ॥ कोई कोई चतुर रानियां कह रही थीं कि तुम लोग रोओ मत, हम सब लोग स्वामीके साथ निर्दोष तपश्चरण करेंगे, जिससे हमें भी स्वामीका पद प्राप्त होगा । इसप्रकार आश्वासन देनेवाले वचनोंसे और शास्त्रज्ञानसे कितनी ही रानियोंने अपना शोक दूर कर दिया था ॥ १८-१९ ॥ इतनेमें महापुरुषोंने आकर श्मश वचनोंसे समझाकर अन्तःपुरके साथ साथ उन खियोंको राका और कहा कि आगे मत जाओ, आगे जानेके लिए प्रभुकी आज्ञा नहीं है ॥ २० ॥ इस आज्ञाको सुनकर उन्होंने लक्ष्मी गर्भ सांसली और चिन्तमें यह धारण कर कि हम अवश्य ही निर्दोष तपश्चरण करेंगे, बड़े कष्टसे धरको लौट गईं ॥ २१ ॥ संयमरूपी लक्ष्मीके रसके लिए उत्सुक हुए वे भगवान चक्राद्युध आदि भाइयोंके नगर निवासी और राजा महाराजाओंके साथ तथा इन्द्रके साथ आर देवोंके द्वारा किए हुए महा उत्सवके साथ जहांतक लोगोंकी दृष्टि पहुंच सके इतनी दूर आकाशमागसे चलकर सहलाघ्र नामके वनमें जा पहुंचे ॥ २२-२३ ॥ उस वनमें एक शीतल छायावाला

हाथीके समान जा रहे । वे मुनिराज दानियोंको संतुष्ट करते हुए केवल शरीरको स्थिर रखनेके लिये अनु-
क्रमसे विहार करते हुए मंदरपुर नामके नगरमें पहुँचे ॥७०-७३॥ किसी घरमें जाकर शीघ्रतासे निकल जाना ही
जिनका आभूषण है ऐसे वे दिग्भ्रम्र अवरथाको धारण करनेवाले भगवान अपनी कांतिसे सब लोगोंको
मोहित करते हुए राजभवनमें जा पहुँचे ॥ ७४ ॥ वहाँके महाराज सुमित्रवड़ी कठिन्तासे प्राप्त होने योग्य
निधानके समान उन अद्भुत पात्रको देखकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ७५ ॥ पुरयकर्मको जाननेवाले उन
महाराजने भगवानको अपने हाथ जोड़े उनके चरण कमलोंको नमस्कार किया और तिष्ठ २ कहकर उन्हें
स्थापन किया ॥ ७६ ॥ श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, चमा और त्याग ये सात दानियोंके गुण
कहे गए हैं ॥ ७७ ॥ प्रतिग्रह, उच्चस्थान, पादप्रक्षालन, पूजा, प्रसाण, वचन शुद्धि, मनशुद्धि, काय शुद्धि
और आहार शुद्धि यह नव प्रकारकी भक्ति कहलाती है, दानी लोग पुरय संपादन करनेके लिये इनको
करते हैं ॥ ७८-७९ ॥ पुरयात्मा महाराज सुमित्रने सातों गुणोंसे सुशोभित हांकर वड़ी भक्तिसे उन भगवा-
नको प्राप्तक, मधुर, मनोहर, रसीला, तृप्ति करनेवाला सुख देनेवाला, चूषाको दूर करनेवाला और चारित्र्यको
पढ़ानेवाला आहार दिया ॥ ८०-८१ ॥ उस दानके आनन्दसे सतुष्ट हुए देवोंने महाराज सुमित्रके घर बहुत-
मुल्य मणियोंकी किरणोंसे व्याप्त ऐसे रत्नोंकी वर्षा की ॥८२॥ समस्त आश्चर्योंको करनेवाली वह आकाशसे
पड़ती हुई स्थूल रत्नोंकी धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो मनुष्योंको दानका अद्भुत फल ही वतला रही हो
॥ ८३ ॥ उस समय आकाशसे देवोंके हाथसे पड़ती हुई और अमरोंसे व्याप्त ऐसी पुष्पोंकी वर्षा हो रही
थी और ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो वह दाता और पात्र दोनोंकी पूजा करनेके लिये ही आ रही हो
॥ ८४ ॥ उस समय समस्त संसारको बहरे करनेवाले देवोंके गंभीर वाजे बज रहे थे और गंगा नदीकी
बूदोंकी बरसाता हुआ शीतल वायु वह रहा था ॥ ८५ ॥ देव उस दानसे संतुष्ट होकर “अहा यह कैसा
अच्छा दान है, ये कैसे उत्तम पात्र हैं और सब गुणोंका स्थान कैसा अच्छा दाता है” इसप्रकार आकाशमें
महाशब्द कर रहे थे ॥ ८६ ॥ उस दानसे महाराज सुमित्र अपनेको कृतार्थ मानते हुये घरको सफल मानने

लगे थे, गृहस्थाश्रमको सफल मानने लगे थे और अपने हाथोंको सार्थक मानने लगे थे ॥ ८७ ॥ आचार्य
 कहते है कि मैं तो घर उसीको मानता हूं जहां मुनिराज अपने शरीरको रक्षाके लिये आते है । जिस घरमें
 मुनिराज आहारके लिए नहीं आते वह मनुष्योंका घर व्यर्थ है ॥ ८८ ॥ इस संसारमें वे ही गृहस्थ धन्य हैं
 जो पात्रोंको सदा अनेक प्रकारका दान देते रहते हैं । जो गृहस्थ मुनियोंको कभी दान नहीं देते वे पापी ही
 हैं ॥ ८९ ॥ दानसे जिस प्रकार इस लोकमें लक्ष्मी बढ़ाएषन और कीर्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार परलोकमें
 भी स्वर्ग माक्षके महासुख प्राप्त होते हैं ॥ ९० ॥ अपने आरमत्त्वमें तल्लीन रहनेवाले जितेन्द्रिय और निरा-
 श्रय रहनेवाले वे मुनिराज आहार लेकर ध्यान करनेके लिये वनको चले गये ॥ ९१ ॥ वे भगवान् ब्रतोंको
 पालन करनेके लिये पृथ्वी अथ तेज वायु वनस्पति इन पांचों स्थावरोंको तथा शंस जीवांको मन वचन काय
 और कृत कारित अनुमोदनासे दया पालन करते थे ॥ ९२ ॥ मौन धारण किए हुए वे भगवान् संवर धारण
 करनेके लिये सदा सत्यव्रतमें अर्चोपव्रतमें और ब्रह्मचर्यव्रतमें मन वचन कायसे तल्लीन रहते थे ॥ ९३ ॥ वे
 स्वधर्मों भो कभी किसी परिग्रहमें इच्छा नहीं रखते थे, इसीप्रकार गुप्ति समिति आदि सब व्रतोंसे परिपूर्ण
 थे तथा और भी अनेकव्रतोंको पालन करते थे ॥ ९४ ॥ वे पंच महाव्रतोंको बड़े प्रयत्नसे पालन करते थे और
 उनको पूर्ण सिद्धिके लिये वे उनको पच्चीस भावनाओंको सदा चिंतवन करते रहते थे ॥ ९५ ॥ वे भगवान् अहिंसा
 महाव्रतकी विशुद्धताके लिए मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, ईर्ष्यासमिति, आदानतिक्षेपण समिति, और आलोकितपाप
 भोजन इन पांच भावनाओंका चिंतवन करते थे ॥ ९६-९७ ॥ वे भगवान् सत्यमहाव्रतके लिये क्रोधका त्याग,
 लोभका त्याग भयका त्याग, हास्यका त्याग और सूत्रोंके अनुसार वचन बोलना इन पांचों भावनाओंका
 चिंतवन करते थे ॥ ९८ ॥ नित्त उचित और आज्ञानुसार ग्रहण करना अन्यथा ग्रहण न करना तथा भोजन
 और पानमें संतोष धारण करना अर्चोपव्रतकी भावना है इनको भी वे चिंतवन करते थे ॥ ९९ ॥ स्त्रियोंकी
 शृंगाररूप कथाओंका त्याग, स्त्रियोंके रूप देखनेका त्याग, पहिले भोगे हुए भोगोंके स्मरण करनेका त्याग
 पौष्टिक रसीले भोजनका त्याग और शरीरके संस्कार करनेका त्याग इन ब्रह्मचर्यकी पांचों भावनाओंका भी

वं चिंतवन करते थे ॥ ३००-१ ॥ चेतन अचेतन रूपवाह्य अभ्यंतर परिग्रह रूप इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होना परिग्रह त्याग महाव्रतकी भावनाएँ हैं, इनको भी वे चिंतन करते थे ॥ २ ॥ महाव्रतोंको स्थिर रखनेके लिये ए महाव्रतोंकी पञ्चास भावनाएँ हैं । भगवान् श्रुतिनाथ इनका प्रतिदिन भावना करते थे ॥ ३ ॥ साधा करते हे ॥ ४ ॥ वे जितेन्द्रिय भगवान् समता धारणकर तथा प्रसाद रहित होकर एक सामायिक संयमको धारण करते हैं, उनके वलोंमें दोष न लगनेके कारण छेदोपरथापना आदिसे वे अलग ही रहते थे । वे भगवान् चौरासी लाख उत्तरगुणरूपी आभूषणोंसे विभूषित थे और अठारह हजार शीलरूपी वस्त्रोंसे अलंकृत थे ॥ ६ ॥ वे भगवान् पहिले कहे हुए अट्टईस मूलगुणोंसे सुशोभित थे और कर्मोंको भय उत्पन्न करनैवाले वारह तपरूपी श्राद्धोंसे विभूषित थे ॥ ७ ॥ वे भगवान् जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था वहींपर ध्यान अभ्ययनमें तल्लीन होकर मौन धारणकर और निर्भय होकर निवास करते थे ॥८॥ वे भगवान् ममत्व नष्ट करनेके लिए ईर्ष्यापथ शुद्धिपूर्वक गांव, खेड, नगर, द्रोणमुख, पुर, पत्तन, मटंघ, वन, कर्बट और अनेक देशोंमें वायुके समान विहार करते थे तथा वनोंमें भी सिंहके समान विहार करते थे ॥ ९-१० ॥ वे भगवान् प्रसादरहित हाकर नदोंके किनारे, गुफामें, भयानक वनमें, वृक्षोंके, कोटरोंमें, शिलापर, पर्वतपर और कंदराओंमें निवास करते थे ॥ ११ ॥ ध्यान धारण करने और कर्मोंको नाश करनेके लिए शरीरसे सत्त्व छोड़कर कहींपर कायोत्सर्ग धारण करते थे और कहींपर वजासन धारण करते थे ॥ १२ ॥ तथा नुधा तथा आदि समस्त परीषहोंको और आर्तध्यान रौद्रध्यानरूपी अशुभ शत्रुओंको शांतपरिणामरूपी वाणोंसे नष्ट कर देते थे ॥ १३ ॥ वे धीर वीर भगवान् जाड़के दिनोंमें मोच प्राप्त करनेके लिए चौराएँमें ध्यान धारण कर और काष्ठके समान निरिचल हांकर शीतकी वाशकों सहन करते थे ॥ १४ ॥ गर्मीके दिनोंमें पर्वतके ऊपर शिलापर सूर्यके सामने कायोत्सर्ग धारणकर गर्मीकी वाधाको सहन करते थे ॥ १५ ॥ वर्षाचतुर्में भंडा बाणु वहनके समय केवल पापोंको नाश करनेके लिए, वृक्षके नीचे ध्यान धारणकर वर्षाजन्य कष्टको सहन

प्रदक्षिणाएं दी और मस्तक भुक्काकर नमस्कार किया ॥ ४७ ॥ उस समय आकाशसे जलकणों के साथ पुष्पोंकी वर्षा हुई और सुगंधित केशरसे कुछ कुछ पीला हुआ वायु मंद मंद बहने लगा ॥ ४८ ॥ इसप्रकार इन्द्रने प्रसन्न होकर जिनका अद्भुत स्नानोत्सव किया ऐसे वे पवित्र भगवान तीनों लोकोंको शीघ्र ही पवित्र करें ॥ ४९ ॥ अथ र-अभिषेक समाप्त होनेपर इंद्रानीने कुतुहल चित्तसे तीनों जगतके गुरु भगवानका शृंगार करना प्रारंभ किया ॥ ५० ॥ जिनका अभिषेक हो चुका है और अपने तेजसे सूर्यको जीत रहे हैं ऐसे भगवानके शरीरपर लगे हुए जलकणोंको उसने स्वच्छ निर्मल वस्त्रसे पोछा ॥ ५१ ॥ भगवानका शरीर अत्यंत सुगंधित था तथापि भक्तिमें तरफ रहनेवाली इंद्रानीने सुगंधित गाढ़े चंदनसे उसपर अनुलेपन किया ॥ ५२ ॥ यदापि भगवान तीनों लोकोंके तिलक थे तथापि इंद्रानीने उनके ललाटपर तिलक किया और उनके मस्तकपर कल्पवृक्षोंके पुष्पोंकी मालासे सुशोभित रहनेवाला मुकुट धारण किया ॥ ५३ ॥ यदापि भगवान तीनों लोकोंके चूड़ामणि थे तथापि इंद्रानीने चूड़ामणि पहनाया और प्रसन्न होकर नेत्रोंमें काजल लगाया ॥ ५४ ॥ भगवानके कानोंमें स्वाभाविक खिद्र थे इसलिये इंद्रानीने उनमें भक्तिपूर्वक सूर्य चंद्रमाके समान कांतिवाले मनोहर कुंडल पहिनाये ॥ ५५ ॥ उनके हृदयमें मणियोंका हार पहिनाया कण्ठमें कंठी और माला पहनाई और इसप्रकार अत्यंत रूपवान भगवानकी शोभा सर्वोत्तम बनाई ॥ ५६ ॥ उनके दोनों हाथ कैचूर कटक अङ्गद और दिव्य अंगूठीसे सुशोभित थे और इसलिये वे कल्पवृक्षके समान जान पड़ते थे ॥ ५७ ॥ इंद्रानीने प्रसन्न होकर भगवानकी कमरमें किंकिणियोंके साथ २ बहुमूल्य और बहुत सुशोभित मणियोंकी करधनी पहिनाई ॥ ५८ ॥ पैरोंमें मणियोंके नूपुर शोभायमान थे जो बजनेवाले थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों सरस्वती ही उन अद्भुत पैरोंको सेना कर रही हो ॥ ५९ ॥ भगवान तीर्थंकर देवतीनों लोकोंके शृंगार भूत थे, अत्यंत रूपवान थे और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले थे यदापि उनके शरीरका शृंगार करनेसे कोई लाभ नहीं था तथापि इंद्रानीने अपना कस्तूर्य पालन करनेके लिये और पुण्य संपादन करनेके लिये उसी समय भगवानका शृंगार किया था ॥ ६०-६१ ॥ उस समय सिंहासनपर विराजमान हुए भगवान

ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों यशोरात्रि ही एक जगह इकट्ठी हुई हो अथवा लक्ष्मीका निर्मल पुंज ही अथवा शुभ परमाणुओंका समूह हो वा तेजका ही समूह हो अथवा संपूर्ण कलाओंसे सुशोभित चंद्रमा ही हो वा सौभाग्यका खजाना ही हो वा सुन्दरका समूह हो अथवा गुणोंका सागर हो अथवा भाग्यका समूह हो अथवा ऋद्धियोंसे सुशोभित मुनिराज ही हों ॥ ६२ ६४ ॥ सुवर्णोंका कांतिका धारण करनेवाला भगवानका शरीर स्वभावसे ही सुन्दरथा तथा अनेक प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित किया गया था और फिर इन्द्रानी ने तिलक आदि देकर उसका शृंगार किया था इसलिए उस उपमारहित शोभाका वर्णन भला कौन विद्वान कर सकता है ॥६५-६६॥ इसप्रकार परम आनन्द देनेवाले भगवानको शृंगारकर वह इन्द्रानी उनको रूपसंपत्ति को देखकर स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्य करने लगी ॥ ६७ ॥ इन्द्रने भी आश्चर्य और कौतुकके साथ अपने दोनों नेत्रोंसे भगवानके रूपकी उस समयकी अद्भुत शोभा देखी परन्तु फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए असंतुष्ट होकर अधिक देखनेकी इच्छासे उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सहस्र नेत्र बनाए ॥ ६८-६९ ॥ उस समय सब देव निमेष वा टिमिकार रहित लोचनोंसे पुण्यराशिके समूह के समान भगवानके निर्मल रूपको देखते थे ॥ ७० ॥ देवियां भी सब टिमिकाररहित नेत्रोंसे माणियोंकी खानिके समाप्त उनका रूप देख रही थी और बहुत देरतक देखते हुए भी तृप्त नहीं होती थीं ॥ ७१ ॥ तदन्तर इन्द्रादिक देवोंने भगवानका बड़ा भारी माहात्म्य प्रगटकर उनकी स्तुति करनी आरंभ की ॥७२ ॥ जिसप्रकार द्वीतीयाका चंद्रमा लोगों को आनन्द देता हुआ प्रगट होता है उसी प्रकार हे देव ! आप ही हम लोगोंको परम आनंद देनेके लिए प्रकट हुए हैं, हे देव ? आपका पुण्योदय सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप मिथ्यात्व और अज्ञानरूपी कृष्णमें पड़ते हुए प्राणियोंको स्वयं धर्मरूपी हाथका सहारा देकर कृपापूर्वक उनका उद्धार करेंगे ॥७४॥ हे प्रभो, जिसप्रकार आपके शरीर की किरणोंसे बाह्य अन्धकार नष्ट हो गया है उसी प्रकार मनुष्योंका अंतरंग अंधकार भी आपके वचनोंसे नष्ट हो जायगा ॥ ७५ ॥ हे देव ? आप सोलहवें तीर्थंकर हैं, आप ही पांचवें चक्रवर्ती हैं आप ही कामदेव हैं और आप ही मुक्तिके पति हैं ॥ ७६ ॥ हे नाथ ? आप जगतके स्वामी हैं गुरुओं के

महागुरु हैं, धर्मतीर्थ को उत्पन्न करनेवाले हैं और सद्धर्मके मुख्य नेता हैं ॥ ७७ ॥ जिसप्रकार चंद्रमा स्वयं स्वच्छ है इसलिये वह समस्त पृथ्वीको धवलित वा सफेद कर देता है उसीप्रकार आप भी पवित्र हैं इसलिये आप अपने परम गुणोंसे समस्त संसारको पवित्र करेंगे ॥ ७८ ॥ हे प्रभो ? आपके वचनामृतरूपी रोगसे घिरे हुए बहुतेसे जीव कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ७९ ॥ हे देव ? आप शिरसे पैरतक सम्यग्ज्ञानादि, समस्त गुणोंसे परिपूर्ण हैं इसीलिये जगह न पानिके कारण ही मार्तो दाष आपमें से भाग गये हैं ॥ ८० ॥ हे देव ? आप बिना ही स्नान किये पवित्र हैं तथापि आज इस मेरुपर्वातपर आपका स्नान किया गया है इसलिये हे प्रभो ? समस्त लोकोंको और पापसे मलिन होनेवाले हम लोगोंको आप पवित्र कीजिये ॥ ८१ ॥ हे देव आप तीनों ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं तथापि संसार में बुद्धिमान लोग आपको केवल ज्ञानरूपी सूर्य का उदयाचल मानते हैं ॥ ८२ ॥ जिसप्रकार शूद्र खानिसे निकली हुई मणि भी संस्कारके सम्बन्धसे और अधिक दैदीप्यमान होने लगती है उसी प्रकार अभिषेक और आभारणोंके संस्कारसे आप भी और अधिक दैदीप्यमान होने लगे हैं ॥ ८३ ॥ मुनि लोग आपको पुराणपुरुष कहते हैं, पुराण ऋषि वतलाते हैं विना कारण ही वन्द्यु कहते हैं तीनों लोकोंके पिता वतलाते हैं, सब जीवोंके हितकारक, पूज्य, समस्त विद्याओंमें निपुण, और धर्मारमा भव्योंको मोक्षतक पहुंचानेकेलिये सार्थी वतलाते हैं ॥ ८४-८५ ॥ आपकी आत्मा पवित्र है, आप गुण शाली हैं और संसारसे डरे हुए प्राणियोंको शरण हैं इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ८६ ॥ आप जगतके स्वामी हैं दश धर्मोंको उत्पन्न करनेकेलिये विशाल क्षेत्र हैं, सज्जनोंको प्रसन्न करनेवाले हैं और दिव्य मूर्ति को धारण करनेवाले हैं, इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८७ ॥ हे प्रभो ? आपकी प्रवृत्ति परिग्रह रहित है, आप सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं आप अत्यंत बलवान हैं और सज्जनोंके गुरु हैं इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८८ ॥ आपका निर्मल शरीर पसीना रहित है, मळ रहित है, शरीरका रुधिर दूधके समान सफेद है, आपका संहनन वज्रदृवभ नाराच है, संस्थान समचतुरस्र है, आपका शरीर अत्यंत रूपवान है, अत्यंत सुगंधित है, सब सुलक्षणांसे सुशोभित है, अनंत शक्तिको धारण करता है और

आपके वचन प्रिय और समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं ये सुन्दर दश अतिशय आपके शरीर के साथ प्राट हुए हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो ॥८६-९३ ॥ इनके सिवाय और भी आपमें अनेक गुण हैं आप शान्ति करनेवाले हैं शीमान् हैं और ज्ञानके समुद्र हैं इसलिए आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ९३ ॥ हे संसार के स्वामी ? आप उपमारहित हैं और अनेक महिमाओं से भरे हुए लक्षणों से शोभायमान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥ ९४ ॥ हे देव ! इस प्रकारकी स्तुति हमें उसका लोभ नहीं है ॥ ९५ ॥ हे स्वामिन् ! आप हमें निर्मल रत्नत्रय दीजिये, समाधि दीजिये, समधि मरण दीजिये हमारे अशुभ कर्मोंका नाश कीजिये और अपने शुभ गुण हमें दीजिये ॥ ९६ ॥ अथवा हे जिनराज ! बहुत बड़ी प्रार्थनासे क्या लाभ है, आप भव भवमें केवल आपमें होनेवाली गाढ भक्ति दीजिये ॥ ९७ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर इन्द्रादि देवोंने भगवानके गुण प्राप्त करनेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वस्तक नवाकर भगवानके चरण कमलोंको बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ९८ ॥ वे भगवान संसार-रमात्रको शान्ति देनेवाले थे, उनके पाप सब शान्त हो गए थे और वे स्वयं शान्ति थे यही समझकर इन्द्रोंने उनका 'शान्ति' यह सार्थक नाम रखया ॥ ९९ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानको ऐरावत हाथीपर विराजमान किया और फिर इन्द्रादिक सब देव पहिलेके समान दुंदुभी आदि बाजे, गीत, नृत्य, जय जय शब्द और बड़ी विभूतिके साथ आकाशको उलंघन कर बहुत शीघ्र हरिथनापुरी नगरीमें आ गए ॥ १००-१०१ ॥ वह नगरी भवनोंपर लगी हुई अनेक प्रकारकी मनोहर ध्वजाओंसे तथा गीत नृत्य आदि महोत्सवोंसे प्रसन्न भ्रमरपुरीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ २ ॥ देवोंकी सेना उस नगरीकी घेरकर चारों ओर ठहर गई थी उड़ से देवोंके साथ बहुत सी शोभासे सुशोभित महाराज विश्वसेनके आंगनमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ वहांपर देवोंके द्वारा की हुई अनेक शोभासे सुशोभित ऐसे महाराजके आंगनमें सौधर्म इन्द्रने सिंहासनपर भगवानको

विराजमान किया ॥ ५ ॥ उस समय महाराज विश्वसेनका शरीर रोमांचित हो गया था और वे बड़े आश्च-
 र्यके साथ आंखें फाड़ फाड़कर भगवानको देख रहे थे उस समय भगवान अपनी कांतिसे चन्द्रमाके समान
 सुन्दर जान पड़ते थे, देखनेमें बहुत ही प्रिय लगते थे, तेजमें सूर्यके समान थे और समस्त आभरणोंसे
 सुशोभित थे, ऐसे भगवानको महाराज देख रहे थे ॥ ६-७ ॥ इन्द्रानीने माताकी मायानिद्रा दूर की और उसे
 जगाया तब वह सती प्रसन्न होकर परिवारके साथ अपने पुत्रको देखने लगी ॥ ८ ॥ उस समय वे भगवान
 अपनी कांतिसे सूर्यको जीत रहे थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजका समूह ही एक जगह आकर
 प्रगट हो गया हो तथा आभूषणोंसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष ही हों ॥ ९ ॥
 उस समय भगवानके माता पिता इंद्रानीके साथ इन्द्रको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनके समस्त
 मनोरथ पूर्ण हो चुके थे ॥ १० ॥ तदनंतर श्रीशान्तिनाथका पुण्य प्रकट करनेके लिए इन्द्रने देवोंके साथ प्रसन्न
 होकर उत्तम गुणोंसे माता पिताकी प्रशंसा की ॥ ११ ॥ वह कहने लगा कि संसारमें आप धन्य हैं, आप
 जगतपूज्य हैं, तीनों लोक आपकी वंदना करता है, देव भी आपकी वंदना करते हैं, आप चतुर हैं, महाभाष्य
 शाली हैं और कल्याणभागी हैं ॥ १२ ॥ संसारमें आप ही दोनों सौभाग्यका भोग करनेवाले हैं आप ही श्रेष्ठ कुलमें
 उत्पन्न हुए हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही लोक मान्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ लक्ष्मीसे सुशोभित हैं
 आप समस्त राजाओंके मुख्य हैं ॥ १३ ॥ आपके अमृत पुण्यकर्मके उदयसे ही समस्त गुणोंकी खानि, गुरु-
 ओके गुरु तीनों लोकोंके चूड़ामणि और सर्वोत्तम भगवान तीर्थकरने आपके घर आवतार लिया है ॥ १४ ॥
 जीवोंको समस्त तत्व प्रकट करनेवाले वे महान तीर्थकररूपी सूर्य प्रेरारूपी पूर्व दिशामें विश्वसेनरूपी उदया-
 चल पर्वतसे प्रकट हुए हैं ॥ १५ ॥ ये भगवान अज्ञानरूपी अंधकारको नारा करनेवाले हैं भव्य जीवोंके
 हृदय कमलको प्रफुल्लित करनेवाले हैं और तीनों जगतके गुरु हैं आप उनके माता पिता हैं इसलिये आप
 तीनों जगतके गुरुके भी गुरु हैं ॥ १६ ॥ यह आपका राज भवन आज जिनालयके समान आराधना करने
 योग्य है आप आप हम लोगोंके द्वारा सदा पूज्य और मान्य है क्योंकि आप हमारे गुरुके भी गुरु हैं ॥ १७ ॥

इसप्रकार इन्द्रने माता पिताकी स्तुति की, दिव्य और उत्तम-वस्त्र माला और आभरणोंसे उनकी पूजा की और सब तरह उन्हें प्रसन्न किया ॥ १८ ॥ तदनंतर इंद्रने भगवानको मेरुपर्वतपर ले जानेकी वहांपर अभिषेक करनेकी और फिर आनेकी सब बात ज्योंकी त्यों कह सुनाई ॥ १९ ॥ पूत्रकी उस बातको सुनकर माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए उन्हें परम सीमातक पहुंचानेवाला सुख प्राप्त हुआ और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे ॥ २० ॥ तदनंतर माता पिताने इंद्रके उपदेशानुसार बड़ी विभूति और उत्सवके साथ फिर दुबारा भगवानका जन्मोत्सव मनाया ॥ २१ ॥ उस समय अनेकः वयोंकी महाव्रजा, माला, मोतियोंकी माला और मनोहर तोरणोंसे सजाई गई वह नगरी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ २२ ॥ उस समय रत्नोंके चूर्णसे पूरे हुए चौकोंसे नगरकी गलियां बहुत अच्छी जान पड़ती थीं और वह नगरो भी रत्न गीत बाजोंसे स्वर्गके स्थान जान पड़ती थी ॥ २३ ॥ जिसप्रकार राजा और सज्जन लोग अपनी २ स्त्रियोंके साथ समस्त विद्वोंको नाश करनेके लिये और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जिनालयोंमें बड़ी विभूतिके साथ समस्त कल्याणोंको सिद्ध करनेवाली भगवानकी अभिषेक पूर्वक पूजा कर रहे थे उसी प्रकार हृदयमें आनन्दित होकर सब नगरनिवासी भी भगवानको पूजा कर रहे थे ॥ २४-२५ ॥ जिसप्रकार महाराज विश्वसेनने दीन और अनाथ लोगोंको अनेक प्रकारका दान दिया उसी प्रकार नगर निवासियोंने भी बड़ी प्रसन्नतासे दान दिया ॥ २६ ॥ जिसप्रकार अन्तःपुरमें स्त्री-पुरुष सब नृत्य बाजे आदिसे महाउत्सव मना रहे थे उसी प्रकार नगर निवासी भी प्रकार वहां भी परम आनन्दमें डूबे हुए कुटुम्बी लोगोंके द्वारा परम उत्सव मनाया गया ॥ २८ ॥ उस समय अन्तःपुरमें और नगर निवासी लोगोंके साथ समस्त संसारको आनन्दित देखकर इन्द्र भी अपना अन्तःप्रकट करता चाहा और इसलिये उसने उन सबके सामने बड़ी विभूतिसे सब परिवारके साथ उसी समय मनको बहुत अच्छा लगानेवाला आनन्द नामका नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ २९-३० ॥ इंद्रका वह नाटक प्रारम्भ होते ही महाराज विश्वसेन आदि सब राजा अपनी स्त्री और पुत्रोंके साथ उसे देखनेके लिए बैठ गये ।

गाए ॥ ३६ ॥ तारा रागाय उस नाटककी विधिकी जाननेवाले गंधर्वपत्रोंके द्वारा श्रीजिनेन्द्रदेवके गुणोंको प्रगट करनेवाला रागांतर राजने लगा ॥ २२ ॥ वीणाके साथ स्वर मिलनेवाली किन्नरी देवियोंके द्वारा गंधीर स्वरसे तीर्थस्नानके यंत्रोंको प्रगट करनेवाला मनोहर संगीत गाया जा रहा था ॥ ३३ ॥ उस उत्सवमें देवोंके हाथोंसे नाचने हुए नृत्य नृत्य नृत्य शब्द कर रहे थे और देवोंके मुखसे बजनेवाली वंशियां भी उसी लयमें नाच रही थीं ॥ ३४ ॥ इंद्रने सबसे पहिले धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाला गर्भकल्याणक और जगत्कल्याणक संकल्पी नाटक दिखलाया ॥ ३५ ॥ फिर उन्होंने भगवानकी पिछली ग्यारह धर्यायोंको दिखलाकर तासांको अनेक प्रकारके रूप दिखलाये ॥ ३६ ॥ अथवा उसने सबसे पहिले शुद्ध पूर्व रंग दिखलाया और तब शरीरको अन्ते लगनेवाले साधनोंके द्वारा अनेक प्रकारका नाटक दिखलाया ॥ ३७ ॥ इंद्रने विन, रेषक, पादुका, और कंठाश्रित आदिके द्वारा अच्छा रस दिखलाते हुए तांडव नृत्य किया ॥ ३८ ॥ उस समय इंद्र हजार सुभाषणोंको बजाकर नृत्य कर रहा था उस समय ऐसा मालूम होता था मानों उसके पेर खनेसे पत्थरी हो फटकर चल रही हो ॥ ३९ ॥ बल और आभूषणोंसे देदीप्यमान होनेवाला और ऊंचे शरीरको धारण करने वाला यह इंद्र आभूषणोंसे सुशोभित अपनी बहुत सी भुजाओंको फेंकाकर नृत्य कर रहा था और ऐसा मालूम होता था मानों कश्यपुस ही नृत्य कर रहा हो ॥ ४० ॥ वह इंद्र क्षणभरमें एक दिखलाई देता था, क्षणभरमें अनेकरूप धारण करता था, क्षणभरमें स्थूल, क्षणभरमें लघु, क्षणभरमें नमोद, क्षणभरमें ई, क्षणभरमें आ हाशमें, क्षणभरमें पुं-पिर क्षणभरमें अनेक हाथोंवाला क्षणभरमें दो हाथोंका, क्षणभरमें दोहरे क्षणभरमें त्रोटक, क्षणभरमें बहुत, तन्मा चौड़ा और क्षणभरमें अरूप दिखलाई देता था । इत पक्षार इंद्रने अपनी विधियारा साहाय्य दिखला रहा था, और वह स्वयं इंद्रजालके समान प्रकृत होता था ॥ ४१-४२ ॥ इंद्रके नृत्यसे शयो पर भी बहुतली अप्सरायें उल्लासके अपता मनोहर रणते, चक्र, नर, गन्धा आदि दिखाने लगीं कर रही थीं ॥ ४३ ॥ कोई बहने हुए लकके साथ नृत्य कर रही थीं और कोई तांडव नृत्य कर रही थीं और कोई अस्तरल अनेक प्रकारके अभिनय दिखलाकर नृत्य कर रही थीं ॥ ४४ ॥ कोई इंद्रके हाथों

की उंगलियों पर फिरकी ले रहीं थीं, कोई उंगलियों के पर्वापर फिरकी ले रहीं थी, और कोई उसकी ओर
 नाभिकर बांसके समान खड़ी थी ॥ ४६ ॥ इन्द्रकी प्रत्येक भुजापर नृत्य करनी हुई और कड़े वेगसे फिरकी
 लेती हुई देवांगनाएं विजलीके समान जान पड़ती थी ॥ ४७ ॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक शरीरकी जो
 चेष्टा होती थी वह सब उन नृत्य करनेवाले पात्रों में बंट जाती हुईके समान सुन्दर जान पड़ती थी ॥ ४८ ॥
 उन देवियोंके साथ नृत्य करता हुआ सौधर्म इन्द्र अपनी विभूतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों
 कल्पलताओंके साथ नृत्य करता हुआ जंगम कल्पवृक्ष ही हो ॥ ४९ ॥ उस नाटकमें दर्शक तो विश्वसेन
 आदि महाराज तथा ऐरा आदि महादेवियां थीं, उससे तीनों जगतके गुरु भगवान शंतिनाथकी आरा-
 धनाकी जा रही थी, सौधर्म स्वर्गका इंद्र नट था, देवांगनाएं नृत्यकारिणीं थीं, देवोंके दुंदुभी बाजे थे, गंध-
 र्वादि क गानेवाले थे, वह रस, वह नृत्य, वह विज्ञान, वह विक्रिया, वह गीत, वह वाजा और वह देवोंके
 द्वारा किया हुआ अद्भुत महोत्सव यह सब महा मनोहर था और बड़ा ही विचित्र था । वह वचनोंके अंगो-
 चर था इसलिये कोई भी विद्वान उसका वर्णन नहीं कर सकता ॥ ५०-५३ ॥ महाराज विश्वसेन ऐरा देवी
 के साथ उसे अद्भुत नृत्यको देखकर बहुत ही आश्चर्य करने लगे । उस समय अनेक इन्द्रादिक देव उनकी
 उत्तम प्रशंसा कर रहे थे ॥ ५४ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकी सेवा करनेके लिए बहुत क्रीड़ा करनेवाले
 देव छोड़ दिए जो कि भगवानके समान ही आयु रूप भेष आदिको धारण किए हुए थे ॥ ५५ ॥ इसप्र-
 कार धर्म साधनकर प्रसन्न हुए चारों निक्कायोंके देव अपना २ नियोग पालनकर तथा अनेक प्रकारका
 पुण्योपार्जनकर अपने २ स्थानको चले गए ॥ ५६ ॥ दृढ़रथका जीव भी पुण्यकर्मके उदयसे बहुत दिनतक
 सुखोंका अनुभव कर सर्वार्थसिद्धिसे चयकर महाराज विश्वसेनकी वशस्वती रानीसे चक्रायुध नामका पुन
 हुआ वह चक्रायुध दिव्य लक्षणोंसे सुशोभित था, मोक्षगामी था, महा धीर वीर था, महापुरुष था और
 ज्ञान त्याग आदि गुणोंका स्थान था ॥ ५७-५८ ॥ भगवान शंतिनाथको स्नान कराने बलाभरण पहनाने,
 संस्कार करने और खिलानेके लिए इन्द्रने अनेक देवांगनाओंको धायरूपमें रख छोड़ा था ॥ ५९ ॥ वे सब

देवांगनायें भक्तिपूर्वक दिव्य द्रव्योंसे भगवानका स्नान मंडन क्रीडन और अद्भुत संस्कार आदि सब करती थी ॥ तदनन्तर भगवानके सुन्दर शरीरके अथवा द्वितीयाके चंद्रमाके समान धीरे २ अनुक्रमसे बढ़ने लगे ॥ ६१ ॥ वे भगवान शान्तिनाथ थोड़ासा हंसते थे और मणियोंके बने आंगनमें रिंगते थे, इसप्रकार वाल्य अथवाथामें अद्भुत चेष्रयें करते हुए वे माता पिताको आनन्दित करते थे ॥ ६२ ॥ भगवानके सुखरूपी चंद्रमा में उगका थोड़ासा हंसना निर्मल चांदनीके समान था उससे माता पिताके मनका संतोषरूपी समुद्र बहुत ही बढ जाता था ॥ ६३ ॥ तदनन्तर उनके मुखरूपी कमलमें सरस्वतीने (वाणीने) प्रवेश किया । वह वाणी बड़ी ही मधुर थी, बड़ी ही मनोहर थी और संसार भरको आनन्द देनेवाली थी ॥ ६४ ॥ वे भगवान मणियोंकी पृथ्वीपर डगमगते पैरोंसे चलते हुए पहने हुए आभूषणोंसे ऐसे अच्छे जान पड़ते थे सानों चलता हुआ कल्पवृक्ष ही हो ॥ ६५ ॥ वे कुमार कभी तो हाथी घोड़ा वन्दर आदिका सुन्दर रूप धारणकर बड़ी प्रसन्नतासे भगवानको क्रीडा कराते थे ॥ ६६ ॥ कभी भगवानकी आयुके समान ही बालकका मनोहर रूप बनाकर रत्नोंकी पूल्लिसे क्रीडा कराकर उनको प्रसन्न करते थे ॥ ६७ ॥ भगवानके शरीरके अवयव जैसे जैसे बढते जाते थे वैसे २ ही देव पहिले आभूषणोंको लेकर नए आभूषण पहना देते थे ॥ ६८ ॥ भगवान का वह बालकपन चंद्रमाके समान संसारमें वंदनीय था, लोगोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था और मनोहर तथा निर्मल था ॥ ६९ ॥ इसप्रकार वे भगवान अद्भुतसय अन्नपाकसि तथा अपनी आयुके योग्य आभूषणों से चंद्रमाकी मनोहरताके समान अनुक्रमसे कुमार अवस्थाको प्राप्त हो गए थे ॥ ७० ॥ शरीरके साथ २ ही उग्रकी कांति, दीप्ति ढला विद्या और तीनों ज्ञानोंसे उत्पन्न होनेवाले गुण सब अपने आप बढते चले गए थे ॥ ७१ ॥ उनका शरीर मनोहर था, वाणी प्रिय, सज्जनोंको मान्य और प्रेम उत्पन्न करनेवाली थी, नेत्र साध्य अवस्थाका धारण करते थे और उनका अंग उपंग सब शुभ था ॥ ७२ ॥ मतिज्ञान श्रुतिज्ञान अविज्ञान ये तीनों ज्ञान तो साथ ही प्रगट हुए थे तथा और भी सब महाविद्याएं अपने आप आगई थीं ॥ ७३ ॥ वे तीर्थकर भगवान हित, अहितको, तीनोंको और मुनि गृहस्थके धर्मको अपने ज्ञानसे अपने अपने

ही जानते थे ॥ ७४ ॥ इसलिये वे भगवान समस्त विद्वानोंके गुरु थे और महा समस्त विद्याओंको प्रकट करनेवाले थे संसारमें उनका अन्य गुरु कोई नहीं था ॥ ७५ ॥ तदनन्तर ज्ञायिक सम्यग्दर्शनसे सुशोभित होनेवाले बुद्धिमान भगवानने आठवें वर्षमें यहस्य धर्मकी इच्छासे परम शुद्धतापूर्वक अपने योग्य पांच अणु-व्रत तीन गूणव्रत चार शिक्षाव्रत ये सब स्वयं धारण किए ॥ ७६-७७ ॥ वे भगवान माता पिताका आनन्द बढ़ाते हुए, भाइयोंका सुख बढ़ाते हुए और संसारके लोगोंमें प्रेम बढ़ाते हुए अनुक्रमसे बहने लगे ॥ ७८ ॥ तदनन्तर वे भगवान अपनी कांतिसे कामदेवको तथा चन्द्रमाको और दीप्तिसे सूर्यादिकको जीतते हुए उपमा रहित यौवन अवस्थाको पाकर बहुत सुशोभित होने लगे ॥ ७९ ॥ वे भगवान शान्तिनाथ दिव्य रूप-वान थे, तपाए हुये सोनेके समान उनको कांति थी. एक लाख वर्षकी आयु थी और चालीस धनुष ऊंचा उनका शरीर था ॥ ८० ॥ वे भगवान निःस्वेद (पसीना न आना आदि) आदि गुणोंसे, यौवनकी शोभासे और देवोंके द्वारा लाए हुए उत्तम वस्त्राभूषणोंसे समस्त उपमाओंको जीतते हुए बहुत ही सुशोभित होते थे ॥ ८१ ॥ अमररूपी बालोंसे सुशोभित उनका मस्तक माला और मुकुटसे ऐसी अच्छी शोभा देता था मानों अद्भुत शोभाको धारण करनेवाली चूलिकासे मेरुप-तका शिखर ही शोभायमान हो रहा हो ॥ ८२ ॥ चन्द्रमाको जीतनेवाले विस्तीर्ण ललाट पर ऐसी अच्छी २ शोभा थी, मानो वह सरस्वती देवीकी महाक्रीड़ा करनेके स्थानकी लीलाको ही धारण करता हो ॥ ८३ ॥ काली पुतलीयोंसे शोभायमान ऐसे भग-वानके सुन्दर भौंहवाले दोनों नेत्रोंकी शोभा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों समस्त शत्रुओंको जीतकर वे नेत्र शांत हो गये हों ॥ ८४ ॥ सूर्य चन्द्रमाके समान दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान और श्रुतज्ञानसे परिपूर्ण ऐसे भगवानके दोनों कर्ण ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों वे गीत आदिके सुननेकी चरम सीमा-को पहुँच गये हों ॥ ८५ ॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमाकी शोभाका तो भला कौन वर्णन कर सकता है क्यों कि उससे तो जगतका हित करनेवाला और स्वर्ग मोक्षके मार्गका उपदेश देनेवाली मनोहर दिव्यध-नि निकली है ॥ ८६ ॥ भगवानकी नासिका भी ऊंची थी बड़ी अच्छी शोभाको धारण करता थी और

ऐसी जान पड़ती थी मानो सरस्वतीके अवतारके लिये एक प्रणालिका ही बनाई गई हो ॥ ८७ ॥ भगवानका वक्षःस्थल भी बहुत बड़ा था, लक्ष्मी और कांतिसे सुशोभित था उसपर दिव्य हार पड़ा हुआ था जिससे उसकी शोभा और भी बहुत बढ़ गई थी ॥ ८८ ॥ भगवानकी दोनों 'भुजाएं' केयूर आदिसे सुशोभित थीं लक्ष्मीरूपी लतासे विभूषित थीं और ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो 'इच्छानुसार फल देनेवाले दो कल्पवृक्ष ही हों' ॥ ८९ ॥ भगवानके हाथकी उंगलियोंमें लगे हुये मनोहर नख ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो दश लाक्षणिक धर्मको प्रकट करनेके लिये ही तत्पर हुये हैं ॥ ९० ॥ भगवानके शरीरके मध्यभागमें नाभि ऐसी अच्छी शोभा देती थी मानों जिसमें भ्रमर पड़ रहे हैं और लक्ष्मी तथा हंसनी जिसकी सेवा कर रही हैं ऐसी छोटी सरोवरी (तलेया) ही हो ॥ ९१ ॥ करधनी और वल्लोसे ढका हुआ उनका कटि-भाग (कमर) ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों वेदिकासे घिरा हुआ सुन्दर जम्बूद्वीप ही हो ॥ ९२ ॥ केलेके खम्भेके समान कोसल परन्तु कायोत्सर्ग करनेमें समर्थ ऐसे भगवानके दोनों मजबूत जंघ ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों जगतरूपी घरके ही खंभे हों ॥ ९३ ॥ नखरूपी चन्द्रमाओंकी किरणोंसे व्याप्त और मनुष्य देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवानके दोनों चरण, कमल और अशोककी शोभाको जीतते हुए सदा सुशोभित रहते थे ॥ ९४ ॥ नखसे लेकर चोटीतक भगवानकी जो महाकांति शोभायमान थी उस सब कांति वा शोभाको संसार भरमें कोई भी चतुर पुरुष वर्णन नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥ भगवानका शरीर वज्र-मय हड्डियोंसे घना हुआ था और अन्तही चमड़ा आदि सब वज्रमय था फिर भला उनके बलका प्रमाण इस संसारमें कौन जान सकता है ॥ ९६ ॥ उनके शरीरका संस्थान पहिला समचतुरस्र संस्थान था और वह शरीर दूसरे धर्मस्थानके समान दिव्यपरमाणुओंसे बना हुआ था ॥ ९७ ॥ भगवानका शरीर वात पित्त कफ आदि दोषोंसे सब रोगोंसे मल मूत्रसे रहित वह शरीर लोकोत्तर था ॥ ९८ ॥ श्रीवृक्ष, शंख, कमल, स्वतिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद, छत्र, सिंहासन, ध्वजा, मछली, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, नाग, मनुष्य, स्त्री, सिंह, बाण, तूणीर, [तरकस] मेरु, इन्द्र, गंगानदी, पुर, गोपुर, देवी-

प्यमान दो सूर्य, घोड़ा, पंखा, वेणु, वीणा, मृदङ्ग, दो मालाएं, रेशमी वस्त्र, बाजार, दैदीप्यमान कुण्डल
 आदि अनेक प्रकारके आभरण. उद्यान, कलमी चावलोंका पका और फला हुआ खेत, रत्नोंका द्वीप, वज्र,
 पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, गाय, बैला, चूडारत्न, महानिधि, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड, नक्षत्र, तारे,
 चन्द्रमा, ग्रह, सिद्धार्थद्वीप, मनोग्य प्रातिहार्य तथा और भी मंगल द्रव्योंको आदि लेकर भगवानके शरीरपर
 एकसौ आठ लक्षण थे और नौसौ दूसरे व्यंजन थे ॥ ६६-२०६ ॥ इसप्रकार गुणोंके सागर भगवान् शान्ति-
 नाथ जन्म कुमार अवस्थाको अथवा यौवन अवस्थाको प्राप्त हुए थे उस समयके उनके गुणोंकी संख्या कौन
 जान सकता था ॥ ७ ॥ यौवन अवस्था प्राप्त हो जानेपर पिताने संद रागको धारण करनेवाले तोर्थकर पुत्रके
 लिये बड़े उत्सवके साथ कुल, रूप, आयु, शील, कला, कांति, आदिसे सुशोभित लावण्यरूपी समुद्रकी वेलाके
 समान पुरयवतो दिव्य कन्याएं विधिपूर्वक विवाह दी थीं ॥ ८-६ ॥ तदनंतर वे भगवान् पुरयकर्मके उदयसे
 उन स्त्रियोंके साथ नवीन स्नेहसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके दिव्य महा सुख भोगते थे ॥ १० ॥ सौधर्म
 स्वर्गका इन्द्र अपना कल्याण करनेके लिए कभी गंधर्वोंके द्वारा गाये हुए गीतोंसे, कभी देवियोंके नृत्योंसे,
 कभी अगल बगलमें रहनेवालीं किन्नरी देवियोंके द्वारा वजनेवाले वीणा आदि मनोहर बाजोंसे, कभी धर्म-
 कथासे और कभी गोष्ठियोंसे भगवानको सदा सुख पहुंचाता रहता था ॥ ११-१२ ॥ इस प्रकार भगवान्
 शान्तिनाथने पच्चीस हजार वर्षतक मनुष्यों और देवोंके द्वारा प्राप्त हुए तथा कुमार अवस्थासे प्रकट हुए बहु-
 तसे उत्तम सुख भोगे थे ॥ १३ ॥ तदनंतर इंद्रादिक देवोंने पिताकी सलाहसे भगवानको सिंहासनपर विरा-
 जमानकर वड़े आनंद और विभूतिके साथ गीत नृत्य तुरही आदिके शब्दोंके साथ मोतियोंकी माला,
 चंदन आदिसे सुशोभित गंगा आदि तीर्थ जलसे भरे हुए सुवर्णमय उत्तम कलसोंसे भगवानका राज्यभि-
 षेक किया और फिर स्वर्गसे आये हुए वस्त्राभूषणोंसे उनका उत्तम शृंगार किया ॥ १४-१६ ॥ उस समय
 मनुष्य देवोंके द्वारा ध्वजा तोरण माला आदिसे सजाई हुई वह मनोहर नगरी साक्षात् इन्द्रपुरीके समान
 सुशोभित होती थी ॥ १७ ॥ राज्याभिषेकके बाद महाराज विश्वसेनने सब राजाओंके सम्मुख बड़ी विभूतिके

साथ भगवानके मस्तक पर राज्यपट्ट बांधा ॥ १८ ॥ उस राज्योत्सवमें महाराज विश्वसेनने सब भाइयोंको प्रसन्न किया था और इच्छानुसार धन देकर सब बंटीजन, दीन, और अनाथ लोगोंको प्रसन्न किया था सब लोगोंको आनन्द देनेवाले उस उत्सवमें ग तो कोई दीन दिखाई देता था, न अनाथ दिखाई देता था, न दुखी वा शोक करनेवाला दिखाई देता था और न कोई निर्धन ही दिखाई देता था ॥ २० ॥ इस प्रकार इन्द्रादि देव पुराय उपार्जन करनेके लिये बड़ी विभूतिके साथ भगवानशान्तिनाथका राज्य कल्याण कर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ २१ ॥ अथानन्तर-राज्य नीतिमें चतुर वे भगवान न्यायसांगसे योग और जेमका स्थापन कर प्रजाका पालन करने लगे ॥ २२ ॥ समस्त देशके राजा सामंत विधाधर और देव भगवानकी आज्ञा मानते थे और मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलोंको नमस्कार करते थे ॥ २३ ॥ भगवान शान्तिनाथके राज्यमें सौधर्म स्वर्गका इंद्र काम करता था (उस राज्यको चलाता था) फिर भला ऐसा कौन था जो भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन करे ॥ २४ ॥ उस समय घनीभूत मनोहर पृथ्वी सुन्दर स्त्रीके समान प्राप्त हुए नये स्वामिके लिए धन धान्य आदि कोशमें आनेवाली अनेक संपदाओंको उत्पन्न करती थी ॥ २५ ॥ मंदरागको धारण करनेवाले वे भगवान अपने पुण्यकर्मके उदयसे अपनी रानियोंके साथ मध्य लोक और स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुए और जो वाणीसे भी कहे नहीं जा सकें ऐसे भोगोंका अनुभव करते थे ॥ २६ ॥ देव विधाधर और भूमिगोचरी सब जिनकी सेवा करते हैं ऐसे उन शान्तिनाथ भगवानने पच्चीस हजार वर्ष तक महा मंडलेखर राज्यकी बद्धमीका अनुभव किया था ॥ २७ ॥ तदनंतर पुण्यकर्मके उदयसे उनके छहो खंडोंको वश करनेवाले चक्र आदि चौदह रत्न अपने आप उत्पन्न हो गए थे ॥ २८ ॥ इसीप्रकार महाप्रतापी उन भगवानके नौ निधियां प्रगट हुई थी । उन रत्नोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दंड ए चार रत्न आयुधशालामें प्रगट हुए थे, काकिणी, चम, और बूळामणि ए तीन रत्न श्रीशुभमें उत्पन्न हुए थे । पुरोहित, शिवावट सेनापति और शहपति ए चार रत्न हस्तिनापुरी नगरीमें ही उत्पन्न हुए थे और उनके पुण्यकर्मके उदयसे कन्या, हाथी घोड़ा ए तीन रत्न विजयाई पर्वतपर उत्पन्न हुए थे जो किं विधाधरोंने लाकर भगवानको समर्पण कर

दिए थे । इसी प्रकार नौ निधियां नदी और समुद्रके संगमपर पूगट हुई थीं जो कि भगवानके पुण्यकर्मके वशीभूत हुए गणवद्ध जातिके व्यंतर देवोंने भक्तिपूर्वक भगवानको लाकर अर्पण करदीं थीं ॥ २६-३३ ॥ यद्यपि भगवान मंद लोभी थे तथापि पुण्यकर्मकी प्रेरणासे वे देव, विद्याधर और राजाओंके साथ द्विजविजय करनेके लिए निकले ॥ ३४ ॥ भगवानने छहो खंड पृथ्वीका उपभोग करनेवाले राजा, सब विद्याधरोंके स्वामी और समुद्रमें निवास करनेवाले मगध आदि व्यंतर देव विना किसी परिश्रमके लोला पूर्वक ही वश कर लिए और कन्यारत्न आदि उत्तम पदार्थ उनके दिये हुए सब स्वीकार किए ॥ ३५-३६ ॥ भगवानने आठ सौ वर्षमें ही सब पृथ्वी पर परिभ्रमणकर छहों खंडमें रहनेवाले सब राजा देव और विद्याधर वश कर लिए ॥ ३७ ॥ तदनंतर छहों प्रकारकी सेनाके साथ वे चक्रवर्ती लौटे और बड़ी विभूतिके साथ तथा देवादिकोंके साथ उन्होंने अपना नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ तदनंतर विद्याधर और भूमिगोचरो राजाओंने तथा देवोंने बड़ी विभूतिके साथ सुवर्णके कलशोंसे भगवानका अभिषेक किया ॥ ३९ ॥ जब भगवानका अभिषेक हो चुका और वे सिंहासनपर आ विराजमान हुए तब गणवद्ध देव मागध आदि व्यंतर देवोंके इन्द्र, हिमवान पर्वतके स्वामी विजयाह्व पर्वतके स्वामी, विजयाह्व पर्वतकी श्रेणियोंके स्वामी सुकृत वद्ध राजा और कल्पवासी देवोंने आकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४०-४१ ॥ उससमय उनपर चमर डुलाई जा रहे थे और भाई बन्धु, रानियां और छहों खंडोंके राजाओंके साथ विराजमान हुए वे भगवान बहुत ही सुखी हो रहे थें ॥ ४२ ॥ वे भगवान अपने पुण्यकर्मके उदयसे अपने भाई बन्धुओंके साथ, सब तरहकी वाधासे रहित उपमारहित, तृप्त करनेवाले मनोहर मध्यलोक तथा स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुए दश प्रकारके चक्रवर्तियोंके दिव्य भोग सदा भोगते रहते थे उनका प्रमाण भला कौन बुद्धिमान जान सकता है ॥ ४३-४४ ॥ भगवान शान्तिनाथके राज्यमें न कोई कंटक (उपद्रवी) था, न आज्ञाका उल्लंघन जाननेवाला था न कोई दीन था और न कोई अभागा था । संसारके सब राजा प्रजा आनन्दसे रहते थे ॥ ४५ ॥

॥ ८४ ॥ खलाला नामकी चमकती हुई माला और देवरम्या नामका मनोहर कपड़ेका तंबू था ॥ ८५ ॥
 अयानक सिंहोंके द्वारा धारणकी हुई सिंहवाहिनी नामकी शय्या और अतुत्तर नामका ऊंचा सिंहासन था
 ॥ ८६ ॥ इसी तरह उपमा नामके शुभ चमर और देदीप्यमान रत्नोसे बना हुआ सूर्य प्रेम नामका छत्र था
 ॥ ८७ ॥ जो युद्धमें शत्रुओंके वाणोंसे कभी न भिद सके और जिसकी कांति देदीप्यमान है ऐसा अभेद
 नामका सुन्दर कवच था ॥ ८८ ॥ उनके अत्यन्त सुन्दरताको धारण करनेवाला अजितंजय नामका मनोहर
 रथ और सुर असुर सबको जीतनेवाला वज्रकांड नामका धनुष था ॥ ८९ ॥ कभी व्यर्थ न जानेवाले असौघ
 नामके वाण और शत्रुओंको नाश करनेवाली वज्रगुण्डा नामकी प्रचंड शक्ति थी ॥ ९० ॥ सिंहारक नामका
 भाला सिंहांनख रत्नदंड और मणियोंकी मूठ लगी हुई लोहवाहिनी छुरी थी ॥ ९१ ॥ जयश्रीके साथ प्रेम
 रखनेवाला और मनके समान शीघ्र चलनेवाला कण्ठ और भूतमुखके चिन्हवाला भूतमुख नामका खेट था
 ॥ ९२ ॥ देदीप्यमान कांतिवाली सौनंद नामकी तलवार थी और सब दिशाओंको सिद्ध करनेवाला सुदर्शन
 नामका चक्र था ॥ ९३ ॥ उन महाराजके चंडवेग नामका प्रचंड दंड और जिसमें जल कभी न आ सके ऐसा
 वज्रमय नामका दिव्य चर्मरत्न था ॥ ९४ ॥ सबसे उत्तम चूड़ामणि नामका मणिरत्न और अन्धकारको नाश
 करनेवाली चिताजननी नामकी कांकिली थी ॥ ९५ ॥ उन शान्तिनाथ भगवानके अयोध्य नामका सेनापति
 था और अत्यन्त बुद्धिमान बुद्धिसागर नामका पुरोहित था ॥ ९६ ॥ कापटुद्धि नामका बुद्धिमान यहपति
 था जोकि इच्छानुसार लामान देनेवाला था और जिसे महाराजने लेने देनेके काममें नियुक्त किया था
 ॥ ९७ ॥ भद्रमुख नामका स्थपति रत्न था जो वास्तुविद्यामें अत्यंत चतुर था और अनेक भवन बलानेमें
 निपुण था ॥ ९८ ॥ विजय पर्वत नामका बहुत बड़ा और सफेद पट्टहाथी था और पवनंजय नामका ऊंचा
 और शीघ्र चलनेवाला घोड़ा था ॥ ९९ ॥ उन महाराजके सुभद्रा नामका खीरल था जिसकी उपमा संसार
 में कोई नहीं थी, जो अत्यन्त रसीला था, स्वभावसे मधुर था, मनोहर था और दिव्य रूपवान था ॥ १०० ॥
 उन भगवानके आनंदिनी नामकी वारह भेरी थीं जिनकी मीठी आवाज वारह योजनतक जाती

थी और समुद्रकी गजनाके समान जिनकी आवाज थी ॥ ३०१ ॥ विजयघोष नामके बारह पटहा थे
 और गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख थे ॥ २ ॥ इसीतरह अड़तालीस करोड़ पताकाएं थी औरसहस्रा-
 कल्याणक नामका ऊंचा शुभ दिव्यासन था ॥ ३ ॥ विद्युत्प्रभ नामके सुन्दर मणिकुण्डल थे, जो कि
 सूर्य चन्द्रमाके समान थे और पुण्य कर्मके उदयसे भगवानको ज्ञात हुए थे ॥ ४ ॥ रत्नोंको किरणोंसे
 व्याप्त ऐसी विष्वोचिका नामकी पादुकायें थीं जो दूसरेके पैरका स्पर्श होते ही मिथ उगलती
 थीं ॥ ५ ॥ उन अगयानके वीरांगद नामके रत्नोंके बने हुए कड़े थे जो विजलीके बलयके समान हाथोंमें
 शोभायमान थे ॥ ६ ॥ अमृतगर्भ नामका उनका भोजन था जो स्वादिष्ट सुगंधित और अत्यन्त रसीला
 था और जिसे चक्रवर्तीके सिवाय अन्य कोई नहीं पचा सकता था ॥ ७ ॥ अमृतकल्प नामका हृदयको
 प्रसन्न करनेवाला संस्कृत स्वाद्य था और अमृत नामका रसायनके समान रसीला दिव्य पानक था ॥ ८ ॥
 रत्न, निधि, रानियां, पुर, शय्या आसन, सेना, नाव्य, भाजन भोज्य और वाहन ये दश प्रकारके भोगोप-
 भोग कहलाते हैं इनको भोगते हुए और सुखसागरमें मग्न रहते हुए भगवानको व्यतीत होगेवाला समय
 मालूम भी नहीं हुआ था ॥ ९-१० ॥ वे भगवान शंतिनाथ कभी तो तीर्थकर नामकर्मके शुभ उदयसे
 इन्द्रादिके द्वारा संपादन किए हुये सुखरूपी अमृतको भोगते थे और कभी चारित्रि पालन कर सुखी होते
 थे ॥ ११ ॥ कभी अपने पुण्यकर्मके उदयसे खीरत्न, निधि आदि वस्तुओंके साथ अनेक प्रकारका सुख
 भोगते थे ॥ १२ ॥ तथा कभी कामदेव पदसे उत्पन्न हुये अपने दिव्य निरासय (रोगरहित) रूपको देख-
 कर मनमें संतुष्ट होते थे ॥ १३ ॥ इसप्रकार सुखरूपी समुद्रमें डूबे हुये वे भगवान पुण्यरूपी कल्पवृक्षसे
 उपपन्न हुये सुखका अनुभव करते थे और इस तरह व्यतीत हुआ समय भी उन्हें मालूम नहीं होता था
 ॥ १४ तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेव इन तीनों पदोंसे सुशोभित उन भगवानको जो सुख था उसका
 प्रमाण केवल ज्ञानीके बिना और कोई क्षी चतुर नहीं जान सकता ॥ १५ ॥ इसप्रकार देवोंके द्वारा पूज्य वे
 भगवान शंतिनाथ अपने पुण्यकर्मके उदयसे रत्न निधि आदिसे प्रकट हुए, तीर्थकर, चक्रवर्ती, कामदेव-

मुनि, लोकपाल और इन्द्रोंके गुण और उन गुणोंसे प्रगट हुए चरित्र दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १०० ॥ छठी रेखामें वे देव अत्यन्त निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले, महर्षि गणधर देवोंके गुणोंसे गुथे हुए चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ १ ॥ और सातवीं अन्तिम कक्षामें महा नृत्य करनेमें तत्पर मनोहर देव अपनी देवियोंके साथ भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें प्रातिहार्यसहित अनंतवीर्यके स्वामी, चौतीस अतिशयोक्तिसे सुशोभित और पंच कल्याणकोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्रदेवके गुण और महाचरित्र वर्णन करते हुए अत्यन्त रसीला नृत्य करते हुए जा रहे थे ॥ २-४ ॥ नृत्य करनेवालोंके पीछे गन्धर्वोंकी सेना थी । वे देव दिव्य शरीरको धारण किए हुए महारूपवान, वज्र आभूषणोंसे विभूषित, कलावान, उनको ध्वनि मधुर, उत्सव मना रहे थे और मालाएं पहिने थे ॥ ५ ॥ भगवानके जन्म कल्याणमें महासप्त स्वरसे शोभायमान गंधर्व जातिकी सेनाके देव मनोहर गान गाते हुए जा रहे थे ॥ ६ ॥ पहिली रेखामें षड्ज नामके मनोहर स्वरसे भगवानके गुणोंको गाते हुए सुन्दर कंठवाले देव चले जा रहे थे ॥ ७ ॥ उनके पीछे षष्ठम स्वर गाते हुए उनके बाद गांधार स्वर गाते हुए, उनके बाद मध्यम स्वरसे भगवानके गुण गाते हुए देव थे ॥ ८ ॥ पांचवीं रेखामें पंचम स्वरसे, छठी रेखामें धैवत स्वरसे और सातवीं रेखामें निषाद स्वरसे गाते हुए देव अपनी देवियोंके साथ चले जा रहे थे ॥ ९ ॥ वे देव वीणा, मृदंग, तुरहा, झल्लरी आदि वाजे बजाते थे, उनके स्वर मनोहर, दिव्य वज्र, माला, भूषण आदि सुशोभित न क आकार अत्यन्त सुन्दर अनेक प्रकारके गानके रसमें लीन, गीत नृत्य कलाओंमें चतुर, उनका मुख मनोहर, मूर्ति दिव्य, ज्ञानी, धीरवीर, तीर्थंकरोंके गुण वर्णन करनेमें लगे हुए थे और उनका स्वर गन्भीर था । वे देव भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें पुण्य संपादन करनेके लिए अपनी २ देवियोंके साथ भगवान जिनेन्द्रदेवके अनंत गुणोंको प्रगट करनेवाले तथा पुण्य संपादन करनेवाले अनेक प्रकारके मनोहर गीत गाते हुए चले जा रहे थे ॥ १०-१३ ॥ उनके बाद नृत्योंकी सेना, पहिली रेखामें वज्राभरणोंसे सुशोभित काली ध्वजाएं लिए हुये भौरके समान काले रंगके देव जा रहे थे ॥ १४ ॥ उनके पीछे सुवर्णके दंडपर नीली ध्वजा

फहरते हुए हाथों चमर लिए हुये देव, तीसरी रेखा में वैदूर्यमणियों के दराडों पर सफेद ध्वजाएं लिये हुए देव चौथा रेखा में हाथी, सिंह, बैल, दण्ड, मार, चक्रवा, गरुड़, चक्र, सूर्य आदिकी अलग २ चिन्होंवाली मरकत मणियोंके दंडोंमें सोनेकी सुन्दर ध्वजाएं हाथों लिये हुए देव, पांचवीं रेखा में विद्रुमके दराडमें कमलके समान कमलके चिन्हवाली ध्वजाये लिये हुये देव । छठी रेखा में सुवर्णके दराड लगी हुई कुंद पुष्प के समान सफेद ध्वजाएं लिये हुये देव ॥ १८ ॥ सातवीं कक्षामें मणियोंके दराडोंमें लगे हुये और मोतियों की मालाओंसे सुशोभित ऐसे सफेद छत्रोंको हाथोंमें लिये हुये देव ॥ १९ ॥ भगवानके जन्म कल्याणोत्सव में दिव्य वस्त्र और मालाओंसे मनोहर, आभूषणोंसे सुशोभित आकाशको प्रकाशित करते हुये और हाथों में ध्वजाएं लिए भृत्य जातिकी सेना जा रही थी ॥ २० ॥ इसप्रकार अद्भुत विभूतिसे सुशोभित और धर्म के रसमें लीन हुई सौधर्मा इन्द्रकी सातों प्रकारकी सेना स्वर्णसे निकली ॥ २१ ॥ उसीसमय नागदत्त नामके अभियोग्य जातिके स्वामीने ऐरावत हाथीको बनाया । उस हाथीका वंश (पीठकी हड्डी) बहूत ऊंचा, जंबूद्वीपके समान उसका बहुत बड़ा शरीर, गोल शरीर, अनेक प्रकारकी लीला करता हुआ उसका मरतक गाल और ऊंचा, संगठन एकसा, वह हाथियोंमें मुख्य, इच्छानुसार चलनेवाला, बहुत रूपवान, उसका तालु चिकना और लाल, सूद बहुत लम्बी, उसका चलना सात्विक, वह बलवान सुन्दर और मनोहर, उसकी सांससे सुगंध निकलती, ओठ उसके लम्बे, शब्द गंभीर, मदके झरनेसे उसका शरीर व्याप्त हो रहा था, अनेक लक्ष्णोंसे वह सुशोभित, चलते हुये पर्वतके समान, उसका कंठ हार मालासे सुशोभित होनेसे उसपर स्वर्णकी भूल पड़ी हुई थी, दो बटे उसपर लटक रहे थे उससे मदका निर्झरना भर रहा था, वह कैलाश पर्वतके समान, अथवा शरद ऋतुके बादलके समान सुन्दर और अपनी सफ़ेदीसे उसने सब दिशाओं सफ़ेद कर दी थीं ॥ २२-२७ ॥ इसप्रकार विक्रियासे बनाये हुए उस दिव्य हाथीपर चढ़ा हुआ तथा नम्री-भूत हुआ तेजकी मूर्ति और महा उन्नत वह इन्द्र स्वर्णसे निकला ॥ २८ ॥ उस ऐरावत हाथीपर चढ़ा हुआ वह सौधर्माइन्द्र अपनी कांतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो उदयाचल पर्वतपर तेजका पुंज सूर्य

ही हो ॥ २६ ॥ उस घेरावत हाथीके बत्तीस मुंह थे, वे सब मुंह समान थे, और सबकी कांति समान थी ।
 प्रत्येक मुखमें मूसलके समान मनोहर आठ २ दांत थे ॥३०॥ प्रत्येक दांतपर निर्मल जलसे भराहुआ एक एक
 मनोहर सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें एक २ मनोहर कमलिनी थी, और एक २ कमलिनीपर फूलेहुये बत्तीस
 २ कमल थे । एक २ कमलपर कमलके दलोंके समान बत्तीस २ दल थे और प्रत्येक दलपर जिनके मुख
 कमल कुछ हंस रहे हैं और जिनकी भोंहे सुन्दर है ऐसी बत्तीस २ देवोंकी अप्सराएं लयके साथ नृत्य कर
 रही थीं ॥ ३०-३३ ॥ उनके हास्य श्रंगार हाव भाव लय आदिसे भरे हुए अत्यंत रसीले नृत्यको देखते हुये
 देव बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे ॥ ३४ ॥ सौधमइन्द्रके साथ दिव्य रूपको धारण करनेवाला प्रतींद्र भी बड़ी
 विभूतिके साथ अपने बाहनपर चढ़ा हुआ युवराजके समान निकला ॥ ३५ ॥ आज्ञा केशवर्षके बिना जिनके गुण
 विभूति सब इन्द्रके समान हैं और इन्द्र भी जिन्हें मानता है ऐसे सामानिक देव भी इन्द्रके साथ चले ॥ ३६ ॥
 इन्द्रके पुरोहित मंत्री और आमाल्योंके समान त्रायस्त्रिंशत जातिके तेतीस देव भी इन्द्रके साथ चले ॥ ३७ ॥
 जिनपर इन्द्रकी कृपा रहती है और विभूतिसे जो सभासदोंके समान हैं ऐसे तीनों परिषदोंके देव भी इन्द्रके
 चारों ओर होकर चले ॥ ३८ ॥ जिनका आशय उन्नत है और जो शरीरक्षकके समान हैं ऐसे आत्सरत्नक
 देव भी अपने बाहन और आयुधों सहित इन्द्रके समीप जाकर खड़े हुये ॥३९॥ कोतवालके समान लोकपाल
 भी अपनी विभूतिके साथ निकले और सेनाके समान पहिले कही हुई सात प्रकारकी शुभ सेना भी निकली
 ॥ ४० ॥ नगरनिवासियोंके समान प्रकीर्णक देव भी निकले और काम करनेवाले दासोंके समान आभियोग्य
 जातिके देव भी निकले ॥ ४१ ॥ चंडालोंके समान स्वर्गके अन्तमें निवास करनेवाले अल्प पुण्यमान् और
 थोड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले किल्बिषिक जातिके देव भी स्वर्गसे निकले ॥ ४२ ॥ इसप्रकार दश प्रका-
 रके देव अपनी २ विभूतिसे सुशोभित होकर पुण्य संपादन करनेके लिये सौधम इन्द्रके साथ स्वर्गसे निकले
 ॥ ४३ ॥ इन्द्रके चलते समय उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानों दूसरे
 लोगोंको इन्द्रके अद्भुत पुण्यके फलको ही दिखला रही हों ॥ ४४ ॥ जिनके कण्ठ लाल हो रहे हैं ऐसी किन्नरी

देवियां भी मधुरस्वरसे वीणाके साथ तीर्थकर नामकर्मसे उत्पन्न हुए भगवान् जिनिन्दू देवके गुणोंको गाती हुई जा रही थी ॥ ४५ ॥ उन जन्मकल्याणोत्सवमें सब देवोंसे घिरा हुआ, समस्त आभरण और तेजसे दिशा-ओंको प्रकाशित करता हुआ ईशान स्वर्गका ऐशानिन्दू भी अपनी देवियोंको साथ लेकर बड़ी विभूतिके साथ घोड़ेपर चढ़ा हुआ केवल पुण्य संपादन करनेके लिये सौधर्म इन्द्रके साथ स्वर्गसे निकला ॥ ४६-४७ ॥ जिनके हृदय पुण्यसे भरे हुये हैं जो दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं और धर्ममें तत्पर हैं ऐसे वाकीके सनत्कुमार आदि इन्द्र भी अपनी २ विभूतिके साथ अपनी २ सवारियोंपर चढ़े हये अपनी २ इन्द्राणी और देवोंको साथ लिये हुये उस पुण्यकार्यके लिये सौधर्म इन्द्रके साथ ही स्वर्गसे निकले ॥ ४८-४९ ॥ उस समय नगा-ड़ोंके गंभीर शब्दोंसे तथा देवोंके द्वारा कहे हुये जय जय शब्दोंसे देवोंकी सेनामें बड़ा भारी कोलाहल फैल रहा था ॥ ५० ॥ कितने ही देव प्रसन्न होकर हंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे कितने ही फिरकी लो रहे थे, कितने ही शरीरको तोड़ रहे थे और कितने ही देव आगे दौड़ रहे थे ॥ ५१ ॥ इन्द्रादिक सब देव अपने २ विमान और अलग २ वाहनोंके साथ समस्त आकाशको रोककर चलने लगे ॥ ५२ ॥ उन चलते हुये वाहन और विमानोंसे आकाश व्याप्त हो गया और ऐसा मालूम होने लगा मनों पटलोकके सिवाय कोई दूसरा ही स्वर्ग बनाया गया है ॥ ५३ ॥ सूर्य चन्द्रमा असंख्यात ग्रह नक्षत्र तारे आदि सब ज्योतिषी देव अपनी २ देवागनाओंके साथ निकले ॥ ५४ ॥ वे सब ज्योतिषी देव कातिमान्, लोकपाल वज्रायन्त्रिशत देवोंसे रहित श्रीजिनिन्दूदेवके शासनकी धर्मप्रभावना करनेवाले वे सब ज्योतिषी देव अपनी विभूति और देवोंके साथ अपने वाहनोंपर चढ़े हुये तथा आकाशको प्रकाशित करते हुये पृथ्वीपर उतरे ॥ ५५-५६ ॥ इली तरह असुरकुमार नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार द्वीपकुमार, दिककुमार ये क्रीड़ाकरनेमें आशक्त दश प्रकारके भवनवासी देव अपने अपने वाहनोंपर चढ़े अपनी देवागना और इन्द्रोंके साथ अपनी अपनी विभूतिके साथ लेकर पृथ्वीपर उतरे ॥ ५७-५८ ॥ भगवान्के जन्मोत्सवमें अपने अपने वाहनोंपर चढ़े हुये अपनी विभूतिके साथ लोकपाल त्रायन्त्रिशतको छोड़कर केवल आठ आठ भागोंमें वटे

को जीतनेवाले भगवानके मुखको बार बार देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ७६ ॥ तदनंतर उन भगवानको लेकर चलती हुई वह इन्द्रानी उनके शरीरकी किरणोंके समूहसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो सूर्य सहित पूर्वदिशा ही हो ॥ ७७ ॥ उस समय दिक्कुमारी देवियां अष्टमंगल द्रव्य इन्द्रानीके सामने लिये चल रही थीं उनमेसे कोई तो उत्तम व्रज लिये हुई थी, कोई ध्वजा, कोई कलश, कोई चमर, कोई सुन्दरी सुप्रतिष्ठ कोई शृंगार कोई दर्पण और कोई ताल (पंखा) लिये हुए थी ॥ ७८-७९ ॥ जिस प्रकार पूर्वदिशा उदय होते हुए सूर्यको जिसपर मणियां दैदीप्यमान हो रही हैं ऐसे उदयाचल पर्वतकी शिखरपर विराजमान करदेती है उसीप्रकार इन्द्रानीने भी बाहर आकर उन तीर्थकारको इन्द्रके हाथमें विराजमान कर दिया ॥ ८० ॥ उस समय इन्द्र आदरपूर्वक इन्द्रानीके हाथसे लेकर भगवानके रूपको प्रेमपूर्वक आंखें फाड़ फाड़कर देखने लगा ॥ ८१ ॥ सूक्ष्म बुद्धिको धारणा करनेवाला वह इन्द्र भगवानको देखकर बहुत संतुष्ट हुआ और फिर भगवानके गुण वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगा ॥ ८२ ॥ हे देव ! आप संसारके स्वामी हैं, हे प्रभो आप जगतके गुरु हैं आप धर्म तीर्थके विधाता हैं और योगियोंकेलिष्ट भी आप महा पूज्य हैं ॥ ८३ ॥ हे प्रभो ! आप इस लोकालोकरूपी धरमें समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले निर्मल केवलज्ञानरूपी दीपके धारक होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ८७ ॥ हे प्रभो ! आप वचनरूपी किरणोंसे आज्ञानांधकारको दूर करनेवाले ज्ञानरूपी सूर्य है आप ही मोहरूपी नींदसे सोए हुए इस समस्त संसारको जगावेंगे ॥ ८४ ॥ हे देव ! अपने शरीरकी कांतिसे बाह्य अंधकारको नष्ट कर दिया है अब आगे अपने वचनरूपी किरणोंसे भठ्य जीवोंके मनके अंधकारको दूर करेंगे ॥ ८६ ॥ हे प्रभो ! जिससमय आप तीनों ज्ञानोंको धारणकर गर्भमें आए थे उसीसमय अहमिन्द्र भी आपको नमस्कार करते हैं और देवोंके साथ इद्र भी नमस्कार करते हैं ॥ ८७ ॥ हे नाथ ! मुक्तिका आप ही पर आसक्त हुई है और आपके ही लिये उत्सुक हो रही है आपमें समस्त गुण चन्द्रमाकी कलाके समान बुद्धिको प्राप्त करते रहते हैं ॥ ८८ ॥ इसलिये हे जगतगुरु ! आपको नमस्कार है, हे कर्मोंको नाश करनेवाले आपको नमस्कार है आप तब्यरूपी

हुए असंख्यात किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ये आठों प्रकारके व्यंतरदेव अपने परिवारको साथ लेकर केवल पुरुष संपादन करनेकेलिये आए ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार भगवानके जन्मोत्सवमें अपनी २ त्रिभूतिके साथ चारों निकायोंके असंख्यात समस्त धर्मात्मा देव अतुकमसे आकाशसे उतर कर बहुत ही शीघ्र अनेक ऋद्धियोंसे शोभायमान ऐसी हस्तिनापुरी नगरीमें आए ॥ ६३-६४ ॥ सेनाके देव अपने २ बाहनोंके साथ उस नगरीके आकाश वन मार्ग आदि सबको घेरकर ठहर गए तथा इन्द्रानीके साथ आए हुये अलग २ सब इन्द्रोंसे और महोत्सव मनाते हुये कितने ही देवोंसे राजाका आंगन भर गया ॥ ६५-६६ ॥ तदनंतर शची इन्द्रानीने अद्भुत प्रसवागारमें प्रवेश किया और बड़ी प्रसन्नतासे भगवानके साथ २ माताको देखा ॥ ६७ ॥ शचीने जगतगुरु भगवान की बहुत सी प्रदक्षिणाएं दी नमस्कार किया और फिर माताके सामने खड़ी होकर उसकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६८ ॥ कि हे माता ! तू आज संसार भरकी माता है. तू ही कल्याणी है तू ही सुमंगला है, तू ही महादेवी है, तू ही पुरुषवती है, और तू ही कीर्तिमती है ॥ ६९ ॥ जो तीर्थंकर तीनों लोकोंके पिता कहलाते हैं उनकी तू माता है इसलिये आज तू सबसे श्रेष्ठ है, महापुरुषोंके द्वारा पूज्य है, और देवियोंके द्वारा सेवनीय है ॥ ७० ॥ यद्यपि यह स्त्री जन्म सज्जनोंके द्वारा निवृत्त है तथापि आपके समान स्त्री जन्म पाना तीनों लोकोंमें प्रशंसनीय है । क्यों कि आपके समान स्त्री जन्म तीर्थंकरकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार पूर्वदिशा अंधकारको नाश करनेवाले सूर्यको प्रगट करती है उसीप्रकार आपने भी अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकारके अंधकारको दूर करनेवाले श्रीजिनेंद्रदेवरूपी सूर्य प्रगट किए हैं ॥ ७२ ॥ इसप्रकार छिपी हुई इन्द्रानीने माताकी स्तुतिकी फिर मायामयी नोंदमें उसे सुलासा दिया और उसके पास मायालयी पुत्र रखकर वह अपने कैलते हुये तेजसे सभस्त संसारको व्याप्त करनेवाले बाल चंद्रमाके समान भगवान तीनों लोकोंके नाथको बड़ी प्रसन्नतासे दोनों हाथों उठाकर वहांसे निकली ॥ ७३-७४ ॥ अत्यंत दुर्लभ ऐसे भगवानके शरीरका स्पर्शकर वह शची ऐसा मानने लगी मानो तीर्थंकरके उत्पन्न होनेका समस्त हेतुवर्षा उसे ही मिल गया हो ॥ ७५ ॥ हर्षसे जिसके नेत्र फट रहे हैं ऐसी वह शची अपनी कांतिसे पूर्ण चंद्रमा-

कमलोंके लिये सूर्यके समान हैं और गुणोंके सागर हैं इसलिये आपको नमस्कार है ॥ ८६ ॥ हे प्रभो आप चक्रवर्ती हैं, धर्म चक्रवर्ती हैं और कामदेव हैं इसलिए आपको नमस्कार है, हे देव ! मैं आपके चरण कमलोंको बड़े आदरके साथ मस्तकपर धारण करता हूँ । इसप्रकार इन्द्रने भगवानकी स्तुति की, उनको अपनी गोदमें बिठाया और मेरु पर्वत पर चलनेके लिये अपने हाथको ऊंचा उठाकर फिराया अर्थात् सबको चलनेका संकेत किया ॥ ६१ ॥ हे ईश ! आपकी जय हो, हे लोकके स्वामी ! आपकी जय हो, संसारमें आपकी वृद्धि हो और आप ही बढ़ते रहें, हे दयालु, हे नाथ ! आप मेरी रक्षा करें, इसप्रकार हृदयमें प्रसन्नता धारण करते हुए देव ऊंचे शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे इसलिये उस समय सब दिशाओंकी किराकर देनेवाला कोलाहल हो रहा था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर अपने शरीरकी कांति और आभरणोंकी किराणोंसे इन्द्रधनुष बनते हुए तथा जय जय शब्द करते हुए देव आकाशमें जा पहुँचे ॥ ६४ ॥ गंधर्व देवोंने संगीत करना प्रारम्भ किया और हाथियोंके दांतोंके कमलोंपर विजलीके समान मनोहर अस्सराएं रसीला नृत्य करने लगीं ॥ ६५ ॥ इधर उधर फैले हुए देवोंके रत्नजड़ित विमानोंसे भरहुआ निर्मल आकाश ऐसा अच्छा मालूम होने लगा मनो उसने अपने नेत्र ही उघाड़े हों ॥ ६६ ॥ ईशान इन्द्रने सोधर्म इन्द्रकी गोदमें विराजमान श्रीजिनेन्द्रदेवके मस्तक पर सफेद छत्र लगाया ॥ ६७ ॥ सनत्कुमार माहेंद्र ये दोनों इन्द्र भगवानपर क्षीरसागरकी लहरोंके समान चमर ढोरने लगे ॥ ६८ ॥ उस समयकी विभूतिको देखकर मिथ्याहृष्टी देव भी इन्द्रको प्रमाण मानकर श्रेष्ठ जिनमार्गमें अपनी श्रद्धा करने लगे ॥ ६९ ॥ हस्तिनापुरीसे लेकर मेरु पर्वततक इन्द्रनील मणियोंके द्वारा बनाई हुई सीढियां ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों भक्तिसे आकाश ही सीढी मय परिणत हो गया हो ॥ ३०० ॥ इन्द्रादिक सब देव शीघ्र ही ज्योतिष पटलको उल्लंघनकर मेरु पर्वतके मस्तकपर महामनोहर पांडुक वनमें जा पहुँचे ॥ १ ॥ वह मनोहर मेरु पर्वत पृथ्वीके नीचे एक हजार योजन गहरा है और निन्यानवे हजार योजन ऊंचा है ॥ २ ॥ उसकी चौड़ाई पृथ्वीके समीप दश हजार योजन है और वनोंसे सुशोभित मस्तकपर एक हजार योजन है । उस पर्वतकी सेवा अनेक देव भी

करते हैं ॥ ३ ॥ मस्तकके ऊपर चूलिका है जो मूलमें बारह योजन चौड़ी है शिखर पर चार योजन चौड़ी है मध्यमें आठ योजन चौड़ी है और नीचेसे ऊपरतक चालीस योजन ऊंची है ॥ ४ ॥ वह मेरु पर्वत चारो वन-रूपी महामनोहर वनोंसे सोलह चैत्यालयरूपी आभूषणोंसे, कूटरूपी दो हाथोंसे, पीठरूपी दो पैरोंसे, चूलिकारूपी मुकुटसे और शिलारूपी ललाटसे इंद्रके समान शोभायमान था, वह मेरु पर्वत अभिषेकके द्वारा जिनेन्द्रदेवका उपकार था और देव देवी भी उसकी सेवा करते थे ॥ ५-६ ॥ पर्वतकी ईशान दिशा-में एक बड़ी भारी पांडुकशिला है उसोपर सदा तीर्थंकरोंका अभिषेक हुआ करता है ॥ ७ ॥ वह पांडुकशि-ला सौ योजन लंबी है पचास योजन चौड़ी है और आठ योजन ऊंची है । वह शिला शारवती है और अर्द्ध चंद्रमाके आकारकी है ॥ ८ ॥ वह महा उज्वल शिला देवोंके द्वारा अनेक बार क्षीर सागरके जलसे प्रचालन की गई है इसलिये वह पवित्रताकी परम सीमातक पहुंच गई है ॥ ९ ॥ तीर्थंकरोंके अभिषेकके लिये उस शिलाके मध्य भागमें जो सिंहासन रखा है उसका मुल पूर्वकी ओर है और रत्नोंकी किरणोंसे वह व्याप्त है ॥ १० ॥ उसके अगल वगलमें दो स्थिर सिंहासन और हैं जिनपर खड़े होकर सौधर्म और ईशान इन्द्र भगवानका अभिषेक करते हैं ॥ ११ ॥ वह भगवानके विराजमान होनेका सिंहासन पांच सौ धनुष ऊंचा है नीचे पांचसौ धनुष चौड़ा है और ऊपर ढाईसौ धनुष चौड़ा है ॥ १२ ॥ इसप्रकार इन्द्रने अनेक प्रकारकी विधि, दृश्य, गीत, नाद और शुभ महोत्सवके साथ तीनों लोकोंके नाथ भगवान तीर्थंकरको उस ऊंचे सिंहासनपर विराजमान किया और बाकीके सब देवोंने बड़ी प्रसन्नतासे चारों ओरसे मेरु पर्वतको घेर लिया ॥ १३ ॥ समस्त पुरायकर्मके उदयसे जिस तीर्थंकर भगवानका गर्भमें ही सब देवोंके साथ इन्द्रोंने सेवा की थी, जन्म लेते ही मेरुपर्वतकर जिनका अभिषेक और पूजन हुआ था जो समस्त गुणोंके समुद्र हैं और कर्मोंको जोतनेवाले हैं ऐसे तीर्थंकर भगवानकी संसारमें जय हो ॥ १४ ॥ श्रीशां-तिनाथ भगवानने निम्न पुरायकर्मके उदयसे ही मनुष्य और देवगतिमें अनेक प्रकारके सुख भोगे थे और फिर इन्द्रोंने उनको मेरुपर्वतपर अभिषेक करनेके लिए स्थापन किया था यही समझकर बुद्धिमान लोगोंको

अहमिन्द्र हुआ, फिर राजा दृढ़रथ हुआ, वहाँसे सर्वार्थसिद्धिमें जाकर अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर चक्राधुथ गणधरदेव हुए और फिर जिन्होंने रामस्त संसारमें एकमात्र पूज्य होकर और समस्त कर्मोंका नाशकर तथा समस्त संसारके स्वामी होकर तीनों लोकोंमें मान्य और तीर्थकरोंके द्वारा सेवनीय ऐसी सर्वोत्तम मोक्षबधू प्राप्त की ऐसे वे भगवान चक्राधुथ गणधरदेव शीघ्र ही अपने गुण हमें प्रदान करें ॥ ६५-६६ ॥ देखो अनिन्दता रानी राजा श्रीबिण्णका हित करती थी और उनसे प्रेम करती थी उसने पहिले तो मनुष्य और देवोंके सुख भोगे और फिर श्रीबिण्णके तीर्थकर होनेपर गणधरका पद पाया और मोक्ष प्राप्त की। इसप्रकार उसने उनके साथ सब सुखोंका अनुभव किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको सम्बन्धोंके समागमसे क्या २ इष्ट पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् सब कुछ प्राप्त होते हैं ॥ १०० ॥

देखो ! भगवान शंतिनाथने पहिले भवोंमें धर्मसाधन किया था इसलिये उन्होंने मनुष्य और देवोंके बहुतसे सुखोंका अनुभव किया था, बारह जन्म तक अनेक विभूतियां प्राप्त की थीं और अन्तमें अविचल मोक्ष पद प्राप्त किया था। यही समझकर विद्वान लोगोंको स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाले धर्ममें सदा और निरन्तर परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ १ ॥ यह श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ श्रेष्ठधर्म मुक्तिका कारण है, सब सुखोंका निधि है, स्वर्ग राज्यादिकको उत्पन्न करनेके लिए महासागर है, तीर्थकरोंकी च्छद्वियोंको देनेवाला है, गणधर पदको देनेवाला है, इन्द्रकी विभूतिको उत्पन्न करनेवाला है, संसारकी समस्त लक्ष्मीको देनेमें समर्थ है, सर्वमान्य है, गुणोंके समूहोंका भवन है, और विद्वानोंके द्वारा पूज्य है इसलिये चतुर पुरुषोंको आत्मसिद्धि करनेके लिए सब प्रयत्नोंके साथ इसका सेवन करना चाहिए ॥ २ ॥ जो श्रीऋषभदेव आदि तीर्थकर तीनों कालमें और सब द्रोपोंमें उत्पन्न हुए हैं जो तीनों लोकोंमें पूज्य हैं, ज्ञानके दीपक हैं धर्मके स्वामी हैं, अनन्त अत्यंत उच्छ्रष्ट हैं, जिनवरोमें श्रेष्ठ हैं, समस्त दोषोंसे रहित हैं, तीनों लोकोंके स्वामी हैं, सबको शरण है आर धर्मके आधार हैं, ऐसे वे समस्त तीर्थकर भगवान हम तुम लोगोंको अपनी समस्त निर्मल लक्ष्मी प्रदान करें ॥३॥ जो सिद्ध भगवान प्रबुद्ध हैं प्रसिद्ध हैं, सबलोग जिनको नमस्कार करते हैं, जो

शांतिनाथ मेरे लिए शांति प्रदान करें ॥ ६० ॥ भगवान शांतिनाथ तीनों लोकोंके सज्जनोंको शांति करने-
 वाले हैं धार्मिक लोग भगवान शांतिनाथका आश्रय लेते हैं, भगवान शांतिनाथके द्वारा ही मोक्ष सुख प्राप्त
 होता है, उन भगवान शांतिनाथ का मैं शांति प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ। भगवान शांतिनाथ
 के सिवाय अन्य कोई मनुष्यों का हितकारी नहीं है, मृत्युंगना भगवान शांतिनाथकी ही हैं, मैं अपना
 हृदय भगवान शांतिनाथमें ही लगाता हूँ। हे प्रभो ! शांतिनाथ, हमें अपने गुण प्रदान कीजिये ॥ ६१ ॥
 जो पहिले श्रेषिण राजा हुए थे, फिर दानके फलसे देवकुर्ममें भोगभूमिया हुए थे, वहांसे शरीर छोड़कर पुण्यकर्म
 के उदयसे सौधर्म स्वर्गमें श्रीप्रभ नामके बड़े देव हुए थे, वहांसे चयकर सब विद्याओंके स्वामी राजा अमि-
 ततेज हुए थे, वहांसे शरीर छोड़कर ज्ञानत नागके तेरहवें स्वर्गमें अनेक ऋद्धियोंको धारण करनेवाले रवि-
 चूल नामके देव हुए थे। वहांसे चयकर श्रीमान पुण्यवान राजा अपराजित नामके बलभद्र हुये थे, फिर
 धर्मके प्रभावसे अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए थे, वहांसे चयकर वज्रायुध नामके चक्रवर्ती हुए थे, फिर चारित्र
 धारणकर सातवें प्रवेयकमें अत्यन्त सुखी अहमिन्द्र हुए थे, वहांसे चयकर अनेक राजाओंके द्वारा बंदनीय
 ऐसे राजा मेघरथ हुए थे, वहांसे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए थे और फिर वहांसे आकर भगवान
 शांतिनाथ हुए थे जा कि अत्यन्त सुन्दर थे, तीर्थकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, समस्त सज्जनोंकी इच्छाएं
 पूरी करनेवाले थे, जिन्होंने देव और मनुष्योंके उपसारहित सुखोंका अनुभवकर तथा पंच कल्याणकोसे
 प्राप्त हुए सुखका अनुभवकर मृत्किरूषी मनोहर स्त्री प्राप्त की थी ऐसे वे भगवान शांतिनाथ हमारे लिए
 अपनी अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२-६४ ॥ जो पहिले अनिन्दिता नामकी राजा श्रीपेणकी रानी
 थी, फिर भोगभूमिमें आर्या हुई, वहांसे सौधर्म स्वर्गमें विमलप्रभ नामका देव हुआ, फिर राजा श्रीविजय
 हुआ, फिर आनत स्वर्गमें मण्डिचूल देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण (अर्धचक्रवर्ती) हुआ, फिर पापक-
 र्मके उदयसे पहिले नरकमें नारकी हुआ, वहांसे आकर रोघनाद विधाधर हुआ, फिर धर्मके प्रभावसे अच्युत
 स्वर्गमें प्रतींद्र हुआ, फिर राजा सहजायुध हुआ, फिर धर्मके प्रभावसे सातवें प्रवेयकमें सुखसागरमें रहनेवाला

थे और इसप्रकार जन्म कल्याणमें चलते हुए वे वैल चलते हुए पर्वतों के समान शोभायमान होते थे ॥७१॥
 बैलों की सेनाके पीछे रथों की सेना थी पहिली रेखामें मनोहर सफेद रथ थे जो कुंद पुष्पके अथवा चंद्रमा
 के समान स्वच्छ थे और सफेद छत्र आदिसे सुशोभित थे ॥ ७२ ॥ उनके पीछे चार पहियों वाले वैडूर्यमणि
 के बने हुए रथ थे जो मन्दरके फूलोंके समान थे और उपमा रहित थे ॥ ७३ ॥ उनके
 बाद सोनेके बड़े २ छत्र, ध्वजा, चमर आदिसे सुशोभित तपाये हुए सोनेके बने हुए बड़े ऊंचे रथ चल रहे
 थे ॥ ७४ ॥ तदनन्तर गम्भीर शब्द करते हुए, दूभके पत्तेकी कांतिको जीतते हुए मरकत मणियोंके बने
 हुए बहुतेसे पहियोंके शुभ रथ चल रहे थे ॥ ७५ ॥ उनके बाद नीलमणिके समान कर्कोट मणिके बने हुये
 रथ चल रहे थे, उनके पीछे कमलके समान पद्मराग मणियोंके बने हुए अद्भुत रथ चल रहे थे ॥ ७६ ॥
 भगवानके जन्म कल्याणके लिये सातवीं रेखामें मोदकीसी गर्दनके रंगके इन्द्रनील मणियोंके बने हुए
 अद्भुत रथ चल रहे थे ॥ ७७ ॥ इसप्रकार देव देवियोंसे परिपूर्ण, मणियोंकी कांतिसे व्याप्त, दिव्य, शुभ
 महारथ सात रेखाओंमें चल रहे थे ॥७८ ॥ वे रथ ध्वजा छत्र चमर तथा पुष्पमालाओंसे सुशोभित थे और
 इन्द्रको भी महापुण्यके फलसे प्राप्त हुये थे ॥ ७९ ॥ अनेक प्रकारके वाजोंसे व्याप्त और आकाश आच्छा-
 दनकर चलते हुए वे निर्मल रथ आकाशरूपी समुद्रमें जहाजके समान शोभायमान होते थे ॥ ८० ॥ रथोंके
 बाद घोड़ोंकी सेना थी । पहिली रेखामें सुन्दर मूर्तिको धारण करनेवाले चमर आदिसे सुशोभित बीर
 सागरकी लहरोंके समान सफेद घोड़े चल रहे थे ॥८१॥ उनके पीछे उदय होते हे सूर्यके समान सुन्दर और
 ऊंचे घोड़े जा रहे थे, फिर गोरोंकेसे रंगके और उनके पीछे मरकत मणिकी कांतिवाले घोड़े जा रहे
 थे ॥ ८२ ॥ उनके बाद नील कमलके समान फिर जवा पुष्पके समान और फिर सातवीं कक्षामें इन्द्र-
 नील मणिके समान घोड़े जा रहे थे ॥ ८३ ॥ वे घोड़े अत्यन्त दिव्य रूपवान थे, मणियोंकी मालाओंसे
 तथा पुष्पमालाओंसे विभूषित थे, मनोहर थे, वे अलग २ रंगके सात रेखाओंमें चल रहे थे, उनका शरीर
 सोने की धूलिसे धूसरित हो रहा था, मृदंग-तुरही आदि महावाजोंके शब्दोंसे वे व्याप्त थे, उनपर रत्नोंके

आसन लगे हुए थे, तथा चढे हुए देवकुमार उन्हें चला रहे थे, वे शुभ थे, उत्तम थे, चंचल थे और आकाश
 रूपी समुद्रमें तरंगों के समान जान पड़ते थे ॥ ८४-८६ ॥ घोड़ों के पीछे हाथियों की सेना थी। पहिली रेखा
 में गायके दूधके समान श्वेत बड़े ऊंचे हाथी थे, दूसरी रेखामें उदय होते हुए सूर्यके समान मनोहर हाथी थे,
 तीसरी रेखामें तपाये हुए सोनेके रंगके हाथी थे, चौथी रेखामें सरसोंके फूलके समान थे, पांचवीं रेखामें
 ऊंचे दांतोंवाले नील कमलके समान हाथी थे, छठी रेखामें जैतपुष्पके समान और सातवीं रेखामें अञ्जन
 पर्वतके समान काले हाथी थे। इसप्रकार इन शुभ महा हाथियोंका समूह चल रहा था ॥ ८७-८९ ॥ इन
 हाथियोंकी प्रत्येक रेखाके बीच २ शंख मृदंग तुरही नगाड़े आदि देवोंके बाजे मीठे स्वरोसे बजते जा रहे
 थे ॥ ९० ॥ उन हाथियोंके गंडस्थलसे मद भर रहा, गरजते हुये, विभूतियोंसे सुशोभित, और रत्नोंके घंटा
 उनपर लटक रहे थे ॥ ९१ ॥ मणि और पुष्पोंकी मालाएं उनपर पड़ी हुई, अनेक प्रकारकी ध्वजाएं उनपर
 फहरा रही थीं, सफेद छत्रसे उनकी कांति बढ़ रही थी और कानरूपी चमरोंको वे ढुला रहे थे ॥ ९२ ॥
 सोनेकी संकल उनके पैरोंमें पड़ी हुई, चारों ओर लगी हुई छोटी घंटियां बज रही थीं, वे बड़े मनोहर,
 अपना देवियोंके साथ देव उनपर चढ़े हुए उनसे वह बहुतही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ९३ ॥ भगवानके
 जन्म कल्याणमें अनेक सुन्दर आभूषणोंसे सजाये हुए हाथियोंकी घटा चलती हुई ऐसी अच्छी जान पड़ती
 थी मानो चलते हुए पर्वत ही हों ॥ ९४ ॥ हाथियोंके पीछे नृत्य करनेवालोंकी सेना, उसमें बहुतसे देव भग-
 वानके जन्मोत्सवमें जन्मकल्याणकका उत्सव मनाते हुए दिव्य और उत्कृष्ट नृत्य करते जा रहे थे ॥ ९५ ॥ पहिली
 रेखामें राजाधिराज कामदेव और विद्याधर राजाओंके चरित्र दिखलाते हुए उत्तम नृत्य करते, दूसरी रेखामें
 गुणी देव समस्त अष्टमहामंडलेश्वर राजाओं के शुभ चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ ९७ ॥ तीसरी
 रेखामें वे देव आकाशमें ही बलदेव, नारायण प्रतिनारायणके पराक्रमोंके चरित्रको दिखलाते हुए नृत्य कर
 रहे थे ॥ ९८ ॥ चौथी रेखामें देव अपनी देवियोंके साथ छहों खंडोंके स्वामी चक्रवर्ती राजाओंके गुण वर्णन
 करते हुए तथा उनके चरित्र दिखलाते हुए नृत्यकर रहे थे ॥ ९९ ॥ पांचवी कचामें देव देवियां चरमशरीरी

भित होती थी ॥ ३१ ॥ वह स्वच्छ जलका प्रवाह मंदराचल पवतसे नीचे पृथीतक पड़ता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानों वह नहीं समानके कारण ही नीचे गिर रहा हो ॥ ३२ ॥ उस समय महाधूप जल रही थी, दीपोंके जलनेसे प्रकाश हो रहा था, देव वंदाजीनोंके द्वारा अभिषेकके समयके मंगल गीत गाये जा रहे थे, किन्नरी देवियां भी भगवानके अभिषेकके समयमें मनोहर गीत गा रही थी, देवियोंका समूह अनेक प्रकार का उत्तम नृत्य कर रहा था, गंधर्वदेव भी गा रहे थे, देवोंके मनोहर वाजे बज रहे थे, जय नन्द आदिके शब्द हो रहे थे और करोड़ों स्वोत पढ़े जा रहे थे, इसप्रकार इन्द्रोंने प्रसन्नतासे बड़ी विभूतिके साथ अनेक कलशोंसे भगवान तीर्थंकर देवका अभिषेक समाप्त किया ॥ ३३-३६ ॥ तदनंतर इन्द्रने भक्तिपूर्वक बंदना करनेके लिये सुगंधित गंधोदक जलके कलशोंसे भगवानका अभिषेक करना प्रारंभ किया ॥ ३७ ॥ विधिको जाननेवाले इंद्रने सुगंधि द्रव्योंसे मिले हुये दिव्य गंधोदकसे भगवान तीर्थंकरका अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ समस्त दिशाओंमें व्याप्त होनेवाली और संसार भरमें उत्सव करनेवाली वह चौर सागरकी धारा जिनवाणी के समान हम लोगोंको प्रसन्न करे ॥ ३९ ॥ जो तीर्क्ष्ण तलवारकी धाराके समान विषसमूहोंको नाश करती है ऐसी पृण्यधारके समान जलकी धारा हमलोगोंको मोक्षप्रद हो ॥ ४० ॥ जो जलधारा भगवानके शरीर का स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हो गई है वह धारा भगवानकी दिव्यध्वनिके समान हमारे अन्तःकरणको पवित्र करो ॥ ४० ॥ इसप्रकार गंधोदकसे भगवानका अभिषेक कर इंद्रोंने संसारकी शान्तिकेलिये ऊंचे शब्दोंसे शान्तिकी घोषणाकी । तदनन्तर देवोंने अपने आत्माको शान्त करनेकेलिये वह गंधोदक पहिले तो मस्तकपर लगाया फिर सब शरीरपर लगाया और फिर भेटके समान स्वर्गको ले गये ॥ ४२-४३ ॥ इसप्रकार इन्द्रोंने बड़े आनंदसे भगवानका अभिषेक किया और फिर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवानका अनेक प्रकारसे पूजन किया ॥ ४४ ॥ दिव्यगंध, मुक्ताफल, कल्प वृक्षांके पुष्प, अमृतपिंड, माणिक्य उत्तम धूप उत्तम फल और अर्घ चढ़ाकर भगवानकी पूजाकी शान्ति पौष्टिक किया और इसप्रकार भगवानका जन्माभिषेक कल्याण समाप्त किया ॥ ४५-४६ ॥ फिर इन्द्रोंने सब देव देवांगनाओंके साथ प्रसन्न होकर भगवानकी तीन

लिये वह ऐसा जान पड़ता था मानो भूषणांग जातिका कल्पवृक्ष ही हो ॥ १९ ॥ इन्द्रने कण्ठमें पड़ी हुई
 मोतियोंकी मालासे सुशोभित होनेवाले तथा सुवर्णके बने हुए कलश हजार भुजाओंसे उठा रखे थे, इस-
 लिये उस समय वह इन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानों भाजनांग जातिका कल्पवृक्ष ही हो ॥ २० ॥ तदनन्तर
 सौधर्मा इन्द्रने जय जय जय इसप्रकार तीनवार कहकर बड़ी प्रसन्नता से भगवानके मस्तकपर स्थूल मनोहर
 और निर्मल धारा छोड़ी ॥ २१ ॥ उन आनन्दित हुए करोड़ों देवोंमें जय जय शब्दका बड़ा भारी कोलाहल
 हा गया और जय आपकी वृद्धि हो इसप्रकारके शब्दोंसे सब दिशाएँ बहिरासी हो गईं ॥ २२ ॥ तदनन्तर
 कल्पवासी सब इंद्रोने संस्सार किष्ट हुए सुवर्णके कलशोंसे भगवानके ऊपर हाथीकी सूडके आकारकी स्थूल
 धारा छोड़ी ॥ २३ ॥ भगवानके मस्तकपर पड़ती हुई वह दूधके समान सफेद जलकी धारा ऐसी अच्छी
 जान पड़ती थी मानो वेगसे बहती हुई किसी दूसरी गंगा नदीका प्रवाह ही हो ॥ २४ ॥ परन्तु भगवानमें
 अनंत शक्ति थी और ब्रज वृषभ नाराच उनका संहनन था इसलिए वे अपनी महिमा से हेला व लीला-
 पूर्वक मेरु पर्वतके समान उस धाराकी प्रतीक्षा करते थे ॥ २५ ॥ वह धारा जिस पर्वतपर पड़े उसके टुकड़े २
 हो जायं परन्तु भगवान अपनी शक्तिसे उसे पुष्पोंके समान मानते थे ॥ २६ ॥ अभिषेक करते समय निर्मल
 जलकी छटायें भगवानके शरीरको स्पर्शकर दूर आकाशमें उछलती हुई ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानों
 भगवानके शरीरके स्पर्शसे वह पापोंसे छूट गईं हो और इसलिष्ट ऊपरको जा रही हों ॥ २७ ॥ भगवानके
 अभिषेककी ठंडी छटायें कुछ तिरछी भी जा रहीं थीं और ऐसी सालूम पड़ती थी मानो दिशाख्या खियोंके
 कानोमें पड़े हुए मोती हों ॥ २८ ॥ पर्वतरूपी भगवानके मस्तकपर मेघरूपी इन्द्रके द्वारा पड़ती हुई वह क्षीर
 सागरके जलकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो कोई निरर्कना ही हो ॥ २९ ॥ वह जल कलशोंके
 मुखपर रखे हुए कमलोंके साथ पड़ता था इसलिष्ट उस पर्वतके मस्तकपर वह जल उन कमलोंसे हंसीकी
 उत्तम शोभाका प्राप्त होता था ॥ ३० ॥ उस पर्वतपर कहीं शुद्ध स्फटिककी पृथ्वी थी, कहीं नीलमणियोंकी
 धी और कहीं विद्रुतमयी थी इसलिष्ट वह जलकी धारा भी उस पृथ्वीके सम्बन्धसे अनेक प्रकारकी सुशो-

ललित करनेवाला था, सूर्यके समान अत्यंत देदीप्यमान था और रूपमें कामदेवको भी ललित करनेवाला था ॥ ४२-४५ ॥ उस समय सब दिशाओंमें प्रसन्नता हो गई थी आकाश निर्मल हो गया था और स्वामीके उत्पन्न होनेसे सब प्रजाको हर्ष उत्पन्न हुआ था ॥ ४६ ॥ भगवानके जन्म लेनेसे सब कुटुम्बीलोग अपनेको धन्य और कृतकृत्य मानते थे, और बड़े भारी आनन्दके समूहसे पुण्यका भंडार भरते थे ॥ ४७ ॥ तीर्थ-कर उत्पन्न होते ही स्वर्गमें धर्मके कारण समुद्रकी गर्जनाके समान महाघंटा नाद होने लगा था ॥ ४८ ॥ देवोंके बड़े नगाड़े बिना बजाये अपने आप ही बजने लगे थे और कोमल तथा सुख देनेवाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी थी ॥ ४९ ॥ यद्यपि आकाश और पृथ्वी दोनों ही सुगंधित पुष्पोंकी सुगंधिसे व्याप्त हो रहे थे तथापि कल्पवृक्ष उस समय अनेक प्रकारसे पुष्प वृष्टि कर रहे थे ॥ ५० ॥ इन्द्रोंके आसन अकस्मात् कम्पायमान होने लगे थे मानों उन देवोंको अकस्मात् ऊंचे आसनसे नीचे गिरा रहेहो ॥ ५१ ॥ भगवानके जन्म लेनेके प्रभावसे जन्म कल्याणकी विधिको सूचित करनेवाले तथा किरणोंसे व्याप्त ऐसे उन देवोंके मुकुट शीघ्र ही नम्र होगए, नीचेकी ओर झुक गए ॥ ५२ ॥ उन आश्चर्योंको देखकर इन्द्रोंने अपने अवधिज्ञानसे भगवानका जन्म होना जाना और उसीसमय वे जन्म कल्याण करनेके लिए तैयार हुए ॥ ५३ ॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें धर्मको सूचित करनेवाला मनोहर सिंहनाद हुआ और भगवानके जन्मको सूचित करनेवाले वाकीके भी सब आश्चर्य हुए ॥ ५४ ॥ व्यंतर देवोंके आवासोंमें गंभीर भरीनाद हुआ था और आसनोंका कंपायमान होना आदि सब आश्चर्य हुए ॥ ५५ ॥ भवनवासी देवोंके भवनोंमें महान् शंख ध्वनि हुई थी और जन्म कल्याणकी विधिको सूचित करनेवाले वाकीके सब आश्चर्य हुए ॥ ५६ ॥ इस प्रकार आश्चर्योंको देखकर चारों निकायोंके इन्द्रोंने अपने अपने देवोंके साथ अपने अवधिज्ञानसे भगवानका जन्म होना जाना और अपने अपने काम करनेमें चतुर वे सब इन्द्रादिक देव बहुत ही आनन्दित होकर अपनी अपनी देवांगनाओंके सथा पुण्यके सागर ऐसे जन्म कल्याण करनेकेलिए तैयार हुए ॥ ५७-५८ ॥ तदनन्तर सौधमें स्वर्गके इन्द्रकी आज्ञासे देवोंकी सेना शब्द करती हुई समुद्रोंकी लह-

रोंके समान अनुक्रमसे स्वर्गसे निकली ॥ ५६ ॥ बैल, रथ, घोड़े, हाथी, नृत्य करनेवाले, गंधर्व और सेवक
 वर्ग इस अनुक्रमसे एकके पीछे एक इन्द्रकी सेना निकली थी ॥ ६० ॥ यह सात प्रकारकी सेना अलग २
 प्रत्येक इन्द्रकी थी और प्रत्येक सेनाके भी सात २ भेद थे अर्थात् बैलोंकी सेना सात प्रकारकी थी, घोड़ों
 की सेना भी सात प्रकारकी थी इसीप्रकार सातों सेनायें सात २ प्रकारकी थीं ॥ ६१ ॥ बैलोंकी पहिली
 सेनामें दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले चौरासी लाख बैल थे, दूसरी सेनामें इससे दूने अर्थात् एक करोड़
 अड़सठ लाख बैल थे, तीसरीमें इससे दूने तीन करोड़ छत्तीस लाख बैल थे, चौथीमें इससे दूने छह करोड़
 बहचरि लाख पांचवीमें इससे दूने तेरह करोड़ चवालीस लाख, छठीमें छब्बीस करोड़ अठासी लाख और
 सातवींमें तिरपन करोड़ छिहचरि लाख बैल थे ॥ ६२ ॥ इसप्रकार बैलोंकी सातों सेनाओंमें एक सौ छह
 करोड़ अड़सठ लाख (एक अरब छह करोड़ अड़सठ लाख) बैल थे ॥ ६३ ॥ इसीप्रकार सौधर्म स्वर्गके
 इन्द्रकी सेनामें रथ घोड़े आदि सब सेनाओंकी संख्या बैलोंकी संख्याके समान थी ॥ ६४ ॥ भगवानके
 जन्म कल्याणके महोत्सवमें सबसे आगे पहिली रेखामें शंख अथवा कुंद पुष्पके समान सफेद मनोहर बैल
 चल रहे थे ॥ ६५ ॥ उसके पीछे बैलोंकी दूसरी सेना चल रही थी उसमें मणि और सुवर्णसे शोभायमान
 जवा पुष्पके समान लाल रङ्गके बैल चल रहे थे, उनके बाद नीलकमलके समान रंगवाले बैल बड़े उत्सवके
 साथ जा रहे थे ॥ ६६ ॥ उनके बाद अत्यन्त दिव्य रूपको धारण करनेवाले मरकतमणिके रंगवाले बैलोंकी
 सेना जा रही थी, उसके बाद सुवर्णके रंगवाले बैलोंकी सेना और फिर जिनकी कांति दैदीप्यमान हो रही
 है ऐसे अंजनके समान काले बैलोंकी सेना जा रही थी ॥ ६७ ॥ उसके बाद सातवीं रेखामें आकाशको
 प्रकाशित करती हुई अशोकके फूलके समान रंगके शुभ बैलोंकी सेना चल रही थी ॥ ६८ ॥ प्रत्येक बैलों
 की सेनाके बीच २ में तुरही आदि अनेक प्रकारके देवोंके बाजे महासागरकी गर्जनाके समान बजते चले
 जा रहे थे ॥ ६९ ॥ वे सब बैल मनोहर थे, घंटा, किंकिणी, चमर, मणि और पुष्पोंकी माला आदिसे सुशो-
 भित थे और दिव्यरूपको धारण करनेवाले थे ॥ ७० ॥ उन बैलोंके सुन्दर आसनोपर देवकुमार चढ़े हुए

आनन्द सहित चूलिका और मेरु पर्वतको तथा समस्त आकाशको घेरकर बैठ गई ॥ ४ ॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करते हुए सौधर्म इन्द्रने सब इंद्रों और देवोंके साथ भगवानका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ ५ ॥ उस समय देवोंके नगाडे आकाशमें व्याप्त होकर बजने लगे और देवांगनाएं आनंदित होकर उत्तम नृत्य करने लगीं ॥ ६ ॥ उस समय कालागुरुकी सुगंधित धूपका धंआ चारों ओर फैल गया और देवोंने शान्ति पुष्टि देनेवाले बहुतसे पुण्यार्थ समर्पण किए ॥ ७ ॥ इन्द्रोंने एक दिव्य मंडप बनाया जिसमें सब देव बिना किसी बाधाके बैठ गए उस मंडपमें कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुई सुवर्ण और मोतियोंकी मालाएं लटक रही थीं जो पुण्यकी पंक्तियोंके समान जान पड़ती थीं ॥ ८ ॥ तदनन्तर सौधर्म इन्द्रने भगवान शान्तिनाथका प्रथम अभिषेक करनेके लिए सबसे पहिले प्रस्तावना विधिकी और फिर कलशोद्धार किया अर्थात् कलश हाथमें लिया ॥ १० ॥ फिर श्रीमान् ईशान इन्द्रने भी आनन्दित होकर सुवर्ण रत्नोंसे वना हुआ और चंदनसे चर्चित ऐसा कलश हाथमें लिया ॥ ११ ॥ वाकीके कल्पवासी इंद्र आनन्द सहित जय जय शब्द कहने लगे और ऊपरका काम कर उनके परिचारकबने ॥ १२ ॥ सब इन्द्रानी सब देवी और अप्सराओंके साथ हाथमें मंगल द्रव्य लेकर परिचारिकाएं बनी ॥ १३ ॥ जिन कलशोंसे जल लाया गया था वे सुवर्णके बने हुए थे, उनका मुख एक योजन चौड़ा था, आठ योजनकी उनकी गहराई थी, मणियोंकी किरणोंसे वे व्याप्त थे, और मोतियोंकी मालाएं उनपर लटक रही थीं । उन कलशोंसे देव क्षीर सागरका जल लाने लगे थे और उस समय वे देव मेरुसे लेकर क्षीर सागर तक सीढ़ीरूपसे खड़े २ जल ला रहे थे ॥ १४-१५ ॥ भगवान शान्तिनाथ स्वयंभू हैं स्वयं पवित्र हैं दूधके समान उनका सफेद निर्मल रुधिर है इसलिये क्षीरसागरके बिना और कोई जल उनके स्पर्श करने योग्य नहीं है यही समझकर अत्यनंदित हुए देव उनके अभिषेकके लिए क्षीरसागरका ही जल लाए थे ॥ १६-१७ ॥ जलसे भरे हुए उन कलशोंसे आकाश व्याप्त हो गया था और ऐसा जान पड़ता था मानों सन्ध्या समयके कुछ पीले बादलोंसे ही भर गया हो ॥ १८ ॥ भगवानका अभिषेक करनेके लिये इन्द्रने अपनी बहुतसी मुजाएं बना ली थीं और सबमें वह आभूषण पहने हुए था, इस-

अपने हृदयमें सदा धर्म धारण करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस समय भगवान् शान्तिनाथ सिंहासनपर विराजमान थे उस समय सब देव उनके लिए इसप्रकार कल्पना करते थे कि क्या यह चन्द्रमा अथवा पुराणकी राशि है ? अथवा क्या निर्मल प्रभावका पुंज है ? अथवा काम है ? क्या देवोंके द्वारा नमस्कार किया हुआ इन्द्र है ? अथवा परब्रह्म है ? क्या चक्रवर्ती है अथवा धर्मको मूर्ति है इसप्रकार कल्पना किये हुए शान्तिनाथ भगवान् हम तुम लोगोंको शान्ति दें ॥ १६ ॥ धर्मसे ही चक्रवर्तीका पद प्राप्त होता है, धर्मसे ही इन्द्रका उत्तम पद प्राप्त होता है, धर्मसे ही मनुष्य द्वारा पूज्य तीर्थंकर पद प्राप्त होता है और धर्मसे ही शाश्वत मोक्ष पद प्राप्त होता है । धर्मसे ही जीवोंको सब प्रकारकी विभूति प्राप्त होती है और धर्मसे ही मेरुपर्वतपर अभिषेक होता है यही समझकर विद्वानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये निर्मल धर्मका सेवन करना चाहिए ॥ १७-१८ ॥ भगवान् शान्तिनाथ तीनों लोकोंमें शान्ति करनेवाले हैं, मुनिराज भी शान्तिनाथका आश्रय लेते हैं, शान्तिनाथसे श्रेष्ठ धर्मकी प्रवृत्ति होती है, इस लिए मैं उन शान्तिनाथको नमस्कार करता हूँ । मनुष्योंको शान्तिनाथसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है शाश्वती मोक्षस्त्री शान्तिनाथकी ही है, हे शान्तिनाथ ! आजसे मैं आपमें ही अपना मन लगाता हूँ, हे प्रभो, इस संसारमें मुझे शान्ति दीजिए ॥ १६ ॥

इसप्रकार श्रीशान्तिनाथ पुराणमें जन्मावतरण और देवोंके बालपनका वर्णन करनेवाला तेरहवां अधिकार समाप्त ॥१३॥

अथ चौदहवां अधिकार ।

श्रीशान्तिनाथ भगवान् उनके चरित्र वर्णन करनेके लिए मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करें तथा शान्ति दें इसी लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

अथानन्तर—भगवान्का अभिवेक देखनेके लिये सब देव अनुक्रमसे सब दिशाओंमें पांडुक शिलाको घेरकर खड़े बैठ गए ॥ २ ॥ दिक्पाल देव अपने निकार्योंके साथ भगवान्का अभिवेक देखनेकी इच्छासे भगवान्के सिंहासनके चारों ओर अपनी अपनी दिशामें जा बैठे ॥ ३ ॥ उस कवचमें देवीकी

हजार नौ सौ चौरासी) वर्ष समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ तदनन्तर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वे भगवान् शान्ति-
नाथ विहार और धर्मोपदेश छोड़कर वहींपर मौन धारणकर और निश्चल होकर विराजमान हुए ॥ ६४ ॥
तदनन्तर जब उनकी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई तब उन्होंने मोक्ष जानेके लिये सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती
नामके शुक्लध्यानसे योगोंका निरोध किया ॥ ६५ ॥ फिर योगरहित उन भगवानने व्युपरतक्रियानिवृत्ति
नामके शुक्लध्यानसे दो गंध, पांच रस, पांच वर्ण, पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, छह
संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, देवगति, दो विहायोगति (प्रशस्त अप्रशस्त) परघात, अगुरुलघु, उच्छ्वास, अप-
घात, अयशस्कीति, अनादेय, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, स्थिर, अस्थिर, आठ स्पर्श, निर्माण, तीन अंगो-
पांग, अपर्याप्तक, दुर्भंग, प्रत्येक शरीर, नीच गोत्र और असातावेदनीय वे बहत्तरि प्रकृतियां सबसे पहिले
नष्ट कीं । फिर दूसरे ही समयमें उन अयोगी भगवान् शान्तिनाथने बाकीके कर्मोंको नाश करनेके लिये
उद्यम किया और आदेय, मनुष्यगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, यशस्कीर्ति, पर्याप्ति,
त्रस, वादर, सुभग, मनुष्यायु, ऊंच गोत्र, सातावेदनीय और तीर्थकर नाम कर्म ये तेरह प्रकृतियां उसी
गुणस्थानके अन्तिम समयमें नष्ट कीं ॥ ६६-६७ ॥ इसप्रकार ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशीके दिन भरणी नक्षत्रमें
रात्रिके पहिले समयमें वे कृतकृत्य भगवान् 'अ इ उ ऋ लृ इन पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण कालतक
अयोगी रहकर तथा समस्त कर्मोंको और तीनों शरीरोंको नष्टकर लोकके शिखरपर जा विराजमान हुए
॥ ७५-७६ ॥ वे भगवान् समस्त बंधनोंसे रहित होकर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे एरंडसे छूटे हुये बीजके
समान एक ही समयमें लोकशिखरपर जा विराजमान हुए ॥ ७७ ॥ जिनको समस्त संसार नमस्कार करता
है और जो समस्त पदार्थोंको एक साथ देखने जाननेवाले हैं ऐसे वे भगवान् वहांपर दिव्य गुणोंको पाकर
उपमारहित, सदा एकसा रहनेवाला, अनंत, विषयोंसे रहित, नित्य, केवल आत्मासे प्रगट होनेवाला जन्म
मरण जरा आदि दोषोंसे रहित और हानि वृद्धिसे रहित ऐसे निर्मल सुखका अनुभव करने लगे ॥७८-७९॥
देव मनुष्योंको तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें जो पूर्ण सुख है उससे अनंतगुणा सुख वे भगवान् एक

समयमें अनुभव करते थे ॥ ८० ॥ उसी समय उनकी अन्तिम पूजा करनेकी इच्छासे सब इन्द्रादिक देव आए और उन्होंने बड़ी भक्तिसे भगवानके उस मोचको सिद्ध करनेवाले परम पवित्र शरीरकी पूजा की । फिर उस शरीरको बहुमूल्य पालकीमें विराजमानकर चंदन अगुरु कर्पू सुगंधित द्रव्योंके साथ बड़े आदर से ले गये और अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे प्रगट हुई अग्निसे वह शरीर शीघ्र ही पर्यायंतरको प्राप्त कर दिया अर्थात् भस्म कर दिया । उस समय उसकी सुगंधिसे सब दिशयें सुगंधित हो गई थी ॥ ८१-८३ ॥ तदनंतर उन इन्द्रादिक देवोंने पंच कल्याणकोंको प्राप्त होनेवाले भगवान शानिनाथके शरीरकी भस्म की बड़ी भक्तिसे ललाटपर, हृदयमें, कंठमें और भूजाआंघर लगाया ॥ ८४ ॥ फिर उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की कि “हम भी ऐसे ही हों अर्थात् हमको भी यह पद प्राप्त हो “इसके बाद उन्होंने आनंद नाटक किया और फिर प्रसन्न होकर वे सब देव अपने २ स्थानको चले गये ॥ ८५ ॥ चक्रायुध गणधरको आदि लेकर नौ हजार मुनि संयस धारणकर केवलज्ञान पाकर और इन्द्रादिक देवोंके द्वारा की हुई पूजाको पाकर तीनों शरीरोंको नष्टकर समस्त कर्मों के नष्ट होनेसे सदा रहनेवाले और अनंत सुखके सागर ऐसे मोक्षमें जा विराजमान हुए थे, अर्थात् उनके समयमें नौ हजार मुनि मोक्ष गए थे ॥ ८६-८७ ॥ मोक्ष अवस्थामें जिनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो मुक्तिद्वीके साथ परम सुखका अनुभव करते हैं और जो समस्त संसाररूप बंध हैं, ऐसे श्रीशानिनाथ जिनराजको मैं उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त निर्मल भक्तिसे स्तवन करता हूँ ॥ ८८ ॥ जो निर्मल गुणोंके निधान हैं, मुक्तिनाथ हैं, विद्वानोंके द्वारा परम पूज्य हैं, उपमारहित सुखके सागर हैं, सिद्ध पर्यायको प्राप्त हुये हैं, जिन्होंने लोकके शिखरपर अपना निवास बनाया है और जिन्होंने समस्त कर्म जीत लिये हैं, ऐसे सोलहवें तीर्थंकर भगवान शानिनाथ सदा जयशील हों ॥ ८९ ॥ जिन्होंने अपने पुण्यकर्मके उदयसे समस्त इंद्रियोंको प्रसन्न करनेवाले मनुष्य भवके सुखोंका अनुभव किया फिर देव पर्यायोंके सुखोंका अनुभव किया, वहांपर बहुतसी विभूति पाई, फिर तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेवकी विभूति प्राप्त की अन्तमें जिन्होंने मोक्ष ही प्राप्त की ऐसे वे अत्यन्तसुन्दर भगवान

प्रकार वह भगवान अनचरीवाणी मनुष्यों की अनेक भाषारूप परिणत हो जाती थी ॥ ११ ॥ इस प्रकार आठों प्रातिहार्यों से शोभायमान अव्यजीवों के मध्यमें विराजमान और समस्त ऐश्वर्यमय भगवान शान्तिनाथ ऐसे अच्छे सुशोभित होते थे मानो तेजका पुंज ही हो ॥ १२ ॥

अथानन्तर—इन्द्रादिक देवों ने अत्यन्त शोभायमान कुबेरके द्वारा बनाया हुआ और समस्त संसारकी महद्वियों के एक घरके समान वह समवसरण दूरसे ही देखा । देखते ही प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने जय २ शब्द कहे, उनकी तीन प्रदक्षिणा दी और फिर वे भगवानके दर्शन करनेके लिये बड़ी प्रसन्नतासे उस समवसरणमें गये ॥ १३-१४ ॥ समवसरणमें प्रवेश करते ही (भगवानको देखते ही) उनके हृदयमें कल्पनाएं उठने लगीं कि यह पुण्य परमाणुओं का समूह है ? वा केवलज्ञानरूपी श्रेष्ठ ज्योति ही बाहर निकल आई है ? अथवा यह भगवानका प्रताप है ? वा तेजकी निधि है ? अथवा यह यशकी राशि है ? वा साक्षात् भगवान तीन लोकके नाथ हैं ? इसप्रकार कल्पना करते हुए सौधर्म इन्द्रने सब इन्द्रोंके देवों के और देवियोंके साथ गणधरोंसे घिरे हुए और चतुस्रुख विराजमान भगवान शान्तिनाथके दर्शन किये ॥ १५-१७ ॥ शक्ति और रागके वशीभूत हुए स्वर्गोंके इन्द्रोंने मोक्ष प्राप्त करनेके लिए देव देवियोंके साथ अपने हाथ छोड़कर मस्तकपर रखे, जगतगुरु भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं नवकर घोटूं तथा जानुओंको पृथ्वीसे लगाया और मुकुटसे सुशोभित अपने मस्तकको झुकाकर बड़ी भक्तिसे उन्हें प्रणाम किया ॥ १८-१९ ॥ तदनन्तर इन्द्रोंने अपने सब परिवारके साथ उठकर बड़ी भक्तिसे भगवानके चरण कमलों की महती पूजा की ॥२०॥ उन्होंने रत्नों के शृंगारकी नालसे निकले हुए जलकी सफेद धारासे समस्त दिशाओंको सुगंधित करनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ गंधसे अथवा स्वर्गके सुगंधित द्रव्यों से मोतियों के बने हुए अक्षतों से, कल्पवृक्षों पर उत्पन्न हुए अनेक रंगके फूलोंकी मालाओंसे अमृतपिंडके बने हुए नैवेद्यसे, अन्धकारको नाश करनेवाले रत्नोंके दीपकोंसे दिव्यधूपसे, मनोहर फूलोंसे और पुष्पांजलिसे भगवानकी पूजा की ॥ २१-२३ ॥ उन्होंने भगवानके सामने अपनी २ इंद्रानियों के साथ अपने हाथसे रत्नोंके चूर्णकी आश्चर्य करनेवाली विचित्र बलि बना-

किरणोंकी शोभासे शोभायमान था ॥ ६८ ॥ इन तीन कटनीवाले तीसरे पीठके ऊपर गंधकुटी शोभायमान थी जो कि सुवर्णकी जालियोंसे मोतियोंकी जालियोंसे और अन्य अनेक शोभाओंसे शोभायमान थी अत्यन्त शुभ थी मनुष्यमालाओंसे व्याप्त थी, किरणोंके समूहसे भरपूर थी, तेजके समूहसे ही क्या मानों बनी हुई था और घूपके धूपसे सब दिशाओंको सुगंधित कर रहीं थीं ६९-१०० ॥ उस गंध कुटीके ऊपर सुवर्णका बना हुआ बहुत ऊंचा दिव्य सिंहासन था जो कि रत्नोंके समूहसे जड़ा हुआ था और अपनी कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहा था ॥ १ ॥ उस सिंहासन पर जगतगुरु भगवान शान्तिनाथ भगवान कांतिसे आकासिंहासनके तलभागको बिना छूए उससे चार अंगुल ऊंचे विराजमान थे ॥ २ ॥ उस समय उनकी अनन्त महिमा थी, कांति करोड़ सूर्यसे भी अधिक थी, वे उपमा रहित थे, अत्यन्त शांत थे, सबसे बड़े थे और समस्त ऋद्धियोंके समुद्र थे ॥ ३ ॥ उस समवसरणमें आकाशसे देवोंके हाथोंके द्वारा कल्पवृक्षोंके फूलोंकी वर्षा हो रही थी ॥ ४ ॥ भगवानके पास ही अशोकवृक्ष शोभायमान था जो कि बहुत ऊंचा, मणियोंके पुष्पोंसे व्याप्त, लोगोंका शोक दूर करनेवाला, महान् और सरकत मणियोंके पत्तोंसे सुशोभित था ॥ ५ ॥ भगवानके ऊपर तीन ब्रह्म शोभायमान थे जो कि तीन चन्द्रमाओंके समान जान पड़ते थे, उनका महादंड रत्नोंका बना हुआ था और मोतियोंकी मालाएं' उनपर लटक रही थीं ॥ ६ ॥ भगवानपर यक्षोंके हाथोंके द्वारा अत्यंत श्वेत और तरङ्गोंके समान चौसठ चमर डुलाये जा रहे थे जिनसे उनकी शोभा बहुत ही अच्छी हो गई थी ॥ ७ ॥ देवोंके हाथोंसे बजते हुए देवोंके दुन्दुभी बाजे बज रहे थे जो कि नगाड़े और पणन आदिके शब्दोंसे सब दिशाओंको बहिरी बना रहे थे ॥ ८ ॥ अन्धकारको नाश करनेवाला भगवानका भ्रामंडल भी ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानों रत्न, सूर्य, चन्द्रमा, और देवोंको जीतकर तेजका समूह ही एक जगह इकट्ठा हो गया हो ॥ ९ ॥ भगवानके मुखसे मनोहर दिव्यध्वनि निकल रही थी जो कि संसारभरका हित करनेवाली थी, मोक्षमार्गको प्रकाशित करती थी अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करती थी और समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करती थी ॥ १० ॥ जिसप्रकार भेषका जल संयोग पाकर अनेक प्रकारका हो ज

देकर पुण्य उपाजन करते थे ॥ ८५ ॥ स्तूप और भवनाकी पीठकी पृथ्वीके आगे चलकर नभस्कटिक का कोट था जोकि शुद्ध स्कटिक रत्नोंका बना हुआ था ॥ ८६ ॥ पहिलेके समान इसमें भी पद्मराग म योंके बने हुये चार बड़े दरवाजे थे तथा मंगलद्रव्य और निधियां रखी हुई थीं ॥ ८७ ॥ पंजा, मंगल, चमर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठा, भृंगार और कलश ये मंगलद्रव्य प्रत्येक दरवाजे पर थे ॥ ८८ ॥ समान कोटोंके प्रत्येक दरवाजेपर हाथमें गदा आदि शस्त्र लिए हुए देव बैठे हुए थे । पहिले कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव थे ॥ ८९ ॥ उस व्यंतरदेव थे, दूसरे कोटके दरवाजोंपर भवनवासी थे और तीसरे कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव थे ॥ ९० ॥ पंजा, मंगल, चमर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठा, भृंगार और कलश ये मंगलद्रव्य प्रत्येक दरवाजे पर थे ॥ ९१ ॥ समान कोटोंके प्रत्येक दरवाजेपर भवनवासी थे और तीसरे कोटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव थे ॥ ९२ ॥ शोभायमान थी वैदूर्य मणियोंकी बनी हुई थी और बहुत ही निर्मल थीं ॥ ९३ ॥ उन दीवालोंने ऊपर आकाश पीठिकापर समान अन्तरसे सोलह जगह सीढियां थी जो कि सभके कोठोंमें प्रवेश करनेकेलिए सब महा दिशाओंमें बनी हुई थी और बहुत ही चौड़ी थीं ॥ ९४ ॥ अष्ट मंगलद्रव्य और यक्षोंके मस्तकोंपर रखे हुए तथा एक हजार आठोंके बने हुए धर्मचक्र उस पहिलीपीठिकाकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ९५ ॥ उस कोटके ऊपर दूसरा पीठ था जो सुवर्णका बना हुआ था और उसकी आठोंदिशाओंको ओर आठ प्रकारकी महा ध्वजायें फहरा रहीं थीं ॥ ९६ ॥ उन आठों प्रकारकी ध्वजाओंपर सिद्धोंके आठों गुणोंके समान अनुक्रमसे चक्र, हाथी, वृषभ, कमल, बख, सिंह, गरुड़ और मालाओंके चिन्ह शोभायमान थे ॥ ९७ ॥ उस दूसरे पीठके ऊपर तासरा पीठ था जो कि दैदीप्यमान रत्नोंकी कांति अन्धकारका नाशकर रहा था निर्मल था सब रत्नोंका बना हुआ था और बहुत ही सुन्दर था ॥ ९८ ॥ इस तीसरे पीठकी तीन कटनियां थीं यह पीठ बहुमूल्य मणियोंसे बना हुआ था, सुमेरु पर्वतके शिखरके समान ऊंचा था और निकलती हुई

पारह गुनी होती है और चौड़ाई इनके अनुसार समझ लेनी चाहिये इसीप्रकार वन भवन और पर्वतोंकी भी

उंचाई आगमकी जाननेवाले मुनिराजोंने इतनी ही (शरीरकी ऊंचाईसे बारह गुनी) बतलाई है ॥७०-७२॥

पर्वतोंकी चौड़ाई उंचाईसे आठगुनी है और स्तूपोंकी चौड़ाई उंचाईसे कुछ अधिक समझनी चाहिये

॥ ७३ ॥ वेदी आदिकी चौड़ाई उंचाईसे चौथाई है यह सब लंबाई चौड़ाई बारह अंगोंको जाननेवाले

गणधरदेवोंने बतलाई है ॥ ७४ ॥ इन वनोंमें कहीं नदियां थी कहीं बावड़ियां थीं कहीं बालूके ढेर थे और

कहीं सभाभवन बने हुए थे ॥ ७५ ॥ इन वनोंके बाढ़ वनकी वेदी थी जो कि पहिली वेदीके समान थी

सुवर्णकी बनी हुई थी और बड़ों दरवाजोंसे सुशोभित थी ॥७६॥ इस वनकी वेदीके आगे वनके चारों ओर

अनेक भवनोंकी पंक्तियां थीं जोकि देव शिल्पकारोंकी बनाई हुई थीं ॥ ७७ ॥ ये सब भवन ऊंचे थे सुवर्ण

के लंबे इनमें लगे हुए थे इनका वंधन बज्रका बना हुआ था चंद्रकांतकी दोबालें थीं और अनेक रत्नोंसे

जड़ी हुई थीं ॥ ७८ ॥ वे भवन कोई द्विमंजिले थे कोई तिमंजिले थे और कोई चार मंजिलके थे । किन्हीं

में चंद्रशालाचें बनी हुई थीं और किन्हींमें टेढ़े लंबे लगे हुए थे ॥ ७९ ॥ उनमें कहीं कूटागार कहीं पर

सभाभवन और कहींपर प्रदर्शन भवन थे । किन्हींमें शय्या और ऊंचे आसन पड़े हुए थे, और मनोहर

सोढियां लगी हुई थीं ॥ ८० ॥ उन भवनोंमें देव गंधर्व, देवांगनाचें और विद्याधर संगीत नृत्य वाद्य और

कथाओंसे भगवानकी आराधना करते थे ॥ ८१ ॥ इन्हींके वरावर मार्गोंमें नौ नौ स्तूप थे जोकि पद्मराग

मणियोंके बने हुये थे बहुत ऊंचे थे उनपर वज्र फिर रहे थे और बहुत सुन्दर बने हुये थे ॥ ८२ ॥ उन

स्तूपोंपर सिद्ध भगवान और अरहंतदेवकी प्रतिमायें विराजमान थीं वे तेजकी राशिके समान थे और मंग-

लद्वयोंसे परिपूर्णा थे उन स्तूपोंमें परस्पर एक दूसरेके साथ रत्नोंके तोरणोंकी मालाचें लगी हुई थीं जोकि

इन्द्र धनुषके समान शोभायमान थीं और आकाशरूपी आंगनको अनेक रंगका बना रही थीं ॥ ८४ ॥ वहीं

पर देव और मनुष्य भगवानकी प्रतिमाओंका अभिषेककर पूजाकर स्तुति करते थे और उनकी प्रदक्षिणा

ये मानो नन्दन आदि वनोंकी पंक्तियां ही भगवानके दर्शन करनेके लिए आईं हैं ॥ ३६ ॥ उनमेंसे एक एक अशोक वृक्षोंका वन था, दूसरा ससपण्ड वृक्षोंका था, तीसरा चंपके वृक्षोंका और चौथा आमके वृक्षोंका वन था । वे सब वन संतुष्ट होकर फूलें हुए फूलोंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ४० ॥ वे सब बढ़े मनोहर थे, ऊंचे थे, उनकी अच्छी छाया थी, सबपर फल लग रहे थे, सब ऋतुओंके फूलोंसे फूल रहे थे और उनपर बैठे हुए पुरुषकोकिल मधुर शब्द कर रहे थे ॥ ४१ ॥ उन वनोंमें कहीं तो तिकौन चौकोर बावड़ियां थीं, कहींपर छोटे तलाव थे, कहींपर भवन थे, कहींपर कृतिम पर्वत थे, कहींपर मनोहर चित्रशालाएं थीं कहीं पर तलाव थे, कहींपर नीचे बालूबाली नदियां थीं, कहींपरकोइमंडप थे, कहींपर एक मंजिल दो मंजिल के मकानोंकी पंक्तियां बनी हुई थीं और कहींपर इन्द्रगोपोंसे भरी हुई हरी घास की भूमि शोभायमान थी ॥ ४२ — ४४ ॥ अशोकवनमें अशोक नामका एक महाचैत्यवृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुई तीन कटनीकी पीठपर विराजमान था और उसपर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ ४५ ॥ इसप्रकार ससपण्डमें ससवर्णका महा चैत्यवृक्ष था, चम्पकवनमें चम्पाका महावृक्ष था और आड्रवनमें आमका महावृक्ष था, ये सब तीन कटनीदार पीठपर खड़े थे और सबपर जिनप्रतिमाएं विराजमान थीं ॥ ४६ ॥ उन्हीं वनों में एक एक दिशा में मालाएं, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, वोणा, सिंह, वृषभ, हाथी और चकोरके चिन्ह वाली ध्वजाएं थीं, ॥ ४७ - ४८ ॥ वायुसे हिलते हुए उन ध्वजाओंके वस्त्र ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो हाथ उठाकर भगवानकी पूजा करनेके लिए देव विद्याधरोंको ही बुला रहे हों ॥ ४९ ॥ मालाओंकी ध्वजाओंमें मनोहर दिव्य मालाएं लटक रही थीं और बाकीकी ध्वजाओंमें वस्त्र आदि शोभायमान हो रहे थे ॥ ५० ॥ भगवान शंतिनाथके मोहरूपी शत्रुओंके जीतनेसे प्रत्येक दिशामें सब मिलाकर एक एक हजार अस्सी अस्सी महाध्वजाएं फहरा रही थीं ५१ ॥ वे सब ध्वजाएं चारों दिशाओंकी मिलाकर चार हजार तीन सौ बीस थीं ॥ ५२ ॥ वहांसे कुछ आगे चलकर दूसरा रूपका वना कोट था जो कि बहुत बड़ा था और बहुत सुन्दर था ॥ ५३ ॥ पहिलेके समान चांदीके बने हुये इसके भी चार दरवाजे थे तथा निधियां और मंगल द्रव्य

सब पहिलेके समान रखी हुई थीं ॥ ५४ ॥ पहिलेके समान मार्गके दोनों ओर दो दो सुन्दर नाट्यशालाएं थीं और दो दो ही धूपघट रखे हुए थे ॥ ५५ ॥ मार्गोंके इपर उपर दो भागोंके बीचमें कल्पवृक्षोंके वन थे जो कि अपनी कान्तिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे और बड़े ही मनोहर थे ॥ ५६ ॥ उन वनोंमें मालांग वस्त्रांग भूषणांग ज्योतिरांग और दीपरांग आदि जातिके कल्पवृक्ष थे जोकि ऊंचे थे, छायावाले थे और फलोंसे शोभायमान थे ॥ ५७ ॥ वृक्षोंके फल आभरण थे, पत्ते वस्त्र थे और मालाएं शहवानोंपर लटक रही थीं इस प्रकार वे वृक्ष सब पदार्थमय थे ॥ ५८ ॥ उन वनोंके भीतर सिद्धार्थ वृक्ष थे जिनपर श्रीसिद्ध भगवानकी प्रतिमाएं विरामान थीं जो बड़े ही मनोहर थे ऊंचे थे और सूर्यके समान दैदीप्यमान थे ॥ ५९ ॥ इन सिद्धार्थ वृक्षोंकी संकल्पके अनुसार पदार्थोंको देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ अशोक सतपर्ण चंपक और आप्र ये चार चैत्यवृक्ष हैं ये चैत्यवृक्ष सबके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं चार चार महा दरवाजोंसे सोभायमान तीन तीन कोटोंसे घिरे हुए हैं, घंटा, चमर, भुङ्गार, कलश आदि मंगल द्रव्योंसे शोभायमान हैं, माणिक्यके पत्र वने हुए हैं इनके मस्तकपर तीन झन्झिर रहे हैं, सुवर्णकी महा शालाएं हैं, पद्ममराग मणियोंके पुष्प हैं, इनके नीचेके भागमें चारों दिशाओंमें भगवान जिनेंद्रदेवकी प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनकी इन्द्र नरेन्द्र विद्याधर सब पूजा करते हैं सब स्तुति करते और सब नमस्कार करते हैं ॥ ६१-६४ ॥ वनोंके चारों ओर वन बेटी थीं जो चार बड़े दरवाजोंसे शोभायमान थी और सुवर्ण तथा रत्नोंकी बनी हुई थीं ॥ ६५ ॥ इनके दरवाजोंपर घंटाओंके समूह लटक रहे थे और मोतियोंकी मालाएं शोभायमान हो रही थीं ॥ ६६ ॥ इन वेदियोंके दरवाजे चांदीके बने हुए थे, और अष्ट मंगलद्रव्य, संगीत, वाद्य, नृत्य, रत्नोंके आभूषण तथा तोरणांसे शोभायमान थे ॥ ६७ ॥ उन वेदियोंके आगे दो दो मार्गोंके बीचमें सुवर्णके खंभोंपर फहराती हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओंकी पंक्ति थीं शोभायमान थीं वे ध्वजाओंके स्तंभ मण्डिओंके पीठोंपर विराजमान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों भगवानके मोहरूपी शत्रुकी विजयको कहनेकी तैयारीके लिए ही अच्छी तरह खड़े हों ॥ ६८-६९ ॥ सिद्धा-

हो १०८ पदत्रयविभूषित (तीर्थकर चक्रवर्ती और कामदेव तीनों पदोंसे विभूषित) है ॥ ४१ ॥
हे नाथ ! इस स्तुतिके फलसे परलोकमें तो हमें आपकी सब विभूति प्राप्त हो और इस लोकमें बहुत शीघ्र रत्नत्रयकी प्राप्ति हो ॥ ४२ ॥ हे देव ! गणधरदेव आपके चरण कमलोंको नमस्कार करते हैं, आप ज्ञानरूपी समुद्रके पारंगत है, आप तीनों लोकोंमें पूज्य हैं, आप सर्वदर्शी हैं, जिन है, सुखरूपी समुद्रके मध्यमें विराजमान है, अनन्त वीर्यको धारण करनेवाले हैं और आप ही तीनों लोकोंको पार कर देनेके लिये एक अद्वितीयचतुर हैं इसलिये हे देव ! आप इस संसारसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ इस प्रकार इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे भगवानके सामने खड़े होकर उनकी स्तुति की । मस्तक नवाकर बार बार नमस्कार किया और फिर अपने २ योग्य स्थानमें जा विराजमान हुए ॥४४ ॥ समवशरणमें चारों दिशाओं में चार मार्ग थे, उनको छोड़कर बाकीके जो चार फौन वा टुकड़े थे उनमें प्रत्येक टुकड़े में तीन तीनके हिसाब से सब मिलाकर बारह काठे थे ॥ ४५ ॥ उनमें पूर्व दिशाके पहिले कोठेमें मुनिराज थे, दूसरेमें कल्पवासिनी देवियां थीं, तीसरेमें अर्जिका और श्राविकाएं थी, चौथेमें ज्योतिषी देवोंकी देवांगनाएं थीं, पांचवेंमें व्यंतरी देवियां थी, छठेमें भवनवासिनी देवियां थीं, सातवेंमें भवनवासी देव थे, आठवेंमें व्यन्तर देव थे, नौवेंमें ज्योतिषी देव थे, दशवेंमें कल्पवासी देव थे, ग्यारहवेंमें मनुष्य थे और बारहवेंमें पशुगण थे । इसप्रकार अनुक्रमसे ये जीव बैठे हुए थे ॥ ४६-४७ ॥ इसप्रकार बारह प्रकारका संघ सत्र अपने २ कोठेमें बैठा हुआ था, सब भगवानका भक्त था, धर्मात्मा था और श्रीजिनेन्द्र देवकी दिव्यधनिको सुननेकी इच्छा रखता था ॥ ४८ ॥ यह बारह प्रकारका संघ तत्त्वोंके सुननेकी इच्छा रखता है यही जानकर बुद्धिमान चक्रायुध गणधरदेव उठे, हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े हुए और तत्त्वोंके पूछनेके वहानेसे ही मनोहर वाणीसे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ४९-५० ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके स्वामी है, गुप्त्योंके भी महागुरु है, आप दुःखसे डरे हुए लोगोंके संरक्षक हैं और आप ही सज्जनोंके लिए धर्मोपदेशक हैं ॥ ५१ ॥ हे स्वामिन् ! ज्ञानावरण कर्मके नष्ट होनेसे लोक अलोकमें फली हुई और समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित

करनेवाली आपकी ज्ञानरूपी ज्योति आज बहुत ही अच्छी शोभायमान है ॥ ५२ ॥ हे जगत गुरु ! आपका केवल दर्शन लोक अलोक दोनों आकाशोंमें व्याप्त होकर अनंत पदार्थोंको हाथ रेखाके समान प्रकाशित करता है ॥ ५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे प्रकट हुआ तथा ब्रह्म आदिसे रहित आपका अनन्त महावीर्य समस्त लोकको उद्यमनकर विराजमान है ॥ ५४ ॥ हे नाथ ! आपका अनन्त सुख भी बड़ा ही विचित्र है, वह आत्मासे उत्पन्न हुआ है, अन्तरहित है, उपमारहित है, अव्यानाथ (सब तरह की बाधाओंसे रहित) है, अतीन्द्रिय है और अत्यन्त निर्मल है ॥ ५५ ॥ हे देव ! आपके अनुग्रहसे भव्य जीव आपका धर्मोपदेश सुनकर तपश्चरणोंके द्वारा कर्मोंको नष्टकर शाश्वत मोक्षपदमें विराजमान होते हैं ॥ ५६ ॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार जहाजके बिना समुद्रसे पार नहीं हो सकते उसीप्रकार हे यतीश ! आपके बिना इस संसाररूपी कूपसे मनुष्योंको कोई नहीं निकाल सकता ॥ ५७ ॥ हे नाथ इन भव्यरूपी खेतोंके मुंह षारूपी सूर्यकी गर्मीसे सुरक्षा गए हैं इनसे बहुतसे फल प्राप्त करनेके लिए धर्मोपदेशरूपी अमृतसे इनका सिंचन कीजिए ॥ ५८ ॥ हे देव जिसप्रकार ग्यासे दुखी चातक सेघसे जल चाहते हैं उसीप्रकार ये भव्यजीव नोन प्राप्त करनेके लिए आपसे दिव्यध्वनिरूपी अमृतको चाह रहे हैं ॥ ५९ ॥ हेस्वामिन् जवतक आपका ज्ञानरूपी सूर्य उदय नहीं होता तवतक ही मनुष्योंके हृदयमें प्रशस्त मोक्ष मार्गको रोकनेवाला अज्ञान रूपी अन्धेरा बना रहता है ॥ ६० ॥ हे विभो आप बिना ही कारण के जगतबन्धु हैं । आप लोकके एक अद्वितीय पितामह हैं और आप ही संसारमात्रको संतुष्ट करनेवाले असमयमें होनेवाले मेघ हैं ॥ ६१ ॥ हे तीर्थेश यद्यपि जगतको आश्चर्य करनेवालो विभूति आपके विराजमान है तथापि आप अपने शरीरसे भी अत्यन्त निस्पृह हैं । हे देव यह बात बड़ी ही आश्चर्य प्रकट करने वाली और लड़ी ही अद्भुत है ॥ ६२ ॥ यद्यपि आप बाहरसे उपमारहित भोगोपभोगसे सुशोभित हैं तथापि अन्तर्ग में वीतराग ही हैं यह बात सबसे अधिक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है ॥ ६३ ॥ हे देव आप ही सजनोंका अनुग्रह करनेमें चतुर हैं इसलिये जगन्नाथ मोक्ष सिद्ध करनेके लिए इन भव्यजीवों पर अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा अनुग्रह कीजिए

॥ ६६ ॥ हे प्रभो जन्म मृत्यु जरा आदिकी जलनको हूर करनेके लिए आपके वचनरूपी श्रेष्ठ अमृतको पीने के लिए हम सब सज्जनोंकी बड़ी हो इच्छा हो रही है ॥ ६५ ॥ इसलिये हे तीर्थराज आप कृपाकर समस्त तत्वोंको और मोक्षके मार्गको निरूपण कीजिए क्योंकि आप करुणा सागर हैं ॥ ६६ ॥ इसप्रकार स्तुति और प्रश्न कर तथा नमस्कारकर चक्रायुध गणधरदेव भगवानके वचनरूपी अमृतको इच्छा करते हुए भक्तिपूर्वक अपने कोठोंमें जा विराजमान हुए अधान्तर-गणधर देवके इसप्रकार प्रश्न करनेपर भगवान शांतिनाथ अपनी अत्यन्त गंभीर वाणीसे तत्वोंको सिद्ध करनेके लिए विस्तारपूर्वक धर्मका स्वरूप कहने लगे ॥ ६८ ॥ भगवान शांतिनाथकी दिव्य ध्वनि निकलते समय न तो उनके मुखकमलमें कोई किसी प्रकारका विकार हुआ था और न तालु ओठ आदिका किंचित् भी हलन चलन हुआ था ॥ ६९ ॥ जिसप्रकार किसी पर्वतकी गुफासे देदीप्यमान प्रतिध्वनि प्रगट होती है उसी प्रकार वर्षोंको स्पष्ट प्रकट करने वाली वह अद्भूत दिव्य ध्वनि भगवान के मुखसे निकलने लगी ॥ ७० ॥ हे गणधर तुम अपने संघके साथ आगे कहे हुए जीवादि तत्वोंको उनके भेद और पर्यायोंके साथ अनुक्रमसे सुना ॥ ७१ ॥ जिनागसमें जीव, अजीव, आखव,बंध; संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व बतलाये गये हैं ॥ ७२ ॥ इनमेंसे जीव दो प्रकारका है एक मुक्त और दूसरा संसारी । मुक्त जीवोंमें कोई भेद नहीं होता । संसारी जीव दो प्रकारके हैं एक त्रस और दूसरे स्थावर ॥ ७३ ॥ जो आठों कर्मोंसे रहित हैं, आठों गुणोंसे सुशोभित हैं, जगत्बंध हैं, सुखसागरमें विराजमान हैं और लोकके ऊपर निवास करते हैं वे सिद्ध वा मुक्त कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ पृथ्वी कायिक सात लाख, जलकायिक सात लाख अग्निकायिक सात लाख, वायुकायिक सात लाख, नित्यनिगोद सात लाख, इतर निगोद सात लाख, बनस्पति दश लाख, दो इन्द्रिय दो लाख, तेइन्द्रिय दो लाख, चतुइन्द्रिय दो लाख, नारकी चार लाख, तिर्यच चार लाख, देव चार लाख और मनुष्य चौदह लाख, ये चौरासी लाख जीवोंकी जातियां हैं । तथा आयु शरीर आदिके भेदसे भगवानने इनके बहुतेसे भेद बतलाये हैं ॥ इसीप्रकार सब जीवोंके कुलोंकी संख्या एकसौ साठे नित्यानवे करोड़ बतलाई है । पांच इन्द्रियां, मन, वचन, शरीर, आयु और श्वासच्छ्वास ये दश प्राण

संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके होते हैं। इसीप्रकार मनके बिना असंज्ञी पंचेन्द्रियके: नौ, मन और कर्ण इन्द्रियके बिना चौइन्द्रियके आठ, मन कर्ण और चक्षुइन्द्रियके बिना तेइन्द्रियके सात मन कर्ण चक्षु और नासिकाके बिना दो इन्द्रिय जीवोंके छह और मन कर्ण, चक्षु, नासिका, रसना वचन बलके बिना एकेंद्रियके, वाकीके चार प्राण होते हैं। ये प्राण ही जीवोंके जीवनके कारण है ॥ ७६ द० ॥ आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन ये छह पर्याप्त कहलाती हैं। मुनिराजोंने संगी [सैनी] पंचेंद्रियके ये छहों पर्याप्तियां बतलाई हैं ॥ ८१ ॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रियके मनके बिना पांच पर्याप्त बतलाई हैं और एकेंद्रिय जीवोंके भाषा और मनके बिना चार पर्याप्त श्रौजिनेन्द्रदेवने] कही हैं ॥ ८२ ॥ मिथ्यात्व, सासादन मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांप्रदाय, उपशांतकषाय, क्षीण कषाय, सयोगि केवली, अयोगि केवली, ये चौदह गुणस्थान भगवान् जिनेन्द्रदेवने बतलाये हैं ॥ ८३-८५ ॥ ये चौदह गुणस्थान मोक्षकी सीढियां हैं और गुणोंकी स्थितिके भेदसे भव्यजीवोंके गुणोंको बढ़ानेवाले हैं ॥ ८६ ॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य सम्यक्त्व, संज्ञी आहार ये चौदह मार्गणां कहलाती हैं। इनके द्वारा जीवोंके जानकार विद्वान् जीवोंको पहिचाना करते हैं ॥ ८७-८८ ॥ सेनी पंचेंद्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रियवाद्दर ये सात पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे चौदह जीव समास वा जीवोंके चौदह भेद कहलाते हैं। ये चौदह भेद जीवोंकी जातियोंसे [एकेंद्रिय आदि जातियोंसे उत्पन्न होते हैं ॥ ८३-९० ॥ जो संसारमें पहिले भी जीवित था, अब भी जीवित है और आगे भी सदा जीवित रहेगा उसको जीव कहते हैं वह नित्य है और अनित्य भी है ॥ ९१ ॥ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुश्रवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान, चक्षुज्ञान, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, ये सब समस्य संसारी जीवोंके रहनेवाले वैभाविक गुण हैं तथा केवलज्ञान, और केवलदर्शन ये दो स्वाभाविक गुण हैं ॥ ९२-॥ व्यवहारनयसे यह जीव कर्मोंका कर्ता है और अनेक प्रकारके सुख दुखरूप उनके फलोंको भोक्ता है। निश्चय नयसे न वह

कर समर्पण की ॥ २४ ॥ इसप्रकार उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा की, बार बार उन्हें नमस्कार किया और फिर अपने हृदयको भगवानके गुणोंमें लगाकर अपने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तकपर रखे ॥ २५ ॥ तदनन्तर उन इंद्रोंने भक्तिके भारसे ही क्या मानो अपना मस्तक भुकाया और एकसौ आठ साथेक नामोंसे वे भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ हे देव ! आप जगतके नाथ हैं, आप संसारसे प्रणि-
 थोकी रक्षा करनेवाले हैं और आप ही एक हजार आठ नामोंसे प्रसिद्ध हैं ॥ २७ ॥ हे स्वामिन् ! हम लोग आपके सब नामोंकी स्तुति कर सकें ऐसी शक्ति अभी हममें नहीं है क्योंकि अभी तो हमारे घातिया वम
 विद्यमान हैं [बिना उनके नाश किए वह शक्ति आ ही नहीं सकती] ॥ २८ ॥ इसलिये हे जिन ! हम लोग कुछ थोड़ेसे ही श्रेष्ठ नामोंसे आपकी स्तुति करते हैं जिससे हमारा मन और हमारे वचन दोनों ही घबित्र
 हा जाय ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! आप १ सर्वज्ञ हैं, २ सर्ववित् [सबको जाननेवाले] हैं, ३ सर्व [सबका भला करनेवाले] है ४ सर्वदर्शी [सबको देखनेवाले] हैं, ५ निरंजन [पापरहित] हैं, ६ कर्माक्ष [कर्मोंको नाश करनेवाले] है, ७ सारजित् [कामदेवको नष्ट करनेवाले] हैं, ८ स्वामी हैं, ९ केवली हैं, और
 १० विश्वदर्शन हैं ॥ ३० ॥ आप जिनन्द्र हैं १२ जितकर्मा हैं, १३ सुनीन्द्र हैं, १४ विगत्स्वह (इच्छारहित) हैं, १५ निर्मोह (मोहरहित) हैं, १६ निर्मद (भेदरहित) हैं, १७ वाग्मी (वक्ता) हैं, १८ निर्मम (ममत्त्वरहित) हैं, और १९ विजितेन्द्रिय (इन्द्रियोंको जीतनेवाले) हैं ॥ ३१ ॥ आप २० तीर्थना-
 थ हैं, २१ ऋषीकेश हैं, २२ धर्मचक्र हैं, २३ विदांबर (जानकारोंमें सर्वश्रेष्ठ) हैं, २४ धर्मकर्ता हैं, २५ सुनियोंके स्वामी हैं, २६ अनन्त हैं और २७ विश्वबंधु हैं ॥ ३२ ॥ आप २८ निर्मल हैं, २९ निष्कल (शरीर रहित) हैं ३० धीर हैं ३१ जगन्नाथ हैं ३२ जगतगुरु ३३ विश्वव्यापी (केवलज्ञानद्वारा समस्त संसारमें व्याप्त) हैं ३४ दयामूर्ति हैं ३५ घातिघाती (घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले) हैं और ३६ गुणाकर [गुणोंकी खानि] हैं ॥ ३३ ॥ आप ३७ विश्वेश [संसारके स्वामी] हैं ३८ जगदाराध्य [समस्त संसारके द्वारा आराधन करने योग्य] हैं ३९ संघार्च्य (समस्त संघके द्वारा पूज्य) हैं ४० धर्मवत्सल हैं ४१ ध्यानी हैं ४२

मौनी हैं ४३ त्रती हैं ४४ दत्त हैं ४५ संशमी (अत्यन्त शांत) हैं ४६ यमजित् [यमको जीतनेवाले] हैं
 और ४७ विजयी हैं ॥ ३४ ॥ आप निरौपम्य [उपमारहित] हैं ४६ निराबाध [सब तरहके दुखोंसे रहित]
 हैं ५० सकल [पूर्ण ज्ञानी वा सकलकेवली-शरीरसहित केवली] हैं ५१ प्रभु हैं ५२ अच्युत हैं ५३ आनन्द-
 स्वरूप हैं ५४ विश्वविद्येश [समस्त विद्याओंके स्वामी] हैं ५५ निष्प्रमाद (प्रमादरहित हैं) और ५६
 निरामय (कामादि रोगोंसे रहित) हैं ॥ ३५ ॥ आप ५७ शुद्ध हैं ५८ बुद्ध हैं ५९ वितर्क्यासा [जिनकी
 आत्ममें अनेक चित्तक किए जांय अनेक गुणवाले] हैं ६० विराग हैं ६१ जिननायक हैं ६२ जगतबंधु हैं
 ६३ जिनाधीश हैं ६४ कृती हैं ६५ धर्मी हैं और ६६ सुदिव्यवाक् [दिव्यध्वनिको धारण करनेवाले] हैं
 ॥ ३६ ॥ आप ६७ वागीश्वर [वाणीके ईश्वर] हैं ६८ जगतभर्ता हैं ६९ ॥ आराध्य [आराधन करने योग्य]
 हैं ७० संयमी हैं ७१ यमी हैं ७२ देवाधिदेव हैं ७३ महादेव हैं ७४ शंकर [कल्याण करनेवाले] हैं और
 ७५ सुखतन्मत [सुखरूप] हैं ॥ ३७ ॥ आप ७६ परमेष्ठी हैं ७७ नभोगामी [आकाशमें चलनेवाले] हैं
 ७८ कल्याण हैं ७९ अधिपति हैं ८० यति हैं ८१ देवर्षि हैं ८२ श्रीजिन हैं ८३ तुंग [सर्वोत्तम] हैं
 मुक्तिभर्ता हैं और ८५ बुधोत्तम [सर्वोत्तम विद्वान्] हैं ॥ ३८ ॥ आप ८६ यतोश [यतियोंके स्वामी] हैं
 ८७ जिनशार्दूल [जिनसिंह वा जिनराज] हैं ८८ तत्त्ववित् [तत्वोंके जानकार] हैं ८९ तत्त्वदेशक [तत्वों-
 का उपदेश देनेवाले] हैं ९० अरजा [ज्ञानावरणादि कर्मरहित] हैं ९१ जितमात्सर्य (ईर्ष्यारहित) हैं ९२
 सुतपा [श्रेष्ठ तपश्चरण करनेवाले] हैं और ९३ ऋषिनायक हैं ॥ ३ ॥ आप ९४ महातेजा [अत्यन्त तेज-
 श्च] हैं ९५ विचारज्ञ हैं ९६ विवेकी हैं ९७ ज्ञानपारग [ज्ञानके पारगामी] हैं ९८ मोहारजित् [मोहरूपी
 शत्रु को जीतनेवाले] हैं ९९ जगतज्येष्ठ (संसारमें सबसे बड़े) हैं १०० मुनीश हैं और १०१ जितदुष्कृत
 [पापोंको जीतनेवाले] हैं ॥ ४० ॥ आप १०२ विश्वज्ञ (समस्त संसारको जाननेवाले) हैं १०३ त्रिजगत
 स्वामी (तीनों लोकोंके स्वामी) हैं १०४ कामदेव हैं १०५ सुकामद (इच्छापूरी करनेवाले-इच्छानुसार
 देनेवाले) हैं १०६ त्रिकालवित् हैं १०७ विलोकेश (तीनों लोकोंके स्वामी)

कर्मोंका कर्ता है और न उनके फलोका भोक्ता है ॥ ६४ ॥ व्यवहार नयसे यह जीव मूर्त है और सदा संसारमें परित्रमण किया करता है परन्तु निश्चय नयसे यह जीव अमूर्त है और न संसारमें परित्रमण करता है । निश्चयनयसे यह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ॥ ६५ ॥ इस जीवके प्रदेशोंमें दीपकके प्रकाशके समान संकुचित होने और विस्तृत होनेकी शक्ति है इसलिए वह सातों समुद्र-घातोंके बिना सदा कर्मानुसार प्राप्त हुए छोटे बड़े शरीरके प्रमाणके ही समान रहता है ॥ ६६ ॥ विद्वान लोगोंने पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद और व्ययस्वरूप भी बतलाया है परन्तु निश्चयनयसे यह सदा असंख्यात प्रदेशी है ॥ ६७ ॥ कर्मोंके नष्ट होजानेपर यह जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेके कारण उपरको ही जाता है परन्तु कर्मसहित होनेपर पराधीन होकर चारों गतियोंमें परित्रमण करनेकेलिये सब दिशाओंमें गमन करता है ॥ ६८ ॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले जीवोंको मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए रागद्वेष आदि सब विकारोंको नष्ट कर यह जीव द्रव्य ही उपादेय ग्रहण करने योग्य होता है । अन्य संसारी जीव संसारमें परित्रमण करनेवाले जीवोंको उपादेय नहीं समझते ॥ ६९ ॥ इसलिए ज्ञानी पुरुषोंको अपने ज्ञानके द्वारा तथा तप-श्चरण और तबत्रयरूपी शास्त्रोंके द्वारा कर्मोंको नष्टकर शीघ्र ही अपने आत्माको इस शरीरसे अलग करनेना चाहिए ॥ ७० ॥ इसप्रकार जीव तत्वके व्याख्यानसे समस्त सभासदोंको आनन्द उत्पन्न करा कर वे भगवान फिर अजीव तत्वोंका व्याख्यान करने लगे ॥ ७१ ॥ बुद्धिमानोंने अह्न पूर्वोंमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल यह पांच प्रकारका अजीव तत्व बतलाया है ॥ २ ॥ जिसप्रकार मछलियोंके चलनेमें पानी सहायक होता है उसीप्रकार जो जीव और पुद्गलोंके चलनेमें सहायक होता है उसे धम द्रव्य कहते हैं यह धर्म द्रव्य नित्य है, अमूर्त है और गुणों है ॥ ३ ॥ जिसप्रकार पथिकोंको ठहरनेमें छाया सहायक होती है उसीप्रकार जो जीव पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायक है वह अधर्म द्रव्य है । वह अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है नित्य है और गुणी है ॥ ४ ॥ जो जीवादि द्रव्योंको जगह दे वह आकाश है लोक अलोकके भेदसे उसके दो भेद हैं वह अमूर्त है नित्य है और महान् वा व्यापक है ॥ ५ ॥ जीव पुद्गल धर्म अधर्म

और काल ये पांच द्रव्य जितने आकाशमें विद्यमान हैं उसको लोकाकाश कहते हैं और उससे आगे चारों ओर जो अनंत आकाश पड़ा हुआ है उसको अलोकाकाश कहते हैं ॥ ६ ॥ जो द्रव्योंको नवीनसे पुरानेरूप में परिवर्तन होनेका कारण है और जो घड़ी घंटा दिनरूप है उसका व्यवहार काल कहते हैं ॥ ७ ॥ आकाशके एक २ प्रदेशपर कालका एक २ परमाणु रत्नोंकी राशिके समान अलग २ स्थिर है उन सब असंख्यात कालानुओंको निरचयकाल कहते हैं ॥ ८ ॥ धर्म अधर्म एक जीव और लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं पुद्गलके प्रदेश अनेक प्रकार हैं संख्यात असंख्यात अनंत है परन्तु कालका एक ही परमाणु है इसलिष्ट कालको छोड़कर बाकीके द्रव्य काय कहलाते हैं । उन्हीं पांचोंको पंचास्तिकाय कहते हैं ॥ ९-१० ॥ जो स्पर्श रस गंध वर्णा सहित है और इसलिये जो मूर्त है उसको पुद्गल कहते हैं । यह पुद्गल ही सदा जीवोंको सुख दुःख देता रहता है ॥ ११ ॥ इस पुद्गलके छह भेद हैं । सूक्ष्म सूक्ष्म जैसे एक परमाणु, २ सूक्ष्म जैसे कर्मोंका समूह, ३ सूक्ष्मस्थूल जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णा, ४ स्थूल सूक्ष्म जैसे छाया, चांदनी, धूप, आदि, ५ स्थूल जैसे जल ६ स्थूल स्थूल जैसे पृथ्वी, पर्वत, आदि ॥ १२ ॥ इसप्रकार भगवान पांचों अजीव तत्वोंका अलग २ निरूपणकर फिर बुद्धिमानोंके लिए वाकीके तत्वोंका निरूपण करने लगे थे ॥ १४ ॥ आत्माके जिन भावोंसे कर्म आते हैं उनको भावास्त्व कहते हैं और कर्मोंके आनेको द्रव्यास्त्व कहते हैं ॥ १५ पांच मिथ्यात्व पांच अव्रत, पन्द्रह तामाद, पच्चीस कषाय, पंद्रह योग ये सब भावास्त्वके भेद हैं भगवान् जिनेंन्द्रदेवने ये सब त्याज्य बतलाये हैं ॥ १६-१७ ॥ सबसे पहिले शुभ धर्मध्यानसे पापकर्मोंके आस्त्व का त्याग करना चाहिये और फिर मुनियोंको शुक्लध्यानके द्वारा शुभ कर्मोंके आस्त्वका भी त्याग करना चाहिये ॥ १८ ॥ जीवोंके जिन रागादिक परिणामोंसे प्रतिसमय कर्म बन्धते रहते हैं उसे भगवानने भावबंध बतलाया है जो जीवके प्रदेश और कर्म परमाणुओंका परस्पर सम्बन्ध होता रहता है उसको द्रव्यबंध कहते हैं यह द्रव्यबन्ध शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके दुख देनेवाला बतलाया है ॥२०॥ वह बन्ध चार प्रकारका है प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध इनमेंसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध मन वचन

कायकी किरारूप योगोंसे होता है और स्थितिवन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायोंसे होता है ॥ २१ ॥ यद्यपि पाप कर्मोंकी अपेक्षा पुण्यबन्ध ग्रहण करने योग्य है क्योंकि वह सुख देनेवाला है परन्तु वह सुख वास्तविक सुख नहीं है इसलिये ज्ञानियोंको बल भी त्याग करने योग्य ही है ॥ २२ ॥ जो आत्माका परिणाम कर्मोंके आस्रवको रोकनेवाला है उसको भाव सम्बर कहते हैं और जो कर्मोंका रुक जाना नहीं आना है उसको द्रव्यसंवर कहते हैं ॥ २३ ॥ पांच महाव्रत, पांच समर्पित, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षायें, बाईस परीपहजय और पांच प्रकारका संयम वा चारित्र ये सब भावसंवरके कारण हैं ॥ २४-२५ ॥ इसलिये मन और इन्द्रियोंको कञ्चके समान अपने ग्रहमें कर मोच कर मोच करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक चारित्र पालन कर संवर धारण करना चाहिये ॥ २७ ॥ निर्जरा दो प्रकारकी है एक सविपाक और दूसरी अविपाक । सविपाक निर्जरा कर्मोंके उदयसे होती है और अविपाक निर्जरा तपश्चरणसे होती है ॥ सविपाक निर्जरा बिना ही प्रयत्नके होती है और सब जीवोंके होती है इसलिये वह त्याज्य है तथा दूसरी अविपाक निर्जरा मुनियोंके होती है मोच देनेवाली है इसलिये वह ग्रहण करने योग्य है ॥ २८ ॥ जो खत्रयके द्वारा व तपश्चरणके द्वारा प्रयत्नपूर्वक जीव पुद्गलका संबन्ध अलग हो जाता है (समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है) उसको मोच कहते हैं वह मोच अनन्त सुख देनेवाली है ॥ २९ ॥ जिसप्रकार पैरसे मस्तक तक बन्धे हुए पुरुषको छोड़ देनेसे अत्यन्त सुख होता है उसीप्रकार कर्मोंके नाश होनेसे सज्जनोंको अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंको अनन्त सुख प्राप्त करनेके लिए बड़े प्रयत्नसे कठिन तपश्चरण पालन कर बहुत शीघ्र सदा रहनेवाली मोक्ष सिद्ध कर लेनी चाहिए ॥ ३१ ॥ इसप्रकार भगवान् शांतिनाथने सभासदोंको उनका सम्यग्दर्शन विशुद्ध करनेकेलिये बहुत विस्तार और भेदोंके साथ ऊपर लिखे अनुसार सातों तत्वोंको निरूपण किया ॥ ३२ ॥ इन्हीं सातों तत्वोंमें पुण्य पाप मिलानेसे नौ पदार्थ हो जाते हैं । ये चेतन और अचेतनरूप नौ पदार्थ मनुष्योंको सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि करनेवाले हैं ॥ ३३ ॥ इसके बाद भगवान् शांतिनाथने समस्त जीवोंका उपकार करनेके लिए उस सभामें कुछ पुण्य पापके कारण बतलाए ॥ ३४ ॥ मिथ्यात्व, अब्रत,

अशुभ योग, पापोपदेश, कषाय, प्रसाद, सब प्रकारके कुटिल कर्म, राग, द्वेष, मद, उन्माद, दुःख शोक भय, अशुभ, ध्यान, व्यसन, बहुतसा आरम्भ, सब प्रकारके परिग्रह, पिशुनता (चुगलखोरी) कठोर भाषण, अशुभ चेष्टा, अशुभाचरण, परस्त्रीका संकल्प, अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करनेकी इच्छा, इत्यादि दुराचरणोंसे, तथा और भी ऐसे २ कामोंसे जीवोंके दुःखोंका एकमात्र कारण ऐसा विषम और घोर पाप उत्पन्न होता है ॥ ३५-३८ ॥ तदनन्तर तीनों लोकोंके स्वामी और विना ही कारणके बन्धु ऐसे भगवान शान्तिनाथने सभानेच पशु पक्षियोंमें उत्पन्न होना, अन्धा बहिरा होना अंग उपांगरहित होना रोगी व कुशीली (व्यभिचारी) होना नीच जाति व नीच कुलमें जन्म लेना कुरूपी व सबको बुरा लगनेवाला होना कुमरण होना दरिद्री निध कातर (दीन लाचार) नीच होना कुमाता कुपिता दुष्ट स्त्री शत्रु भाई कुपुत्र नीच कन्याएं कुमित्र दुष्ट सेवक और बुरा मकान आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग होना बुरे परिणाम होना मुंहसे दुर्वचन निकालना भाई बन्धु आदि इष्ट पदार्थोंका वियोग होना चंचलता बनी रहना और बुरा शरीर प्राप्त होना इत्यादि सब दुर्बलोंके कारण जीवोंको प्राप्त होते हैं वह सब संसारमें पापोंका ही फल समझना चाहिये ॥ ४०-४४ ॥ तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथने इसप्रकार पापका फल कहकर फिर उन्होंने पुण्यके कारणभूत उत्तम आचरणोंका वर्णन किया ॥ ४५ ॥ पहिले जो पापके कारण बतलाए हैं उनके विपरीत कार्य करना व्रतोंका पालन करना उत्तम चर्या आदि दश धर्मोंका पालन करना तपश्चरण नियम यम पालना महापात्रोंको चारप्रकारका दान देना भगवान जिनैन्द्रदेवकी पूजन करना धर्मोपदेश देना संवेग वैराग्य आदिका चिंतवन करना कायोत्सर्ग धारण करना शुभ ध्यान करना, ध्यान अध्ययन आदि कार्य करना पंच परमेष्ठियोंके नामवाले मंत्रोंका जाप करना, भगवान जिनैन्द्रदेवकी भक्ति करना, पापोंके डरसे सदाचार पालन करना, विनयपूर्वक मुनियोंकी सेवा करना और धर्मात्माओंके साथ वात्सल्य भाव धारण करना इत्यादि कार्योंसे तथा अन्य भी ऐसे ही कार्योंसे इस संसारमें प्राणियोंको तीर्थंकर चक्रवर्ती आदिकी विभूति देनेवाला और सुखकी खानि ऐसा

महापुण्य उत्पन्न होता है ॥ ४६-५० ॥ इसप्रकार हृदयको अच्छे लगनेवाले अमृतके समान मनोहर वाक्योंसे पुण्यके कारण बतलाकर और संसारको आनन्द उत्पन्न कर वे भगवान पुण्यका फल कहने लगे ॥ ५१ ॥ इन्द्र होना, चक्रवर्ती होना, तीर्थंकर हाना, वैराग्य धारण करना, कामदेव बलभद्र होना, धन धान्य आदि विभूतिका प्राप्त होना, हाथी घोड़ा आदि महासैनाकी प्राप्ति होना, अच्छे सेवक, आज्ञाकारी देव सबपर आज्ञा चलना कीर्ति फलना वड़प्पन मिलना भोगोपभोग संपदाओंकी प्राप्ति होना, शरीर नीरोग और सुन्दर मिलना रूपवान होना शुभ भावनाएं होना, ज्ञानी और दीर्घजीवी होना इन्द्रियोंके सब सुखाकी प्राप्ति होना अच्छे कुलमें जन्म लेना, उत्तम स्त्री प्रेम करनेवाले भाई पुत्र आदि मिलना उत्तम माता पिताका होना और इच्छा-नुसार सब सामग्रियोंका मिलना इत्यादि पदार्थ जो सुखके साधन दिखाई पड़ते हैं वे सब सज्जन लोगोंका पुण्यका फल समझना चाहिये ॥ ५२-५६ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? पुण्य पापके विना इस संसारमें न तो कोई सुख दे सकता है और न कोई दुख दे सकता है ॥ ५७ ॥ जो बुद्धिमान अपने हृदयमें ऊपर कहे हुए सब पदार्थोंका श्रद्धान करता है वह मोक्ष महलकी पहिली सिढ़ीके समान सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य ज्ञानस्वरूप और अत्यन्त निर्मल ऐसे अपने शुद्ध आत्माका श्रद्धान करता है उसके उत्ती भवमें मोक्ष प्राप्त करा देनेवाला निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ ५९ ॥ जो विद्वान् इन सातों तत्वोंको यथार्थ रीतिसे जानता है वह मुक्ति स्त्रीके सुखदेखनेके दर्पणके समान महाज्ञान प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ जो आत्माको जाननेवाला बुद्धिमान अपने ज्ञानके द्वारा अपने ही आत्माको जानता है उसके मुक्ति स्त्रीको वश करनेवाला निश्चय ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य जीव अजीव आदि तत्वोंको जानकर सब प्राणियोंमें दया करता है, सब परिश्रमोंका तथा सब प्रमादोंका त्याग करता है और आत्माकी सिद्धिके लिए यत्नाचारपूर्वक जिनमुद्रा धारण करता है वह मुक्तिरूपी स्त्रीके चित्तको प्रसन्न करनेवाला तेरह प्रकारका चारित्र धारण करता है ॥ ६२ ॥-६३ ॥ जो बुद्धिमान अपने आत्माके भीतर ध्यानके द्वारा अपने आत्माका ही ध्यान करता है उसके निश्चय चारित्र प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ विद्वान पुरुष प्रथम रत्नत्रयके द्वारा

तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए सुखको पाकर तीर्थंकरकी महा विभूति प्राप्त करते हैं और अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करतें ॥ ६५ ॥ मुनिराज लोग धातिया कर्मोंको नाश कर और देवोंके द्वारा पूज्य होकर उसी भवमें मुक्तिरूपी स्त्रीके भौगनेवाले हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ फिर निश्चय रत्नत्रयके आराधनसे अघातिया कर्मोंको नाश कर जन्म मरण आदिसे रहित होकर अनन्त सुखमें लीन हाजाते हैं ॥ ६७ जो बुद्धिमान पहिले मोक्ष गये हैं जा रहे हैं या जायंगे वे सब केवल निश्चय व्यवहार दानों प्रकारके रत्नत्रयके आराधनसे ही गये हैं और उन्हींके आराधनसे जायंगे और किसीकी आराधनसे कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता ॥ ६८ ॥ यही समझकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए परिश्रमोंको त्याग कर मुक्तिस्त्रीको अत्यन्त प्रिय ऐसे दोनों प्रकारके रत्नत्रयकी आराधना बड़े प्रयत्नसे करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ इसप्रकार भगवान जिनन्द्र देवने भव्य जीवोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए साध्य साधनके रूपसे दोनों प्रकारके रत्नत्रयका निरूपण किया ॥ ७० ॥ फिर भगवानने भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिए विस्तारपूर्वक सब श्रावकाचारका निरूपण किया और मुनियोंके आचारका, निरूपण बड़ी विशेषतासे किया ॥ ७१ ॥ फिर भगवानने द्रव्यपर्यायोंसे भरे हुए सब लोकाकाशका तथा अलोकाकाशका निरूपण किया और ऊर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे लोकके भेद बतलाए ॥ ७२ ॥ तदनन्तर हानि बुद्धिको सूचित करनेवाले अवसर्पिणी कालके बारह भेद बतलाए तथा सुख दुःख देनेवाली भोगभूमि और कर्म भूमिका स्वरूप बतलाया ॥ ७३ ॥ तीर्थंकर बलभद्र चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और कामदेव आदिके पुराण बतलाए और चरमशरीरियोंके बहुतेसे चरित्र कहे । इन तीर्थंकर आदिकोंके कल्याण भी बतलाए, उनके कारण और उनसे होनेवाले सुख भी बतलाए तथा उन सबकी आयु काय, नाम, आदि सब विस्तारपूर्वक बतलाया ॥ ७४-७५ ॥ जो कुछ हो चुका था, होरहाथा और होनेवाला वह द्वादशों गमें कहे जानेवाला सब भगवानने अपनी दिव्यध्वनिसे देव और मनुष्यों को बतलाया ॥ ७६ ॥ मनुष्य, देव, देवांगनाएँ, गणधर मुनि आदि सब विवेकी जन तत्वोंका स्वरूप, धर्मका स्वरूप, रत्नत्रयका स्वरूप सुन सब लोकाकाशका स्वरूपसुनकर तथा मोक्षके मार्गको जानकर मोक्ष प्राप्त होनेके समान हृदयमें बहुत ही

आनन्दित हुए ॥ ७७-७८ ॥ उस समय कितने ही निकट भव्य जीवों ने दिव्यध्वनिके द्वारा धर्मका स्वरूप जानकर और वैराग्य धारणकर दीक्षा धारण करली थी ॥ ७९ ॥ कितने ही जीव अपने अपने योग्य व्रतोंको कोई जघन्य श्रावक होगए थे कोई मध्यम श्रावक हो गए थे और कोई उच्छ्रष्ट श्रावक हो गए थे और कोई मध्यम श्रावक हो गये थे ॥ ८० ॥ कितने भव्य देवों ने तथा मनुष्यों ने भगवानके वचनानुसृतका पानकर मिथ्यास्वरूपी विषका त्याग कर दिया था और सम्यग्दर्शन धारण कर लिया था ॥ ८१ ॥ उन भगवान तार्थ कर परमदेवसे सुख देनेवाले धर्मका स्वरूप सुनकर कितनी ही स्त्रियों ने, देवियों ने और तिर्यचोनि दान देने, पूजनकरने और शील पालन करनेमें भावना लगाई थी, कितने ही जीवों ने मोक्षमें अपनी भावना लगाई थी, कितने ही जीवोंने महाव्रत धारण किए थे, कितनो ही ने अणुव्रत धारण किये थे और कितने ही ने सम्यग्दर्शन धारण किया था ॥ ८२-८३ ॥ तदनन्तर अनेक ऋद्धियोंको तथा चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले महाबुद्धिमान और मुख्य चक्रागुध गणधर देवने समस्त संसारका उपकार करनेके लिये उसी समय भगवान जिनेन्द्र देवसे अर्थ लेकर पदरूपसे विस्तार पूर्वक बारह अंगोंकी रचना की ॥ ८४-८५ ॥ जब भगवानकी दिव्यध्वनि बंद हो गई, सब शांत हो गये, वायुरहित समुद्रके समान सब निश्चल हो गये तब सूक्ष्म बृद्धिको धारण करनेवाला सौधर्म इन्द्र उठा, हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़ा हुआ और समस्त जीवोंका उपकार करनेके लिये तथा भगवानसे विहार करनेकी प्रार्थना करनेके लिये भव्य जीवोंको सम्बोधन आदिसे उत्पन्न हुए अनेक गुणोंको लेकर बड़ी सावधानीके साथ भगवानकी स्तुति करने लगा ॥ ८६-८८ ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके नाथ हैं, आप गुरुओंमें महागुरु हैं, देवोंमें महादेव हैं और पुण्यवानोंमें महा पुण्यवान हैं ॥ ८९ ॥ आप पूज्योंमें महापूज्य हैं, स्तुत्योंमें महा स्तुत्य अत्यन्त स्तुति करने योग्य हैं, बंधोंमें महाबंध हैं और धर्मात्माओंमें महान् धर्मात्मा हैं ॥ हे देव ! आप मान्योंमें महामान्य हैं, योगियोंमें महायोगी हैं, ज्ञानियोंमें महाज्ञानी हैं और शुभोंमें महाशुभ हैं ॥ ९१ ॥ आप चतुरोंमें महाचतुर हैं, व्रतियोंमें महाव्रती हैं, धन्योंमें महाधन्य हैं और मनोहरोंमें महामनोहर हैं ॥ ९२ ॥ आप मौनियोंमें

महामौनी हैं, ऋषियोंमें महाऋषी हैं, चक्रवर्तियोंमें महाचक्रवर्ती हैं और बुद्धिमानोंमें महाबुद्धिमान हैं ॥ ६३ ॥ अप शरण्योंमें (जिनको शरण ली जाय) महा शरण्य, गुणियोंमें महागुणी, धीरवीरोंमें महा-
 धीरवीर, और यतियोंमें सर्वोत्तम यति, ॥ ६४ ॥ आप ध्यानियोंमें महाध्यानी संयमियोंमें महासंयमी, दानियोंमें महादानी, और दर्शनांश्योंमें (दर्शन करने योग्योंमें) महादर्शनीय, ॥ ६५ ॥ आप बन्धुओंमें
 परम बन्धु, पिताओंमें पितामह, प्रार्थ्योंमें (जिनसे प्राथना का जाय) महा प्रार्थ्य, और हितैषियोंमें परम
 हितैषी ॥ ६६ ॥ आप ज्येष्ठोंमें महाज्येष्ठ (सबसे बड़े) उत्तमोंमें महाउत्तम, और तत्वोंमें महातत्व, ।
 हे प्रभो ! आप इच्छा रहित हैं और जानकारोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ६७ ॥ हे देव ! समुद्रकी
 लहरोंकी संख्या जानी नहीं जाती, आकाशके प्रदेशोंकी संख्या नहीं जानी जाती, बादलोंसे गिरती हुई धारा-
 ओंकी संख्या नहीं जानी जाती और नदियोंमें बालूके परमाणुओंकी संख्या नहीं जानी जा सकती, उसीप्र-
 कार हे नाथ ! आप गुणोंके समुद्र हैं आप उपमारहित गुणोंकी संख्या गणधरादिकोंके द्वारा भी नहीं जानी
 जा सकती । इसलिये हे प्रभो ! मुझ ऐसोंसे आपके अनन्त गुण किसप्रकार कहे जा सकते हैं यही समझकर
 आपकी स्तुति करनेमें भी मेरा मन कम्प रहा है ॥ ८८-३०० ॥ हे स्वामिन् ! आप तीनों लोकोंके भव्य
 जीवोंको धर्मोपदेश देनेमें समर्थ हैं । संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेमें समर्थ हैं और बादलके समान
 सबको तृप्त करनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ जिसप्रकार सब देशोंमें बादलोंकी वर्षाके विना संसारको तृप्त करने-
 वाले धान्योंको उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती उसीप्रकार हे नाथ ! आपके धर्मोपदेशरूपो अमृतकी वर्षाके
 विना भव्य जीवोंको स्वर्ग मोक्षके सुखदेनेवाले धर्मकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २-३ ॥ इसलिये हे देव
 अब आज सज्जनोंका मोह और मिथ्यात्वको नाश करनेके लिये तथा सन्मार्गका उपदेश देनेके लिये य
 समय आगया है ॥ ४ ॥ हे देव आपसे धर्मोपदेशको सुनकर क्रूर पशु भी ब्रतोंको धारण कर स्वर्ग पहुंचते
 हैं फिर भला भव्य जीवोंकी तो बात हो क्या है ॥ ५ ॥ इसलिये हे प्रभो ! अब भव्य जीवोंको धर्मोपदेश
 देनेके लिये आप महा उद्योग कीजिए । आपके तेजार होनेपर आपकी बिजयके उद्योगको सिद्ध करनेवाला

यह धर्मचक्र तैयार है ॥ ६ ॥ भगवान् शंतिनाथ जगतको धर्मोपदेश देनेके लिए स्वयं उद्यत थे तथापि सौध-
 में इन्द्रने उनकी स्तुतिकी । भक्तिपूर्वक विहार करनेके लिए भूमिका बांधी उनके गुणोंकी प्रार्थनाकी, उन्हें
 नमस्कार किया, जगतको आनन्द उत्पन्न किया और इसप्रकार वह अपनेको धन्य धन्य मानने
 लगा ॥ ७-८ ॥ तदनन्तर तीनों लोकोंके नाथ भगवान् शंतिनाथ समस्त लोगोंके साथ धर्म चक्रको आगे
 रखकर विजयका (विहार करनेक) उद्योग करने लगे ॥ ९ ॥ भगवान्के विहार करते समय करांडो देव
 साथ चल रहे थे और जय जय शब्दोंकी घोषणा कर रहे थे जिससे बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था
 ॥ १० ॥ इसप्रकार भगवान् शंतिनाथ सूयंक समान इच्छारहित वृत्तिको धारण करते हुए सब देवोंके साथ
 विहार करने लगे ॥ ११ ॥ भगवान् जिस देशमें विहार करते थे उसी देशमें सौ सौ योजन तक सुभिक्ष रहता
 था और ईति भीति सब नष्ट हो जाती थीं ॥ १२ ॥ समस्त जीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए भगवान् आकाश
 में ही विहार करते थे और धर्मरूपी अद्भुतकी महावृष्टि कर अभ्यरूपी धान्योंको सींचते ॥ १३ ॥ भगवान्की
 शांत अवस्थाके प्रभाव से हिरणी बाधिनी; सर्प नकुल आदि जातिविरोधी जीव भी एक साथ रहते थे और
 कोई किसीको नहीं मार सकता था ॥ १४ ॥ भगवान्का मोहनिय कर्म नष्ट होगया था इसलिए उनके कष्ट
 हार नहीं था, वे नोकर्म वगैरयात्रोंसेही तृप्त थे और शुद्ध आत्मासे उत्पन्न हुए अनन्त सुखसेसुखी थे ॥ १५ ॥
 उनके वेदनीय आदि कर्म भी जली हुई रस्सीके समान निरुपयोगी थे इसलिए उन भगवान्के तिर्यंच वा
 देवोंसे होनेवाला कोई किसीतरहका उपसर्ग नहीं होता था ॥ १६ ॥ देव मनुष्य पशु आदि सब जगतगुरु
 भगवान्को सब दिशाओंमें अपनी ओर हो देखते थे अर्थात् वे भगवान् चतुर्मुख विराजमान थे इसलिए
 उनके दर्शन चारों दिशाओंमें होते थे ॥ १७ ॥ वे भगवान् सर्वविद्याओंके स्वामी थे, क्योंकि समस्त तत्वोंको
 प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उनके प्रगट होगया था ॥ १८ ॥ उन जगतगुरु भगवान्के ज्ञान अतिशय प्राप्त
 होनेसे शरीरकी छाया नहीं पड़ती थी, नेत्रोंकी टिमिकार नहीं लगती थी और नख केशोंकी वृद्धि नहीं होती थी
 ॥ १९ ॥ भगवान् शंतिनाथके घातिया कर्मोंके नाशहो जानेसे ये ऊपर लिखे दश अतिशय प्राप्त हुए थे

अपने और दूसरोंका उपकार करनेवाले ये दश अतिशय तीर्थकरोंके ही होते हैं और किसीके नहीं ॥ २० ॥
 धर्मोपदेश देनेवाले उन भगवानके अर्द्धमर्गधी भाषा थी जो कि देव मनुष्य तिर्यच सबकी भाषालय परिणत होती
 थी । अर्थात् सब जीव उसको अपनी अपनी भाषामें समझ लेते थे ॥ २१ ॥ भगवानके समीप हिरण्य, बाघ, हाथी
 सिंह आदि जातिविरोधी जीवोंमें भी परस्पर मैत्रीभाव था ॥ २२ ॥ उनके समीपकी भूमिपर देवोंके बनाए हुए
 मनोहर वृक्ष थे जोकि सब ऋतुओंके फल पुष्पोंके भारसे नम्र थे ॥ २३ ॥ उस समवशरणमें दर्पणके समान
 निर्मल पृथ्वी थी जोकि बड़ी मनोहर थी रत्नमयी थी, सारभूत थी और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित थी ॥ २४ ॥
 संसारको धर्मोपदेश देनेकेलिए भगवानको विहार करते हुए जानकर सुख देनेवाली शीतल और सुगंधित
 वायु मन्द मन्द रीतिसे बहती थी ॥ २५ ॥ भगवानके निकट रहनेवाले देव विद्याधर मनुष्य पशु आदि सबको धर्म
 उत्पन्न होनेवाला परम आनन्द प्रगट होता था ॥ २६ ॥ वायुकुमार देव समवशरणसे एक एक योजन तक पृथ्वीको
 तृण कीड़े पत्थर आदिसे रहित कर देते थे ॥ २७ ॥ स्तनिकुमार देव भगवानके ऊपर इन्द्रधनुषसे सुशोभित और
 अनेक प्रकारकी विजलीके विलासोंसे सुन्दर ऐसी गंधोदककी वर्षा करते थे ॥ २८ ॥ भगवानका चरण जहांपर पड़ता
 था वहीं पर देव लोग उत्तम केसरसे सुशोभित दो सौ पच्चीस कमलोंकी रचना कर देते थे ॥ २९ ॥ भगवान
 तीर्थकरके समीप सब पृथ्वी देवोंके अतिशयसे फलोंसे नम्रीभूत हुए चांवल आदि सब धान्योंसे सुशोभित
 दिखाई पड़ती थी ॥ ३० ॥ भगवानके समवसरणमें शरद ऋतुओंके सरोवरके समान सब आकाश निर्मल
 था और २ सब दिशाये निर्मल शोभायमान थीं ॥ ३१ ॥ चारों प्रकारके देव इंद्रकी आज्ञासे भगवानकी
 यात्राके लिये बहुत शीघ्र परस्पर एक दूसरेको बुला रहे थे ॥ ३२ ॥ जिसके एक हजार आरे हैं, जो महा
 देदीप्यमान है, सूर्यको जीत रहा है, देव जिसकी रक्षा कर रहे हैं और जो रत्नोंका बना हुआ है ऐसा धर्म
 चक्र भगवानके आगे २ चलता था ॥ ३३ ॥ देव लोग भक्तिपूर्वक दर्पण आदि मनोहर अष्ट अंगल द्रव्य
 भगवानके सामने लिये खड़े थे ॥ ३४ ॥ वातिया कर्मोंको नाश करनेवाले भगवानके देवोंके द्वारा किये हुये
 और महा ऋद्धिकी धारण करनेवाले ये सब चौदह अतिशय शोभायमान थे ॥ ३५ ॥ आठों प्रातिहार्योंसे

सुशोभित वे भगवान जब आकाशमें विहार करते थे तब उनके चारों ओर करोड़ों ध्वजाएं फहराती थीं ॥ ३६ ॥ उस समय बहुतसे नगाड़ोंके शब्द हो रहे थे, जिनके शब्दोंसे सब दिशाएं भर गईं थीं जो बड़े ही प्रेम प्रगट करनेवाले थे गंधोर थे और ऐसे जान पड़ते थे मानों कर्मरूपी शत्रुओंको ललकार ही रहे हों ॥ ३७ ॥ आकाशरूपी रंगभूमिमें अप्सरायें नृत्य कर रहीं थीं गानेवाले देव और विद्याधर वीणाके साथ मधुर गीत गा रहे थे ॥ ३८ ॥ देव लोग बड़े उत्साहसे “भगवानकी जय हो, भगवानकी जय हो” आदि शब्द कह रहे थे और इन्द्रादिक भी अपने २ मुखसे जय २ शब्द कर रहे थे ॥ ३९ ॥ इसप्रकार जगतपति भगवान शान्तिनाथ समस्त संसारको ज्ञानंदित करते हुये और अपने वचनरूपी अमृतसे सबको तृप्त करते हुये सब पृथ्वीपर विहार करने लगे ॥ ४० ॥ दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले भगवान शान्तिनाथरूपी सूर्यनि अपने वचनरूपी किरणोंसे मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको नष्टकर दिया और समस्त संसारको प्रकाशित कर दिया ॥ ४१ ॥ वे भगवान मोक्षादि रूप फलोंकी प्राप्तिके लिये बड़े प्रेमसे सब देशोंमें भव्यरूपी धान्योंके ऊपर सदा धर्ममयी वृष्टि करते हुए, मोहरूपी महा नींदको दूर करते हुये और अनेक भव्योंके हृदय कमलोंको प्रफुल्लित करते हुए अनुक्रमसे सब पृथ्वीपर विहार करने लगे ॥ ४२-४३ ॥ बहुत दिनोंके प्यासे और इसीलिये धर्मरूपी जलकी इच्छा करते हुये भव्यरूपी चातकोंने भगवानरूपी वादलसे धर्मरूपी जलको बराबर पाकर खूब अच्छी तरह अपनी प्यास बुझाई थी ॥ ४४ ॥ उस समय वे भगवान तीव्र दुःखरूपी अग्निसे जले हुये समस्त संसारको धर्माश्रुतरूपी जलसे सींचते हुए और सबको ज्ञानंदित करते हुये नवीन मेधके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ४५ ॥ उन तीर्थंकर भगवानने बारह सभाओंके साथ सन्मार्गका (सोबमार्गका) उपदेश देनेके लिये अनुक्रमसे अर्वाति, कुरु, काशी, कोशल, अंग, वंग, मगध, कलिंग, सन्न, पुंड्र, विदर्भ, मंड, मालह, और पंचाल आदि अनेक देशोंमें विहार किया ॥ ४६-४७ ॥ समस्त अंगोंको जाननेवाले और अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले ऐसे चक्राशुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर भगवानके चरण कमलोंको नमस्कार करते थे ॥ ४८ ॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले और

समस्त प्राणियों के हित करनेमें तत्पर ऐसे ग्यारह अंग चौदह पूर्वरूपी महासागरके पारंगत अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पर्वके पाठी श्रुतकेवली आठ सौ थे ॥ ४६ ॥ इसीतरह ध्यान और अध्ययनमें लगे हुए शिक्षकों की संख्या इकतालीस हजार आठ सौ थी ॥ ५० ॥ पदार्थोंको प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रीतियोंसे जाननेवाले तीन हजार अवधिज्ञानी मुनि भक्तिपूर्वक भगवानके चरणकमलोंको नमस्कार करते थे ॥ ५१ ॥ जिन्हें समस्त संसार नमस्कार करता है और आत्माके भीतर होनेवाले गुणोंसे जो सब समान हैं ऐसे केवलज्ञानियोंकी संख्या चार हजार थी ॥ ५२ ॥ अनेक आकार और अनेक रूप बनानेमें समर्थ ऐसे विक्रिया च्छद्विसे सुशोभित होनेवाले मुनियोंकी संख्या छह हजार थी ॥ ५३ ॥ सूक्ष्म पदार्थोंको जाननेवाले चार हजार मनःपर्ययज्ञानी मुनि भक्तिपूर्वक भगवानकी सेवा करते थे ॥ ५४ ॥ कुवादियोंके अज्ञानांधकारको नाश कर समार्गको दिखानेवाले वादियोंकी संख्या दो हजार चार सौ थी ॥ ५५ ॥ इसप्रकार रत्नत्रयसे सुशोभित द्रव्य और भावलिंगी सब मुनियोंकी संख्या बासठि हजार थी ॥ ५६ ॥ सम्यग्दर्शन और शील आदि व्रतोंसे विभूषित ऐसी हरिविणको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ अर्जिकाएं थी ॥ ५७ ॥ सम्यग्दर्शन और व्रत आदि गुणोंसे विभूषित ऐसे सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक भगवानके चरण कमलोंकी पूजा करते थे ॥ ५८ ॥ सम्यग्दर्शन और शीलव्रत आदिसे विभूषित ऐसी अर्हद्दत्तासीको आदि लेकर चार लाख श्राविकायें भक्तिपूर्वक भगवानकी पूजा करती थी ॥ ५९ ॥ इनके सिवाय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी भावनामें तत्पर रहनेवाले असंख्यात देव देवियां भगवानके चरण कमलोंकी सदा सेवा करती थीं पूजा करती थीं स्तुति करती थीं ॥ ६० ॥ इनके सिवाय देशव्रतको धारण करनेवाले सिंह सर्व आदि संख्यात ही पशु भक्ति पूर्वक भगवानको नमस्कार करते थे, ऐसे उन भगवानको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये में भी नमस्कार करता हूं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार बारह सभाओंके साथ सद्धर्माका उपदेश देते हुये और विहार करते हुए जब भगवानकी एक महीनेकी आयु रह गई तब वे सम्मेल शिखरपर आ विराजमान हुए ॥ ६२ ॥ भगवान शान्तिनाथके केवलज्ञानका समय (सशरीर केवलज्ञानका समय) सोलह वर्ष कम पच्चीस हजार (चौबीस

लोकांशिवरपर विराजमान हैं, जो लोकोत्तर हैं, अनन्त पूर्ण सुखी हैं, जिन्होंने संसारका सब भार छोड़ दिया है, जो अध्यावाधस्वरूप (सब तरहके बाधाओं से रहित) हैं जो अरूपी हैं निर्मल अनन्त गुणों से सुशोभित हैं और ज्ञान शरीरों हैं ऐसे श्रीसिद्धभगवानको मैं अपने हृदयमें स्थापन करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ । सिद्ध भगवान हमें सिद्ध पद प्राप्त करें ॥ ४ ॥ जो आचार्य पंचाचार पालन करनेमें तत्पर हैं, और प्राणियों का अनुग्रह करनेमें चतुर हैं, जो उपाध्याय पूर्ण श्रुतज्ञानका पाठ करनेमें चतुर हैं और मुनियों के पढ़ानेमें तत्पर हैं तथा जो मुनिराज तीनों योगों का धारण करनेवाले (वश करनेवाले) हैं, अत्यन्त तपस्वी हैं और सोच खीके साधक हैं उन सब आचार्य उपाध्याय और मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ । वे सब हमें अपने अपने गुण प्रदान करें ॥ ५ ॥ जो श्रीअरहंतदेवका शासन ज्ञानमय है, भगवान सर्वाज्ञ देवके मुख कमलसे प्रगट हुआ है गुणों का घर है समस्त संसारको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान है, सबका हित करनेवाला है, अज्ञानको दूर करनेवाला है, धर्मका स्वरूप करनेवाला है, मनिराज भी जिसकी सेवा करते हैं, देव भी जिसकी पूजा करते हैं, जो सारभूत अधृतके समान है, अत्यन्त निर्मल है स्वर्गमोक्षके सुख देनेवाला है, और संसारके समस्त सज्जनोंको जो सदा शरणभूत है ऐसा वह श्रीअरहंतदेवका शासन सदा जयशील रहे ॥ ६ ॥ थोड़ीसी बुद्धिको धारण करनेवाले मुझ (सकलकीर्ति) मूनिके द्वारा बड़े कष्टसे जो यह श्रीशांतिनाथका निर्मल चारित्र कहा गया है वह बहुत दिन तक युग पर्यंत बुद्धिको प्राप्त होता रहे ॥ ७ ॥ यह श्रीशांतिनाथका चारित्र सब प्रकारके रागादि विकारों का दूर करनेवाला है, तर्कोंका कारण है, धर्मका स्थान है गुणों की खानि है और रागादिक विकारों से सर्वथा रहित है इसलिये वीतराग मुनियोंको यह सदा पढ़ना पढ़ाना चाहिए ॥ ८ ॥ गुणियोंमें चतुर जा मूनि श्रेष्ठ धर्मके बीजरूप ऐसे इस पूर्ण शास्त्रको अपने शुद्ध परिणामों से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वा पुण्यके लिये जैन समाजोंमें इसका व्याख्यान करते हैं वे सम्यग्दृष्टी मुनि रागादिक विकारों का नाश करने हैं निर्मल पुण्यराशि, सम्यग्ज्ञान गुण और विवेकको प्राप्त करते हैं और मनुष्य तथा देव गतियोंके उत्तम सुखोंका उत्तम सुख कर अनुक्रमसे भगवान शांतिनाथके सज्जनोंको मोक्षमें जा

विराजमान होते हैं ॥ ६-१० ॥ मैं अल्पज्ञानी हूँ, मन केवल मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे यह श्रीशांतिनाथके चरित्रका निर्माण किया है इसमें मेरे अज्ञान वा प्रमादसे जो स्वरसंधि छूट गई हो, कोई वर्ण रह गया हो वा मात्रा छूट गई हो उन सब मेरे दोषोंको सम्यग्ज्ञानी चतुर मुनि केवल मेरे लिएक्षमा करें ॥ ११ ॥ मैंने यह ग्रन्थ न ही अपनी कति फलानेके लिये बर्योनी है न बड़पनके मिलने अथवा अन्य किसी लाभके लिये बनाया है और न अपने कवित्व आदिके अभिमानसे ही बनाया है, किंतु यह ग्रन्थ पापोंको नाश करनेके लिये तथा अपना और दूसरोंका उपकार करनेके लिए ही बनाया है ॥ १२ ॥ बहुत थोड़े श्रुतज्ञानको जाननेवाले सकलकीर्ति मुनिने यह श्रीशांतिनाथका चरित्र बनाया है इसको समस्त आगमको जाननेवाले वीतराग मुनि शुद्ध कर लें ॥ १३ ॥ यह श्रीशांतिनाथका चरित्र समस्त सुखोंका समुद्र है, अत्यन्त मनोहर है और मोक्ष सुख देनेवाले त्याग व्रतकी जड़ है इसलिए समस्त मुनियोंके मुख कमलोंके द्वारा सब पृथ्वीपर इसकी वृद्धि हो और पापोंको नाश करनेके लिए सब बुद्धिमात्र अपनी २ पुस्तकोंमें लिखकर इसका प्रचार करें ॥ १४ ॥ श्रीशांतिनाथ भगवान् अत्यंत शांत हैं, इन्द्रादिक सब देवोंके द्वारा पूज्य हैं, समस्त संसारके ईश्वर हैं; तीर्थकर हैं, सौभाग्यकी एक निधि हैं, मुक्तिस्त्रीके पति हैं, तीर्थकर और चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे सुशोभित हैं, शांति और धर्मको देनेवाले हैं, कामदेव हैं, चक्राल और धर्मचक्र दोनोंको धारण करनेवाले हैं और सबानोंको अतिशय सेव्य हैं, ऐसे वे भगवान् शांतिनाथ इस अपने चरित्रके साथ इस पृथ्वीपर सदा जय-शील बने रहें ॥ १५ ॥ मैंने इस उत्तम ग्रन्थके द्वारा भक्तिपूर्वक श्रीशांतिनाथ भगवानकी स्तुति की है इस लिए जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो तब तक वे शांतिनाथ भगवान् कृपापूर्वक शीघ्र ही मेरे कर्मोंका नाश करें, मेरे दुखोंको दूर करें, निर्मल रत्नत्रय दें, समाधिप्रदान करें और श्रेष्ठ ध्यानकी प्राप्ति करावें ये सब बातें मोक्ष प्राप्त होने तक मुझे जन्म जन्ममें प्राप्त हों ॥ १६ ॥

इसप्रकार मूढरक्त श्रीसकलकीर्ति विरचित शांतिनाथ पुराणमें श्रीशांतिनाथका समवसरण, धर्मोपदेश और मोक्षगमनका वर्णन करनेवाला सोलहवा अधिकांश और ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	क्र.सं.
२	अश्वत्थीविके पूर्व पुत्र अतिबल महाबलका उपसर्ग करना	१३७	देवियोंका परीक्षार्थ आना	१७४	२१८
	सहसा युधका वैराग्य	१३७	प्रियमित्रोके रूपको देखने दो देवियोंका आना		२१६
	बजायुध और सहसायुधका ऊर्ध्व प्रवेयकमें उत्पन्न होना	१३६	मेघरथका विरक्त हो समोशरणमें जाना	१७६	२२०
	पुष्कलावती देशका वर्णन	१३२	तीर्थकर धनरथका उपदेश	१७९	२२०
	धनरथ तीर्थकरका वर्णन	१३४	मेघरथका सत्कार शरीर और भोगोंका स्वरूप विचारना	१७७	२२६
	बजायुधके जीवका मेघरथ और सहसा युधके जीवका दृढरथ नामक पुत्र होना	१३५	मेघरथ और दृढरथका तप तपना	१७६	२४०
	दासियोंद्वारा सुगोंका लडाना और उनके पूर्वभव और विद्याधरोके पूर्वभव	१३७-१४८	पोडश कारण भावनाओंका चित्तवन	१८३	२४१
	सुगोंका सत्यास मरण और भूत होना	१५५	मेघरथ और दृढरथका सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होना और वहाका वर्णन	१८८	२४३
	भूतो द्वारा मेघरथका सत्कार और ढाई ढीपकी यात्रा	१५५	कुरुजांगल और हस्तिनापुरका वर्णन	१८८	२४७
	धनरथका वैराग्य	१५८	राजा अजितसेन और रानी प्रियदर्शनाको विश्वसेन नामका पुत्र होना	१६५	२५३
	लौकालिक देवोंका स्तुति करना	१६०	विश्वसेनका ऐरादेवीसे विवाह	१६८	२५५
	मेघरथका राज्य	१६२	शान्ति भगवानके गर्भमें आनेसे छह मास पहिले रत्नवर्षा होना	२००	
	क्रीडा करते हुए मेघरथको एक विद्याधरका विग्रह करना	१६३	ऐरा देवीके गर्भ शोधनेके लिये श्री ही आदिका आना	२०१	२६६
	विद्याधरीका विनती करना	१६४	ऐरादेवीका सोलह स्त्रम देखना	२०३	२६८
	विद्याधरका वृत्तांत	१६५	प्रत. सध्याका वर्णन	२०४	२७१
	जिनगुण सपत्ति व्रतका वर्णन	१६५	ऐरा देवीका अपने स्वामीको स्वप्न सुना फल सुनना	२०७	२७५
	सिहरथ विद्याधरका वैराग्य	१६६	महाराज निश्वसेतका स्वप्नोका भिन्न २ फल कह तीर्थकर पुत्रका जन्म कहना	२०६	२८२
	मेघरथके पास एक कवूत्तरका गिरना और गीधका आना	१६७	गर्भ कल्याणक माननेके लिये देवोंका आना	२०६	२८२
	दृढरथका मेघरथसे प्रश्न	१६८	दिवकुमारियों द्वारा जित माताका सेवन	२०६	२८३
	दानका स्वरूप	१६६	देवियों द्वारा मातासे समस्या पूर्ति करना	२०६	२८३
	जेश्यात सुगमें मेघरथकी प्रशंसा सुन दो	१६६			२०४
					२१२

विषय सूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	१	श्रीविजयका अशनिघोषसे युद्ध	४६	अपराजिताका वैराग्य ले मुनि होना	१०६
कविकी लघुता	४	आसुरीका सुताराको श्रीविजयसे मिलाना	४७	अपराजिताका अच्युत स्वर्गमें पैदा होना	१०६
वका श्रोताका लक्षण	५	अमिततेजका जिन भगवानकी स्तुति करना और उनका धर्मोपदेश	४८	स्वर्ग नरकका वर्णन	१०६
धर्मकथाका स्वरूप	७	अमृततेजके पूर्वभव	५५	स्निग्धमितसागरके जीव धरणेंद्रका नरकमें अनन्तवीर्यको समझाना	१०७
जंबूद्वीप और भरतक्षेत्रका वर्णन	११	अशनिघोषका वैराग्य	६१	अनन्तवीर्यका मेघनाद नामक विद्याधर होना	१०८
विजयाघका कथन	१४	अमिततेजका राज्यविद्या सिद्ध करना	६६	अच्युतेन्द्रका मेघनादको समझाना	१०६
रथनपुर चक्रवाल नामकी नगरीका वर्णन	१४	अमिन्तेज और श्रीविजयका सन्यासपूर्वक मज्जा और आनतस्वर्गमें देव होना	७२	मेघनादका वैराग्य	१०८
राजा ज्वलनजटी और रानी वायुवेगाका कथन	१६	चस्तिकावत। देश और प्रभाकरी नगरीका कथन	७५	अश्वश्रीवके भाई सुकण्ठके जीविका उपसर्ग करना	१०६
चारण ऋद्धिधारी मुनियोंका ज्वलनजटीको धर्मोपदेश	१८	अमिततेज और श्रीविजयका स्तमितसागर का पुत्र होना	७६	मेघनादका अच्युत स्वर्गमें प्रतींद्र होना	१०६
पुत्रीरत्नप्रभाके विवाहकी चर्चामें मन्त्रियों का कथनपोकथन	२१	अपराजित और अनन्त वीर्यका नारायण बलभद्र होना	७६	मङ्गलावती देशका वर्णन	११०
त्रिपुष्टको पुत्री देनेके लिये दूत भेजना	२५	दमितारिको सभामें नारदका आना और बलभद्र होना	७६	क्षेमकर स्वामीका वर्णन	११२
स्वयंप्रभाका त्रिपुष्टके साथ विवाह	२६	भद्र नारायणके प्रति युद्धार्थ उसकाना युद्धमें प्रतिनारायण दमितारिका मरना	७६	अच्युत स्वर्गके इन्द्रका वज्रायुध होना	११२
अश्वश्रीवके नगरमें उपद्रवोंका होना	२८	अपराजित, अनन्तवीर्यका समोशरणमें जाना	८२	ईशान इन्द्रका वज्रायुधकी प्रशंसा करना और परीक्षार्थ विचित्रचूलका आना	११२
त्रिपुष्ट और अश्वश्रीवका युद्ध	२६	केवली भगवानका वर्णन	८२	क्षेमकरका वैराग्य	११४
त्रिपुष्टका नारायण और विजयका बलभद्र प्रगट होना	३०	कनकश्रीके पूर्वभव	८३	वज्रायुधका राज्य और दिग्विजय	११६
प्रजापतिका वैराग्य और दीक्षा लेना	३१	अनन्तसेनका वर्णन	८४	वज्रायुधको सभामें एक विद्याधर विद्याधरीका आना और उनका वृत्तात कनकशांतिका वैराग्य	१२२
अश्वश्रीवकी मृत्यु	३२	कनकश्रीका वैराग्य	८५	चित्रचूलका उपसर्ग करना और उसे सहकर कनक शांतिको केवलज्ञान होना	१२६
विजय बलभद्रना दीक्षा लेकर मुक्ति जाना	३३	सुमति पुत्रीके स्वयंवरकी तैयारी और उस का एक देवी द्वारा प्रतिबुद्धही दीक्षा लेना	८५	वज्रायुधका समवशरणमें आना	१२१
श्रीविजयके दरारमें अपरिचित पुरुषका आना और भनिय्यद्वेषाणी कहना	३५	अनन्तवीर्यका मर कर नरक जाना और वहाके दुःखोंका वर्णन	८७	केवलीका धर्मोपदेश	१२१
राजविप्लवाका शमन होना	४०			वज्रायुधका वैराग्य	१२४
सुलाराका हरण और विद्याधरका आना	४२				
स्वयंप्रभाका पुत्रीकी तलाशमें जाना	४५				

